

Nālandā Devanāgarī Pāli Series

THE
DĪGHANIKĀYA
(3 PĀTHIKA VĀGGA)

General Editor
BHIKKHU J KASHYAP



Sole Distributors -
MOTILAL BANARSIDASS
Oriental Publishers & Booksellers
Post Box 1586 DELHI-6.

PĀLĪ PUBLICATION BOARD
(BIHAR GOVERNMENT)

B E 2502

1958

V E 2015

GENERAL PREFACE

The teaching of the prophets is generally distorted by ~~the beliefs~~ of the world and the interpretations of the priests. If we wish to ascertain what the founders of great religions taught, we have to get back to the original sources.

Buddhism in all its forms goes back to the life and teaching of the Buddha. While the austerities practised by him till he attained enlightenment appeal to the Hīnayāna, the Pāli, or the Southern school, his life of service and compassion for 45 years after the attainment of enlightenment is the authority for the Mahāyāna, the Sanskrit or the Northern school.

The religious quest springs from the consciousness of the imperfection and suffering of the world. The questions which worried Tolstoy in the fiftieth year of his life disturb all thinking men. "What is life? Why should I live? Why should I do anything? Is there any meaning in life that can overcome inevitable death?" Nijinsky summed up the whole problem in his *Diary* when he wrote "The whole life of my wife and of all mankind is death." How can we be saved from the body of this death? This is the problem of religion.

The Buddha traces suffering to selfish desire. Suffering is the result of tension between a living creature's essential impulse to try to make itself into the centre of the universe and its essential dependence on the rest of creation. Craving is that which binds the individual to the creative process. The individual with selfish desire becomes the slave of the universe. We can overcome suffering only if we get rid of *trsnā* or *tanhā*. To attempt to get rid of suffering through the various devices of self-deception is not to cease to suffer but to suffer in a different way.

The Buddha formulates the eight-fold path of morality which helps us to eliminate selfish desire and overcome suffering. When the Upanisads declare, "That thou art", *tat tvam asi*, it is not a mere statement of fact. It is a call to action. Make thyself that which thou know thou canst be. Whereas the Hindu mind believes in a permanent element in the individual which can stand firm and unshaken in the midst of change, the Buddhist stresses the dynamic character of the self. No change is possible with an unchanging consciousness. We can achieve the possibilities in us by the exertion of the will rather

than by the play of the intellect Religion is not a creed, but a vital process It is no use railing against God or destiny when we are ourselves the authors of our disgrace If few are chosen, it is because few choose to be chosen The Buddha laid stress on the creative freedom of man The Buddha did not encourage dependence on the supernatural He could not conceive of a being capable of creating a world for the express purpose of its creatures praising him The ten veramanis or prohibitions or abstinences called *daśaśīla* or *daśaśīksapada* which the novices in the path of Buddhism utter are given in these words "I take upon myself the abstinence, (1) from destroying life, (2) from taking what is not given, (3) from leading an unchaste life, (4) from speaking untruth, (5) from giving myself to intoxicating drugs, (6) from eating at irregular hours, (7) from seeing musical and dancing performances and other shows and pageants, (8) from wearing garlands, perfumes, unguents and other bodily decorations, (9) from using high couches and seats, (10) from accepting gifts of gold and silver" The first five are the Buddhist *pañcaśīla*

Pānātipātā veramanī sikkhāpadam samādiyāmi
 Adinnādānā veramanī sikkhāpadam samādiyāmi
 Kāmesu micchācārā veramanī sikkhāpadam samādiyāmi
 Musāvādā veramanī sikkhāpadam samādiyāmi
 Surā merayāmajja pamādatthānā
 veramanī sikkhāpadam samādiyāmi

Conflicts in the world are conflicts in the human soul enlarged If men were at peace within themselves, the outer conflicts between nations would inevitably cease By practising the Buddha's *pañcaśīla* we will develop patience, courage, love and unselfishness The Buddha teaches us that even in an age of anxiety and violence, it is possible to gain and maintain inner harmony, which is not at the mercy of outward circumstance

Nirvānam paramam sukham Nirvāna is the highest bliss It is not a negative state of annihilation but a positive state of joy, consciousness grown from an unhappy to a beatific one The Buddha does not tell us that man is but a bubble on the turbulent surface of nature and that he has no destiny save to undergo dissolution The Hindu affirms that man can realise his identity with Brahman, the ground of all being, the Buddhist says that man can live in a transfigured world where *samsāra* and *nirvana* are one In *Maha saccaka Sutta*, the Buddha himself is reported to have described the supreme triumph of reaching the goal of his quest as follows

“When this knowledge, this insight had arisen within me, my heart was set free from intoxication of lusts, set free from the intoxication of becoming, set free from the intoxication of ignorance. In me, thus emancipated, there arose the certainty of that emancipation. And I came to know “Rebirth is at an end. The higher life has been fulfilled. What had to be done has been accomplished. After this present life there is no further for this or that. This last insight did I attain to in the last watch of the night. Ignorance was beaten down, insight arose, darkness was destroyed, the light came, inasmuch as I was there strenuous, earnest, master of myself.” Thus ended the struggle of six long years.

The Buddha is said to be a physician. Even as the physician strives to restore to health a sick man, the Buddha tries to restore us to our normal condition. If our leaders become normal, we may be able to replace the present social order in which division, falsehood and violence prevail by a new one in which humanity, truth and brotherhood will reign.

On the occasion of the 2,500th anniversary of the Buddha’s parinirvāna, the Government of India decided to publish standard versions in Devanāgarī script of the complete Pāli and the Sanskrit texts of the two schools, Southern and Northern, in the hope that some of the readers of these books may be impelled to love the good, to practise altruism and hold their spirit aloof from the desires and ambitions of the world.

S Radhakrishnan

INTRODUCTION

1 The Pāli Tīpīṭaka

After the passing away of the Buddha at Kusinārā, the disciples had assembled to pay their last homage to him. The Venerable Mahā Kassapa, the chief of the congregation, was delivering words of consolation to the bereaved assembly, reminding them of the declaration of the Buddha —“It is the very nature of all things near and dear to us that we must divide ourselves from them ” Subhadra, a monk who had received ordination in an advanced age, however, did not look gloomy. He took a perverted view of the situation and spoke --“Do not grieve, brothers, for now we are definitely released from the restraint of the Great Teacher and his too rigid discipline. While the Teacher lived, we were constantly rebuked for failing to observe the hard rules, but, now we are at liberty to do as we please, therefore, do not grieve ” These words sounded a note of warning against the future possible distortion of the Dhamma at the hands of faithless members of a similar category. The Venerable Mahā Kassapa felt an urgent need for convening a Grand Council of the leading Elders of the Sangha to make a full collection of the teachings, and also to adopt means for their right preservation and transmission to posterity. He addressed the Bhikkhus thus —“Come, friends, let us chant together the Dhamma and the Vinaya ” The Venerable Mahā Kassapa drew a list of five hundred names of the topmost disciples to be appointed as members of the Council. At first, the name of the Venerable Ānanda was left out in view of the fact that he had not attained Arhathood till then. But, as no one else in the Sangha had the privilege of listening to the Teacher so very closely and for such a long period of time, his participation was deemed necessary and important. He was, consequently, asked to go to a suitable abode and develop insight, so as to become an Arhat and be able in time to join the Council. King Ajātasattu made necessary arrangements for the accommodation and convenience of the convention at Rājagaha, a favourite resort of the Teacher himself. A spacious beautiful pavilion was raised for the meeting at the entrance of the Sattapanni cave, on the northern side of the Vebhāra Hill.

Venerable Ānanda made the best efforts to train himself in developing insight. He kept walking up and down for the whole night absorbed in deep meditation, and, early in the morning, as he was going to stretch himself on the bed, his feet had left the ground and the head had not reached the pillow, at that moment, as if by a flash of light, darkness was dispelled and the sublime light of sainthood dawned upon him. And, through his miraculous super-human power of an Arhat, he appeared all of a sudden on his appointed seat in the hall, as if emerging out of the ground, exactly as the proceedings were going to be started.

With the permission of the Sangha, Venerable Mahā Kassapa asked Upāhi questions on Vinaya, relating to the different monastic transgressions, the matter, the occasion, the individuals concerned, the principal rules (paññatti), the amended rules (anupaññatti) and all other details about them. In this, the Vinaya text was agreed upon and settled. Then, again, with the permission of the Sangha, he asked Ānanda questions on the Dhamma, the occasion of a sermon and the person or persons with reference to whom it was preached.¹

The commentary, Atthakathā, of a much later date, assumes that the Abhidhamma Piṭaka was also included in the collection of the Dhamma, and that the Tipiṭaka, as it is available to us, was finalised at this very stage.²

A century after the passing away of the Buddha, a great controversy arose in the Sangha concerning the interpretation of some Vinaya rules. This necessitated the holding of the Second Council at Vesālī. Seven hundred leading Elders from distant parts of the country assembled to take part in it, and they had drawn up a new edition of the Scripture, resulting in the fixing up of the Piṭakas, Nikāyas, Angas and Dhammakkhandhas.³

A century after, when King Asoka embraced Buddhism and gave patronage to its propagation, the richly furnished monasteries became centres of attraction even for the members of other sects. They donned the yellow robe, either by proper ordination or stealthily, and went about as Bhikkhus enjoying the privileges and honour given to them. They could not, however, leave their own inclinations behind, and began to twist and distort the Doctrine in their own ways. This led to a state of confusion, and it became difficult to distinguish the true principles from the coloured ones. The Elders

1 *Cullavagga*, Chapter XI 2 *Sumangalavilasini*, *Nidanakatha*
3 *Cullavagga*, Chapter XI

felt the necessity of safeguarding the purity of the Dhamma by affecting a total purge of the alien elements in the philosophical life of the Sangha. This task was entrusted to the Venerable Moggaliputta Tissa, a saint, a thinker and a writer. He compiled a book called the Kathāvatthu, refuting all the foreign theories, which was adopted as a book of the Tipitaka at the Third Council held at Pāṭaliputta under his presidentship. After the council, Asoka despatched missionaries to the then civilised parts of the world for a wide propagation of the Dhamma¹

Prince Mahinda and Princess Sanghamittā renounced the world and joined the Order to lead a mission to Sihaḍadīpa (Ceylon). Since then, the island became a stronghold of Buddhism, and, even up to this day, has maintained the tradition of Pāli Tipitaka with all religious zeal²

Up till then, the Tipitaka was traditionally handed down orally from teachers to pupils. The complete Scripture was compiled in the form of books for the first time in Ceylon in 29 B.C., under the patronage of king Vattagamani Abhaya, with all the detailed classifications that are now obtained in the Pāli Tipitaka of the Theravāda School. This was done at the Council convened for the purpose, known as the Fourth Great Council³

The Fifth Council, according to orthodox tradition, was held at Mandalay, Upper Burma, in 1871, under the patronage of king Mindon. In this Council the entire Pāli Tipitaka was revised, re-edited and finally engraved on 729 marble slabs as follows⁴—

Vinaya	111 slabs
Sutta	410 slabs
Abhidhamma	208 slabs,

Now, in this present age, there was the necessity of bringing out an up-to-date edition of the Tipitaka, printed on modern machines. This task was taken up by the Burmese Chattha Sangāyana, the Sixth Great Council, held in Rangoon, which opened on the 17th May 1954 in the artificially built Rock Cave, specially constructed for this purpose, at a little distance from the city. Two thousand and five hundred of the most crude Bhikkhus, from all parts of the world, participated in chanting the Tipitaka together. A modern printing press was installed in a separate building, and there the texts were printed as soon as they received the sanction of the Sangāyana. The

1 *Mahāvamsa*, chapter V 2 *Mahāvamsa*, op cit 3 *Mahāvamsa* chapter X XXIII 4 बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष, १९५६ p 35

Council kept functioning for two years, and concluded on the fullmoon day, May 1956, synchronising with the 2500th Jayanti of the Buddha

In Ceylon, Burma, Thailand and Cambodia the principal religion of the people is Theravāda Buddhism, that adheres to Pāli Tīpīṭaka as its Scripture. There, they have been having editions of it in their own scripts. Pāli Text Society, London, has been able to complete the publication of a major portion of it in Roman characters. But, as yet, it is not fully available in any script of India.

It is with a view to removing this want, that the Government of India and the State Government of Bihar have jointly sanctioned a scheme of editing and publishing the entire Pāli Tīpīṭaka in Devanāgarī, which will be complete in 40 volumes of about 400 pages each. This task has been entrusted to the Devanāgarī Tīpīṭaka Publication Department, Nalanda. It aims at presenting a co-ordinated edition of the text based on the printed books in Roman, Sinhalese, Burmese and Siamese scripts.

The following chart will show the distribution of books in the literature —

TIPITAKA

VINAYA PITAKA	SUTTA PITAKA	ABHIDHAMMA PITAKA
1 Mahāvagga	1 Dīghanikāya	1 Dhammasaṅgani
2 Cullavagga	2 Majjhimanikāya	2 Vibhanga
3 Pācattiya	3 Samyuttanikāya	3 Dhātukathā
4 Pārājika	4 Anguttaranikāya	4 Puggalapaññatti
5 Parivāra	5 Khuddakanikāya, which contains the following fifteen books —	5 Kathāvatthu 6 Yamaka 7 Paṭṭhāna
	i Khuddakapāṭha	
	ii Dhammapada	
	iii Udāna	
	iv Itivuttaka	
	v Suttanipāṭa	
	vi Vimanavatthu	
	vii Petavatthu •	
	viii Theragāthā •	
	ix Therīgāthā	
	x Jātaka	
	xi Niddesa	

xii	Paṭisambhīdāmagga
xiii	Apadāna
xiv	Buddhavamsa &
xv	Cariyāpīṭaka

2 The Present Volume its Place in the Tīpīṭaka

The three Pīṭakas represent the three sections of the Canon. Their subject matter and ways of treatment differ from one another. The five books of the Vinaya Pīṭaka deal with the rules and regulations of monastic Discipline, the five Nikāyas of the Sutta Pīṭaka are collections of the discourses delivered by the Buddha at different places, on different occasions, and addressed to different congregations, and the seven Paṅkaranas of the Abhidhamma Pīṭaka are treatises on the technical psycho-ethical philosophy presented in terms and style suited to it.

The first Nikāya of the Sutta Pīṭaka is the Dīgha Nikāya, a collection (Nikāya) of long (Dīgha) sermons. There are as many as 34 long sermons (Suttas) contained in it, divided in three books, called the Sīlakkhandhavagga, the Mahāvagga and the Pāthīkavagga.

The present volume is an edition of the above third book, the Pāthīkavagga. This name does not suggest any thing about the nature of the contents or the method of the book. A better name would have been *Pathikadi Vagga* meaning 'the collection of Suttas of which Pāthīka is the first'. It is in this sense that this name is given to it.

Two Suttas of this Volume, Sīgālovāda and Ātānāṭiyā, are undoubtedly pieces of outstanding individuality in the entire Tīpīṭaka—the first as a Code for the lay disciples, and the second as a Ward rule for the superstitious. They have been very often singled out and edited and printed as independent books for the use of the common people all over the Buddhist countries.

It is even possible to come across such persons who are intimately acquainted with these Suttas, without knowing to which particular section or book of the Tīpīṭaka they actually belong.

3 The Present Volume A Summary

(I) Pāthīka Sutta

The Buddha was staying at Anupiyā in the Malla country. One day while he paid a visit to his hermitage, Bhaggava enquired if it was true that

Sunakkhatta had forsaken him and his order, being dissatisfied with his Doctrine. The Buddha acknowledged that Sunakkhatta had gone away from him with a protest that he (the Buddha) did neither exhibit to him feats of superhuman power, nor did definitely tell him about the genesis of the world and the self. He further narrated how Sunakkhatta had developed a perverted appreciation for cynics like Korakkhattiya who behaved like a dog sprawling on the ground, and Kalāra mattaka, a naked ascetic who had taken the vow of living only on spirituous drink and flesh.

The Buddha went on narrating the interesting story of Pāthikaputta, of Vesālī, who boasted in the public that he was anxious to have an open spiritual duel with him (Buddha), a competition in exhibiting superhuman powers. Sunakkhatta took the initiative to arrange a public meeting of the Buddha with Pāthikaputta, at the latter's residence itself. He, making a wide announcement of it, had collected a grand audience, consisting of leading personages from all sections of the society. People, anxious to witness feats of superhuman powers to be performed by the two renowned monks, one trying to excel the other, thronged from all sides and filled the yard. The Buddha turned up first of all and took his seat in the front. But, Pāthikaputta got so much frightened to appear that, inspite of the best efforts of the leading persons, he could not be persuaded even to stir from the corner where he was hiding himself.

This dishonourable defeat of Pāthikaputta gave a shock to Sunakkhatta, who was inwardly wishing his superiority over the Buddha, still, he could not change his mind, and did actually break off.

After narrating this much of story to Bhaggava about the desertion of Sunakkhatta, the Buddha turned the topic of his discourse to the problem relating to the genesis of the world and the self, and he explained it according to the conception of Brahmā and Manopadosika gods.

(2) Udumbarikā Sihanāda Sutta

The Buddha was staying on the Gijjhakūta Hill, at Rājagaha. At that time, Nigrodha Paribbājaka, a recluse, was sojourning there in Queen Udumbarikā's Park. A lay disciple, the householder Sandhāna, happened to visit Nigrodha Paribbājaka and have a discussion on the personality and doctrine of the Buddha. In indignant words, Nigrodha said — "Even as a one eyed cow that, walking in a circle, follows only the outskirts, so is the

Samana Gotama "Why forsooth, householder, if the Samana Gotama were to come to this assembly, with a single question only could we settle him, yea, methinks we could roll him over like an empty pot"

The Buddha heard these words of Nigrodha, with his clairaudience, and, descending from Gijjhakūta, he came to Moranivāpa on the bank of the Sumāgadhā, and began to walk to and fro in the open air. Gradually he entered the park and went up to the assembly. Nigrodha greeted him respectfully and offered him an honourable seat. As he himself professed self mortifying austerities, he requested the Buddha to explain about the fulfilment and non fulfilment, of the same.

The Buddha pointed out the several ways in which the practice of austerities is liable to be blemished, namely—if he begins to feel proud of himself for practising such austerities, and exalt himself and despise others, becomes infatuated and grows careless, gets attached to gains and fame.

It was so true, that Nigrodha gave his ready acceptance — "Verily, lord, these things are blemishes in the practice of self mortification."

Through a slow gradual process, the Buddha led him to realise the futility of practising self mortification, which does not help in purifying the mind, and that the real way to the ultimate goal of man consists in the fulfilment of the Eightfold Noble Path.

The Householder Sandhāna reminded Nigrodha of the indignant statement that he had made in the beginning. He felt ashamed of it, confessed his mistake and requested the Buddha to be kind enough to forgive him for it. The Buddha said — "Verily, Nigrodha, it was an offence that you had committed in speaking thus of me. And, inasmuch as you maketh its confession I do accept it. But I, Nigrodha, say this to you—Let a man of intelligence come to me, who is honest, candid, straightforward — I will instruct him, I will teach him the Norm. If he practises according as he is taught, he will surely realise the Ultimate in no time."

"May be, Nigrodha, you will think the Samana Gotama has said this from a desire to get pupils, but you are not thus to explain my words. Let him who is your teacher be your teacher still. May be, Nigrodha, you will think, the Samana Gotama has said this from a desire to make us secede from our rule, but you are not thus to explain my words. Let that which is your

rule be your rule still Wherefore, Nigrodha, I speak thus, neither because I wish to gain pupils, nor because I wish to confirm you in bad doctrines, or detach you from good doctrines But, O Nigrodha, there are bad things not put away, corrupting, entailing birth renewal, bringing suffering, resulting in ill, making for birth, decay and death in the future And it is for the putting away of these that I teach the Norm

(3) Cakkavattī Sihanāda Sutta

The Buddha was staying at Mātula, in the Magadha country There he addressed the Bhikkhus thus — “O Bhikkhus, be a lamp unto yourselves, a refuge unto yourselves, depending on no one else as your refuge, let the Dhamma be your lamp, let the Dhamma be your refuge, depend not on any thing else as your refuge

He narrated to them the story of king Dalhanemi, a righteous king ruling in righteousness, lord of the four quarters of the earth, conqueror, the protector of his people He possessed the seven Ratanas, to wit, the Wheel, the Elephant, the Horse, the Gem, the Woman, the Treasurer, and the Captain When he became old, he established his eldest son on the throne and renounced the world as a monk This new king too fulfilled the duties of a Cakkavatti and held the tradition that he had inherited For seven dynasties the tradition of Cakkavatti kingship was maintained The eighth king did not care to learn his duties He began to govern his people in his own way The great short coming of his was that he failed to provide economic security to the people, due to which poverty became widespread in the country Poverty begot theft, theft begot murder and all other evils This led to a general deterioration in the life of the generation in all directions

- The Buddha predicted that in future there would arise a Cakkavatti king, named Sankha, who would liquidate poverty and restore the high level of moral and social life of men

The Buddha summed up his sermon, again, with the arousing words “O Bhikkhus, be a lamp unto yourselves, a refuge unto yourselves, depending on no one else as your refuge, let the Dhamma be your lamp, let the Dhamma be your refuge, depend not on any thing else as your refuge ’

(4) Aggañña Sutta

The Buddha was staying in the mansion of Migaramātā, in Pubbārāma, near Sāvattthī There, one day, while he was walking to and fro in the open

air, Bhāradvāja and Vāsettha, two young novices, came up to him and began to walk behind him, as he was imparting some instructions to them. Vāsettha reported that the Brāhmanas assert that they are the best amongst mankind, for they are born from the mouth of Brahmā. The Buddha pointed out that it was utterly untrue, for, every one knows that they are born from the womb of their mothers, just as any other man. He explained that the greatness of a man consists in his own personal worth. Birth itself cannot elevate a sinner or lower the position of a truly meritorious one; thus, it is Dhamma that is great. To elucidate the same, he said —

“O Vāsettha, following is an illustration for understanding how the Dhamma is the best among this folk both in this life and in the next. King Pasenadi of Kosala is aware that the Samana Gotama has gone forth from the clan of the Sākiyas, who are his vassals. They render him homage and respectful salutation, they rise and do him obeisance, and treat him with ceremony. Now, just as the Sākiyas treat King Pasenadi of Kosala, so does the king treat the Tathāgata. It is because the king honours the Dhamma, reveres the Dhamma, regards the Dhamma, that he renders homage and respectful salutation to the Tathāgata.”

The Buddha taught them to identify themselves as sons of the Sākya Muni and forget all their distinctions and differences due to birth.

Then, the Buddha narrated to them how after the dissolution of the universe beings were born in the Ābhassara realm, after a long long time this world began to revolve, and there existed only mental beings, feeding on rapture, self-luminous, traversing the air. And, after a long time, earth with its savour was spread out in the waters, even as well-made ghee or pure butter, so was its colour, even as the flawless honey of the bee, so sweet was it, then beings tasted it and became greedy, earth became hard, rice grew wild in unploughed field, there arose sexual lust, theft was introduced, appointment of a leader as king was made, those who tried to overcome evils began to be known as Brāhmanas, the traders became known as Vessas, those who lived on hunting and such like trifling pursuits began to be known as Suddas, from all these classes those who renounced mundane pursuits and took to the holy life of a monk began to be called as Samanas, and, finally, one who became an Arhant occupied the highest status of all. All is such because of the greatness of the Dhamma.

(5) Sampasādanīya Sutta

The Buddha was staying in the Mango Grove of Pāvārika, at Nālandā. There, Sāriputta paid his homage to him and exclaimed —“Lord, as regards the higher wisdom, there had been none in the past, there will be none in future, and there is none in the present who can be held equal to you”

The Buddha said — ‘Grand and bold are these words of thine, Sāriputta, thou hast roared a veritable lion’s roar in this that thou hast said!’”

Sāriputta humbly submitted that the Dhamma was so well expounded by him that all of his doubts were dispelled and he had realised that it was unsurpassable. He gave reference to the different aspects of the greatness of the teachings and asserted that all these had led to generate in his heart an unflinching faith in the Buddha and his doctrine.

(6) Pāsādika Sutta

The Buddha was sojourning in the Sakyan country. At that time, Nigantha Nātaputta had just died at Pāvā and there had arisen a great confusion and discord amongst his followers. Now, Cunda, the Novice, having passed the rainy season at Pāvā, came to see the venerable Ānanda at Rāmagāma. He gave him the news of the death of Nigantha Nātaputta and the subsequent state of confusion that had arisen in his followers. Then, both of them went together to the Buddha and delivered the news to him. The Buddha said that there was no wonder about it, for, such state of affairs is natural to take place in the Order of one who is less than a Supreme Enlightened One. There was no such danger in his own Order, for, his disciples had realised the different stages of sainthood and that he had made a clear enumeration of the chief principles of his teachings, namely—

The Four Ways of Mindfulness, the Four Supreme Efforts, the Four Paths of Efficacy, the Five Powers, the Five Forces, the Seven Factors of Enlightenment, the Noble Eightfold Path

“The Buddha said, —“These, O Cunda, are the Truths which you must learn and not quarrel over, in order that this pure religion may last long, and be perpetuated, in order that it may be for the good and the happiness of the many

‘A new doctrine, Cunda, do I teach for subduing the mental intoxicants that are generated even in this present life also for extirpating them in the

after life The Arahant, in whom the intoxicants are destroyed is incapable of performing nine things — he is incapable of deliberately depriving a living creature of life, he is incapable of taking what is not given so that it constitutes theft, he is incapable of sexual impurity, he is incapable of deliberately telling lies, he is incapable of laying up treasure for indulgence in worldly pleasure as he used to do in the life of the house, he is incapable of taking a wrong course through partiality, he is incapable of taking a wrong course through hate, he is incapable of taking a wrong course through stupidity, he is incapable of taking a wrong course through fear

“The Supremely Enlightened One is called Tathāgata because as he says, so he does, as he does, so he says He has surpassed all, and has not been surpassed by any, for that is he called Tathagata ”

(7) **Lakkhana Sutta**

The Buddha was staying in the Jetavana Monastery at Sāvattṭi There he addressed the Bhikkhus and said — “There are thirty two special marks of the superman, O Bhikkhus, for whom two careers lie open, and none other If he lives at home, he becomes a Cakkavattī king, a righteous Lord of the Right Ruler of the four quarters, conqueror, Guardians of the People, is Owner of the Seven Treasures His seven treasures are—the Wheel treasure (Cakkara-tanam), the Elephant treasure (Hatthī ratanam), the Horse treasure (Assa - ratanam), the Gem treasure (Maṇi ratanam), the Woman treasure (Itthī - ratanam), the Treasurer treasure (Gahapati ratanam), and the Captain treasure (Parināyaka ratanam)

“But, if such a one renounces home and adopts the homeless life of a monk, he becomes a Buddha Supreme, dispeller of the veil of darkness from the world ”

The thirty two special marks of the Superman are the following —

- (1) He hath feet with level tread,
- (2) Thousand spoked wheels appear on the soles of his feet,
- (3) He has projecting heels,
- (4) He is long in the fingers and toes,
- (5) His hands and feet are soft and tender,
- (6) His hands and feet are like a net,
- (7) His ankles are like rounded shells,

- (8) His legs are like an antelope's,
 (9) Standing and without bending, he can touch and rub his knees with either hands,
 (10) His male organs are concealed in a sheath,
 (11) His complexion is of gold colour,
 (12) His skin is so delicately smooth that no dust clings to his body,
 (13) The down on it grows in single hair one to each pore,
 (14) The down on his body turns upward, every hair of it, blue black in colour like eye paint, in little curling rings curling to the right,
 (15) He has a frame divinely straight,
 (16) He has the seven convex surfaces,
 (17) The front half of his body is like a lion's,
 (18) There is no furrow between his shoulders,
 (19) His proportions have the symmetry of the banian tree, the length of his body is equal to the compass of his arms,
 (20) His bust is equally rounded,
 (21) His taste is supremely acute,
 (22) His jaws are as a lion's,
 (23) He has forty teeth,
 (24) His teeth are regular,
 (25) His teeth are lustrous
 (26) The eye-teeth are very custrons,
 (27) His tongue is long,
 (28) He has a divine voice like that of the Karavika bird,
 (29) His eyes are intensely blue,
 (30) His eye lashes are like that of a cow,
 (31) Between his eyebrows there appears a mole white and soft
 (32) His head is like a royal turban

The Buddha further explained, one by one, how these marks are obtained as a result of the good actions of previous birth

(8) Sīgālovāda Sutta

The Buddha was staying in the Veluvana monastery at Rājagaha. Now, at this time, young Sīgāla, a householder's son, rising betimes, went forth from Rājagaha, and with wet hair and wet garments and clasped hands uplifted, paid worship to the several quarters of earth and sky — to the east, south, west, and north, to the nadir and the zenith

The Buddha saw him there and enquired why was he worshipping the directions. Young Sīgāla said, — ‘Sir, my father, when he was a dying, said to me—dear son, you should worship the quarters of earth and sky. So I, sir, honouring my father’s word, rise betimes and, leaving Rājagaha, worship on this wise”

The Buddha taught him that the proper way of worshipping the four directions are different from it, and that the following should be looked upon as the six quarters — parents as the east, teachers as the south, wife and children as the west, friends and companions as the north, servants and work people as the nadir, religious teachers and Brahmanas as the zenith. And, the proper way of worshipping these quarters consisted in fulfilling one’s duties towards them. The Buddha further preached to him what these duties are and how they are accomplished.

This opened the eyes of Sīgāla, and he took refuge in the Triple Gem of the Buddha, Dhamma and Sangha.

(9) *Ātānāṭiya Sutta*

The Buddha was staying on the Gijjhakūta Hill, at Rājagaha.

There, the Guardian gods of the four directions approached him with a great army of Yakkhas, of Gandhabbas, and of Kumbhandas, and paid their homage to him.

Then king Vessavana spoke thus to the Buddha — Lord, there are many evil spirits who are hostile to you, the Dhamma and the brotherhood, for, they are averse to restraint and holy life. It is possible, they might do harm to your disciples dwelling in secluded places for practising meditation. They should learn, therefore, the *Ātānāṭiya* ward rune and recite them daily for their safety and protection against such dangers.

King Vessavana then recited before the Buddha the stanza of *Ātānāṭiya* spell, which, first of all, consisted of offering adoration to all the Buddhas — Vipassī, Sikkhī, Vessabhū, Kakusandha, Konāgamana, Kassapa, Angrasa and Sākya, and, secondly invoking the protection of the spirits of different planes and power, such as — Kumbhandas, Nagas, Virūpākha, *Ātānātā*, Kusinātā, Tatolā, Tattalā, Ojasī, Arittā, etc.

(10) **Sangīti Sutta**

While going on a tour, the Buddha^e reached Pāvā, the Capital of the Mallas, and put up in the mango grove of Cunda, the smith. The people offered him an invitation to visit their newly built mote hall and to offer his blessings to them.

On arriving at the door, the Buddha washed his feet and entered the hall, and took his seat facing the east, leaning against the central pillar. The Bhikkhus also washed their feet and entered the hall ranging themselves against the western wall and facing the east, behind the Buddha. The Mallas of Pāvā also washed their feet and entered the hall, ranging themselves against the eastern wall and facing the west with the Buddha before them.

The Buddha delivered a discourse to them till late at night. Then, the meeting was dispersed and the Mallas worshipped the Buddha and left the hall. The Bhikkhus were left behind seated where they were, wrapped in silence. As the Buddha felt tired, he stretched himself on one side, allowing Sāriputta to address the Bhikkhus.

Sāriputta drew the attention of the Bhikkhus to the great confusion and discord that had reigned amongst the followers of Nigantha Nātaputta who had recently died at Pāvā, and asserted that there was no possibility of that in the Order of the Buddha, that was based on Doctrine well proclaimed by him. He preached that they should remember their cardinal rules and principles most definitely and observe them with full unanimity. He gave them an enumeration of the Dhammas, arranged in groups of one, two, three, ten, as — —

What is the single principle ?

All beings live on food,

× ×

What are the twin principles ?

Mind and Body

Patience and gentleness

Mindfulness and intelligence

Calm and insight

Wisdom and Liberation

× ×

What are the fivefold principles ?

Five aggregates (*Pañca khandha*)

Five hindrances (*Pañca Nivarana*)

× ×

What are the tenfold principles ?

Ten circles for meditation (*Kasīnani*)

Ten channels of action (*Kammaṭṭhāna*)

(11) **Dasuttara Sutta**

The Buddha was staying at Campā, on the banks of the Lake Gaggārā. At that time Sāriputta delivered a discourse on the Dhamma to the assembly of Bhikkhus, enumerating the cardinal principles arranged in groups from one to ten, as under —

There is one thing, friends, that helpeth much, one thing that is to be developed, one thing that is to be understood, one thing that is to be eliminated, one thing that is to be realised

Which one thing helpeth much ? Zeal in things that are good

Which one thing is to be developed ? Mindfulness

Which one thing is to be understood ? Contact as a condition of intoxicants (*Āsavas*) and of grasping

Which one thing is to be eliminated ? The conceit 'I am'

Which one thing is to be thoroughly learnt ? All beings live on food

Which one thing is to be realised ? Sure and unshakable emancipation of mind

×

×

×

Which five things help much ? Faith, good health, honesty, energy, insight

Which five things are to be developed ? Five factors of perfect concentration

Which five things are to be understood ? The five aggregates of grasping (*upādānakkhandha*)

× × ×

Ten that must be developed the ten discs (*kasīna*)

Ten that must be eliminated the ten wrong factors, to wit, wrong views, wrong purposes, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, wrong concentration, wrong knowledge, wrong emancipation

4 The Present Volume Its Importance

It is interesting to note that two Suttas of the present volume *Pasādika* and *Sangati* give reference to the state of general confusion and discord that had been reigning amongst the followers of Nigantha Nātaputta, Lord Mahāvira, the last Tirthankara of Jainism, after his death at Pāvā, and to the anxiety that it had aroused in the heart of the Buddha and his chief disciples to be prepared to ward such danger in their own camp, by codifying the cardinal principles of the Dhamma. The *Sampasadaniya* and the *Dasuttara* Suttas also, though delivered under different backgrounds, seem to be making the same attempt. This shows that the need for convening a Great Council was felt much earlier than the words uttered by Subhadda in the presence of the Venerable Mahākassapa on the occasion of the *Mahāparinibbāna* and that the mind of the Sangha had already set working towards that direction.

This also throws a light on the present location of Pāvā, the place of passing away of Mahāvira. The reference is to the Pāvā of the Mallas near Kusinārā, (not to the Pāvā of Magadha near Rājagaha). It is definite that there were two places at that time called by the name of Pāvā and that at both the places there were mango groves — in Magadha, belonging to Pāvārika, and in the Malla country to Cunda. If a revision of view is thought necessary to determining the exact place where Lord Mahāvira died, the above reference would deserve an important consideration.

The third Sutta gives a detailed account of the Buddhist mythological conception of a Cakkavatti king, that had been a common heritage of all the traditions of Indian culture, and, it would be fruitful to make a note of it for comparative studies. Similarly, the fourth Sutta, the *Aggañña* Sutta, is

devoted to the Buddhist mythology of the process of dissolution and evolution, and, the seventh Sutta, Lakkhana Sutta, to that of the thirty two marks of a superman (Mahāpurisa). The best use of these references can be made in making comparative studies in the mythological traditions of India. The significance of the Ātānāṭiya Sutta, stands on par with the same as above as a mythological spell against the evil influence of hostile spirits, ghosts and demons.

In the mythological narration of the Cakkavatti king, however, a very meaningful principle has been propounded — that, poverty is the root cause of all degeneration, both spiritual and material and that a regeneration of the nation and country cannot be possible without liquidating poverty. This shows that, side by side with the spiritual aspiration, the tradition was fully conscious of the practical problems of hard life. In the Saṅgīti Sutta, the first cardinal principle has been taught as *sabbe satta āhāratthitika* or that all beings live on food.

Just as the earlier two volumes, this one also gives references to the different sects of mendicants and ascetics leading their own outlook of life. The character of Sunakkhatta is interesting to note. He was a follower of the Buddha and did actually believe that the way taught by him leads to Emancipation. Even then, somehow or other, he developed an unfriendly attitude towards him and finally deserted his Order. Curiously enough, he gained faith in the ascetic Korakkhattiya who had taken the vow of adopting the behaviour of a dog (Kukkuravatika) and in the ascetic Kalāra-mattaka who had taken the vow of living on nothing else but wine and flesh. Such Sadhus attracted the attention and veneration of the public, and they had succeeded in forming their own groups of followers. Some of them, like Bhaggava and Nigrodha, did recognise the greatness of the Buddha, and actually listened reverentially to his teachings. There were, on the other hand, recluses, like Pāthikaputta and Sunakkhatta, who were determinedly antagonistic to him, eager to oppose him in the public. All this throws a light on the religious background in which the Buddha had to carry on his mission.

Last but not the least, the importance of the present volume consists in the eighth Sutta, the Sigālovāda Sutta, which has a unique individuality of its own in the entire Pāli canon. It is true that the teachings of the Buddha were principally directed to his assembly of homeless followers, who could fulfil more successfully the process of self-training. But, it does not mean

that he did not inspire the lay devotees to a particular outlook of philosophy and practical living. At least, this Sutta, the Sigālovāda Sutta, is entirely devoted to the duties of a lay man in society towards different quarters. It is for this reason, that this piece has been singled out for studies and recitation by the Buddhist laity all over the world.

5 The Present Edition

This presents a co-ordinated edition in Devanāgarī of the third volume of the Dīghanikāya, the Pāthikavagga, based on the following versions of the text —Burmese Chatthasangāyana publication, 1956, Sinhalese edited by Rev. W. Siri Nanavasa Thera, 1929, Siamese Mahāmakuta Government publication, 1926, Roman edited by J. E. Carpenter, P. T. S. 1911.

For preparing our MSS, we have adopted the Chatthasangāyana edition as our basic text, an edition that has been brought out by the efforts and sanction of an international Sangha constituting of the zealous holders of the orthodox Theravāda tradition. Very often, we have agreed in selecting the readings and in paragraph arrangement, but, we have broken new grounds by providing a system of headings and sub-headings and adopting a method of punctuating, thereby making the text more useful for the modern reader.

(a) Headings

In the old-fashioned books, no headings have been given in the beginning of a section. Instead, it is at the end that we have words like *nittitā*. But, to the modern reader, this presents a difficulty in forming a complete picture of the Sutta as an organic unity. We have, therefore, ventured to provide headings, numbered and arranged, with the purpose of bringing to relief the order and sequence in the parts of the Sutta. As far as possible, the headings have been constructed with words picked up from the body of the text, the chief objective being to indicate at the outset what does the section contain. Our readers should note that they have been supplied by us and that they do not belong to the original text.

The principal headings have been printed in 16pt Mono Black and are numbered, with the article sign. Notable heads contained in it have also been printed in 16pt Mono Black, but have not been numbered. The sub-headings have been serially numbered either in figures or in letters, and have been printed in 14pt Mono Black. Headings, still subordinate to it have been numbered and printed in 12pt Mono Black. In the folio of

odd pages, it is only the principal headings that have been mentioned, not the subordinate ones

(b) *Selection of readings*

In selecting a reading for our text out of the variants available, philological consideration, no doubt, has been the chief consideration, but, at the same time, we have not lost sight of the importance of the historical usage. When different forms are both grammatically correct and current in use, we have put one in the text and mentioned the others in the foot notes. In such cases, selection of one form does not mean the rejection of others.

(c) *Punctuation marks*

Originally, no punctuation marks were used in Pali, except, perhaps, one for full stop. The Siamese edition has followed the same tradition. But as the syntax of Pali is, at times, so very difficult and complicated, the use of the modern marks of punctuations is decidedly advantageous in making out the meaning explicit and in bringing out clearly the interconnections between the different constituent clauses and phrases, which, in their absence, would have remained obscure, if not misleading. We have, therefore, used all the modern marks freely, not in a mechanically rigid manner, but, only with a view to facilitating the correct understanding of the sentences. And in this, we have tried to be systematic and consistent.

The following marks have been used — full stop of Devanāgarī (।), comma (,), colon (:), semicolon (;), note of interrogation (?), note of interjection (!), hyphen (-), dash (—), double inverted commas (“”), and single inverted commas (‘ ’)

In the first volume of this series, the Mahāvagga, we used inverted commas to denote a reported speech only where it was preceded by a reporting verb. But, now, we have decided to use them even where the reporting verb has not been mentioned. The quotation of a principal reported speech has been indicated by the use of double inverted commas, whether preceded by a reporting verb or not, the quotation of a subordinate speech, contained in it, has been indicated by the use of single inverted commas, and, the quotation of speech or speeches contained even in that has been indicated not by inverted commas but simply by the use of a dash after its reporting verb. Fresh paragraphs occurring in the principal reported speech have been opened with double inverted commas, and, those occurring in the subordinate speech have been opened with single inverted commas.

(d) *Abbreviations*

In the foot-note, the abbreviation रो० stands for the Roman edition, सी० stands for the Sinhalese edition, स्या० for the Siamese edition and म० for the Burmese edition

In the margin, the abbreviation 'R' stands for the Roman, and 'B' for the Burmese editions. They indicate that the page number put by its side begins from that line. Reference to the page numbers of the Roman edition will facilitate the use of the P T S Pali English Dictionary, as well as other modern publications in or on Pali, in which references are made to the books of the Roman edition.

(e) *Corner references*

On odd pages of the book, the corner numbers refer to the Sutta, the principal heading and the paragraph occurring at the end of the page, and on even pages they refer to those occurring at the beginning of the page.

(f) *Spelling*

About the mode of our spelling, it is necessary to note that we have generally treated the indeclinable particles *va*, *pi* and *ti* as independent words, as the initial vowels of *eva*, *api* and *iti* are very often dropped in Pali.

The Parasavarna combination has essentially been made when occurring in the same word, as—*Sangha*, *Kiñci*, *Pañca* etc. At other places, this combination has been generally avoided as - *evam pi*, *kammam ti* etc. But, to show that the other forms are also grammatically valid, we have, on occasions, used this form also—*evampi*, *kammanti* etc.

Some western editors have accepted the same method of spelling, but, in cases where 'ti' is preceded by 'i' or 'pi' by 'a' they have applied the Sanskrit rule of sândhi—*akah savarne dirghah*, and have spelt the indeclinable particles together with the preceding words, as, *desesiti* and *tassapi*. But, in such cases also, we have spelt them separately as *desesi ti* and *tassā pi*. The lengthening of the preceding vowels before *ti* and *pi* may well be explained by the rule—*Byañjane digharassa* (Moggalāna 133), which allows lengthening of a short vowel, if it precedes a consonant, as in—*munī+care*=*munī care*, *Khanti+paramam*=*Khanti paramam*, *Gotama+ti*=*Gotama ti*, *Hoti+ti*=*Hoti ti*.

The printing of the first two volumes of the series—Mahāvagga and Cullavagga — is almost complete, and we are taking steps to get their copies released for general distribution

As a matter of course, we should have next taken up the remaining three volumes of Vinaya Piṭaka — Pācittiya, Pārājika and Parivāra, the final press copy of which has been ready since long. But, we found it more suitable to give precedence to the printing of the three volumes of the Dīgha Nikāya

Due to unavailability of paper, actual printing was started as late as by the end of February '58. And it is only in a period of about two months that the printing of these volumes has been completed

The batch of our staff posted at the press for reading proofs — consisting of an editor, Shri L N Tiwari, M A, and two assistant editors, Shri Birbal Sharma, M A and Shri Shyamdeo Dubedi, M A — had to work very hard day and night, to bring out these three volumes in such a short time

Dr A K Naran, M A Ph D, Reader, College of Indology, B H U has prepared the final press copy of this Introduction and has also seen it through the press. My best thanks are due to him for the same

We thank the proprietor and the staff of the Vidya Mandir Press (Private) Ltd, Varanasi, for their promptness and willing co operation which made it possible to print these volumes in time

Bhikkhu J Kashyap

THE PĀLI ALPHABET IN
DEVANĀGARĪ AND ROMAN CHARACTERS

VOWELS

अ a आ ā इ i • ई ī उ u ऊ ū ए e ओ o

CONSONANTS WITH VOWEL "A"

क ka	ख kha	ग ga	घ gha	ङ na
च ca	छ cha	ज ja	झ, ञ jha	ञ ña
ट ta	ठ tha	ड da	ढ dha	ण na
त ta	थ tha	द da	ध dha	न na
प pa	फ pha	ब ba	भ bha	म ma
य ya	र ra	ल la	व va	स sa
		ह ha	ळ la	अं am

VOWELS IN COMBINATION

क ka	का kā	कि ki	की ki	कु ku	कू kū	के ke	को ko
ख kha	खा khā	खि khī	खी khī	खु khu	खू khū	खे khe	खो kho

CONJUNCT-CONSONANTS

कक kka	क्व ñca	द्व dva	म्ब mba
कख kkha	क्ख ñcha	घ्य dhya	म्भ mbha
क्य kya	क्ज ñja	ध्व dhva	म्म mma
कि kri	क्झ, क्झ ñjha	न्त nta	म्य mya
कल kla	टट, ट्ट tta	न्त्व ntva	म्ह mha
कव kva	टठ, ट्ट ttha	न्थ ntha	म्य yya
क्य khya	ड्ड डड dda	न्द nda	म्ह yha
कख khva	ड्ड डड ddha	न्द्र ndra	ल्ल lla
गग gga	ण्ट nta	घ न्ध ndha	ल्य lya
गघ gggha	णठ ntha	न्न nna	ल्ल्हा lha
ग्य gya	ण्ड nda	न्य nya	व्ह vha
ग्र gra	ण्ण nna	न्ह nha	स्त sta
ङ्क nka	ण्ह nha	प्य ppa	स्त्र stra
ङ्क nkha	त्त tta	प्फ ppha	स्न sna
ङ्ग nga	त्थ ttha	प्य pya	स्य sya
ङ्घ ngha	त्व tva	प्ल pla	स्स ssa
ञ्च cca	त्य tyā	ब्ब bba	स्म sma
ञ्छ ccha	त्र tra	ब्भ bbha	स्व sva
ञ्ज jja	द्द, दद dda	व्य bya	ह्य hma
ञ्झ, क्झ jjha	द्ध ddha	ब्र bra	ह्व hva
ञ्झ ñña	द्य dya	म्प mpa	ह्ल lha
ञ्ह ñha	द्र dra	म्फ mpha	

ī = ā, ṛ = 1, ṝ = 1̄, ṝ = u, ṝ = ū, ṝ = e, ṝ = o

१	२	३	४	५	६	७	८	९	०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

आमुख

१ पालि तिपिटक

कुशीनगर में बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् उनके शिष्यगण एकत्रित हो अपनी अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित कर रहे थे। उस समय सङ्घनायक आयुष्मान महाकस्सप सभी को सात्वना देते हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला रहे थे— सभी वस्तुयें अनित्य हैं और उनसे वियोग होना अवश्यम्भावी है। उस परिषद में सुभद् नामक एक वृद्ध प्रव्रजित भिक्षु भी था, जो दुःखी होकर के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा था— भिक्षुओ दुःखी मत हो। अब हम उस महाश्रमण के कठिन नियंत्रण से मुक्त हो गये। वह बराबर कहता रहता था— यह करना तुम्हें विहित है और यह नहीं। अब हम स्वेच्छा से जो चाहेंगे करेंगे और जो नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे। अतः आप लोग दुःखी न हो। सुभद् के इन शब्दों से चैतावनी सी मिली और आयुष्मान 'महाकस्सप' ने इस आवश्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुओं की एक बैठक का आयोजन हो जिसमें बुद्ध-वचन का प्रामाणिक सग्रह कर लिया जाय जिससे धर्म की सुरक्षा हो सके और आगामी पीढ़ियों में उसकी परम्परा अबाध गति से चल सके। अतः उन्होंने भिक्षुओं को सम्बोधित किया— 'आवुसो हम लोग धम्म और विनय का सङ्गायन करें'। उन्होंने उक्त बैठक में भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुओं की एक नामावली तयार की। पहले तो उन्होंने आयुष्मान आनन्द का नाम उसमें सम्मिलित नहीं किया क्योंकि तब तक वे अहत पद को प्राप्त न कर सके थे। परन्तु सम्पूर्ण सङ्घ में भगवान के निकटतम सम्पक में रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य आयुष्मान आनन्द के अतिरिक्त और किसी को नहीं प्राप्त हुआ था। अतः अन्त में आयुष्मान 'महाकस्सप' को उनका भी नाम सम्मिलित करना पडा। आयुष्मान आनन्द भी पूरी श्रद्धा और वीर्य से ध्यानाभ्यास में तल्लीन हो गये, जिससे वे बैठक की तिथि के पूर्व ही अहत-पद की प्राप्ति करने में समर्थ हो सके।

तत्कालीन मगध-सम्राट अजातशत्रु ने राजगृह के वभार पर्वत के उत्तर पाख में स्थित 'सत्तपण्णी' गुहा के द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया जिसमें भिक्षुओं की उक्त बैठक प्रारम्भ हुई।

उधर आयुष्मान आनन्द को भी अपने प्रयत्न में सिद्धि लाभ हुआ। सारी रात वे ध्यानमग्न हो चङ्क्रमण करते रहे। प्रातः काल जैसे ही वे शय्या पर लेटने के लिये बटे, उनके पर भूमि से उठ चुके थे और उनका सिर तकिये तक पहुँचा भी न था कि इसी बीच उनका अज्ञानाधकार नष्ट हो गया और उनमें परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने अहत पद को प्राप्त कर लिया। अपनी दिव्य शक्ति से वे बैठक प्रारम्भ होने के क्षण ही मण्डप में अपने लिये निर्धारित आसन पर ऐसे विराजमान हुए मानो वे पशु के गर्भ से उदभूत हो।

सङ्घ की अनुमति लेकर आयुष्मान 'महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पूछे और आयुष्मान् उपालि ने भी सङ्घ को उन प्रश्नों का सविस्तार उत्तर दिया। फिर उसी प्रकार आयुष्मान 'महाकस्सप' ने आनन्द से भगवान बुद्ध के उपदिष्ट धर्म पर प्रश्न किये जिनका उन्होंने पूर्णरूपेण उत्तर दिया। इस प्रकार इसमें 'विनय' और 'धम्म दोनो का सग्रह किया गया'। पर इस सङ्गीति के कई शताब्दी पश्चात् लिखे गये 'अट्टकथा-साहित्य' में यह उल्लेख मिलता है कि इसी पहली बैठक में ही 'अभिधम्मपिटक' का भी सग्रह हो गया था और जिस रूप में आज हमें 'तिपिटक' साहित्य मिलता है उसी रूप में उसका उसी समय निर्माण हुआ था।

बुद्ध निर्वाण के एक शताब्दी पश्चात विनय के नियमों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ जिस पर निणय करने के लिये वशाली में एक दूसरी बैठक बुलाई गई । इसमें केन्द्र के सुदूर प्रान्तों के चुने हुये विख्यात सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह द्वितीय सङ्गीति सप्तशतिका नाम से प्रसिद्ध है^१ ।

इसके एक सौ वर्ष बाद जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उसके प्रचार को राज्याश्रय प्राप्त हुआ तब लाभ देखकर अश्व मतावलम्बी भी बौद्ध विहारों की ओर आकृष्ट हुये । विधिवत प्रव्रज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे अपने को बौद्ध भिक्षु घोषित करके विहारों में रहने लगे । किंतु उनके लिये अपने पुराने संस्कार और विचार छोड़ना सरल नहीं था । अतः उन्होंने अपनी अपनी तरह से धर्म की उलट पलट याख्या करनी प्रारम्भ कर दी । फलतः भिक्षु-सङ्घ के बौद्धिक जीवन में एक उच्छ्वल्ल लम्बा प्रकट हुई और धर्म के वास्तविक स्वरूप का निणय करना कठिन हो गया । धर्म के नायक स्थविर भिक्षुओं ने धर्म की शुद्धता को चिरस्थायी रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वों से मुक्त रखने के लिये एक तीसरी सङ्गीति की आवश्यकता समझी । सम्राट अशोक के गुरु आयुष्मान मोग्गलिपुत्त तिस्स के नेतृत्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम नामक विहार में इस सङ्गीति की बैठक हुई । आयुष्मान तिस्स ने अशुद्ध मतों का खण्डन करते हुए और मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध स्थविरवाद नामक धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कथावत्यु नामक एक ग्रन्थ की रचना की जिसे सङ्घ ने तीसरी सङ्गीति में बुद्ध वचन का ही गौरव प्रदान किया । आज भी यह तिपिटक साहित्य का एक अमूल्य ग्रन्थ माना जाता है । इस सङ्गीति के पश्चात अशोक ने सुदूर देशों में प्रचार करने के निमित्त धर्मदूतों को भेजा^२ ।

राजकुमार महिन्द और राजकुमारी सङ्घमिता ने गृह त्याग कर भिक्षु-सङ्घ में प्रव्रज्या ग्रहण की । उन लोगों ने दक्षिण में सुदूर लङ्का द्वीप की यात्रा की और वहाँ वे धर्म की स्थापना करने में सफल हुये । आज तक बौद्ध पालि तिपिटक की परम्परा लङ्का में अनुप्राणित हो रही है^३ ।

ईसा पूर्व २६ में राजा वट्टगामिनी अभय के संरक्षण में एक चौथी सङ्गीति की बैठक हुई, जिसमें सम्पूर्ण तिपिटक लिपिबद्ध कर लिया गया^४ । फिर स्थविरवाद की मान्यता के अनुसार बर्मा देश के माण्डले नामक नगर में १८७१ ई० में राजा मिण्डन के संरक्षण में पाचवी सङ्गीति का आयोजन हुआ जिसमें सारे तिपिटक का संशोधन और सम्पादन किया गया और उन्हें सङ्गममर की पट्टियों पर इस प्रकार उत्कीर्ण कर दिया गया^५ —

विनय	१११ पट्टिया
सुत्त	४१० पट्टिया
अभिधम्म	२०८ पट्टिया

लोग इस आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे कि अब इस युग में आधुनिकतम यन्त्रों पर 'तिपिटक' का सुन्दर से सुन्दर मुद्रित संस्करण प्रकाशित किया जाय । बर्मा में होनेवाले छद्म सङ्गायन में इस अभाव की पूर्ति करने का निश्चय किया गया । राजधानी रगून से कुछ ही दूर सुन्दर निर्मित पाषाण-गुहा में १७ मई १९५४ को सङ्गायन की बैठक प्रारम्भ हुई । ससार के विभिन्न देशों से आमन्त्रित ढाई सहस्र विद्वान भिक्षुओं ने सङ्गायन में भाग लिया । सङ्गायन द्वारा स्वीकृत मूल तिपिटक को वही अपने मुद्रणालय में मुद्रित कर लिया गया । १९५६ ई० की पच्चीस-सौवी बुद्ध-जयन्ती के दिन सङ्गायन की बैठक पूरी हुई ।

लङ्का बर्मा थाईलैण्ड और कम्बोडिया आदि में राष्ट्रधर्म बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका सर्वमान्य ग्रन्थ है — पालि तिपिटक । उन देशों में उनकी अपनी-अपनी लिपियों में समय-समय पर तिपिटक के सुन्दर से सुन्दर

१ चुल्लवग्ग बारहवा खण्डक । २ महावस, पाँचवा अध्याय । ३ महावस वही । ४ महावस, अध्याय १०-२३ । ५ बौद्धधर्म के २५०० वर्ष, १९५६, पृ० ३५

संस्करण प्रकाशित होते रहे हैं। लन्दन की 'पालि टेक्स्ट सोसायटी' ने भी तिपिटक के अधिकांश का प्रकाशन रोमन लिपि में किया है। किन्तु अभी तक भारतवर्ष की किसी लिपि में यह अमूल्य साहित्य उपलब्ध नहीं है।

इस अभाव की पूर्ति के उद्देश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के संयुक्त प्रयत्न से सम्पूर्ण पालि तिपिटक को देवनागरी लिपि में सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत की गई। प्रायः चार-चार सौ पृष्ठों वाले चालीस खण्डों में यह प्रकाशन समाप्त होगा। इसे पूरा करने का भार नालन्दा के देवनागरी तिपिटक प्रकाशन विभाग को सौंपा गया है। इस प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य रोमन सिहली बर्मी तथा स्यामी लिपियों में मुद्रित ग्रन्थों के आधार पर एक प्रामाणिक देवनागरी-संस्करण उपस्थित करना है।

तिपिटक' के ग्रन्थों का विभाजन किस प्रकार है यह निम्न तालिका से प्रकट होगा —

• तिपिटक •		
विनयपिटक	सुत्तपिटक	अभिधम्मपिटक
१ महावग्ग	१ दीघनिकाय	१ धम्मसङ्गणि
२ चुल्लवग्ग	२ मज्झिमनिकाय	२ विभङ्ग
३ पाचित्तिय	३ संयुक्तनिकाय	३ धातुकथा
४ पाराजिक	४ अङ्कगुत्तरनिकाय	४ पुरगलपञ्जात्ति
५ परिवार	५ खुद्दकनिकाय	५ कथावत्थु
	(१) खुद्दकपाठ	६ यमक
	(२) धम्मपद	७ पट्टान
	(३) उदान	
	(४) इतिवृत्तक	
	(५) सुत्तनिपात	
	(६) विमानवत्थु	
	(७) पेतवत्थु	
	(८) थेरगाथा	
	(९) थेरीगाथा	
	(१०) जातक	
	(११) निद्देस	
	(१२) पटिसम्भिमदास	
	(१३) अपदान	
	(१४) बुद्धवश	
	(१५) चरियापिटक	

२ प्रस्तुत ग्रन्थ तिपिटक में इसका स्थान

बुद्ध वचन के जो तीन मुख्य भाग हैं, उन्हीं को तिपिटक (तीन पिटारी) कहते हैं। उनके विषय और शैली एक दूसरे से भिन्न हैं। भिक्षु सङ्घ के निर्माणसम्बन्धी विवरण तथा अनुशासनसम्बन्धी नियम 'विनयपिटक' में संगृहीत हैं। बुद्ध द्वारा भिन्न भिन्न स्तर के लोगों को दिये गये उपदेशों का सङ्कलन 'सुत्तपिटक' में है और पारिभाषिक शब्दों में उपदिष्ट गम्भीर धमदशन का विवेचन 'अभिधम्मपिटक' में है।

‘दीघनिकाय’ में ३४ लम्बे-लम्बे ‘सुत्त ह, जो तीन खण्डों में विभक्त हैं—सौलक्ष्णध्वग्ग महावग्ग और पाथिकवग्ग ।

प्रस्तुत ग्रन्थ इसी तीसरे खण्ड पाथिकवग्ग का देवनागरी सस्करण है । यह नामकरण इसमें आये हुये प्रथम सुत्त को ही ध्यान में रखकर किया गया है । इसका यह नाम ग्रन्थ के विषय या शाली के परिचय की और सङ्गत नहीं करता । ‘पाथिकवग्ग के स्थान पर यदि इसका नाम पाथिकादिवग्ग होता तो विशेष उपयुक्त होता क्योंकि इससे यह ज्ञात हो जाता कि इस वग्ग में पाथिक आदि सुत्तों का संग्रह है ।

सम्पूर्ण तिपिटक में सिंगालोवाद तथा आटानिटिय सुत्त अपना विशेष महत्त्व रखते हैं । इनमें से पहला गहस्थधम का विधान उपस्थित करता है तथा दूसरे का सम्बन्ध भूत प्रेतादि के अंधविश्वासों से है । इसी महत्त्व के कारण बौद्ध देशों में जनसाधारण के व्यवहार के लिये इन्हें स्वतंत्र ग्रन्थ के रूप में अलग से मुद्रित करके एक व्यक्तिगत विशेषता प्रदान की गई है । ऐसे स्थानों में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो इन सुत्तों से विशेष रूप से परिचित होने पर भी यह नहीं जानते कि ये तिपिटक के किस विशेष ग्रन्थ अथवा खण्ड में अन्तर्भूत हैं ।

३ प्रस्तुत ग्रन्थ एक रूपरेखा

(१) पाथिक सुत्त

बुद्ध मल्लदेश के ‘अनुपिया नामक स्थान में ठहरे थे । एक दिन वे दूसरे सम्प्रदाय के परिव्राजक ‘भग्गव के यहाँ गये । उसने पूछा— भन्ते, क्या यह ठीक है कि आपके धम्म से असन्तुष्ट हो ‘सुनक्खत्त’ आपको छोड़ कर चला गया है ? बुद्ध ने बताया कि सचमुच ऋद्धियों के चमत्कार न दिखाने तथा अयाकृत प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर न देने के कारण सुनक्खत्त असन्तुष्ट हो चला गया है । उन्होंने यह भी बतलाया कि ‘सुनक्खत्त’ कुक्कुरव्रत धारण करने वाले कोरखत्तिय तथा मदिरा मास का व्रत पालन करनेवाले नग्न परिव्राजक कळारमट्टक के प्रति श्रद्धा करने लगा है ।

इसके पश्चात् बुद्ध ने वशाली के पाथिक पुत्त की कहानी सुनाई । पाथिक पुत्त वशाली में इस बात का प्रचार कर रहा था — श्रमण गौतम ज्ञानवादी हैं और मैं भी ज्ञानवादी हूँ । ज्ञानवादी को ज्ञानवादी के साथ अलौकिक ऋद्धिबल का प्रदर्शन करना चाहिये । क्या ही अच्छा होता कि हम दोनों सामान्य जनता के बीच एक साथ अपने ऋद्धिबल का प्रदर्शन करते, जिससे सामान्य जन यह समझ पाते कि इस दृष्टि से हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है ? सौभाग्यवश उस समय भगवान् बुद्ध वशाली में ही उपस्थित थे । पाथिक-पुत्त की इस चुनौती का समाचार ‘सुनक्खत्त’ ने आकर उन्हें दिया, क्योंकि वह भी यही चाहता था कि इस प्रकार का प्रदर्शन हो जिससे बुद्ध के प्रति जनता की जो अपार श्रद्धा है वह कम हो जाय । उसने पाथिक पुत्त के निवास-स्थान पर ही जनसाधारण की एक सभा का आयोजन कराया । इसका उसने भलीभाँति प्रचार किया । परिणामस्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इसको देखने के लिये बड़ी संख्या में एकत्रित हुये, क्योंकि उन्हें दो प्रसिद्ध श्रमणों के ऋद्धि-बल को देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ था । बुद्ध ने ‘सुनक्खत्त’ को इस सभा में अपनी उपस्थिति के विषय में स्वीकृति भी दे दी थी । भोजनोपरान्त वे वहाँ पहुँचे । जब पाथिक पुत्त ने बुद्ध का आगमन सुना तो भयभीत एवं सविग्न होकर वह अन्यत्र जाकर एक कोने में छिप गया । लोगों ने उसे बुद्ध के सामने लाने के लिये अनक चेष्टायें की पर वे उसे वहाँ लाने में असमर्थ रहे । पाथिक पुत्त की इस पराजय से ‘सुनक्खत्त’ को गहरा धक्का लगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि ऋद्धिबल आदि में ‘पाथिकपुत्त’ बुद्ध की अपेक्षा श्रेष्ठ है । पर इस पर भी वह अपने विचार को नहीं बदल सका और इस प्रकार वह बुद्ध से विमुख होकर चला गया ।

‘सुनक्खत्त’ के विषय में उपर्युक्त कहानी सुनाने के पश्चात् बुद्ध ने अयाकृत प्रश्न के विषय में भी ‘भग्गव’ को उपदेश दिया और इसे ब्रह्मा और मनोपदोसिक देवताओं आदि की कल्पनाओं से समझाया ।

(२) उदुम्बरिक सुत्त

बुद्ध राजगृह में गिञ्जकूट के ऊपर विहार कर रहे थे। उस समय उदुम्बरिका के परिव्राजकाराम में 'निग्रोध परिव्राजक ठहरा था। बुद्ध भक्त उपासक सन्धान निग्रोध' परिव्राजक के पास गया और धर्म चर्चा करने लगा। बुद्ध के 'यकित्तत्व की बात चली। 'निग्रोध' ने अपमान भरे शब्दों में कहा— शून्यागार में रहते रहते श्रमण गौतम की बुद्धि मारी गई है। श्रमण गौतम सभा से मुह चुराते ह, सवाद करने में असमर्थ ह। वे लोका से अलग अलग भागे फिरते ह जैसे कानी गाय अकेले अलग ही अलग भागी फिरती है। इस प्रकार श्रमण गौतम की प्रज्ञा मारी गई है। यदि श्रमण यहा आवें तो उन्हें एक ही प्रश्न में उडा दूँ खाली घडे के समान इधर से उधर उछाल दूँ ।

बुद्ध दिव्यश्रोत्र से निग्रोध के वचन सुन गिञ्जकूट' से उतर सुमागधा के तट पर मोर निवाप में आकर खुले स्थान में चड क्रमण करने लगे। तत्पश्चात् वे निग्रोध के आश्रम में पधारे। अपनी मण्डली के साथ निग्रोध ने उनका स्वागत किया। बुद्ध ने तप-साधना को विषय बनाकर उपदेश देना प्रारम्भ किया जो निग्रोध का अपना धर्म था। उन्होंने वे बातें बताईं जिनसे तप-साधना दूषित हो जाती है। यथा— तप-साधना से आत्माभिमान हो जाता है जिससे तपस्वी अपने आपको श्रेष्ठ समझने लगता है। तपस्वी प्रायः लाभ और यश की कामना से पथ भ्रष्ट हो जाता है— आदि। ये बातें इतनी सत्य और स्पष्ट थीं कि निग्रोध इन्हें अस्वीकार न कर सका।

बुद्ध ने क्रमशः उसे शरीरोत्पीडक तप की अनर्थकता और मन शुद्धि-साधना की साथकता बतलाई जो श्रायः आष्टाङ्गिक माग का पालन करना है और सभी दुःखों के निरोध का माग है। बुद्ध के उपदेश को सुनकर निग्रोध को अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ। उसने बुद्ध के व्यक्तित्व का जो अनादर किया था उसके लिये उसने उनसे क्षमा याचना की।

बुद्ध ने उसे क्षमा-दान देते हुये कहा— "निग्रोध कोई सच्चा मुमुक्षु आवे। मैं उसका अनुशासन करता हूँ धर्मोपदेश देता हूँ। यदि वह वसी साधना करे तो निश्चय ही अविलम्ब परमपद को प्राप्त कर लेगा। 'निग्रोध शायद तुम समझते होगे कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिये ऐसा कहता हूँ किन्तु यह बात नहीं है। तुम्हारे जो आचार्य हैं वही अब भी तुम्हारे आचार्य रहें। निग्रोध, शायद तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि हमें अपने उद्देश्य से च्युत करने के लिये श्रमण गौतम ऐसा कहते ह तो तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिये। जो तुम्हारा अभी उद्देश्य है वही उद्देश्य रहे। मेरे उपदेश करने का अभिप्राय है— सभी मलो का प्रक्षालन और शुद्ध निर्वाण की प्राप्ति"।

(३) चक्रवर्ति-सुत्त

बुद्ध मगध में 'मातुला नामक स्थान में विहार कर रहे थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा— "भिक्षुओं अपना प्रदीप आप बनों, अपनी शरण आप बनों, किसी दूसरे की शरण ग्रहण मत करो। धर्म तुम्हारा प्रदीप बने धर्म तुम्हारी शरण बने, अन्य तुम्हारी शरण न हों"।

तत्पश्चात् बुद्ध ने भिक्षुओं को धार्मिक राजा दम्हनेमि' की कहानी सुनाई जो चारों दिशाओं का विजेता और अधिपति था। उसके चक्रवर्त्तन हस्तिरत्न, अश्वरत्न, मणिरत्न, स्त्रीरत्न, गृहपतिरत्न और पुत्ररत्न (परिणायक रत्न) — ये सात रत्न थे। बद्धावस्था को प्राप्त कर उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी दे, स्वयं गृहत्याग कर पन्नज्या ग्रहण की। इस नये राजा ने चक्रवर्ती के व्रतों का पालन कर उसकी परम्परा सुरक्षित रखी। सात पीढ़ियों तक चक्रवर्ती परम्परा चलती रही। आठवा राजा प्रसाद में पड गया। उसने राजषि के पास जाकर चक्रवर्ती व्रत नहीं पूछा और अपनी ही बुद्धि से शासन करने लगा। वह प्रजा की आर्थिक अवस्था सुधारने और समुन्नत करने में असमर्थ रहा। फलतः दरिद्रता का प्रकोप बढ़ता गया। दरिद्रता के कारण चोरी और हत्या बढ़ी। इस प्रकार देश के जीवन में सभी प्रकार की अवनति होती गई।

बुद्ध ने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर भविष्य में सङ्घ नामक एक चक्रवर्ती राजा होगा जो दरिद्रता दूरकर समाज की नैतिक और सामाजिक अवस्थाओं में स्थिरता लायेगा ।

बुद्ध ने पुनः अपने प्रारम्भिक प्रेरणादायक शब्दों में अपना उपदेश समाप्त करते हुए कहा — भिक्षुओं अपना प्रदीप आप बनो अपनी शरण आप बनो किसी दूसरे की शरण ग्रहण मत करो । धम तुम्हारा प्रदीप बने धम तुम्हारी शरण बने अन्य तुम्हारी शरण न हो ।

(४) अगगञ्ज सुत्त

बुद्ध श्रावस्ती के पास मिगारमाता के प्रासाद पु. बाराम में विहार कर रहे थे । वहाँ एक दिन जब वे खुले स्थान में चढ़ कर बैठे तब भारद्वाज और वासेट्ट नामक दो सामणेर उनके समीप आये और पीछे पीछे घूमने लगे । वासेट्ट ने कहा कि ब्राह्मण लोग कहते हैं कि मनुष्य जाति में वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है । बुद्ध ने कहा कि यह प्रसत्य है क्योंकि सभी जानते हैं कि दूसरो की ही भाँति वे भी माता की कोख से उत्पन्न हुये हैं । मनुष्य की महानता उससे अपने गुणों में है । जन्म न तो पापी को शुद्ध कर सकता है और न शुद्ध को पापी । यथाथ में धम ही महान है ।

बुद्ध ने बताया कि उन्हें कौशलराज प्रसेनजित शाक्यो के अधिपति होते हुये भी धम के ही गौरव से प्रभिवादन करते हैं । धम के ही कारण वे उनके प्रति अपनी विनय और श्रद्धा प्रकट करते हैं ।

बुद्ध ने उन सामणेरों को बताया कि उन्हें अपने सारे भवभाव भुला देने चाहिये और अपने को शाक्यपुत्र ही कहना चाहिए । फिर उन्होंने सष्टि के क्रम पर विचार प्रकट करते हुए यह बताया कि प्रलय के पश्चात् कुछ प्राणी आभास्वर लोक में उत्पन्न हुये । बहुत समय के उपरान्त सष्टि होने लगी और मनोमय सत्त्व उत्पन्न हुय जो एकाग्रता की प्रीति के आहार पर ही रहते थे जो स्वयं प्रभु थे और आकाश में विचरण करते थे बहुत दिनों के पश्चात् पानी की सतह पर मिट्टी जम गई जो स्वाद में घी मक्खन के समान थी । कुछ मधु-समान मीठी भी थी । सत्त्वों ने उसका आस्वादन किया जिससे लोभ उत्पन्न हुआ । लोभ के कारण मिट्टी कडी हो गई । तब जङ्गली धान पदा होने लगा । धीरे धीरे मानव-समाज बना और कम के अनुसार ब्राह्मण वश्य आदि की भी व्यवस्था हुई । जिन्होंने ससार से विरक्त हो माग की साधना की उन्होंने अहत पद भी प्राप्त किया । यही मनुष्य का श्रेष्ठ आदर्श है ।

(५) सम्पसादनीय सुत्त

बुद्ध नालन्दा के पास पावारिक आम्रवन में ठहरे थे । वहाँ सारिपुत्त ने उनके पास आकर कहा— भन्ते सम्मोधि मे भ्रमवान से बढकर कोई दूसरा श्रमण अथवा ब्राह्मण न हुआ, न होगा न इस समय है” । बुद्ध ने कहा— सारिपुत्त तुमने यह बहुत आषभी दीपनी कही है । क्या तुमने भूत तथा भविष्य के सभी बुद्धों के ज्ञान का अवगाहन कर लिया है, जिससे उनके साथ मेरी तुलना कर रहे हो” ?

सारिपुत्त ने विनीत भाव से कहा कि तथागत द्वारा की गई धम्म की व्याख्या इतनी पूर्ण और स्पष्ट है कि उससे सभी शङ्काओं का समाधान हो जाता है । अतः उनकी अद्वितीयता में शङ्का का कोई स्थान ही नहीं है ।

(६) पासादिक-सुत्त

बुद्ध शाक्यो के देश में विहार कर रहे थे । उस समय निगण्ठ-नातपुत्त की पावा में हाल ही में मृत्यु हुई थी । उनके अनुयायियों में फूट हो गई थी और उनमें आपस में कलह हो रहा था । उस समय चुन्दसमणुद्देस

‘पावा में वर्षावास समाप्त कर प्रायुष्मान आनन्द से मिलन को रामगाम प्राया हुआ था। उसने निगण्ठ नातपुत्र के निर्वाण की सूचना उन्हें दी। तब बुद्ध के पास जाकर उन दोनों ने उन्हें इस समाचार से अवगत कराया।

बुद्ध ने कहा कि निगण्ठ नातपुत्र के अनुयायियों में क्लह और फूट का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वह धम स्वारयात और सु उपदिष्ट नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके स्वाख्यात धम में ऐसा नहीं हो सकता।

फिर बुद्ध ने धम पर उपदेश दिया और अहत पद प्राप्त व्यक्ति के लक्षणों को बताया और यह भी बताया कि तथागत का अभिप्राय क्या है*।

* (७) लक्षण सुत्र

बुद्ध श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में ठहरे थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा— भिक्षुओं महापुरुष के बत्तीस महत्पुरुष लक्षण हैं जिनसे युक्त महापुरुषों की दो ही गतियाँ होती हैं तीसरी नहीं—यदि वह धर में रहता है तो धार्मिक धम राजा चारों ओर विजय पाने वाला शान्ति स्थापक सात रत्नों से युक्त चक्रवर्ती राजा होता है। उसके ये सात रत्न होते हैं—चक्र-रत्न हस्तिरत्न अश्वरत्न मणिरत्न स्त्रीरत्न गहपतिरत्न और सातवा परिणायक रत्न। यदि वह गृह त्याग कर प्रव्रजित होता है तो ससार के आवरण को हटाने में समथ अहत सम्यक सम्बुद्ध होता है।

महापुरुष के ३२ लक्षण हैं—

- (१) वह सुप्रतिष्ठित पाद होता है।
- (२) उसके पर के तलवे में सर्वाकार परिपूर्ण नाभि नेमि युक्त सहस्र अरो वाला चक्र होता है।
- (३) उसके आयत पार्श्व होती है।
- (४) वह दीर्घ-गुल होता है।
- (५) उसके हाथ पर कोमल और सुन्दर होते हैं।
- (६) उसके हाथ पर जाल के समान होते हैं।
- (७) वह उस्सङ्घपाद होता है।
- (८) वह एणी-जङ्घ होता है।
- (९) वह आजानुबाहु होता है।
- (१०) वह कोषाच्छादित वस्ति-गुह्य होता है।
- (११) उसका वण स्वर्ण के समान होता है।
- (१२) वह कोमल त्वचा वाला होता है जिससे शरीर पर मैल बूल नहीं चिपटती।
- (१३) उसके एक रोमकूप में एक ही रोम होता है।
- (१४) उसके रोम ऊर्ध्वग्री होते हैं।
- (१५) उसका शरीर ब्राह्म ऋजु होता है।
- (१६) वह सप्त उत्सद होता है।
- (१७) वह सिंह-पूर्वाङ्ग काय होता है।
- (१८) उसके दोनों कंधों के बीच का भाग भरा हुआ होता है।
- (१९) उसके शरीर का परिमण्डल यग्रोध वक्ष के समान तथा लम्बाई चौड़ाई में समानुपात होता है।
- (२०) उसके स्कन्ध समवत होते हैं।
- (२१) वह सुन्दर शिराओं वाला होता है।

- (२२) उसकी हनु सिंह के समान होती है ।
 (२३) उसके चालीस दाँत होते ह ।
 (२४) वह सम-दन्त होता है ।
 (२५) उसके दातो के बीच में विवर नहीं होते ।
 (२६) वह श्वेत दाढ वाला होता है ।
 (२७) उसकी जिह्वा लम्बी होती है ।
 (२८) उसका स्वर करवीक पक्षी के समान नसर्गिक होता है ।
 (२९) वह अभिनील-नेत्र वाला होता है ।
 (३०) उसकी पलकें गाय के समान होती ह ।
 (३१) उसकी भीहो के बीच में श्वेत कोमल कपास सी उर्णा होती है ।
 (३२) उसका सिर राजा की पगडी के समान होता है ।

(८) सिगालोवाद-सुत

बुद्ध राजगृह के वैद्यवनाराम में विहार करते थे । उस समय एक तरुण गृहस्थ सिगाल प्रात काल उठकर राजगृह से निकल भीग-वस्त्र, भीगे केश पूव, दक्षिण पश्चिम, उत्तर ऊपर और नीचे सभी दिशाओ को हाथ जोडकर नमस्कार कर रहा था ।

सिगाल को ऐसा करते देख बुद्ध ने पूछा— सिगाल इस प्रकार तुम दिशाओ को क्यों नमस्कार कर रहे हो ? उसने उत्तर देते हुये कहा— भन्ते, मृत्यु के समय मरण शय्या पर पडे हुये मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि पुत्र दिशाओ को नमस्कार करना । अत पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर म इस प्रकार दिशाओ को नमस्कार कर रहा हूँ ।

बुद्ध ने कहा कि आयुधम में दिशाओ को ऐसे ही नमस्कार नहीं किया जाता । दिशाओ के नमस्कार करने का अर्थ है समाज के विभिन्न सम्बन्धो के उचित व्रतो का पालन करना । इस विशिष्ट अर्थ के अनुसार माता पिता पूव दिशा आचार्य दक्षिण दिशा, पुत्र और स्त्री पश्चिम दिशा, मित्र-अमात्य उत्तर दिशा नौकर चाकर नीचे की दिशा और श्रमण तथा ब्राह्मण ऊध्व दिशा ह । इनके प्रति जो मनुष्य के कर्त्तव्य ह, उन्हें पूरा करने वाला ही दिशाओ के नमस्कार के फल का लाभ करता है ।

(९) आटानाटिय सुत

बुद्ध राजगृह में गिज्झकूट पवत पर ठहरे हुये थे । वहाँ यक्षो गधवों तथा कुम्भण्डो की एक विशाल सेना ले चारो दिकपाली ने आकर बुद्ध की अर्चना की ।

तत्पश्चात महाराज विस्ववण ने बुद्ध से इस प्रकार कहा— भन्ते सयम और धर्माभ्यास में रुचि न रखने वाले यक्ष आपके विरुद्ध है । सम्भव है कि वे एकान्त प्रान्तो में निवास करने वाले आपके शिष्यो को हानि पहुँचाने का प्रयत्न करें । इसलिये उन्हें चाहिये कि वे अपनी रक्षा के लिये 'आटानाटिय-सुत' का पाठ किया करें ।

इस सुत में सबप्रथम विपस्सी' सिखी वेस्सभू आदि पूव बुद्धो की स्तुति की गई है और फिर कुम्भण्ड', 'नाग' विरूपाक्ख आटानाटा कुसिनाटा, 'ततोला 'तत्तला', 'ओजस्सी', तथा 'अरिद्ध आदि भूत प्रेतो से रक्षा की कामना की गई है ।

(१०) सङ्गीति सुत्त

बुद्ध चारिका करते हुये मल्लो की राजधानी पहुँचे और वहाँ चून्द कम्मर पुत्त के आम्रवन में ठहरे । वहाँ लोगो ने आकर उन्हें नवनिर्मित सस्थागार के उदघाटन करने के लिये आमन्त्रित किया । बुद्ध ने उनका आमन्त्रण स्वीकार कर लिया ।

दूसरे दिन बुद्ध ने सस्थागार के द्वार पर पहुँच कर पैर धोने के उपरान्त भीतर जाकर आसन ग्रहण किया । तत्पश्चात् भिक्षुओ और पावा के मल्लो ने भी पर धोकर सस्थागार के भीतर जा अपने निर्धारित आसन ग्रहण किये ।

बुद्ध ने बड़ी रात तक धर्मोपदेश दिया । उपदेश समाप्त होने पर मल्लो ने बुद्ध को प्रणाम किया और विदा हुये । शान्त भिक्षु मण्डली अपने स्थान पर बठी रह गई । बठे बठे थक जाने के कारण बुद्ध लेट गये और उन्होंने सारिपुत्त को आदेश दिया कि वे भिक्षुओ को उपदेश करें ।

सारिपुत्त ने हाल ही में निगण्ठनातपुत्त के निघन पर उनके शिष्यो के बीच उत्पन्न वैमनस्य और कलह की ओर भिक्षुओ का ध्यान आकृष्ट करते हुये कहा कि बुद्ध के सु उपदिष्ट धम में ऐसी कोई आशङ्का न रहने पर भी उन्हें सचेत रहना चाहिये और अपने पक्ष के मूलभूत सिद्धान्तो को भलीभाँति समझ कर हृदयङ्गम करना चाहिये । सिद्धान्तो को स्पष्ट स्मरण रखने के लिये उन्होंने एक एक दो-दो दस दस बातो वाले सिद्धान्तो का एक सग्रह उपस्थित किया यथा—

कौन सा एक धम यथाथ है ?
सभी प्राणी आहार पर स्थित ह ।
कौन दो धम यथाथ है ?
नाम' और 'रूप ।
समथ और विपस्सना' ।
विद्या और विमुक्ति' ।

* * *

कौन पाँच धम यथाथ ह ?
पाँच 'स्कध ।
पाँच नीवरण ।

* * *

कौन दस धम यथाथ ह ?
दस 'कसिण ।
दस 'कुसल-कम्मपथ' ।

(११) बसुत्तर-सुत्त

बुद्ध चम्पा में 'गमगरा पुष्करिणी के तट पर ठहरे थे । वहाँ 'सारिपुत्त' ने पुन एक एक दो-दो दस-दस के क्रम से धम के सिद्धान्तो का उपदेश दिया यथा—

कौन एक धम बहुत उपकारक है ?
कुशल धर्मों में अप्रमाद ।
किस एक धम की भावना करनी चाहिये ?
दोष० - ३

अनुकूल कायगत स्मृति की ।
 कौन एक धम परिज्ञेय है ?
 यह कि स्पश उपादान का प्रत्यय है ।
 कौन एक धम प्रहातय है ?
 अहभाव — यही एक धम प्रहातय है ।
 कौन एक धम अभिज्ञेय है ?
 सभी प्राणी आहार पर स्थित ह ।
 कौन एक धम साक्षात् करणीय है ?
 अ कोप्य चित्त-विमुक्ति ।

* * * * *
 कौन पाच धम बहुत उपकारक है ?
 श्रद्धा आरोग्य निष्प्रपञ्चता उत्साह और सत्य का साक्षात्कार ।

* * * * *
 कौन दस धम प्रहातय है ?

दस मिथ्यात्व — मिथ्या दृष्टि मिथ्या सङ्कल्प मिथ्या वचन मिथ्या-कम मिथ्या जीविका मिथ्या-प्रयत्न मिथ्या स्मृति मिथ्या समाधि मिथ्या ज्ञान और मिथ्या विमुक्ति ।

४ प्रस्तुत अथ इसका महत्त्व

यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस ग्रन्थ के दो सुत्त — 'पासादिक' और सङ्गीति — निगण्ठनात् पुत्त' के निघन के उपरांत उनके शिष्यों के बीच उत्पन्न सभ्रमात्मक स्थिति का विवरण उपस्थित करते हैं । इस प्रकार की परिस्थितियों से भिक्षु-सङ्घ को दूर रखने के लिये ये 'सुत्त बुद्ध के मौलिक सिद्धान्तों का सग्रह उपस्थित करते हैं । यद्यपि सम्पसादनिय तथा 'दसुत्तर सुत्तो' की देशना भिन्न भिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हुई है तथापि इनमें भी इसी प्रकार का प्रयत्न दृष्टिगोचर होता है । इससे स्पष्ट रूप से यही ज्ञात होता है कि सङ्घ भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात् आयुष्मान् महाकस्सप के समक्ष सुभद् ऐसे भिक्षु द्वारा कहे गये वचनों से उत्पन्न होने वाली भावी आशङ्काओं के प्रति पहले ही जागरूक था और राजगृह में सम्पादित प्रथम सङ्गीति से पहले बुद्ध के जीवन-काल में ही वह अपने परम शास्ता के उपदेशों का एक पूर्ण प्रामाणिक सग्रह उपस्थित करने में प्रयत्नशील था ।

इन सुत्तों से यह भी ज्ञात होता है कि कुशीनगर के पास ही मल्लो की राजधानी पावा में निगण्ठ नात् पुत्त' भगवान् महावीर का निर्वाण हुआ था । यह पावा मगध में राजगृह के समीपस्थ पावा से भिन्न थी, जिसका उल्लेख कई 'सुत्तों' में मिलता है । दोनों के पास आश्रय थे । राजगृह के समीपस्थ पावा के पास 'पावारिकाश्रय' और मल्लो वाली पावा के पास चुन्दाश्रय था ।

बौद्ध परम्परा में चक्रवर्ती राजा की जो कल्पना है, उसका पूरा विवरण इस ग्रन्थ में उपलब्ध होता है । इस दृष्टि से भारतीय सस्कृति की अन्य विचार धाराओं से इसकी तुलना करना महत्त्वपूर्ण होगा ।

इसी प्रकार 'अग्गञ्ज सुत्त' में वर्णित सृष्टि प्रलय की तथा 'लक्खण-सुत्त' में वर्णित महापुरुष के बत्तीस लक्षणों की तुलना भारतीय सस्कृति की अथ विचारधाराओं से की जा सकती है ।

'आठानाटिय सुत्त' का महत्त्व भी इसी कोटि का है । भूत प्रेतादि की बाधाओं के परिहार की पौराणिक कल्पनाओं की दृष्टि से इस 'सुत्त' का विशेष महत्त्व और स्थान है ।

चक्रवर्ती राजा के पौराणिक वणन में एक महत्त्व एव अथपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन मिलता है। इस सिद्धान्त के अनुसार निघनता सारे पाप-आरपतन का मूल कारण है ? अतः ससार में सुख और अम्युदय की स्थापना के लिये इसका सवथा उन्मूलन होना आवश्यक है। इससे ज्ञात होता है कि आध्यात्मिक विकास के साथ ही यह परम्परा भौतिक विकास के सम्बन्ध में भी पूर्ण रूपेण जागरूक थी। सङ्गीति सुत्त में सिद्धान्तों की चर्चा करते हुए सवप्रथम इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है कि सभी प्राणियों की स्थिति आहार पर अवलम्बित है (सब्बे सत्ता आहारद्वितिका)।

प्रथम दो खण्डों की भाँति इस खण्ड के सुत्तों में भी अन्य सम्प्रदाय के साधु-सन्ध्यासियों का विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है। इस दृष्टि में सुनास्वत्त का चरित्र विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। प्रारम्भ में वह बुद्ध का अनुयायी था और उसे इस बात पर पूर्ण विश्वास था कि उनके द्वारा प्रतिपादित माग पर चलन से निर्वाण प्राप्त हो जाता है। लेकिन आगे चलकर वह उनका विरोधी हो गया और उसने सङ्घ को छोड़ दिया। विचित्र बात तो यह रही कि कुक्कुर व्रत धारण करने वाले कोरस्वत्तिय और मदिरा मास का व्रत ग्रहण करने वाले कलारमट्टक जैसे साधुओं में उसकी श्रद्धा हो गई। इस प्रकार के साधुओं के प्रति जनता आकृष्ट होकर अपनी श्रद्धा प्रकट करती थी और ये लोग अपने अपने अनुयायियों का वग बनाने में भी समर्थ हुये थे। इन साधु-सन्ध्यासियों में भगवत् तथा निग्रोध जैसे कुछ योग्य जिन्होंने बुद्ध की महत्ता एव शिक्षा को पूर्ण निष्ठा से स्वीकार किया था। दूसरी ओर पाथिकपुत्त और सुनस्वत्त जैसे भी साधु थे जो बुद्ध के घोर विरोधी होने के साथ ही सामान्य जनता में उनका विरोध करने के लिये तत्पर रहते थे। उपयुक्त विवरण उस पृष्ठभूमि का परिचय देते हैं जिसका आश्रम लेकर बुद्ध को अपने परमोद्देश्य का प्रचार और प्रसार करना था।

वर्तमान खण्ड का सिगालोवाद नामक आठवाँ सुत्त अपनी निजी और अनूठी विशेषताओं के कारण सम्पूर्ण पालि तिपिटक में अपना विशेष महत्त्व रखता है। यह सत्य है कि बुद्ध ने अपने उपदेश ससार से विरक्त भिक्षुओं को ध्यान में रखकर दिये थे क्योंकि विरक्त होने के कारण वे अपने आपको समर्पित करने में अधिक समर्थ हो सकते थे। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि बुद्ध गहस्थ धम के सम्बन्ध में सवथा मौन ही रहे ह। उन्होंने गहस्थों को लम्ब करके जो उपदेश दिये हैं उसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत सिगालोवाद-सुत्त है। इस 'सुत्त' में भगवान् बुद्ध ने गहस्थ जीवन के सारे सम्बन्धों और कर्तव्यों को दृष्टि में रखकर ही अपना उपदेश दिया है। इसीलिये अग्रयन एव पाठ की दृष्टि से यह सुत्त सम्पूर्ण विश्व के बौद्ध-गहस्थों के लिये विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।

५ प्रस्तुत सस्करण

यह ग्रन्थ 'दीघनिकाय के तीसरे खण्ड पाथिकवग्ग का निम्नलिखित ग्रन्थों के पाठों के आधार पर निर्मित और देवनागरी लिपि में मुद्रित नया सस्करण है—बर्मी-सस्करण छट्ट-सङ्गायन प्रकाशन (१९५६), सिंहली सस्करण, आणवास थेर द्वारा सम्पादित (१९२९) स्यामी-सस्करण, महामकुट राजकीय प्रकाशन (१९२६) तथा रोमन सस्करण, श्री जे० ई० कार्पेण्टर द्वारा सम्पादित (पालि टेक्स्ट सोसायटी, १९११)

स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियों के अनर्वाष्ट्रीय सङ्घ के सोत्साह सम्मिलित प्रयत्न से तैयार किये गये 'छट्ट सङ्गायन' सस्करण को हमने अपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार करने के लिये आधार-स्वरूप ग्रहण किया है। उसके पाठ और धमस्कन्ध नियोजन से साधारणतः हम सहमत रहे ह। किन्तु आधुनिक दृष्टि से अपने सस्करण को अधिक उपयोगी बनाने के लिये हमने दो नये प्रयत्न किये हैं। इन प्रयत्नों में से पहला प्रयत्न सम्पूर्ण ग्रन्थ में एक व्यवस्थित क्रम से विराम चिह्नों का प्रयोग और दूसरा शीषक एव अनुशीषक से सुसज्जित पाठ का एक साङ्गोपाङ्ग स्वरूप उपस्थित करना है।

(क) शीषक

पुरानी पद्धति के पालि-ग्रन्थो में किसी प्रकरण के प्रारम्भ में शीषक देने की प्रथा नहीं थी। इसके स्थान पर हमें प्रकरण के अन्त में निद्रित जसे शब्द उपलब्ध होते हैं, किंतु इससे आधुनिक पाठक को सारे प्रकरण का सार-तत्त्व ग्रहण कर अपने समक्ष वण्य विषय का एक सम्पूर्ण चित्र उपस्थित करने में जटिलता का अनुभव करना पड़ता है। अतः उपयोगिता की दृष्टि से हमने यह आवश्यक समझा कि शीषक एवं अनुशीषक के क्रम से सुसज्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना उत्तम होगा। यथासम्भव इन शीषको का निर्माण मूल-ग्रन्थ से चुने गये शब्दों से ही किया गया है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि अपने इस प्रयत्न में हम कहा तक सफल हुये हैं। स्मरण रहे कि ये शीषक हमारे अपने दिये हुये हैं जो मूल पाठ में प्राप्त नहीं होते।

प्रधान शीषक १६ प्वाइण्ट मोनो काले टाइप में मुद्रित हैं और प्रकरण बिह्ल (१) के साथ उनकी क्रम-संख्या दे दी गई है तथा उसके अन्तगत आने वाले द्रष्टव्य शीषक भी बिना क्रम संख्या के उसी टाइप में मुद्रित किये गये हैं। अनुशीषक क्रम संख्या के साथ १४ प्वाइण्ट मोनो काले टाइप में और उसके अतगत आनेवाले छोटे शीषक क्रम-संख्या के साथ १२ प्वाइण्ट मोनो काले टाइप में मुद्रित किये गये हैं। पृष्ठ के ऊपर प्रधान शीषको का ही उल्लेख किया गया है।

(ख) पाठभेद निर्धारण

पाठभेद निर्धारण में शब्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि ऐतिहासिक दृष्टि से कितने रूपों का अत्यधिक प्रचलन रहा है। दोनों दृष्टियों से सिद्ध यदि एक शब्द के एकाधिक रूप हुये हैं तो हमने एक को मूल पाठ के साथ और दूसरे को पष्ठ के नीचे दी गई टिप्पणी में दे दिया है। यहाँ एक के ग्रहण करने का यह अर्थ नहीं है कि हमने दूसरे रूप का बहिष्कार किया है।

(ग) विराम चिह्न

पालि की पुरानी पद्धति में पूण विराम के अतिरिक्त अन्य विराम चिह्नों के प्रयोग करने की प्रथा नहीं थी। स्वामी संस्करण में इसी प्राचीन पद्धति का अनुसरण किया गया है। लेकिन कहीं कहीं पालि की वाक्य-योजना इतनी उलझी हुई मिलती है कि उसके अंशों के पारस्परिक सम्बन्ध को विराम चिह्नों के अभाव में समझना अत्यन्त कठिन हो जाता है। अतः प्रस्तुत संस्करण में हमने अन्य आवश्यक विराम चिह्नों का निस्संकोच प्रयोग किया है। इन विराम चिह्नों का प्रयोग करने में हमारा यही उद्देश्य रहा है कि वाक्य का अर्थ अधिक से अधिक स्पष्ट हो जाय। जहाँ विराम चिह्नों के प्रयोग की अनिवार्यता नहीं समझी गई वहाँ पर हमने उनका प्रयोग उचित नहीं समझा। फिर भी हमने इस बात का ध्यान रखा है कि विराम चिह्नों के प्रयोग में यथासम्भव एकरूपता और सज्जति बनी रहे।

इस संस्करण में निम्नलिखित विराम चिह्न व्यवहृत हुए हैं — पूणविराम (।) अधविराम (,) उपविराम () स्वल्प विराम () प्रश्नवाचक (?) विस्मयादि बोधक (!), युग्मेका (-) रेखिका (—), मुख्य उद्धरण (') उद्धरण ()

ग्रन्थमाला के प्रथम पुष्प 'महावग्ग' में हमने उद्धरण चिह्न का प्रयोग वही किया है, जहाँ उसकी उद्धरण-बोधक क्रिया उक्त है। परन्तु अब यह निश्चय हुआ है कि जहाँ उद्धरण-बोधक क्रिया उक्त नहीं है वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाय। प्रधान उद्धरणों का बोध मुख्य उद्धरण चिह्न और उसके अन्तर्गत आनेवाले उद्धरणों का बोध उद्धरण चिह्नों से कराया गया है और यदि कहीं उसके अतगत कोई उद्धरण आ गया है तो उसका बोध क्रिया के आगे रेखिका चिह्न के प्रयोग से कराया गया है।

प्रधान उद्धरणों के सभी पराग्राफ तद्बोधक मुख्य चिह्नों से और अतगत उद्धरणों के उद्धरण चिह्नों से प्रारम्भ किय गये ह ।

(घ) साङ्केतिक

अथ टिप्पणी में प्रयुक्त रो० सी० स्या० तथा म० सङ्केत क्रमशः रोमन सिंहली स्यामी तथा मरम्म (बर्मी) सस्करणों के लिये प्रयुक्त हुये ह ।

पृष्ठ के पाश्व में प्रयुक्त R और B सङ्केत क्रम से रोमन और बर्मी सस्करणों का बोध कराते ह । इन सङ्केतों के साथ दी हुई सरया से यह सूचित होता है कि उन सस्करणों के उस पृष्ठ का प्रारम्भ उसी पङ्क्ति में से होता है ।

रोमन सस्करण की दी हुई पृष्ठ सरया के सङ्केतों से 'पालि टक्स्ट सोसायटी' द्वारा प्रकाशित पालि के कोष तथा रोमन सस्करण के आधार पर बने हुये कोषों तथा लिखे गये शोध ग्रंथों में उद्धरणविशेष को खोज लेना सरल हो जायगा । अतएव उसके इस महत्त्व को समझकर प्रस्तुत सस्करण में रोमन सस्करण की पृष्ठ सख्या दे दी गई है । इसके साथ ही बर्मी लिपि म बर्मा से प्रकाशित प्राचीन स्थविरवाद परम्परा के प्रतिनिधि छद्म सङ्गायन का भी विशेष महत्त्व और स्थान है । अतः उसकी इस विशेषता को ध्यान में रखकर उसकी भी पृष्ठ सख्या प्रस्तुत ग्रंथ में दी गई है ।

(च) पृष्ठोपरि-कोण में प्रयुक्त सङ्केत

युग्म सख्यक पृष्ठों में प्रयुक्त सङ्केत सुत्त शीषक तथा पराग्राफ के प्रारम्भ का और अयुग्म सख्यक पृष्ठों में अत का द्योतन करते ह ।

(छ) वर्तिताना

पालि में एव, अपि और इति इन अव्ययों के आदि अक्षर का प्रायः लोप हो जाया करता है और उनके रूप व, पि तथा ति रह जाते ह । कुछ विद्वानों के मतानुसार इन लघु रूपों को स्वतंत्र शब्द मान लेना अधिक सङ्गत है । हमने भी प्रस्तुत सस्करण में ऐसा ही किया है ।

हमने एक ही शब्द में आने वाली परसवण सन्धि का अनिवाय रूप से प्रयोग किया है और उन्हें इस प्रकार व्यवहृत किया है—सङ्ख, किञ्चि, पञ्च इत्यादि । पर जहाँ उपयुक्त बात नहीं है वहाँ ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा गया है । उदाहरणार्थ—एव पि, कम्म ति इत्यादि । परन्तु ऐसे प्रयोगों में यह दिग्दर्शित करने के लिये कि इनके सन्धियुक्त रूप भी व्याकरण सिद्ध ह तथा भाषा में इनका प्रयोग भी अनक स्थलों पर हुआ है हमने उनका व्यवहार किया है । उदाहरणार्थ—एवस्मि कम्मन्ति, किति इत्यादि ।

कुछ पाश्चात्य सम्पादकों ने वर्तिताना की इसी पद्धति को स्वीकार किया है । लेकिन उन स्थानों पर जहाँ 'ति' और 'पि', इ तथा अ से परे आये ह वहाँ उन्होंने सस्कृत के सन्धि नियम 'अक सर्वर्णो दीर्घ' का आश्रय लेकर इन स्वतन्त्र मान्य अव्ययों को उनके पहले आनेवाले शब्दों से सन्धियुक्त करके व्यवहृत किया है । उदाहरणार्थ—वसेसोति, तस्सापि इत्यादि । किन्तु ऐसे स्थलों पर भी हमने उन्हें अलग ही रखा है । उदाहरणार्थ—वसेसो ति तस्सा पि । 'ति' तथा 'पि' के पूर्व आये हुये स्वरों का दीर्घ होना पालि के मोग्गल्लान-व्याकरण से सिद्ध है । इसके विधान के लिये उसमें 'व्यञ्जनं दीर्घरस्ता' (१।३३) सूत्र दिया हुआ है जिसके अनुसार यदि पूर्व स्थित स्वर के बाद में 'यञ्जन हो तो वह प्रायः दीर्घ हो जाया करता है । यथा—खति + परम = ख तो परम गोतम + ति = गोतमा ति, होति + ति = होती ति इत्यादि ।

इस ग्रन्थमाला के पहले दो खण्ड महावग्ग और चुल्लवग्ग लगभग मुद्रित हो चुके हैं और यह प्रयत्न किया जा रहा है कि वे पाठको को यथा शीघ्र प्राप्य हो जाय । इन दोनों खण्डों के मुद्रण के पश्चात् हमारे लिये यही उपयुक्त और उचित था कि हम विनयपिटक के पाचत्तिय पाराजिक और परिवार नामक शेष तीन खण्डों का प्रकाशन करते जिनकी पाण्डुलिपिया बहुत दिनों से पूण होकर पडी हैं । परंतु हमने दीघनिकाय के तीन खण्डों को ही प्राथमिकता देना अधिक उचित समझा है ।

प्रकाशनाथ कागज के प्राप्त होने में विलम्ब होने से मुद्रण काय फरवरी १९५८ ई० के उत्तरार्ध में प्रारम्भ हो सका । फिर भी इस दो मास की अवधि में ही दीघनिकाय के इन तीन खण्डों का मुद्रण कराने में हम समर्थ हो सके हैं ।

वाराणसी में प्रूफ आदि के सशोधन काय के लिये नियुक्त हमारे विभाग के सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी एम० ए० तथा सहायक सम्पादक श्री बौरबल शर्मा एम० ए० और श्री श्यामदेव द्विवेदी एम० ए० ने इन तीन खण्डों को इतने कम समय में मुद्रित और प्रकाशित कराने के लिये रात दिन अथक परिश्रम किया है ।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारती महाविद्यालय के रीडर डा० अवधकिशोर नारायण एम० ए० पी एच० डी० इस आमुख की पाण्डुलिपि तयार करने में अत्यधिक सहायक रहे हैं । अत वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं ।

विद्यामन्दिर प्रेस (प्राइवेट) लिमिटेड वाराणसी के अध्यक्ष तथा कमचारीगण हमारे धन्यवाद के पात्र हैं जिनकी सहयोग भावना और तत्परता से हम इन खण्डों को अवधि के भीतर मुद्रित कराने में समर्थ हो सके हैं ।

भिक्षु जगदीश काश्यप

दीघनिकायपालि

(३ पाथिकवग्गो)

सुत्तसूची

१ पाथिकसुत्त	पिट्ठङ्का		पिट्ठङ्का
§ १ सुनक्खत्तस्स भगवति अस्सद्धा	३	§ २ भगवा पि परिब्बाजकाराम	
“न मे भगवा इद्धिपाटिहारिय करोति । ४		उपसङ्गमि	३०
न मे भगवा अग्गञ्जा पञ्जापेति । ५		§ ३ निग्रोधो तपोजिगुच्छाय	
§ २ सुनक्खत्तो कोरक्खत्तिये पसन्नो	६	पञ्ह पुच्छि	३१
§ ३ सुनक्खत्तो कळारमट्टके पसन्नो	६	§ ४ तपोजिगुच्छाय उपविकलेसा	३३
§ ४ अचेलो पाथिकपुत्तो	११	§ ५ तपस्सी तेसु ठानेसु	
§ ५ पाथिकपुत्तस्स आरामे परिसा		परिसुद्धो होति	३५
सन्निपति	१४	§ ६ तपोजिगुच्छाय अग्गञ्जा	
§ ६ पराभूतरूपो पाथिकपुत्तो	१६	च सार च	३८
लिच्छविमहामत्तो त आनेतु गच्छि	१६	§ ७ सन्धानो गहपति निग्रोध	
जालियो त आनेतु गच्छि	१८	चोदेसि	४१
जरसिञ्जालूपमा पाथिकपुत्तो	१९	§ ८ निग्रोधो अच्चय अच्चयतो	
§ ७ भगवा इद्धिपाटिहारिय अकासि	२२	पटिजानि	४३
§ ८ अग्गञ्जापञ्जापन आरम्भ		३ चक्कवत्तिसुत्त	
देसना	२३	§ १ दब्बहेमिचक्कवत्तिराजा	४६
इस्सरकुत्त ब्रह्मकुत्त	२३	§ २ चक्कवत्तिअरियवत्त	४८
(क) ब्रह्मा इस्सरो कत्ता	२३	§ ३ चक्करतन	४८
(ख) खिड्ढापदोसिका देवा	२५	§ ४ दालिदिये वेपुल्ल गते	५१
(ग) मनोपदोसिका देवा	२६	दसवस्सायुकसमयो	५६
(घ) अधिच्चसमुप्पन्न	२७	§ ५ सङ्घो नाम चक्कवत्ती राजा	
(ङ) सुभ्र विमोक्ख	२८	उप्पज्जिस्सति	५८
२ उदुम्बरिकसुत्त		सङ्घराजउप्पत्ति	५६
§ १ सन्धानो गहपति परिब्बाज-			
काराम उपसङ्गमि	२९		

	पिट्टङ्का		पिट्टङ्का
§ ६ मेत्तेय्यो नाम भगवा		● (४) आदेसनविधासु	८०
उप्पज्जिस्सति	६०	(५) दस्सनसमापत्तीसु	८१
§ ७ अत्तदीपा विहरथ धम्मदीपा	६१	(६) पुग्गलपञ्जात्तीसु	८२
गोचरे चरथ	६१	(७) पधानेसु	८२
४ अगगञ्जासुत्त		(८) पटिपदासु	८२
§ १ वासेट्टुभारद्वाजा भगवन्त		(९) भस्ससमाचारे	८३
उपसङ्कमिसु	६३	(१०) अनुसासनविधासु	८३
§ २ धम्मो हि सेट्टो जनेतस्मि	६४	(११) षरपुग्गल्लविभुत्तिञ्जाणे	८४
धम्मकायो तथागतो	६६	(१२) सस्सतवादेसु	८४
§ ३ अय लोको सवट्टति विवट्टति	६६	(१३) पुब्बे निवासानुस्सतिञ्जाणे	८६
रसपथविपातुभावो	६७	(१४) सत्तान् चतुत्तपपातञ्जाणे	८६
चिदिमसुरियादिपातुभावो	६७	(१५) इद्धिविधासु	८७
भूमिपप्पटकपातुभावो	६८	§ ३ सत्था अब्भनुमोदि	८८
पदालतापातुभावो	६८	६ पासादिकसुत्त	
अकट्टपाकसालिपातुभावो	६९	§ १ निगण्ठो नाटपुत्तो कालङ्कतो	९१
इत्थिपुरिसलिङ्गपातुभावो	६९	§ २ एव हेत होति दुरक्खाते	
मेथुनधम्मसमाचारे	७०	धम्मविनये	९२
सालिविभागो	७१	§ ३ एव हेत होति स्वाक्खाते	
अदिन्नादानादि पञ्जायि	७२	धम्मविनये	९३
महासम्मतराजा सम्मन्नितो	७२	§ ४ एवरूपो सत्था अनुत्तप्पो होति	९४
ब्राह्मणमण्डल	७३	§ ५ एवरूपो सत्था अननुत्तप्पो होति	९४
वेस्समण्डल	७४	§ ६ ब्रह्मचरियपारिपूरिअङ्गानि	९५
सुद्धमण्डल	७४	§ ७ सब्बेहि सङ्गायितब्ब न	
§ ४ खीणासवो नेस अगमक्खायति	७५	विवदितब्ब	९८
बोधिपक्खियभावना	७६	§ ८ सब्बह्मचारिम्मिह वम्म भासिते	९९
५ सम्पसादनीयसुत्त		§ ९ पटिसङ्गा योनिसो पच्चयपटि-	
§ १ सारिपुत्तस्स सीहनादो	७७	सेवना	१००
§ २ एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म		§ १० चत्तारो अरिया सुखल्लि-	
देसेति	७९	कानुयोगा	१०१
(१) कुसलसु धम्मेषु	७९	§ ११ खीणासवस्स अब्बानि	
(२) आयतनपण्णत्तीसु	७९	ठानानि	१०३
(३) गम्भावक्क तीसु	७९		

पिटृच्छा

- § १२ तस्मा 'तथागतो' ति
बुच्चति १०३
- § १३ कि अब्याकत कि वा ब्याकत १०५
पुं ब तपर तसहगतदिद्विनिस्सया १०६

७ लक्खणसुत्त

- § १ द्वत्तिसमहापुरिसलक्खणानि ११०
- § २ इमस्स कम्मस्स कटत्ता इदं
लक्खण ११२
- (१) सुप्पतिट्ठितपादता ११२
- (२) पादतलचक्कता ११४
- (३ ५) आयतपण्हतादि ११५
- (६) सत्तुस्सदता ११६
- (७ ८) करचरणमुदुजालता ११७
- (९ १०) उस्सङ्गपाद उद्धगलोमता ११९
- (११) एण्णिजङ्घता १२०
- (१२) सुखुमच्छविता १२१
- (१३) सुवण्णवण्णता १२३
- (१४) कोसोहितवत्थगुहता १२४
- (१५ १६) निग्रोधपरिमण्डलता अनोन
मतजाणुपरिमज्जनता च १२५
- (१७ १९) सीहपुब्बद्धकायतादि १२६
- (२०) रसग्गसग्गिता १२८
- (२१ २२) अभिनीलनेत्तता गोपखुमता च
१२९
- (२३) उण्हीससीसता १३०
- (२४ २५) एकेकलोमता उण्णाभ
मुक तरता च १३१
- (२६ २७) चत्तालीसदत्तता
अविरळदत्तता च १३२
- (२८ २९) प्हूतजि हता
ब्रह्मास्सरता च १३३
- (३०) सीहहनुता १३४
- (३१ ३२) समदत्तता
सुककदाठता च १३६

८ सिङ्गालसुत्त

- § १ सिङ्गालको गहपतिपुत्तो १३६
- § २ एव छ दिसा नमस्सितब्बा १३९
- (१) चत्तारो कम्मकिलेसा पहीना ह्वोन्ति १४०
- (२) चत्तहि ठानेहि पापकम्म न करोति १४०
- (३) छ अपायमुखानि न सेवति १४१
- सुरामेरयस्स छ आदीनवा १४१
- विकालचरियाय छ आदीनवा १४१
- समज्जाभिचरणस्स छ आदीनवा १४१
- जूतप्पमादस्स छ आदीनवा १४१
- पापमित्तताय छ आदीनवा १४२
- आलस्यस्स छ आदीनवा १४२
- § ३ अमित्ता मित्तपतिरूपका वेदि-
तब्बा १४३
- § ४ मित्ता सुहदा वेदितब्बा १४४
- § ५ छद्दिसापटिच्छादन १४६
- पुरत्थिमा दिसा मातापितरो १४६
- वक्खिणा दिसा आचरिया १४६
- पच्छिमा दिसा भरिया १४६
- उत्तरा दिसा मित्तामच्चा १४७
- हेट्ठिमा दिसा दासकम्मकरा १४७
- उपरिमा दिसा समणब्राह्मणा १४८

९ आटानाटियसुत्त

- § १ चत्तारो महाराजा १५०
- § २ आटानाटिया रक्खा १५१
- § ३ महासेनापतीन उज्झापेतब्ब १५६
- § ४ सत्था अब्भनुमोदि १५८

१० सङ्गीतिसुत्त

- § १ सारिपुत्तो अनुञ्जातो धम्मिया
कथाय १६६
- § २ निगण्ठा भित्ता भण्डनजाता १६७

		पिटुङ्का	
§	§ ३ तत्थ सब्बेहेव सङ्गायितब्ब	१६८	एको धम्मो
	एको धम्मो सम्मदक्खातो	१६८	द्वे धम्मा
§	द्वे धम्मा सम्मदक्खाता	१६९	तयो धम्मा
	तयो धम्मा सम्मदक्खाता	१७०	चत्तारो धम्मा
४	चत्तारो धम्मा सम्मदक्खाता	१७३	पञ्च धम्मा
	पञ्च धम्मा सम्मदक्खाता	१८२	छ धम्मा
§	छ धम्मा सम्मदक्खाता	१८८	सत्त धम्मा
	सत्त धम्मा सम्मदक्खाता	१९३	अट्ठ धम्मा
§	अट्ठ धम्मा सम्मदक्खाता	१९६	नव धम्मा
	नव धम्मा सम्मदक्खाता	२०२	दस धम्मा
§	दस धम्मा सम्मदक्खाता	२०५	तस्सुद्धान
§	११ दसुत्तरसुत्त		
	§ १ आयस्मा सारिपुत्तो भिक्खू		
	आमन्तेसि	२१०	

सुत्तपिटके
दीघनिकायो
(पाथिकवग्गो)

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्भासम्बुद्धस्स

दीघनिकायपालि

पाथिकवग्गो^१

१ पाथिकसुत्तं^२

§१ सुनक्खत्तस्स भगवति अस्सद्धा

१ एव मे सुत । एक समय भगवा मल्लेसु विहरति अनुपिय^३ नाम मल्लान निगमो । अथ खो भगवा पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर-
मादाय अनुपिय पिण्डाय पाविसि । अथ खो भगवतो एतदहोसि-
“अतिप्पगो खो ताव अनुपियाय पिण्डाय चरित्तु । यन्तूनाह येन भग्गवगोत्तस्स
परिब्बाजकस्स आरामो येन भग्गवगोत्तो परिब्बाजको तेनुप-
सङ्कमेय्य”ति ।

B 1
R 1

२ अथ खो भगवा येन भग्गवगोत्तस्स परिब्बाजकस्स आरामो यन
भग्गवगोत्तो परिब्बाजको तेनुपसङ्कमि । अथ खो भग्गवगोत्तो परिब्बाजको
भगवन्त एतदवोच-“एतु खो, भन्ते, भगवा । स्वागत,^४ भन्ते, भगवतो ।
चिरस्स खो, भन्ते, भगवा इम परियायमकासि यदिद इधागमनाय । निमीदतु,
भन्ते, भगवा । इदभासन पञ्जत्त”ति । निसीदि भग्गवां पञ्जत्ते आसने ।
भग्गवगोत्तो पि खो परिब्बाजको अञ्जतर नीच आसव गहेत्वा एकमन्त
निसीदि । एकमन्त निसिन्तो खो भग्गवगोत्तो परिब्बाजको भगवन्त एतदवोच-
“पुरिमानि, भन्ते, दिवसानि पुरिमतरानि सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो येनाह
तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा म एतदवोच-‘पच्चक्खातो’ दानि मया, भग्गव,
15 B 2

R 2

10

15 B 2

१ पाथेय्यवग्गो - सी०, पाथिकवग्गो - स्या० । २ पाठकसुत्त - स्या०, रो० । ३ अनुपिय -
स्या० । ४ अनुपिय - सी०, अनुपियाय - रो० । ५ सागत - रो० । ६ पञ्जाग्गिहितो - सी० ।

भगवा । न दानाहं भगवन्त उद्दिस्स विहरामी' ति । कच्चेत, भन्ते, तथेव यथा सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो अवचा' ति ?

३ "तथेव खो एत, भग्गव, यथा सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो अवचा' । पुरिमानि, भग्गव, दिवसानि पुरिमतरानि सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो येनाह तेनुपसङ्गमि, उपसङ्गमित्वा म अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त 5 निसिन्नो खो, भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो म एतदवोच-पच्चक्खामि दानाह, भन्ते, भगवन्त । न दानाह, भन्ते, भगवन्त उद्दिस्स विहरिस्सामी' ति । एव वुत्ते, अह, भग्गव, सुनक्खत्त लिच्छविपुत्त एतदवोच-अपि नु ताह, सुनक्खत्त, एव अवच-एहि त्व, सुनक्खत्त, मम उद्दिस्स विहराही' ति ?

10 'नो हेत, भन्ते' ।

R 3

'त्व वा पन म एव अवच-अह, भन्ते, भगवन्त उद्दिस्स विहरिस्सामी' ति ?

'नो हेत, भन्ते' ।

15 'इति किर, सुनक्खत्त, नेवाह त वदामि-एहि त्व, सुनक्खत्त, मम उद्दिस्स विहराही ति, नपि किर म त्व वदेसि-अह, भन्ते, भगवन्त उद्दिस्स विहरिस्सामी ति । एव सन्ते, मोघपुरिस, को सन्तो क पच्चाचिक्खसि ? पस्स, मोघपुरिस, याव च ते इद अपरद्ध' ति ।

"न मे भगवा इद्धिपाटिहारिय करोति" ।

४ 'न हि पन मे, भन्ते, भगवा उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय करोती' ति ।

20 'अपि नु ताह, सुनक्खत्त, एव अवच-एहि त्व, सुनक्खत्त, मम उद्दिस्स विहराहि, अह ते उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय करिस्सामी' ति ?

'नो हेत, भन्ते' ।

'त्व च पन म एव अवच-अह, भन्ते, भगवन्त उद्दिस्स विहरिस्सामि, भगवा मे उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय करिस्सती' ति ?

25 'नो हेत, भन्ते' ।

'इति किर, सुनक्खत्त, नेवाह त वदामि-एहि त्व, सुनक्खत्त, मम उद्दिस्स विहराहि, अह ते उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय करिस्सामी ति, न पि किर म त्व वदेसि-अह, भन्ते, भगवन्त उद्दिस्स विहरिस्सामि,

१-१ नाह भग्गव-सी०, न दानाह भग्गव-स्या०, रो० । २ अवोच-सी० । ३ अवोच-स्या० । ४ याव-म० ।

भगवा मे उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय करिस्सती ति । एव सन्ते, मोघपुरिस,को सन्तो क पच्चाचिक्खसि ? त कि मञ्जसि, सुनक्खत्त, कते वा उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिये अकते वा उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिये, यस्सत्थाय मया धम्मो देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाया' ति ?

B

5

'कते वा, भन्ते, उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिये अकते वा उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिये, यस्सत्थाय भगवता धम्मो देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाया' ति ।

R

'इति किर, सुनक्खत्त, कते वा उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिये अकते वा उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिये, यस्सत्थाय मया धम्मो देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाय । तत्र,सुनक्खत्त, कि उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय कत करिस्सति ? पस्स, मोघपुरिस, याव च ते इद अपरद्ध' ति ।

10

“न मे भगवा अग्गञ्जं पञ्जापेति” ।

५ 'न हि पन मे, भन्ते, भगवा अग्गञ्ज पञ्जापेती'ति ?

'अपिनु ताह, सुनक्खत्त, एव अवच- एहि त्व, सुनक्खत्त, मम उद्दिस्स विहराहि, अह ते अग्गञ्ज पञ्जापेस्सामी' ति ?

15

'नो हेत, भन्ते' ।

'त्व वा पन म एव अवच- अह, भन्ते, भगवन्त उद्दिस्स विहरिस्सामि, भगवा मे अग्गञ्ज पञ्जापेस्सती'ति ?

'नो हेत, भन्ते' ।

20

'इति किर, सुनक्खत्त, नेवाह त वदामि- एहि त्व, सुनक्खत्त, मम उद्दिस्स विहराहि, अह ते अग्गञ्ज पञ्जापेस्सामी ति, न पि किर म त्व वदेसि- अह, भन्ते, भगवन्त उद्दिस्स विहरिस्सामि, भगवा मे अग्गञ्ज पञ्जापेस्सती ति । एव सन्ते, मोघपुरिस, को सन्तो क पच्चाचिक्खसि ? त कि मञ्जसि, सुनक्खत्त, पञ्जात्ते वा अग्गञ्जे अपञ्जात्ते वा अग्गञ्जे यस्सत्थाय मया धम्मो देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाया'ति ?

25

'पञ्जात्ते वा, भन्ते, अग्गञ्जे अपञ्जात्ते वा अग्गञ्जे, यस्सत्थाय भगवता धम्मो देसितो सो निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाया'ति ।

'इति किर, सुनक्खत्त, पञ्जात्ते वा अग्गञ्जे अपञ्जात्ते वा अग्गञ्जे,

R.

यस्सत्थाय मया धम्मो देसितो सो निय्झाति तक्करस्स दुक्खक्खयाय । तत्र, सुनक्खत्त, कि अग्गञ्ज पञ्जात्त करिस्सति ? पस्स, मोघपुरिस, याव च ते इद अपरद्ध' ।

६ 'अनेकपरियायेन खो ते, सुनक्खत्त, मम वण्णो भासितो वज्जि-
 B 4 5 गामे— इति पि सो भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो
 लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा
 ति । इति खो ते, सुनक्खत्त, अनेकपरियायेन मम वण्णो भासितो
 वज्जिगामे । अनेकपरियायेन खो ते, सुनक्खत्त, धम्मस्स वण्णो भासितो वज्जि-
 गामे— स्वाक्खातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओप-
 19 नयिको पच्चत्त वेदितब्बो विञ्जूही ति । इति खो ते, सुनक्खत्त, अनेकपरि-
 यायेन धम्मस्स वण्णो भासितो वज्जिगामे । अनेकपरियायेन खो ते, सुनक्खत्त,
 सङ्घस्स वण्णो भासितो वज्जिगामे— सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुप्प-
 टिपन्नो' भगवतो सावकसङ्घो जायप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामी-
 चिप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिद चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ट पुरिस-
 25 पुग्गला एस भगवतो सावकसङ्घो आहुनेय्यो पाहुनेय्यो दक्खिण्यो अञ्ज-
 लिकरणीयो अनुत्तर पुञ्जक्खत्त लोकस्सा ति । इति खो ते, सुनक्खत्त,
 अनेकपरियायेन सङ्घस्स वण्णो भासितो वज्जिगामे । आरोचयामि खो ते,
 सुनक्खत्त, पटिवेदयामि खो ते, सुनक्खत्त । भविस्सन्ति खो ते, सुनक्खत्त,
 वत्तारो— नो विसहि सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो समणे गोतमे ब्रह्मचरिय
 20 चरित्तु, सो अविसहन्तो सिक्ख पच्चक्खाय हीनायावत्तो ति । इति खो ते,
 सुनक्खत्त, भविस्सन्ति वत्तारो' ति ।

R 6 "एव खो, भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो मया वुच्चमानो अपक्कमेव
 इमस्सा धम्मविनया यथा त आपायिको नेरयिको ।

१२ सुनक्खत्तो कोरक्खत्तिये पसन्नो

७ "एकमिदाह, भग्गव, समय थूलूसु' विहरामि उत्तरका नाम थूलून'
 25 निगमो । अथ ख्वाह, भग्गव, पुब्बण्हूसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय
 सुनक्खत्तेन लिच्छविपुत्तेन पच्छासमणेन उत्तरक पिण्डाय पाविसि । तेन ख्खे
 पन् समयेन अचलो कोरक्खत्तियो कुक्कुरवतिको' चतुकोण्डको' छमानिकिण्ण
 भक्खस मुखेनेव खादति मुखेनेव भुञ्जति । अद्दसा खो, भग्गव, सुनक्खत्तो

१. उजुप्पटिपन्नो — स्वा०, रो० । २. बुमूसु — रो०, थूलूसु — सी० । ३. बुमून — रो० ।

४. कुक्कुरवतिको — स्या० । ५. चतुकोण्डको — स्या० ।

लिच्छविपुत्तो अचेल कोरक्खत्तियं कुक्कुरवतिक चतुकोण्डिक छमानिकिण्ण भक्खस मुखेनेव खादन्त मुखेनेव भुञ्जन्त । दिस्वानस्स एतदहोसि—‘साधुरूपो वत, भो, अयं समणो चतुकोण्डिको छमानिकिण्ण भक्खस मुखेनेव खादति मुखेनेव भुञ्जती’ ति ।

B ३

‘अथ ख्वाह, भगव, सुनक्खत्तस्स लिच्छविपुत्तस्स चेतसा चेतोपरि- ४
चितक्कमञ्जाय सुनक्खत्त लिच्छविपुत्त एतदवोच—‘त्व पि नाम, मोघपुरिस,
समणो सक्यपुत्तियो पटिजानिस्ससी’ ति ।

‘किं पन म, भन्ते, भगवा एवमाह— त्व पि नाम, मोघपुरिस, समणो ४
सक्यपुत्तियो पटिजानिस्ससी’ ति ?

R 7

‘ननु ते, सुनक्खत्त, इम अचेल कोरक्खत्तिय कुक्कुरवतिक चतु- 10
कोण्डिक छमानिकिण्ण भक्खस मुखेनेव खादन्त मुखेनेव भुञ्जन्त दिस्वान
एतदहोसि— साधुरूपो वत, भो, अयं समणो चतुकोण्डिको छमानिकिण्णं
भक्खस मुखेनेव खादति मुखेनेव भुञ्जती ति ?

‘एव, भन्ते । किं पन, भन्ते, भगवा अरहत्तस्स मच्छरायती’ ति ?

‘न खो अह, मोघपुरिस, अरहत्तस्स मच्छरायामि । अपि च, 15
तुय्हेवेत पापक दिट्ठिगत उप्पन्न त पजह, मा ते अहोसि दीघरत्त अहिताय
दुक्खाय । य खो पनेत, सुनक्खत्त, मञ्जासि अचेल कोरक्खत्तियं— साधुरूपो
अयं समणो ति, सो सत्तम दिवस अलसकेन कालङ्करिस्सति । कालकङ्कतो
च कालकञ्चिका नाम असुरा सब्बनिहीनो असुरकायो तत्र उपपज्जिस्सति ।
कालङ्कत च न बीरणत्थम्बके सुसाने छड्डेस्सन्ति । आकङ्कमानो च 20
त्वं, सुनक्खत्त, अचेल कोरक्खत्तिय उपसङ्कमित्वा पुच्छेय्यासि— जानासि,
आवुसो कोरक्खत्तिय, अत्तनो गतिं ति ? ठान खो पनेत, सुनक्खत्त,
विज्जति य ते अचेलो कोरक्खत्तियो ब्याकरिस्सति— जानामि, आवुसो
सुनक्खत्त, अत्तनो गतिं, कालकञ्चिका नाम असुरा सब्बनिहीनो असुरकायो
तत्राम्हि उपपन्नो’ ति ।

25

‘अथ खो, भगव, सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो येन अचेलो कोरक्खत्तियो
तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा अचेल कोरक्खत्तिय एतदवोच— ‘व्याकतो ४
खोसि, आवुसो कोरक्खत्तिय, समणेन गोतमेन— अचेलो कोरक्खत्तियो सत्तम

B, 4

१ कोरक्खत्तिय—सी० । २ अरह—सी० स्या०, रो० । ३ अचेलो—स्या० । ४ कोर-
क्खत्तियो—स्या०, कोरक्खत्तिय—सी० । ५ कालकतो—सी०, स्या०, रो० । ६, कालकञ्चिका—
सी०, स्या०, कालकञ्जा—रो० । ७ तत्राम्हि—सी० स्या०, रो० ।

R. 8

दिवस अलसकेन कालङ्करिस्सति, कालङ्कृतो च कालकञ्चिका नाम असुरा सब्बनिहीनो असुरकायो तत्र उपपज्जिस्सति, कालङ्कृत च न बीरणत्थम्बके सुसाने छड्डेस्सन्ती ति । येन त्व, आवुसो कोरक्खत्तिय, मत्त मत्त च भत्त भुञ्जेय्यासि, मत्त मत्त च पानीय पिवेय्यासि, यथा समणस्स गोतमस्स
5 मिच्छा अस्स वचन' ति ।

८ "अथ खो, भग्गव, सुनक्खत्तो एकद्वीहिकाय सत्तरत्तिन्दिवानि गणेसि-यथात तथागतस्स असद्दहमानो ।* अथ खो, भग्गव, अचेलो कोरक्खत्तियो सत्तम दिवस अलसकेन कालमकासि, कालङ्कृतो च कालकञ्चिका नाम असुरा सब्बनिहीनो असुरकायो तत्र उपपज्जि, कालङ्कृत
10 च न बीरणत्थम्बके सुसाने छड्डेसु ।

९ "अस्सोसि खो, भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो-अचेलो किर कोरक्खत्तियो अलसकेन कालङ्कृतो बीरणत्थम्बके सुसाने छड्डितो' ति । अथ खो, भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो येन बीरणत्थम्बक सुसान येन अचेलो कोरक्खत्तियो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा अचेल कोरक्खत्तिय
15 तिक्खत्तु पाणिना आकोटेसि-जानासि, आवुसो कोरक्खत्तिय, अत्तनो गति' ति ? अथ खो, भग्गव, अचेलो कोरक्खत्तियो पाणिना पिट्ठि परिपुञ्जन्तो' वुट्ठासि । 'जानामि, आवुसो सुनक्खत्त, अत्तनो गति, कालकञ्चिका नाम असुरा सब्बनिहीनो असुरकायो तत्राम्हि उपपन्नो' ति-वत्वा तत्थेव उत्तानो पपति' ।

१० "अथ खो, भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो येनाह तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा म अभिकादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो अह, भग्गव, सुनक्खत्त लिच्छविपुत्त एतदवोच- 'त किं मञ्जसि, सुनक्खत्त, यथेव ते अह अचेल कोरक्खत्तिय आरब्भ व्याकासि तथेव त विपार्क अञ्जथा वा' ति ?

25 'यथेव मे, भन्ते, भगवा अचेल कोरक्खत्तिय आरब्भ व्याकासि तथेव त विपाक नो अञ्जथा' ति

B. 7,
R. 9

'त किं मञ्जसि, सुनक्खत्त, यदि एव सन्ते, कत वा होति उत्तरि-मनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय अकत वा' ति ?

30 'अद्धा खो, भन्ते, एव सन्ते कत होति उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय, नो अकत' ति ।

१ परिपुञ्जन्तो - रो० । २ परिपति - सी०, स्या० ।

‘एव पि खो म त्व, मोघपुरिस, उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय करोन्त एव वदेसि — न हि पन मे, भन्ते, भगवा उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धि-पाटिहारिय करोती ति । पस्स, मोघपुरिस, याव च ते इद अपरद्ध’ ति ।

“एव पि खो, भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो मया वुच्चमानो अपक्कमेव इमस्मा धम्मविनया, यथा त आपायिको नेरयिको ।

5

§ ३ सुनक्खत्तो कळारमट्टके पसन्नो

११ “एकमिदाह, भग्गव, समय वेसालिय विहरामि महावने कूटागारसालाय । तेन खो पन समथेन अचेलो कळारमट्टको^१ वेसालिय पटि-वसति लाभग्गप्पत्तो चेव यसग्गप्पत्तो च वज्जिगामे । तस्स सत्तवतपदानि समत्तानि समादिन्नानि होन्ति— ‘यावजीव अचेलको अस्स न वत्थ परि-दहेय्य, यावजीव ब्रह्मचारी अस्स न मेथुन धम्म पटिसेवेय्य, यावजीव 10 सुरामसेनेव यापेय्य न ओदनकुम्मास भुञ्जेय्य, पुरत्थिमेन वेसालि उदेन नाम चेतिय त नातिक्कमेय्य, दक्खिणेन वेसालि गोतमक नाम चेतिय त नातिक्कमेय्य, पच्छिमेन वेसालि सत्तम्ब नाम चेतिय त नातिक्कमेय्य, R. उत्तरेन वेसालि बहुपुत्त^२ नाम चेतिय त नातिक्कमेय्य’ ति । सो इमेस सत्तन्न वतपदान समादानहेतु लाभग्गप्पत्तो चेव यसग्गप्पत्तो च वज्जिगामे । 15

१२ “अथ खो, भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो येन अचेलो कळारमट्टको तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा अचेल कळारमट्टक पञ्ह अपुच्छि । तस्स अचेलो कळारमट्टको पञ्ह पुट्ठो न सम्पायासि । असम्पायन्तो कोप च दोस च अप्पच्चय च पात्वाकासि । अथ खो, भग्गव, सुनक्खत्तस्स लिच्छवि-पुत्तस्स एतदहोसि— ‘साधुरूप वत भो अरहन्त समण आसादिम्हसे, मा 20 वत नो अहोसि दीघरत्त अहिताय दुक्खाया’ ति ।

१३ “अथ खो, भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो येनाह तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा म अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो अह, भग्गव, सुनक्खत्त लिच्छविपुत्त एतदवोच — त्व पि ‘नाम, मोघपुरिस, समणो सक्यपुत्तियो पटिजानिस्ससी’ ति । 25

‘किं पन म, भन्ते, भगवा एवमाह— त्व पि नाम, मोघपुरिस, समणो सक्यपुत्तियो पटिजानिस्ससी’ ति ?

‘ननु त्व, सुनक्खत्त, अचेल कळारमट्टक उपसङ्कमित्वा पञ्ह अपुच्छि ।

१ कळारमट्टको— स्या०, कोरमट्टको— सी०, कडरमट्टको— रो० । २ बहुपुत्तक— स्या० ।

तस्स ते अचेलो कळारमट्टको पञ्च, पुट्टो न सम्पायासि । असम्पायन्तो कोप च दोस च अप्पच्चय च पात्वाकासि । तस्स ते एतदहोसि-साधुरूप वत, भो, अरहन्त समण आसादिम्हसे, मा वत नो अहोसि दीघरत्त अहिताय दुक्खाया' ति ।

5 'एव, भन्ते । किं पन, भन्ते, भग्वा अरहत्तस्स मच्छरायती' ति ?

R 11

'न खो अह, मोघपुरिस, अरहत्तस्स मच्छरायामि । अपि च तुयहेवेत पापक दिट्ठिगत उप्पन्न त पजह, मा ते अहोसि दीघरत्त अहिताय दुक्खाया ति । य' खो पनेत, सुनक्खत्त, मञ्जसि अचेल कळारमट्टक-साधुरूपो अय समणो ति, सो नचिरस्सेव परिहितो' सानुचारिको' विचरन्तो ओदनकुम्मास 10 भुञ्जमानो सब्बानेव वेसालियानि चेतियानि समतिक्कमित्वा यसा निहीनो काल करिस्सती' ति ।

१४ 'अथ खो, भग्गव, अचेलो कळारमट्टको नचिरस्सेव परिहितो सानुचारिको विचरन्तो ओदनकुम्मास भुञ्जमानो सब्बानेव वेसालियानि चेतियानि समतिक्कमित्वा यसा निहीनो कालमकासि । अस्सोसि खो, भग्गव, 15 सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो-अचेलो किर कळारमट्टको परिहितो सानुचारिको विचरन्तो ओदनकुम्मास भुञ्जमानो सब्बानेव वेसालियानि चेतियानि समतिक्कमित्वा यसा निहीनो कालङ्कतो' ति । अथ खो, भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो येनाह तेनुपसङ्गमि, उपसङ्गमित्वा म अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो अह, भग्गव, सुनक्खत्त लिच्छविपुत्त 20 एतदवोच- 'त किं मञ्जसि, सुनक्खत्त, यथेव ते अह अचेल कळारमट्टक आरब्भ व्याकासि तथेव त विपाक अञ्जथा वा' ति ?

B.9

'यथेव मे, भन्ते, भग्वा अचेल कळारमट्टक आरब्भ व्याकासि तथेव त विपाक नो अञ्जथा' ति ।

R.12

• 'त किं मञ्जसि, सुनक्खत्त, यदि एव सन्ते, कत वा होति उत्तरि- 25 मनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय अकत वा' ति ?

'अद्धा' खौ, भन्ते, एव सन्ते कत होति उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धि-पाटिहारिय, नो अकत' ति ।

'एव पि खो म त्व, मोघपुरिस, उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय

१ त - सी० । २ परिदहितो - सी० । ३ सानुचारिको - सी०, स्या०, सानुचरियो - रो० ।
४ निक्किण्णो - रो०, निविण्णो - सी० । ५ कालङ्करोति - स्या०, काल करोति - रो० ।
६ अथ - स्या० ।

करोन्त एव वदेसि—न हि पन मे, भन्ने, भगवा उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धि-
पाटिहारिय करोती ति । पस्स, मोघपुरिस, याव च ते इद अपरद्ध' ति ।

“एव पि खो, भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो मया वुच्चमानो
अपक्कमेव इमस्मा धम्मविनया, यथा त आपायिको नेरयिको ।

§ ४ अचेलो पाथिकपुत्तो

१५ “एकमिदाह, भग्गव, समय तत्थेव वेसालिय विहरामि महावने 5
कूटागारसालाय । तेन खो पन समयेन अचेलो पाथिकपुत्तो' वेसालिय पटि-
वसति लाभग्गप्पत्तो च वसग्गप्पत्तो च वज्जिगामे । सो च वेसालिय
परिसति एव वाच भासति—‘समणो गोतमो आणवादो, अह पि आणवादो,
आणवादो खो पन आणवादेन अरहति उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय
दस्सेतु । समणो गोतमो उपड्डुपथ आगच्छेय्य, अह पि उपड्डुपथ गच्छेय्य । 10
ते तत्थ उभो पि उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय करेय्याम । एक चे
समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय करिस्सति, द्वाह करिस्सामि।
द्वे चे समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारियानि करिस्सति,
चत्ताराह करिस्सामि । चत्तारि चे समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धि- R
पाटिहारियानि करिस्सति, अट्ठाह करिस्सामि । इति यावतक यावतक समणो 15
गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय करिस्सति तद्दिगुण' तद्दिगुणाह
करिस्सामी' ति ।

१६ “अथ' खो, भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो येनाह तेनुपसङ्कमि,
उपसङ्कमित्वा म अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो,
भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो म एतदवोन्व—‘अचेलो, भन्ते, पाथिकपुत्तो 20
वेसालिय पटिवसति लाभग्गप्पत्तो च वसग्गप्पत्तो च वज्जिगामे । सो
वेसालिय परिसति एव वाच भासति— समणो गोतमो आणवादो अह पि B
आणवादो, आणवादो खो पन आणवादेन अरहति उत्तरिमनुस्सधम्मा
इद्धिपाटिहारिय दस्सेतु, समणो गोतमो उपड्डुपथ आगच्छेय्य अह पि उपड्डुपथ
गच्छेय्य, ते तत्थ उभो पि उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय करेय्याम, 25
एक चे समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय करिस्सति, द्वाह
करिस्सामि, द्वे चे समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारियानि
करिस्सति, चत्ताराह करिस्सामि, चत्तारि चे समणो गोतमो उत्तरिमनुस्स-
धम्मा इद्धिपाटिहारियानि करिस्सति, अट्ठाह करिस्सामि, इति यावतक

समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा इच्छिपाटिहारिय करिस्सति तद्दिगुण तद्दिगुणाह करिस्सामी' ति ।

“एव वुत्ते, अह, भग्गव, सुनक्खत्त लिच्छविपुत्त एतदवोच -- ‘अभब्बो खो, सुनक्खत्त, अचेलो पाथिकपुत्तो त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा मम सम्मुखीभाव आगन्तु । सचे पिस्स एवमस्स-
5 अह त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभाव गच्छेय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या’ ति ।

१७ ‘रक्खतेत, भन्ते, भग्वा वाच, रक्खतेत सुगतो वाच’ ति ।

R 14

‘किं पन म त्व, सुनक्खत्त, एव वदेसि- रक्खतेत, भन्ते, भग्वा वाच,
10 रक्खतेत सुगतो वाच’ ति ?

‘भगवता चस्स, भन्ते, एसा वाचा एकसेन ओधारिता-अभब्बो अचेलो पाथिकपुत्तो त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा मम सम्मुखीभाव आगन्तु, सचेपिस्स एवमस्स- अह त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभाव
15 गच्छेय्य ति मुद्धा पि तस्स विपतेय्या ति । अचेलो च, भन्ते, पाथिकपुत्तो विरूपरूपेण भगवतो सम्मुखीभाव आगच्छेय्य तदस्स भगवतो मुसा’ ति ।

१८ ‘अपि नु, सुनक्खत्त, तथागतो त वाच भासेय्य या सा वाचा द्वयगामिनी’ ति ?

B 11

‘किं पन, भन्ते, भगवता अचेलो पाथिकपुत्तो चेतसा चेतो परिच्च
20 विदितो- अभब्बो अचेलो पाथिकपुत्तो त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा मम सम्मुखीभाव आगन्तु, सचे पिस्स एवमस्स- अह त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभाव गच्छेय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या ति ? उदाहु, देवता भगवतो एतमत्थ आरोचेसु- अभब्बो, भन्ते, अचेलो पाथिक-
25 पुत्तो त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा भगवतो सम्मुखीभाव आगन्तु, सचे पिस्स एवमस्स- अह त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभाव गच्छेय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या’ ति ?

१९ ‘चेतसा चेतो परिच्च विदितो चेव मे, सुनक्खत्त-अभब्बो
30 अचेलो पाथिकपुत्तो त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटि- निस्सज्जित्वा मम सम्मुखीभाव आगन्तु, सचे पिस्स एवमस्स-अह त वाच

अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभाव गच्छेय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या'ति,

‘देवता पि मे एतमत्थ आरोचेसु—अभब्बो, भन्ते, अचेलो पाथिक-
पुत्तो त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा
भगवतो सम्मुखीभाव आगन्तु, सचे पिस्स एवमस्स—अह त वाच अप्पहाय त 5
चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखी-
भाव गच्छेय्य ति मुद्धा पि तस्स विपतेय्या ति,

‘अजितो पि नाम लिच्छवीन सेनापति अधुना कालङ्कतो तावतिस-
काय उपपन्नो, सो पि म उपसङ्कमित्वा एवमारोचेसि—अलज्जी, भन्ते,
अचेलो पाथिकपुत्तो, मुसावादी, भन्ते, अचेलो पाथिकपुत्तो, म पि, भन्ते, 10
अचेलो पाथिकपुत्तो ब्याकासि वज्जिगामे—अजितो लिच्छवीन सेनापति
महानिरय उपपन्नो ति न खो पनाह, भन्ते, महानिरय उपपन्नो, तावतिस
कायम्हि उपपन्नो अलज्जी, भन्ते, अचेलो पाथिकपुत्तो, मुसावादी,
भन्ते, अचेलो पाथिकपुत्तो, अभब्बो च, भन्ते, अचेलो पाथिकपुत्तो त वाच
अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा भगवतो सम्मुखी- 15
भाव आगन्तु, सचे पिस्स एवमस्स—अह त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय
त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभाव गच्छेय्य ति,
मुद्धा पि तस्स विपतेय्या ति ।

‘इति खो, सुनक्खत्त, चेतसा चेतो परिच्च विदितो चेव मे—अचेलो
पाथिकपुत्तो अभब्बो अचेलो पाथिकपुत्तो त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय 20
त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा मम सम्मुखीभावा आगन्तु, सचे पिस्स एवमस्स—
अह त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटि-
निस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभाव गच्छेय्य ति, मुद्धा पि तस्स
विपतेय्या ति देवता पि मे एतमत्थ आरोचेसु—अभब्बो, भन्ते, अचेलो
पाथिकपुत्तो त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा 25
भगवतो सम्मुखीभावा आगन्तु, सचे पिस्स एवमस्स—अह त वाच अप्पहाय
त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखी-
भाव गच्छेय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या ति ।

‘सो’ खो पनाह, सुनक्खत्त, वेसालिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त
पिण्डपातपटिक्कतो येन अचेलस्स पाथिकपुत्तस्स आरामो तेनुपसङ्कमिस्सामि 30

दिवाविहाराय । यस्सदानि त्व, सुनक्खन्त, इच्छसि तस्स आरोचेही'ति ।

§ ५ पाथिकपुत्तस्स आरामे परिसा सन्निपति

R 16

२० "अथ ख्वाह', भग्गव, पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवर-
मादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि । वेसालिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त
पिण्डपातपटिक्कन्तो येन अचेलस्स पाथिकपुत्तस्स आरामो तेनुपसङ्गमि
5 दिवाविहाराय । अथ खो, भग्गव, सुनक्खन्तो लिच्छवीपुत्तो तरमानरूपो
वेसालि पविसित्वा येन अभिञ्जाता अभिञ्जाता लिच्छवी तेनुपसङ्गमि,
उपसङ्गमित्वा अभिञ्जाते अभिञ्जाते लिच्छवी एतदवोच—'एसावुसो,
भग्गवा वेसालिय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो येन
अचेलस्स पाथिकपुत्तस्स आरामो तेनुपसङ्गमि दिवाविहाराय । अभिक्कम-
10 थायस्सन्तो, अभिक्कमथायस्सन्तो । साधुरूपान समणान उत्तरिमनुस्सधम्मा
इद्धिपाटिहारिय भविस्सती' ति । अथ खो, भग्गव, अभिञ्जातान अभि-
ञ्जातान लिच्छवीन एतदहोसि—'साधुरूपान किर, भो, समणान उत्तरि-
मनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय भविस्सति, हन्द वत, भो, गच्छामा'ति । येन
च अभिञ्जाता अभिञ्जाता ब्राह्मणमहासाला गहपतिनेचयिका नाना-
15 तित्थिया समणब्राह्मणा तेनुपसङ्गमि, उपसङ्गमित्वा अभिञ्जाते अभिञ्जाते
नानातित्थिये समणब्राह्मणे एतदवोच—'एसावुसो, भग्गवा वेसालिय पिण्डाय
चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तो येन अचेलस्स पाथिकपुत्तस्स आरामो
तेनुपसङ्गमि दिवाविहाराय । अभिक्कमथायस्सन्तो, अभिक्कमथायस्सन्तो ।
साधुरूपान समणान उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय भविस्सती' ति ।
20 अथ खो, भग्गव, अभिञ्जातान अभिञ्जातान नानातित्थियान समण-
ब्राह्मणान एतदहोसि—'साधुरूपान किर, भो, समणान उत्तरिमनुस्सधम्मा
इद्धिपाटिहारिय भविस्सति, हन्द वत, भो, गच्छामा'ति ।

B 13

R 17

"अथ खो, भग्गव, अभिञ्जाता अभिञ्जाता लिच्छवी अभिञ्जाता
अभिञ्जाता च ब्राह्मणमहासाला गहपतिनेचयिका नानातित्थिया समण-
25 ब्राह्मणा येन अचेलस्स पाथिकपुत्तस्स आरामो तेनुपसङ्गमिसु । सा एसा,
भग्गव, परिसा महा होति अनेकसता अनेकसहस्सा ।

२१ "अस्सोसि खो, भग्गव, अचेलो पाथिकपुत्तो—'अभिक्कन्ता
किर अभिञ्जाता अभिञ्जाता लिच्छवी, अभिक्कन्ता अभिञ्जाता अभि-
ञ्जाता च ब्राह्मणमहासाला गहपतिनेचयिका नानातित्थिया समणब्राह्मणा,

समणो पि गोतमो मग्घ आरामे दिवाविहार निसिन्नो'ति । सुत्वानस्स भय
छम्भित्त लोमहसो उदपादि । अथ खो, भग्गव, अचेलो पाथिकपुत्तो भीतो
सविग्गो लोमहट्टजातो येन तिन्दुकखाणुपरिब्बाजकारामो तेनुपसङ्कमि ।

“अस्सोसि खो, भग्गव, सा परिसा—‘अचेलो किर पाथिकपुत्तो
भीतो सविग्गो लोमहट्टजातो येन तिन्दुकखाणुपरिब्बाजकारामो तेनुपस- 5 B 14
ङ्कन्तो’ ति । अथ खो, भग्गव, सा परिसा अञ्जतर पुरिस आमन्तेसि—‘एहि
त्व, भो पुरिस, येन तिन्दुकखाणुपरिब्बाजकारामो येन अचेलो पाथिकपुत्तो
तेनुपसङ्कम, उपसङ्कमित्वा अचेल पाथिकपुत्त एव वदेहि—अभिव्वकमावुसो
पाथिकपुत्त, अभिव्वकन्ता अभिञ्जाता अभिञ्जाता लिच्छवी, अभिव्वकन्ता
अभिञ्जाता अभिञ्जाता च ब्राह्मणमहासाला गहपतिनेचयिका नानातित्थिया 10
समणब्राह्मणा, समणो पि गोतमो आयस्मतो आरामे दिवाविहार निसिन्नो,
भासिता खो पन ते एसा, आवुसो पाथिकपुत्त, वेसालिय परिसति वाचा—
समणो पि गोतमो आणवादो अह पि आणवादो, आणवादो खो पन आणवादेन
अरहति उत्तरिमनुस्सधस्सा इद्धिपाटिहारिय दस्सेतु, समणो चे' गोतमो, 15
उपडुपथ आगच्छेय्य अह पि उपडुपथ गच्छेय्य, ते तत्थ उभो पि उत्तरिमनुस्स-
धम्मा इद्धिपाटिहारिय करेय्याम, एक चे समणो गोतमो उत्तरिमनुस्स-
धम्मा इद्धिपाटिहारिय करिस्सति, द्वाह करिस्सामि, द्वे चे समणो गोतमो
उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारियानि करिस्सति, चत्ताराह करिस्सामि,
चत्तारि चे समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारियानि करिस्सति,
अट्ठाह करिस्सामि, इति यावतक यावतक समणो गोतमो उत्तरिमनुस्सधम्मा 20
इद्धिपाटिहारिय करिस्सति, तद्दिगुण तद्दिगुणाह करिस्सामी ति, अभिव्वकमस्सेव
खो, आवुसो पाथिकपुत्त, उपडुपथ, सब्बपठमयेव आगन्त्वा समणो गोतमो
आयस्मतो आरामे दिवाविहार निसिन्नो'ति ।

R 18

२२ “एव, भो, ति खो, भग्गव, सो पुरिसो तस्सा परिसाय
पटिस्सुत्वा येन तिन्दुकखाणुपरिब्बाजकारामो' येन अचेलो पाथिकपुत्तो तेनुप- 25
सङ्कमि, उपसङ्कमित्वा अचेल पाथिकपुत्त एतदवोच—‘अभिव्वकमावुसो
पाथिकपुत्त, अभिव्वकन्ता अभिञ्जाता अभिञ्जाता लिच्छवी, अभिव्वकन्ता
अभिञ्जाता अभिञ्जाता च ब्राह्मणमहासाला गहपतिनेचयिका नाना-
तित्थिया समणब्राह्मणा । समणो पि गोतमो आयस्मतो आरामे दिवाविहार
निसिन्नो । भासिता खो पन ते एसा, आवुसो पाथिकपुत्त, वेसालिय परिसति 30 B 15

१ तेनुपसङ्कमन्तो - रो० । २ स्या० रो० पोत्थकेषु नत्थि । ३ तिन्दुकखानु०—स्या० ।

वाचा-समणो गोतमो आणवादो अहं ऋ ऋणवादो, आणवादो खो पन आण-
वादेन अरहति उत्तरिमनुस्सधम्ममा इद्विपाटिहारिय दस्सेतु पे० तद्दिगुण
तद्दिगुणाह करिस्सामी ति । अभिक्कमस्सेव खो, आवुसो पाथिकपुत्त,
उपड्डुपथ । सब्बपठमयेव आगन्त्वा समणो गोतमो आयस्मतो आरामे दिवा-
5 विहार निसिन्नो'ति ।

§ ६ पराभूतरूपो पाथिकपुत्तो

R 19 “एव वुत्ते, भग्गव, अचेलो पाथिकपुत्तो ‘आयामि आवुसो,
आयामि आवुसो’ ति-वत्त्वा तत्थेव ससप्पति, न सक्कोति आसना पि
वुट्ठातु । अथ खो सो, भग्गव, पुरिसो अचेल पाथिकपुत्त एतदवोच-‘कि सु
नाम ते, आवुसो पाथिकपुत्त, पावळा सु नाम ते पीठकस्मि अल्लीना, पीठक
10 सु नाम ते पावळासु अल्लीन ? आयामि आवुसो, आयामि आवुसा ति वत्त्वा
तत्थेव ससप्पति, न सक्कोति आसना पि वुट्ठातु’ ति । एव पि खो, भग्गव,
वुच्चमानो अचेलो पाथिकपुत्तो ‘आयामि आवुसो, आयामि आवुसो’ ति-वत्त्वा
तत्थेव ससप्पति, न सक्कोति आसना पि वुट्ठातु ।

15 २३ “यदा खो सो, भग्गव, पुरिसा अञ्जासि-‘पराभूतरूपो अय
अचेलो पाथिकपुत्तो, आयामि आवुसो, आयामि आवुसो ति वत्त्वा तत्थेव
ससप्पति न सक्कोति आसना पि वुट्ठातु’ ति, अथ त परिस आगन्त्वा एव-
मारोचेसि-‘पराभूतरूपो, भो, अचेलो पाथिकपुत्तो, आयामि आवुसो, आयामि
आवुसो ति वत्त्वा तत्थेव ससप्पति न सक्कोति आसना पि वुट्ठातु’ ति । एव
वुत्ते, अहं, भग्गव, त परिस एतदवोच-‘अभब्बो खो, आवुसो, अचेलो
20 पाथिकपुत्तो त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्स-
ज्जित्वा मम सम्मुखीभाव आगन्तु, सच्चे पिस्स एवमस्स-‘अहं त वाच
अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स
सम्मुखीभाव गच्छेय्य’ ति, मुद्धापि तस्स विपतेय्या ति ।

पठमभाणवार निर्द्वित ।

लिच्छविमहामत्तो त आनेतु गच्छि

B 16 २४ “अथ खो, भग्गव, अञ्जतरो लिच्छविमहामत्तो उट्ठायासना
R 20 25 त परिस एतदवोच-‘तेन हि, भो, मुहुत्त ताव आगमेथ यावाह गच्छामि,
अप्पेव नाम अहं पि सक्कुणेय्य अचेल पाथिकपुत्त इम परिस आनेतु’ ति ।

“अथ खो सो, भग्गव, लिच्छविमहामत्तो येन तिन्दुकखाणुपरिब्बा-
जकारामो येन अचेलो पाथिकपुत्तो तेनुपसङ्गमि, उपसङ्गमित्वा अचेल

पाथिकपुत्त एतदवोच—‘अभिककमावुसो’ पाथिकपुत्त, अभिककन्त ते सेय्यो ।
 अभिककन्ता अभिञ्जाता अभिञ्जाता लिच्छवी, अभिककन्ता अभिञ्जाता
 अभिञ्जाता च ब्राह्मणमहासाला गृहपतिनेचयिका नानातिथिया समण-
 ब्राह्मणा । समणो पि गोतमो आयस्मतो आरामे दिवाविहार निसिन्नो ।
 भासिता खो पन ते एसा, आवुसो पाथिकपुत्त, वेसालिय परिसति वाचा— 5
 समणो पि गोतमो आणवादो पे० तद्दिगुण तद्दिगुणाह करिस्सामी ति ।
 अभिककमस्सेव खो, आवुसो पाथिकपुत्त, उपङ्गुपथ । सब्बपठमयेव आगन्त्वा
 समणो गोतमो आयस्मतो आरामे, दिवाविहार निसिन्नो । भासिता खो
 पनेसा, आवुसो पाथिकपुत्त, समणेन गोतमेन परिसति वाचा—अभब्बो खो
 अचेलो पाथिकपुत्तो त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटि- 10
 निस्सज्जित्वा मम सम्मुखीभाव आगन्त्, सचे पिस्स एवमस्स—अह त वाच
 अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स
 सम्मुखीभाव गच्छेय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या ति । अभिककमावुसो
 पाथिकपुत्त, अभिककमनेनेव ते जय करिस्साम समणस्स गोतमस्स
 पराजय’ ति । 15

“एव वुत्ते, भग्गव, अचेलो पाथिकपुत्तो ‘आयामि आवुसो, आयामि
 आवुसो’ ति—वत्वा तत्थेव ससप्पति, न सक्कोति आसना पि वुट्ठातु । अथ 21
 खो सो, भग्गव, लिच्छविमहामत्तो अचेल पाथिकपुत्त एतदवोच— ‘कि सु
 नाम ते, आवुसो पाथिकपुत्त, पावळा सु नाम ते पीठकस्मि अल्लीना, पीठक
 सु नाम ते पावळासु अल्लीन ? आयामि आवुसो, आयामि आवुसो ति 20 B
 वत्वा तत्थेव ससप्पसि, न सक्कोसि आसना पि वुट्ठातु’ ति । एव पि खो,
 भग्गव, वुच्चमानो अचेलो पाथिकपुत्तो ‘आयामि आवुसो, आयामि आवुसो’
 ति— वत्वा तत्थेव ससप्पति, न सक्कोति आसना पि वुट्ठातु ।

२५ “यदा खो सो, भग्गव, लिच्छविमहामत्तो अञ्जासि—‘परा-
 भूतरूपो अय अचेलो पाथिकपुत्तो, आयामि आवुसो, आयामि आवुसो ति 25
 वत्वा तत्थेव ससप्पति, न सक्कोति आसना पि वुट्ठातु’ ति, अथ त परिस
 आगन्त्वा एवमारोचेसि— ‘पराभूतरूपो, भो’, अचेलो पाथिकपुत्तो । आयामि
 आवुसो, आयामि आवुसो ति वत्वा तत्थेव ससप्पति, न सक्कोति आसना पि
 वुट्ठातु’ ति । एव वुत्ते, अह, भग्गव, त परिस एतदवोच— ‘अभब्बो खो, आवुसो,
 अचेलो पाथिकपुत्तो त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्स- 30

१ ससप्पति — सी० । २ सक्कोति — सी० । ३ सो — रो०, अय — स्या० ।

ज्जित्वा मम सम्मुखीभाव आगन्तु, सचेपिस्स एवमस्स- अह त वाच अप्पहाय
 त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभाव
 गच्छेय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्य । सचे पायस्मन्तान लिच्छवीन एवमस्स-
 मय अचेल पाथिकपुत्त वरत्ताहि^१ बन्धित्वा गोयुगोहि^२ आविञ्जेय्यामा^३ ति,
 5 ता वरत्ता छिज्जेय्यु पाथिकपुत्तो वा । अभब्बो पन अचेलो पाथिकपुत्तो त
 वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा मम
 R 22 सम्मुखीभाव आगन्तु, सचे पिस्स एवमस्स- अह त वाच अप्पहाय त चित्त
 अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभाव
 गच्छेय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या^४ ति ।

जालियो त आनेतु गच्छ

10 २६ “अथ खो, भग्गव, जालियो दारुपत्तिकन्तेवासी उट्टायासना
 त परिस एतदवोच- ‘तेन हि, भो, मुहुत्त ताव आगमेथ, यावाह गच्छामि,
 अप्पेव नाम अह पि सक्कुणेय्य अचेल पाथिकपुत्त’ इम परिस^५ आनेतु^६ ति ।

B 8 “अथ खो, भग्गव, जालियो दारुपत्तिकन्तेवासी येन तिन्दुकखाणु
 परिब्बाजकारामो येन अचेलो पाथिकपुत्तो तेनुपसङ्गमि, उपसङ्गमित्वा अचेल
 15 पाथिकपुत्त एतदवोच- ‘अभिव्वकमावुसो पाथिकपुत्त, अभिव्वकन्त ते सेय्यो ।
 अभिव्वकन्ता अभिञ्जाता अभिञ्जाता लिच्छवी, अभिव्वकन्ता अभिञ्जाता
 अभिञ्जाता च ब्राह्मणमहासाला गहपतिनेचयिका नानातिथिया समण-
 ब्राह्मणा । समणो पि गोतमो आयस्मतो आरामे दिवाविहार निसिन्तो ।
 भासिता खो पन ते एसा, आवुसो पाथिकपुत्त, वेसालिय परिसति वाचा-
 20 समणो पि गोतमो आणवादो पे० तद्दिगुण तद्दिगुणाह करिस्सामी ति ।
 अभिव्वकमस्सेव^७, आवुसो पाथिकपुत्त, उपङ्कपथ । सब्बपठमयेव आगन्त्वा समणो
 गोतमो आयस्मतो आरामे दिवाविहार निसिन्तो । भासिता खो पनेसा,
 आवुसो पाथिकपुत्त, समणेन गोतमेन परिसति वाचा- अभब्बो अचेलो
 पाथिकपुत्तो त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्स-
 25 ज्जित्वा मम सम्मुखीभाव आगन्तु, सचे पिस्स एवमस्स- अह त वाच
 अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोत-
 मस्स सम्मुखीभाव गच्छेय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्य, सचे पायस्मन्तान

१ याहिवरत्ताहि - स्या० । २ गोयुगोहि - स्या० । ३ आविञ्जेय्यामा - रो०,
 आविञ्जेय्यामा - स्या० । ४ छिज्जेर - सी०, स्या०, रो० । १-१ स्या० पोत्थके नत्थि ।
 १ अभिव्वकमैव - स्या०, रौ० ।

लिच्छवीन एवमस्स— मय अचेल पाथिकपुत्त वरत्ताहि बन्धित्वा गोयुगेहि
 आविञ्छेय्यामा ति, ता वरत्ता छिज्जेय्यु पाथिकपुत्तो वा, अभब्बो पन अचेलो
 पाथिकपुत्तो त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्स-
 जिज्जत्वा मम सम्मुखीभाव आगन्तु, सचे पिस्स एवमस्स— अह त वाच
 अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स
 सम्मुखीभाव आगच्छेय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या ति । अभिक्कमावुसो
 पाथिकपुत्त, अभिक्कमनेनेव ते जय करिस्साम समणस्स गोतमस्स
 पराजय' ति ।

“एव वुत्ते, भग्गव, अचेलो पाथिकपुत्तो 'आयामि आवुसो,
 आयामि आवुसो' ति— वत्वा तत्थेव ससप्पति, न सक्कोति आसना
 पि वुट्ठातु । अथ खो, भग्गव, जालियो दारुपत्तिकन्तेवासी अचेल
 पाथिकपुत्त एतदवोच— 'कि सु नाम ते, आवुसो पाथिकपुत्त, पावळा सु
 नाम ते पीठकस्मि अल्लीना, पीठक सु नाम ते पावळासु अल्लीन ?
 आयामि आवुसो, आयामि आवुसो ति— वत्वा तत्थेव ससप्पसि, न सक्कोसि
 आसना पि वुट्ठातु' ति । एव पि खो, भग्गव, वुच्चमानो अचेलो पाथिक-
 पुत्तो 'आयामि आवुसो, आयामि आवुसो' ति— वत्वा तत्थेव ससप्पति, न
 सक्कोति आसना पि वुट्ठातु ति ।

२७ “यदा खो, भग्गव, जालियो दारुपत्तिकन्तेवासी अञ्जासि—
 'पराभूतरूपो अय अचेलो पाथिकपुत्तो, आयामि आवुसो, आयामि आवुसो
 ति— वत्वा तत्थेव ससप्पति, न सक्कोति आसना पि वुट्ठातु' ति, अथ न
 एतदवोच—

जरसिङ्गालूपमो पाथिकपुत्तो

'भूतपुब्ब, आवुसो पाथिकपुत्त, सीहस्स मिगरञ्जो एतदहोसि—
 यन्नूनाह अञ्चतर वनसण्ड निस्साय आसय कप्पेय्य, तत्रासय कप्पेत्वा
 सायण्हसमय आसया निक्खमेय्य, निक्खमित्वा विजम्भेय्य, विजम्भित्वा समन्ता
 चतुद्दिसा अनुविलोकेय्य, समन्ता चतुद्दिसा अनुविलोकेत्वा तिक्खत्तु सीहनाद
 नदेय्य, तिक्खत्तु सीहनाद नदित्वा गोचराय पक्कमेय्य, सो वर वर मिगसङ्घे'
 वधित्वा मुद्दुमसानि मुद्दुमसानि भक्खयित्वा तमेव आसय अञ्जुपेय्य ति ।
 अथ खो, आवुसो, सो सीहो मिगराजा अञ्चतर वनसण्ड निस्साय आसय
 कप्पेसि । तत्रासय कप्पेत्वा सायण्हसमय आसया निक्खमि । आसया निक्ख-

मित्वा विजम्भि । विजम्भित्वा समन्ता चतुर्दिसा अनुविलोकेसि । समन्ता चतुर्दिसा अनुविलोकेत्वा तिक्खत्तु सीहनाद नदि । तिक्खत्तु सीहनाद नदित्वा गोचराय पक्कामि^१ । सो वर वर मिगसङ्घे बधित्वा मुदुमसानि मुदुमसानि भक्खयित्वा तमेव आसय अज्झुपेसि ।

R 24 5

२८ 'तस्सेव खो, आवुसो पाथिकपुत्त, सीहस्स मिगरञ्चो विघास-सवङ्घो^२ जरसिङ्गालो^३ दित्तो चेव बलवा च । अथ खो, आवुसो, तस्स जरसिङ्गालस्स एतदहोसि- को चाह, को सीहो मिगराजा । यन्नूनाह अञ्चतर वनसण्ड निस्साय आसय कप्पेय्य, तत्रासय कप्पेत्वा सायण्हसमय आसया निक्खमेय्य, आसया निक्खमित्वा विजम्भेय्य, विजम्भित्वा समन्ता

B 20

10 चतुर्दिसा अनुविलोकेय्य, समन्ता चतुर्दिसा अनुविलोकेत्वा तिक्खत्तु सीह-नाद नदेय्य, तिक्खत्तु सीहनाद नदित्वा गोचराय पक्कमेय्य, सो वर वर मिगसङ्घे बधित्वा मुदुमसानि मुदुमसानि भक्खयित्वा तमेव आसय अज्झुपेय्य ति । अथ खो सो, आवुसो, जरसिङ्गालो अञ्चतर वनसण्ड निस्साय आसय कप्पेसि । तत्रासय कप्पेत्वा सायण्हसमय आसया निक्खमि ।
15 आसया निक्खमित्वा विजम्भि । विजम्भित्वा समन्ता चतुर्दिसा अनुविलोकेसि^४ । समन्ता चतुर्दिसा अनुविलोकेत्वा तिक्खत्तु सीहनाद नदिस्सामी ति सिङ्गालकयेव अनदि भेरण्डकयेव^५ अनदि । के च छवे सिङ्गाले, के पन सीहनादे ति ।

20 'एवमेव खो त्व, आवुसो पाथिकपुत्त, सुगतापदानेसु जीवमानो सुगतातिरित्तानि भुञ्जमानो तथागते अरहन्ते सम्मासम्बुद्धे आसादेत्तब्ब मञ्चसि । के च छवे पाथिकपुत्ते, का च तथागतान अरहन्तान सम्मा-सम्बुद्धान आसादना' ति ।

25 २९ "यतो खो, भग्गव, जालियो दारुपत्तिकन्तेवासी इमिना ओपम्मेन नेव असक्खि अचेल पाथिकपुत्त तम्हा आसना चावेत्तु, अथ न एतदवोच-

R 25

'सीहो ति अत्तान समेक्खियान ,
अमञ्चि कोत्थु मिगराजाहमस्मि ।
तथेव^६ सो सिङ्गालक अनदि ,
के^७ च छवे सिङ्गाले केमन सीहनादे ति ॥

१ पक्कमि - सी०, स्या०, रो० । २ विघाससवङ्घो - स्या०, विघासे सवङ्घो - रो० ।
३ जरसिङ्गालो - सी०, स्या०, रो० । ४ अनुविलोकति - रो० । ५ भदण्डक - सी० ।
६ तमेव - स्या० । ७-७ को च छवो सिङ्गालो को पन सीहनादो - सी० ।

‘एवमेव खो त्व, आवुसो पाथिकपुत्त, सुगतापदानेसु जीवमानो सुगतातिरित्तानि भुञ्जमानो तथागते अरहन्ते सम्मासम्बुद्धे आसादेतब्ब मञ्जसि । के च छवे पाथिकपुत्ते, का च तथागतान अरहन्तान सम्मासम्बुद्धान आसादना’ ति ।

३० “यतो खो, भग्गव, जालियो दारुपत्तिकन्तेवासी इमिना पि ओपम्मेन नेव असक्खि अचेल पाथिकपुत्त तम्हा आसना चावेतु, अथ न एतदवोच—

‘अञ्ज’ अनुचङ्कमन अत्तान विघासे समेक्खिय,

B 21

याव अत्तान न पस्सति कोत्थु ताव ब्यग्घो ति मञ्जति ।

तथेव सो सिङ्गालक अनदि,

10

के च छवे सिङ्गाले के पन सीहनादे ति ॥

‘एवमेव खो त्व, आवुसो पाथिकपुत्त, सुगतापदानेसु जीवमानो सुगतातिरित्तानि भुञ्जमानो तथागते अरहते सम्मासम्बुद्धे आसादेतब्ब मञ्जसि । के च छवे पाथिकपुत्ते, का च तथागतान अरहन्तान सम्मासम्बुद्धान आसादना’ ति ।

15

३१ “यतो खो, भग्गव, जालियो दारुपत्तिकन्तेवासी इमिना पि ओपम्मेन नेव असक्खि अचेल पाथिकपुत्त तम्हा आसना चावेतु, अथ न एतदवोच—

R 26

‘भुत्वान भेके खलमूसिकायो,

कटसीसु खित्तानि च कोणपानि ।

20

महावने सुञ्जवने विवङ्ढो,

अमञ्जि कोत्थु मिगराजाहमस्मि ॥

तथेव सो सिङ्गालक अनदि,

के च छवे सिङ्गाले के पन सीहनादे ति ।

‘एवमेव खो त्व, आवुसो पाथिकपुत्त, सुगतापदानेसु जीवमानो सुगतातिरित्तानि भुञ्जमानो तथागते अरहन्ते सम्मासम्बुद्धे आसादेतब्ब मञ्जसि । के च छवे पाथिकपुत्ते, का च तथागतान अरहन्तान सम्मासम्बुद्धान आसादना’ ति ।

25

३२ “यतो खो, भग्गव, जालियो दारुपत्तिकन्तेवासी इमिना पि ओपम्मेन नेव असक्खि अचेल पाथिकपुत्त तम्हा आसना चावेतु, अथ त

30

परिस आगन्त्वा एवमारोचेसि- 'पराभूतरूपो, भो, अचेलो पाथिकपुत्तो । आयामि आवुसो, आयामि आवुसो ति- वत्वा तत्थेव ससप्पति, न सक्कोति आसना पि बुद्धातु' ति ।

B 22

३३ "एव वुत्ते, अह, भग्गव, त परिस एतदवोच- 'अभब्बो खो, 5 आवुसो, अचेलो पाथिकपुत्तो त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा मम सम्मुखीभाव आगन्तु, सचे पिस्स एवमस्स-अह त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभाव गच्छेय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्य । सचेपाय-स्मन्तान लिच्छवीन एवमस्स-मय अचेल पाथिकपुत्त वरत्ताहि बन्धित्वा 10 गीयुगेहि आविञ्छय्यामा ति, ता वरत्ता छिज्जेय्यु पाथिकपुत्तो वा । अभब्बो पन अचेलो पाथिकपुत्तो त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटि-निस्सज्जित्वा मम सम्मुखीभाव आगन्तु । सचे पिस्स एवमस्स- अह त वाच अप्पहाय त चित्त अप्पहाय त दिट्ठि अप्पटिनिस्सज्जित्वा समणस्स गोतमस्स सम्मुखीभाव गच्छेय्य ति, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या'ति ।

३. 27

§ ७ भगवा इद्धिपाटिहारिय अकासि

15

३४ "अथ ख्वाह, भग्गव, त परिस धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि । त परिस धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा महाबन्धना मोक्ख करित्वा चतुरासीति-पाणसहस्सानि महाविद्गगा उद्धरित्वा तेजोधातु समापज्जित्वा सत्तताल वेहास अब्भुगन्त्वा अञ्च सत्तताल पि अच्च अभिनिम्मिनित्वा पज्जलित्वा 20 धूमायित्वा महावने कूटागारसालाय पच्चुट्ठासि ।

25

३५ "अथ खो, भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो येनाह तेनुप-सङ्कमि, उपसङ्कमित्वा म अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो अह, भग्गव, सुनक्खत्त लिच्छविपुत्त एतदवोच- 'त कि मञ्जसि, सुनक्खत्त, यथेव ते अह अचेल पाथिकपुत्त आरब्भ ब्याकासि तथेव त विपाक 25 अञ्जथा वा'ति ?

'यथेव मे, भन्ते, भगवा अचेल पाथिकपुत्त आरब्भ ब्याकासि तथेव त विपाक, नो अञ्जथा'ति ।

'त कि मञ्जसि, सुनक्खत्त, यदि एव सन्ते कत वा होति उत्तरि मनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय, अकत वा'ति ?

30

'अद्धा खो, भन्ते, एव सन्ते कत होति उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटि-

हारिय, नो अकत'ति ।

'एव पि खो म त्व, मोघपुरिस, उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धिपाटिहारिय करोन्त एव वदेसि— नहि पन मे, भन्ते, भग्वा उत्तरिमनुस्सधम्मा इद्धि-पाटिहारिय करोती ति । पस्स, मोघपुरिस, याव च ते इद अपरद्ध'ति ।

B 29

R 28

“एव पि खो, भग्गव, सुनक्खत्तो लिच्छविपुत्तो मया वुच्चमानो 5 अपक्कमेव इमस्मा धम्मविनया, यथा त आपायिको नेरयिको ।

§ ८ अग्गञ्जापञ्जापन आरब्ध देसना

३६ “अग्गञ्जञ्चाह^१, भग्गव, पजानामि, त च पजानामि, ततो च उत्तरितर पजानामि, त च पजानम^२ न परामसामि, अपरामसतो च मे पच्चत्तञ्जेव निब्बुति विदिता, यदभिजान तथागतो नो अनय आपज्जति ।

इस्सरकुत्त ब्रह्मकुत्त

३७ “सन्ति, भग्गव, एके समणब्राह्मणा इस्सरकुत्त ब्रह्मकुत्त 10 आचरियक अग्गञ्ज पञ्जपेन्ति । त्याह उपसङ्कमित्वा एव वदामि—‘सच्च किर तुम्हे आयस्मन्तो इस्सरकुत्त ब्रह्मकुत्त आचरियक अग्गञ्ज पञ्जपेथा’ ति ? ते च मे एव पुट्ठा, ‘आमो’^३ ति पटिजानन्ति । त्याह एव वदामि—‘कथविहितक पन^४ तुम्हे आयस्मन्तो इस्सरकुत्त ब्रह्मकुत्त आचरियक अग्गञ्ज पञ्जपेथा’ ति ? ते मया पुट्ठा न सम्पायन्ति । असम्पायता ममञ्जेव^५ पटिपुच्छन्ति । 15 तेसाह पुट्ठो व्याकरोमि—

(क) ब्रह्मा इस्सरो कत्तः

३८ ‘होति खो सो, आवुसो, समयो य कदाचि करहचि दीघस्स अद्दुनो अच्चयेन अय लोको सवट्टति । सवट्टमाने लोके, येभुय्येन सत्ता आभस्सरसवत्तनिका होन्ति । ते तत्थ होन्ति मनोमया पीतिभक्खा सयपभा अन्तलिक्खचरा सुभट्टायिनो, चिर दीघमद्धान तिट्टन्ति । होति खो सो, 20 आवुसो, समयो य कदाचि करहचि दीघस्स अद्दुनो अच्चयेन अय लोको विवट्टति । विवट्टमाने लोके सुञ्ज ब्रह्मविमान पातुभवति । अथ खो अञ्जतरो सत्तो आयुक्खया वा पुञ्जक्खया वा आभस्सरकाया चवित्वा सुञ्ज ब्रह्मविमान उपपज्जति । सो तत्थ होति मनोमयो पीतिभक्खो सयपभो अन्तलिक्खचरो सुभट्टायी, चिर दीघमद्धान तिट्टति । तस्स तत्थ 25

R 29

B 24

१ अग्गञ्जाह — सी० । २ पजान — सी० । ३ आमो — स्या० । ४ नोपन — सी० ।

५ ममं येव — म० ।

एककस्स दीघरत्त निवुसितत्ता अनभिरीति परितस्सना उप्पज्जति-अहो वत
अञ्जे पि सत्ता इत्थत्त अगच्छेय्यु ति । अथ अञ्जे पि सत्ता आयुक्खया वा
पुञ्जक्खया वा आभस्सरकाया चवित्वा सुञ्ज ब्रह्मविमान उपपज्जन्ति तस्स
सत्तस्स सहब्बत । ते पि तत्थ होन्ति मनोमया पीतिभक्खा सयपभा अन्त-
5 लिक्खचरा सुभट्टायिनो, चिर दीघमद्धान तिट्ठन्ति ।

३६ 'तत्रावुसो, यो सो सत्तो पठम् उपपन्नो तस्स एव होति-
अहमस्मि ब्रह्मा महाब्रह्मा अभिभू अनभिभूतो अञ्जदत्थुदसो वसवत्ती इस्सरो
कत्ता निम्माता^१ सेट्ठो सजिता^२ वसी पिता भूतभब्यान, मया इमे सत्ता
निम्मिता, त किस्स हेतु, मम हि पुब्बे एतदहोसि-अहो वत अञ्जे पि
10 सत्ता इत्थत्त आगच्छेय्यु ति, इति मम^३ च मनोपणिधि, इमे च सत्ता
इत्थत्त आगता ति ।

'ये पि ते सत्ता पच्छा उपपन्ना तेस पि एव होति- अय खो भव
ब्रह्मा महाब्रह्मा अभिभ अनभिभूतो अञ्जदत्थुदसो वसवत्ती इस्सरो कत्ता
निम्माता सेट्ठो सजिता वसी पिता भूतभब्यान, इमिना मय भोता ब्रह्मुना
15 निम्मिता, त किस्स हेतु, इम हि मय अहसाम इध पठम उपपन्न, मय
पनाम्ह^४ पच्छा उपपन्ना ति ।

R 30 ४० 'तत्रावुसो, यो सो सत्तो पठम उपपन्नो सो दीघायुक्कतरो
च होति वण्णवन्ततरो च महेसक्कतरो च, ये पन ते सत्ता पच्छा उपपन्ना
ते अप्पायुक्कतरा च होन्ति दुब्बण्णतरा च अप्पेसक्कतरा च ।

20 'ठान खो पनेत, आवुसो, विज्जति य अञ्जतरो सत्तो तम्हा काया
चवित्वा इत्थत्त आगच्छति । इत्थत्त आगतो समानो अगारस्सा अनगारिय
पब्बजति । अगारस्सा अनगारिय पब्बजितो समानो आतप्पमन्वाय पधान-
B 25 मन्वाय अनुयोगमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तथारूप चेतोसमार्धि फुसति
यथासमाहिते चित्ते त पुब्बेनिवास अनुस्सरति, ततो पर नानुस्सरति ।

25 'सो एवमाह- यो खो सो भव ब्रह्मा महाब्रह्मा अभिभू अनभिभूतो
अञ्जदत्थुदसो वसवत्ती इस्सरो कत्ता निम्माता सेट्ठो सजिता वसी पिता
भूतभब्यान, येन मय भोता ब्रह्मुना निम्मिता, सो निच्चो धुवो सस्सतो
अविपरिणामधम्मो सस्सतिसम तथेव ठस्सति, ये पन मय अहुम्हा, तेन
भोता ब्रह्मुना निम्मिता, ते मय अनिच्चा अद्धुवा^५ अप्पायुक्का चवनधम्मा

१ निम्मिता - स्या० । २ सजिता - रो० । ३ मम - सी०, रो० । ४ पनाम्हा - सी०, रो० ।
५ अधुवा - स्या० ।

त्थत्त आगता ति । एवविहितक नो^१ तुम्हे आयस्मन्तो इस्सरकुत्त ब्रह्मकुत्त
आचरियक अग्गञ्ज पञ्जपेथा^२ ति ।

‘ते एवमाहसु— एव खो नो, आवुसो गोतम, सुत यथेवायस्मा
गोतमो आहा^३ ति ।

“अग्गञ्जञ्चाह, भग्गव, पजानामि, त च पजानामि, ततो च 5
उत्तरितर पजानामि, त च पजानन न परामसामि, अपरामसतो च मे
पच्चत्तञ्जेव निब्बुति विदिता, यदभिजान तथागतो नो अनय आपज्जति ।

(ख) खिड्डापदोसिका देवा

४१ “सन्ति, भग्गव, एके समणब्राह्मणा खिड्डापदोसिक^१ आचरियक
अग्गञ्ज पञ्जपेन्ति । त्याह उपसङ्कमित्वा एव वदामि— ‘सच्च किर तुम्हे
आयस्मन्तो खिड्डापदोसिक आचरियक अग्गञ्ज पञ्जपेथा^२ ति ? ते च मे 10
एव पुट्ठा ‘आमो’ ति पटिजानन्ति । त्याह एव वदामि— ‘कथविहितक पन
तुम्हे आयस्मन्तो खिड्डापदोसिक आचरियक अग्गञ्ज पञ्जपेथा^३ ति ? ते
मया पुट्ठा न सम्पायन्ति । असम्पायन्ता ममयेव पटिपुच्छन्ति । तेसाह
पुट्ठो ब्याकरोमि—

R 31

४२ ‘सन्तावुसो, खिड्डापदोसिका नाम देवा । ते अतिवेल हस्सखिड्डा- 15
रतिधम्मसमापन्ना विहरन्ति । तेस अतिवेल हस्सखिड्डारतिधम्मसमापन्नान
विहरत सति सम्मुस्सति । सतिया सम्मोसा ते देवा तम्हा काया चवन्ति ।
ठान खो पनेत, आवुसो, विज्जति य अञ्जतरो सत्तो तम्हा काया चवित्वा
इत्थत्त आगच्छति । इत्थत्त आगतो समानो अगारस्मा अनगारिय पब्बजति ।
अगारस्मा अनगारिय पब्बजितो समानो आतप्पमन्वाय पधानमन्वाय अनुयोग- 20
मन्वाय अप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय तथारूप चेतोसमाधि
फुसति यथासमाहिते चित्ते त पुब्बेनिवास अनुस्सरति, ततो पर नानुस्सति ।
सो एवमाह— ये खो ते भोन्तो देवा न खिड्डापदोसिका ते न अतिवेल
हस्सखिड्डारतिधम्मसमापन्ना विहरन्ति, तेस नातिवेल हस्सखिड्डारतिधम्म-
समापन्नान विहरत सति न सम्मुस्सति, सतिया असम्मोसा^१ ते देवा तम्हा 25
काया न चवन्ति, निच्चा धुवा सस्सता अविपरिणामधम्मा सस्सतिसम
तथेव ठस्सन्ति, ये पन मय अहुम्हा खिड्डापदोसिका ते मय अतिवेल
हस्सखिड्डारतिधम्मसमापन्ना विहरिम्हा, तेस नो अतिवेल हस्सखिड्डारतिधम्म-

B 26

१ खिड्डापदोसिक — रौ० । २ असम्मोसाय — स्या० ।

अकिलन्तकाया अकिलन्तचित्ता' तम्हा'काया न चवन्ति, निच्चा धुवा सस्सता
 अविपरिणामधम्मा सस्सतिसम तथेव ठस्सन्ति, ये पन मय अहुम्हा मनो-
 पदोसिका ते मय अतिवेल अञ्जमञ्ज उपनिज्भायिम्हा, ते मय अतिवेल
 अञ्जमञ्ज उपनिज्भायन्ता अञ्जमञ्जम्हि चित्तानि पदूसिम्हा, ते मय
 अञ्जमञ्ज पदुट्टचित्ता किलन्तकाया किलन्तचित्ता* तम्हा काया चुता 5
 अनिच्चा अद्दुवा असस्सता अप्पायुका चवनधम्मा इत्थत्त आगता ति ।
 एवविहितक नो तुम्हे आयस्मन्तो मनोपदोसिक आचरियक अग्गञ्ज
 पञ्जपेथा' ति ।

R 33

‘ते एवमाहसु— ‘एव खो नो, आवुसो गोतम, सुत यथेवायस्मा
 गोतमो आहा’ ति ।

10

‘अग्गञ्जञ्चाह, भग्गव, पजानामि पे० यदभिजान तथागतो
 नो अनय आपज्जति ।

(घ) अधिच्चसमुप्पन्न

४५ ‘सन्ति, भग्गव, एके समणब्राह्मणा अधिच्चसमुप्पन्न आचरियक
 अग्गञ्ज पञ्जपेन्ति । त्याह उपसङ्कमित्वा एव वदामि— ‘सच्च किर तुम्हे
 आयस्मन्तो अधिच्चसमुप्पन्न आचरियक अग्गञ्ज पञ्जपेथा’ ति ? ते च मे 15
 एव पुट्ठा ‘आमो’ ति पट्टिजानन्ति । त्याह एव वदामि— ‘कथविहितक पन
 तुम्हे आयस्मन्तो अधिच्चसमुप्पन्न आचरियक अग्गञ्ज पञ्जपेथा’ ति ?
 ते च मया पुट्ठा न सम्पायन्ति । असम्पायन्ता ममयेव पट्टिपुच्छन्ति । तेसाह
 पुट्ठो व्याकरोमि—

B 28

४६ ‘सन्तावुसो, असञ्जसत्ता नाम देवा । सञ्जुप्पादा च पन ते 20
 देवा तम्हा काया चवन्ति । ठान खो पनेत, आवुसो, विज्जति य अञ्जतरो
 सत्तो तम्हा काया चवित्वा इत्थत्त आगच्छति । इत्थत्त आगतो समानो
 अगारस्मा अनगारिय पब्बजति । अगारस्मा अनगारिय पब्बजितो समानो
 आतप्पमन्वाय पधानमन्वाय अनुयोगमन्वाय अप्पमादमन्वाय सम्मामनसि-
 कारमन्वाय तथारूप चेतोसमार्धि' फुसति यथासमाहिते चित्ते त सञ्जुप्पाद 25
 अनुस्सरति, ततो पर नानुस्सरति । सो एवमाह— अधिच्चसमुप्पन्नो अत्ता
 च लोको च, त किस्स हेतु, अह हि पुब्बे नाहोसि सोम्हि एतरहि अहुत्वा
 सन्तताय' परिणतो ति । एवविहितक नो तुम्हे आयस्मन्तो अधिच्चसमुप्पन्न

4

२ अकिलन्तचित्ता ते देवा — सी०, स्या०, रो० । * एत्थ सी० स्या० रो० पोत्थकेषु
 ‘एव मय’ इति अधिको पाठो दिस्सति । २ सत्ताय — रो० ।

आचरियक अग्गञ्ज पञ्जापेथा' ति ? ८

‘ते एवमाहसु—‘एव खो नो, आवसो गोतम, सुत यथेवायस्मा गोतमो आहा’ ति ।

“अग्गञ्जाञ्चाह, भग्गव, पजानामि त, च पजानामि, ततो च
5 उत्तरितर पजानामि, त च पजानन न परामसामि, अपरामसतो च मे
पच्चत्तञ्जेव निब्बुति विदिता, यदभिजान तथागतो नो अनय आपज्जति ।

(इ) सुभ विमोक्खं

४७ “एववादि खो म, भग्गव, एवमक्खायिं एके समणब्राह्मणा
असता तुच्छा मुसा अभूतेन अग्गञ्जाञ्चिन्ति— ‘विपरीतो’ समणो गोतमो
भिक्षवो च । समणो गोतमो एवमाह— ‘यस्मिं समये सुभ विमोक्ख उप-
10 सम्पज्ज विहरति, सब्ब तस्मिं समये असुभन्त्वेव पजानाती’ ति ।

“न खो पनाह, भग्गव, एव वदामि—‘यस्मिं समये सुभ विमोक्ख
उपसम्पज्ज विहरति, सब्ब तस्मिं समये असुभन्त्वेव पजानाती’ ति । एव
च ख्वाह, भग्गव, वदामि—‘यस्मिं समये सुभ विमोक्ख उपसम्पज्ज विहरति,
सुभन्त्वेव तस्मिं समये पजानाती’” ति ।

B 29 15
R 35

“ते च, भन्ते, विपरीता ये भगवन्त विपरीततो दहन्ति भिक्षवो
च । एवपसन्नो अह, भन्ते, भगवति । पहोति मे भगवा तथा धम्म देसेतु
यथा अह सुभ विमोक्ख उपसम्पज्ज विहरेय्य” ति ।

४८ “दुक्कर खो एत’, भग्गव, तथा अञ्जादिट्टिकेन अञ्जाखन्तिकेन
अञ्जरुचिकेन अञ्जात्रायोगेन अञ्जात्राचरियकेन सुभ विमोक्ख उप-
20 सम्पज्ज विहरितु । इद्ध त्व, भग्गव, यो च ते अय मयि पसादो तमेव त्व
साधुकमनुरक्खा” ति ।

“सचे त, भन्ते, मया दुक्कर अञ्जादिट्टिकेन अञ्जाखन्तिकेन अञ्जा-
रुचिकेन अञ्जात्रायोगेन अञ्जात्राचरियकेन सुभ विमोक्ख उपसम्पज्ज
विहरितु, यो च मे अय, भन्ते, भगवति पसादो तमेवाह साधुकमनुरक्खि-
25 स्सामी” ति ।

इदमवोच भगवा । अत्तमनो भग्गवोत्तो परिब्बाजको भगवतो
भासित अभिनन्दी ति ।

पाथिकसुत्त निट्ठित पठम ।

— ० —

१ विपरितो - स्या०, रो० । २ सम्पजानाती - स्या०, सञ्जानाती - रो० । ३ एव -
सी०, रो० ।

२ उदुम्बरिकसुत्तं

§ १ सन्धानो गहपति परिब्बाजकाराम उपसङ्कमि

B 30
R 36

१ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति गिज्झकूटे पब्बते । तेन खो पन समयेन निग्रोधो परिब्बाजको उदुम्बरिकाय परिब्बाजकारामे पटिवसति महतिया परिब्बाजकपरिसाय सद्धि तिसमत्तेहि परिब्बाजकसतेहि । अथ खो सन्धानो गहपति दिवा दिवस्स राजगहा निक्खमि भगवन्त दस्सनाय । अथ खो सन्धानस्स गहपतिस्स एतदहोसि— “अकालो खो भगवन्त दस्सनाय । पटिसल्लीनो भगवा । मनोभावनीयान पि भिक्खून असमयो दस्सनाय । पटिसल्लीना मनोभावनीया भिक्खू । यन्नूनाह येन उदुम्बरिकाय परिब्बाजकारामो येन निग्रोधो परिब्बाजको तेनुपसङ्कमेय्य” ति । अथ खो सन्धानो गहपति येन उदुम्बरिकाय परिब्बाजकारामो येन निग्रोधो परिब्बाजको तेनुपसङ्कमि ।

5

10

२ तेन खो पन समयेन निग्रोधो परिब्बाजको महतिया परिब्बाजकपरिसाय सद्धि निसिन्नो होति उन्नादिनया उच्चासद्दमहासद्दाय अनेकविहित तिरच्छानकथ कथेन्तिया, सेय्यथिद — राजकथ चोरकथ महामत्तकथ सेनाकथ भयकथ युद्धकथ अन्नकथ पानकथ वत्थकथ सयनकथ मालाकथ गन्धकथ जातिकथ यानकथ गामकथ निगमकथ नगरकथ जनपदकथ इत्थिकथ सूरकथ विसिखाकथ कुम्भट्टानकथ पुब्बपेतकथ नानत्तकथ लोकक्खायिक समुद्दक्खायिक इतिभवाभवकथ इति वा ।

R 37

15

३ अहसा खो निग्रोधो परिब्बाजको सन्धान गहपति दूरतो व आगच्छन्त । दिस्वा सक परिस सण्ठापेसि— “अप्पसद्दा भोन्तो होन्तु । मा भोन्तो सद्दमकथ । अय समणस्स गोतमस्स सावको आगच्छति सन्धानो गहपति । यावता खो पन समणस्स गोतमस्स सावका गिही ओदातवसना राजगहे पटिवसन्ति अय तेस अञ्जातुरो सन्धानो गहपति । अप्पसद्दकामा खो पनेते आयस्मन्तो अप्पसद्दविनीता अप्पसद्दस्स वण्णवादिनो, अप्पेव नाम अप्पसद्द परिस विदित्वा उपसङ्कमितब्ब मञ्जेय्या” ति । एव वुत्ते, ते

20

B 31

१ उदुम्बरिकसीहनाद सुत्त — सी०, रो० । २ खो ताव — सी०, रो०, स्या० । ३ इत्थिकथ — स्या० । * एत्थ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु ‘पुरिसकथ इति अधिको पाठो विज्जति । ३ सण्ठपेसि — सी० । ४ स्या० पोत्थके नत्थि ।

परिब्बाजका तुण्ही अहेसु ।

४ अथ खो सन्धानो गृहपति येन निग्रोधो परिब्बाजको तेनुपसङ्कमि ।
उपसङ्कमित्वा निग्रोधेन परिब्बाजकेन सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ
सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निमीदि । एकमन्त निसिन्नो खो सन्धानो
5 गृहपति निग्रोध परिब्बाजक एतदवोच- “अञ्जथा खो इमे भोन्तो अञ्ज-
तिस्थिया परिब्बाजका सङ्गम्म समागम्म उन्नादिनो उच्चासद्महासद्दा
अनेकविहित तिरच्छानकथ अनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिद- राजकथ पे०
इतिभवाभवकथ इति वा, अञ्जथा खो पन सो भगवा, अरञ्जवनपत्थानि
10 पन्तानि सेनासनानि पटिसेवति अप्पसद्दानि अप्पनिग्घोसानि विजनवातानि
मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्लानस्सारुप्पानी” ति ।

R. 38

२ एव वुत्ते, निग्रोधो परिब्बाजको सन्धान गृहपति एतदवोच-
“यग्घे गृहपति, जानेय्यासि, केन समणो गोतमो सद्धि सल्लपति, केन साकच्छ
समापज्जति, केन पञ्जाब्बेय्यत्तिय आपज्जति? सुञ्जागारहता समणस्स
गोतमस्स पञ्जा । अपरिसावचरो समणो गोतमो नाल सल्लापाय । सो
15 अन्तमन्तानेव सेवति । सेय्यथापि नाम गोकाना परियन्तचारिणी अन्त-
मन्तानेव सेवति, एवमेव सुञ्जागारहता समणस्स गोतमस्स पञ्जा,
अपरिसावचरो समणो गोतमो, नाल सल्लापाय, सो अन्तमन्तानेव
सेवति । इद्ध, गृहपति, समणो गोतमो इम परिस आगच्छेय्य, एकपञ्हेनेव
न ससादेय्याम, तुच्छकुम्भीव न मञ्जे ओरोधेय्यामा” ति ।

३२ भगवा पि परिब्बाजकाराम उपसङ्कमि

20 ६ अस्सोसि खो भगवा दिब्बाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिवकन्त-
मानुसिकाय^१ सन्धानस्स गृहपतिस्स निग्रोधेन परिब्बाजकेन सद्धि इम कथास-
ल्लाप । अथ खो भगवा गिज्झकूटा पब्बता ओरोहित्वा येन सुमागधाय
तीरे मोरनिवापो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा सुमागधाय तीरे मोरनिवापे
अब्भोकासे चङ्कमि^२ । अद्दसा खो निग्रोधो परिब्बाजको भगवन्त सुमागधाय
25 तीरे मोरनिवापे अब्भोकासे चङ्कमन्त । दिस्वान सक परिस मण्ठापेसि-
“अप्पसद्दा भोन्तो हान्तु । मा भोन्तो सद्दमकत्थ । अय समणो गोतमो
सुमागधाय तीरे मोरनिवापे अब्भोकासे चङ्कमति । अप्पसद्दकामो खो पन
सो आयस्मा अप्पसद्दस्स वण्णवादी । अप्पेव नाम अप्पसद्द परिस विदित्वा
उपसङ्कमितव्व मञ्जेय्य । सचे समणो गोतमो इम परिस आगच्छेय्य, इम

R 39

B. 32

१ समापज्जति - स्या० । २ मानुसिकाय - सी० । ३ चङ्कमति - स्या० ।

त पञ्च पुच्छेय्याम— 'को नाम सो, भन्ते, भगवतो धम्मो येन भगवा सावके विनेति, येन भगवता सावका विनीता अस्सासप्पत्ता पटिजानन्ति अज्झासय आदिब्रह्मचरिय,' ति ? एव वुत्ते, ते परिब्बाजका तुण्ही अहेसु ।

७ अथ खो भगवा येन निग्रोधो परिब्बाजको तेनुपसङ्कमि । अथ खो निग्रोधो परिब्बाजको भगवन्त एतदवोच— "एतु खो, भन्ते, भगवा । 5 स्वागत, भन्ते, भगवतो । चिरस्स खो, भन्ते, भगवा इम परियायमकासि यदिद इधागमनाय । निसीदंतु, भन्ते, भगवा । इदमासन पञ्चत्त"ति । निसीदि भगवा पञ्चत्ते आसने । निग्रोधो पि खो परिब्बाजको अञ्चतर नीचासन गहेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो निग्रोध परिब्बाजक भगवा एतदवोच— "काय नुत्थ^१, निग्रोध, एतरहि कथाय सन्नि- 10 सिन्ना, का च पन वो अन्तराकथा विप्पकता"ति ? एव वुत्ते, निग्रोधो परिब्बाजको भगवन्त एतदवोच— "इध मय, भन्ते, अद्दसाम भगवन्त सुमा- गधाय तीरे मोरनिवापे अब्भोकासे चङ्कमन्त । दिस्वान एव अब्बोचुम्हा— R 40 'सचे समणो गोतमो इम परिस आगच्छेय्य इम त पञ्च पुच्छेय्याम— को नाम सो, भन्ते, भगवतो धम्मो येन भगवा सावके विनेति, येन 15 भगवता सावका विनीता अस्सासप्पत्ता पटिजानन्ति अज्झासय आदिब्रह्म- चरिय' ति ? अथ खो नो, भन्ते, अन्तराकथा विप्पकता, अथ भगवा अनुप्पत्तो" ति ।

८ "दुज्जान खो एत, निग्रोध, तथा अञ्जादिट्टिकेन अञ्ज- खन्तिकेन अञ्जरुचिकेन अञ्जत्रायोगेन अञ्जत्राचरियकेन येनाह सावके 20 विनेमि येन मया सावका विनीता अस्सासप्पत्ता पटिजानन्ति अज्झासय आदिब्रह्मचरिय । इद्ध त्व म, निग्रोध, सके आचरियके अधिजेगुच्छे पञ्च पुच्छ— 'कथ सन्ता नु खो, भन्ते, तपोजिगुच्छा परिपुण्णा होति, कथ अपरिपुण्णा,' ति ? एव वुत्ते, ते परिब्बाजका उन्नादिनो उच्चौसद्द- महासद्दा अहेसु— "अच्छरिय वत भो, अब्भुत वतभो, समणस्स गोतमस्स 25 महिद्धिकता महानुभावता, यत्र हि नाम सकवाद ठपेस्सति, परवादेन पवा- रेस्सती"ति ।

§ ३ निग्रोधो तपोजिगुच्छाय पञ्च पुच्छि

९ अथ खो निग्रोधो परिब्बाजको ते परिब्बाजके अप्पसद्दे कत्वा भगवन्त एतदवोच— 'मय खो, भन्ते, तपोजिगुच्छाबादा तपोजिगुच्छासारा

तपोजिगुच्छ्राग्रल्लीना विहराम । कथं सन्ता नु खो, भन्ते, तपोजिगुच्छ्रा
परिपुण्णा होति, कथ अपरिपुण्णा' ति ?

- R 41 “इध, निग्रोध, तपस्सी अचेलको होति मुत्ताचारो हत्थापलेखनो
नएहिभद्दन्तिको, नतिट्टुभद्दन्तिको, नाभिहट^१ न उद्दिस्सकत्^२ न निमन्तन सादि-
5 यति । सो न कुम्भिमुखा पटिग्गण्हाति, न कळोपिमुखा^३ पटिग्गण्हाति, न
एळकमन्तर न दण्डमन्तर न मुसलमन्तर न द्विन्न भुञ्जमानान न गब्भिनिया
न पायमानाय न पुरिसन्तरगताय न सङ्घितीसु, न यत्थ सा उपट्ठितो
होति, न यत्थ मक्खिका सण्डसण्डचारिनी, न मच्छ न मस । न सुर न मेरय
न थुसोदक पिवति । सो एकागारिको वा होति एकालोपिको, द्वागारिको
10 वा होति द्वालोपिको, सत्तागारिको वा होति सत्तालोपिको, एकिस्सा पि
दत्तिया यापेति, द्वीहि पि दत्तीहि यापेति, सत्तहि पि दत्तीहि यापेति,
एकाहिक पि आहार आहारेति, द्वीहिक पि आहार आहारेति, सत्ताहिक^४ पि
आहार आहारेति । इति एवरूप अद्दमासिक परियायभत्तभोजनानुयोग-
मनुयुत्तो विहरति । सो साकभक्खो वा होति, सामाकभक्खो वा होति,
15 नीवारभक्खो वा होति, दद्दुलभक्खो वा होति, हट्ठभक्खो वा होति, कण-
भक्खो वा होति, आचामभक्खो वा होति, पिञ्जाकभक्खो वा होति, तिण-
भक्खो वा होति, गोमयभक्खो वा होति, वनमूलफलाहारो यापेति पवत्त-
फलभोजी । सो साणानि पि धारेति, मसाणानि पि धारेति, छवदुस्सानि
B 34 पि धारेति, पसुकूलानि पि धारेति, तिरीटानि पि धारेति, अजिनानि
20 पि धारेति, अजिनक्खिप^५ पि धारेति, कुसचोर पि धारेति, वाकचीर
पि धारेति, फलकचीर पि धारेति, केसकम्बल पि धारेति, वाळकम्बल^६
पि धारेति, उलूकपक्ख पि धारेति, केसमस्सुलोचको पि होति केसमस्सु-
लोचनानुयोगमनुयुत्तो, उब्भट्टको पि होति आसनपटिक्खत्तो, उक्कुटिको
पि हीति उक्कुटिकप्पधानमनुयुत्तो, कण्टकापस्सयिको पि होति कण्टका-
25 पस्सये सेय्य कप्पेति । फलकसेय्य^७ पि कप्पेति, थण्डिलसेय्य पि कप्पेति,
एकपस्सयिको पि होति रजोजल्लधरो, अब्भोकासिको पि होति यथा-
सन्थतिको, वेकटिको पि होति विकटभोजनानुयोगमनुयुत्तो, अपानको पि
होति अपानकत्तमनुयुत्तो, सायततियक पि उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो

१ न अभिहत - स्या० । २ ० कट - सी० रो० । ३ कलोपिमुखा - सी० रो० ।
४ सत्तहिक - स्या० । ५ अजिनक्खिप - सी० । ६ वालकम्बल - स्या० । ७ कण्टकपस्सयिको -
स्या० । ८ टण्डिलसेय्य - स्या० ।

विहरति । त कि मञ्जसि, निग्रोध^१, यदि एव सन्ते तपोजिगुच्छा परि-
पुष्णा वा होति अपरिपुष्णा वा” ति ?

“अद्वा खो, भन्ते, एव सन्ते तपोजिगुच्छा परिपुष्णा होति, नो अप-
रिपुष्णा” ति ।

“एव परिपुष्णाय पि खो अह, निग्रोध, तपोजिगुच्छाय अनेकविहिते 5
उपक्विकलेसे वदामी” ति ।

§ ४ तपोजिगुच्छाय उपक्विकलेसा

१० “यथा कथ पन, भन्ते, भगवा एव परिपुष्णाय तपोजिगुच्छाय
अनेकविहिते उपक्विकलेसे वदती” ति ?

“इध, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति । सो तेन तपसा अत्तमनो
होति परिपुष्णसङ्कप्पो । य पि, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति सो तेन 10
तपसा अत्तमनो होति परिपुष्णसङ्कप्पो, अय पि खो, निग्रोध, तपस्सनो
उपक्विकलेसो होति ।

११ “पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति । सो तेन
तपसा अत्तानुक्कसेति पर वम्भेति । य पि, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति
सो तेन तपसा अत्तानुक्कसेति पर वम्भेति, अय पि खो, निग्रोध, तपस्सनो 15
उपक्विकलेसो होति ।

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति । सो तेन तपसा
मज्जति मुच्छति पमादमापज्जति^१ । य पि, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति
सो तेन तपसा मज्जति मुच्छति पमादमापज्जति, अय पि खो, निग्रोध,
तपस्सनो उपक्विकलेसो होति । 20

B 35,
R 43

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति । सो तेन तपसा
लाभसक्कारसिलोक अभिनिब्बत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन अत्तमनो
होति परिपुष्णसङ्कप्पो । य पि, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति सो तेन
तपसा लाभसक्कारसिलोक अभिनिब्बत्तेति सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन
अत्तमनो होति परिपुष्णसङ्कप्पो, अय पि खो, निग्रोध, तपस्सनो उपक्विकलेसो 25
होति ।

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति । सो तेन तपसा
लाभसक्कारसिलोक अभिनिब्बत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन अत्ता-
नुक्कसेति पर वम्भेति । य पि, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति सो

१ मदमापज्जति - स्या० ।

तेन तपसा लाभसक्कारसिलोक अभिनिब्वत्तेति सो तेन लाभसक्कार-
सिलोकेन अत्तानुक्कसेति पर वम्भेति, अय पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो
उपक्किलेसो होति ।

5 “पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति । सो तेन तपसा
लाभसक्कारसिलोक अभिनिब्वत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन मज्जति
मुच्छति पमादमापज्जति । य पि खो, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति
सो तेन तपसा लाभसक्कारसिलोक अभिनिब्वत्तेति सो तेन लाभसक्कार-
सिलोकेन मज्जति मुच्छति पमादमापज्जति, अय पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो
उपक्किलेसो होति ।

10 “पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति भोजनेसु वोदास
आपज्जति—‘इद मे खमति, इद मे नक्खमती’ति । सो य च ख्वस्स^१
नक्खमति त सापेक्खो पजहति, य पनस्स खमति त गधितो मुच्छितो
अज्झापन्तो^२ अनादीनवदस्सावी अनिस्सरणपञ्चो परिभुज्जति पे० अय
पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो उपक्किलेसो होति ।

R 44 15 “पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति लाभसक्कार-
सिलोकनिकन्तिहेतु—‘सक्करिस्सन्ति म राजानो राजमहामत्ता खत्तिया
B 36 ब्राह्मणा गहपतिका तित्थिया’ ति पे० अय पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो
उपक्किलेसो होति ।

20 “पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी अञ्जातर समण वा ब्राह्मण वा
अपसादेता^३ होति—‘कि पनाय सम्बहुलाजीवो सब्ब^४ सभक्खेति, सेय्यथिद-
मूलबीज खन्धबीज फलुबीज^५ अग्गबीज बीजबीजमेव पञ्चम, असनिविचक्क
दन्तकूट, समणप्पवादेना’ ति पे० अय पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो
उपक्किलेसो होति ।

25 “पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी पस्सति अञ्जातर समण वा ब्राह्मण
वा कुलेसु सक्करियमान गरुकरियमान मानियमान पूजियमान । दिस्वा तस्स
एव होति—‘इमञ्चिह नाम सम्बहुलाजीव कुलेसु सक्करोन्ति गरु करोन्ति मानेन्ति
पूजेन्ति, म पन तपस्सि लूखाजीवि कुलेसु न सक्करोन्ति न गरु करोन्ति न
मानेन्ति न पूजेन्ती’ ति । इति सो इस्सामच्छरिय कुलेसु उप्पादेता होति
पे० अय पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो उपक्किलेसो होति ।

१ ख्वास्स - स्या० । २ अज्झोपन्नो - सी० । ३ अपसारेता - सी० । ४ सब्ब
सब्ब - स्या० । ५ फलुबीज - सी० ।

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्वी आपाथकनिसादी होति पे० अय
पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो उपक्किलेसो होति ।

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्वी अत्तान अदस्सयमानो कुलेसु चरति—
‘इद पि मे तपस्मि, इद पि मे तपस्मि’ ति पे० अय पि खो, निग्रोध,
तपस्सिनो उपक्किलेसो होति ।

5

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्वी किञ्चिदेव पटिच्छन्न सवति ।
सो ‘खमति ते इद’ ति— पुट्टो समानो, अक्खममान आह— ‘खमती’ ति,
खममान आह— ‘नक्खमती’ ति । इति सो सम्पजानमुसा भासिता होति
पे० अय पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो उपक्किलेसो होति ।

R 45

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्वी तथागतस्स वा तथागतसावकस्स
वा धम्म देसेन्तस्स सन्त येव परियाय अनुञ्जेय्य नानुजानाति पे० अय
पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो उपक्किलेसो होति ।

10

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्वी कोधनो होति उपनाही । य पि,
निग्रोध, तपस्वी कोधनो होति उपनाही, अय पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो
उपक्किलेसो होति ।

B 37

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्वी मक्खी होति पळासी’ पे० इस्सुकी’
होति मच्छरी सठो होति मायावी थद्धो होति अतिमानी पापिच्छो होति
पापिकान इच्छान वस गतो मिच्छादिट्टिको होति अन्तग्गाहिकाय’ दिट्ठिया
समन्नागतो सन्दिट्ठिपरामासी होति आधानग्गाही’ दुप्पटिनिस्सग्गी । य पि,
निग्रोध, तपस्वी सन्दिट्ठिपरामासी होति आधानग्गाही’ दुप्पटिनिस्सग्गी, अय
पि खो, निग्रोध, तपस्सिनो उपक्किलेसो होति ।

15

20

१२ “त कि मञ्जसि, निग्रोध, यदिमे तपोजिगुच्छा उपक्किलेसा वा
अनुपक्किलेसा वा” ति ?

“अद्धा खो इमे, भन्ते, तपोजिगुच्छा उपक्किलेसा, नो अनुपक्किलेसा ।
ठान खो पनेत, भन्ते, विज्जति य इधेकच्चो तपस्वी संब्हेव इमेहि उपक्क-
लेसेहि समन्नागतो अस्स, को पन वादो अञ्जतरञ्जतरेना” ति ।

25

१५ तपस्वी तेषु ठानेषु परिसुद्धो होति

१३ “इध, निग्रोध, तपस्वी तप समादियति । सो तेन तपसा न
अत्तमनो होति न परिपुण्णसङ्कप्पो । य पि, निग्रोध, तपस्वी तप समादियति,

१ पलासी - स्या०, रो०, सी० । २ उस्सुकी - सी० अस्सुकी - स्या० । ३ अन्त
गाहिकाय - स्या०, रो० । ४ आधानगाही - स्या० ।

R 46

सो तेन तपसा न अत्तमनो होति न परिपुण्णसङ्कप्पो । एव सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति ।

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति । सो तेन तपसा न अत्तानुक्कसेति न पर वम्भेति पे० एव सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति ।

5

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति । सो तेन तपसा न मज्जति न मुच्छति न पमादमापज्जति पे० एव सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति ।

B 38

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति । सो तेन तपसा लाभसक्कारसिलोक अभिनिब्बत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न अत्तमनो होति न परिपुण्णसङ्कप्पो पे० एव सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति ।

10

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति । सो तेन तपसा लाभसक्कारसिलोक अभिनिब्बत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न अत्तानुक्कसेति न पर वम्भेति पे० सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति ।

15

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तप समादियति । सो तेन तपसा लाभसक्कारसिलोक अभिनिब्बत्तेति । सो तेन लाभसक्कारसिलोकेन न मज्जति न मुच्छति न पमादमापज्जति पे० एव सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति ।

20

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी भोजनेसु न वोदास आपज्जति— ‘इद मे खमति, इद मे नक्खमती’ ति । सो य च ख्वस्स नक्खमति त अनपेक्खो पजहति, य पनस्स खमति त अगधितो अमुच्छितो अनज्झापन्नो आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्चो परिभुञ्जति पे० एव सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति ।

25

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी न तप समादियति लाभसक्कार-सिलोकनिकन्तिहेतु— ‘सक्करिस्सन्ति म राजानो राजमहामत्ता खत्तिया ब्राह्मणा गहपतिका तिथिया’ ति पे० एव सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति ।

R 47

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी अञ्जतर समण वा ब्राह्मण वा नापसादेता’ होति— ‘कि पनाय सम्बहुलाजीवो’ सब्ब सभक्खेति, सेय्यथिद—मूलबीज खन्धबीज फलुबीज अगबीज बीजबीजमेव पञ्चम, असनिविचक्क दन्तकूट, समणप्पवादेना’ ति पे० एव सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति ।

30

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी पस्सति अञ्जतर समण वा ब्राह्मण वा

कुलेषु सक्करियमानं गरु करियमानं^१ मानियमानं पूजियमानं । तस्स न एव होति— 'इमञ्चिह नाम सम्बहुलाजीव कुलेषु सक्करोन्ति गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, म पन तपस्सि लूखाजीवि कुलेषु न सक्करोन्ति न गरु करोन्ति न मानेन्ति न पूजेन्ती' ति । इति सो इस्सामच्छरिय कुलेषु नुप्पादेता होति पे० एव सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति ।

B 39

5

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी न आपाथकनिसादी होति पे० एव सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति ।

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी न अत्तान अदस्सयमानो कुलेषु चरति— 'इद पि मे तपस्मि, इद पि मे 'तपस्मि' ति पे० एव सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति ।

10

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी न किञ्चिदेव पटिच्छन्नं सेवति । सो— 'खमति ते इद' ति पुट्ठो समानो अक्खममान आह—'नक्खमती' ति, खममान आह—'खमती' ति । इति सो सम्पजानमुसा न भासिता होति पे० एव सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति ।

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी तथागतस्स वा तथागतसावकस्स वा धम्म देसेन्तस्स सन्त येव परियाय अनुञ्जेय्य अनुजानाति पे० एव सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति ।

15

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी अक्कोधनो होति अनुपनाही । य पि, निग्रोध, तपस्सी अक्कोधनो होति अनुपनाही पे० एव सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति ।

20

“पुन च पर, निग्रोध, तपस्सी अमक्खी होति अपळासी पे० अनिस्सुकी होति अमच्छरी असठो होति अमायावी अत्थद्धो होति अनतिमानी न पापिच्छो होति न पापिकान इच्छान वस गतो न मिच्छादिट्ठिको होति न अन्तग्गाहिकाय दिट्ठिया समन्नागतो न सन्दिट्ठिपरामासी होति न आधानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी । य पि, निग्रोध, तपस्सी न सन्दिट्ठिपरामासी होति न आधानग्गाही सुप्पटिनिस्सग्गी, एव सो तस्मि ठाने परिसुद्धो होति ।

R 48

25

१४ “त किं मञ्जसि, निग्रोध, यदि एव सन्ते तपोजिगुच्छा परिसुद्धो वा होति अपरिसुद्धो वा” ति ?

“अद्धा खो, भन्ते, एव सन्ते तपोजिगुच्छा परिसुद्धा होति, नो

30 B 40

अपरिसुद्धा, अग्न्यत्ता च सारप्यत्ता च” ति ।

“न खो, निग्रोध, एत्तावता तपोजिगुच्छा अग्न्यत्ता च होति सारप्यत्ता च , अपि च खो पपटिकप्यत्ता होती” ति ।

§ ६ तपोजिगुच्छाय अग्न्यत्ता च सार च

१५ “कितावता पन, भन्ते, तपोजिगुच्छा अग्न्यत्ता च होति सारप्यत्ता च ? साधु मे, भन्ते, भगवा तपोजिगुच्छाय अग्न्यत्तेव पापेतु सार्यत्तेव पापेतु” ति ।

R 49 “इध, निग्रोध, तपस्सी चातुयामसवरसवुतो होति । कथ च, निग्रोध, तपस्सी चातुयामसवरसवुतो होति ? इध, निग्रोध, तपस्सी न पाण अतिपातेति, न पाण अतिपातयति, न पाणमतिपातयतो समनुज्जो होति, न अदिन्न आदियति, न अदिन्न आदियापेति, न अदिन्न आदियतो समनुज्जो होति, न मुसा भणति, न मुसा भणापेति, न मुसा भणतो समनुज्जो होति, न भावित मासीसति, न भावितमासीसापेति, न भावितमासीसतो समनुज्जो होति । एव खो, निग्रोध, तपस्सी चातुयामसवरसवुतो होति ।

१६ “यतो खो, निग्रोध, तपस्सी चातुयामसवरसवुतो होति, अदु चस्स होति तपस्सिताय । सो अभिहरति, नो हीनायावत्तति । सो विविक्त सेनासन भजति अरज्ज रुक्खमूल पब्बत कन्दर गिरिगुह सुसान वनपत्थ अब्भोकास पलालपुज्ज । सो पच्छाभत्त पिण्डपातपटिककन्तो निसीदति पल्लङ्क आभुजित्वा उज्जु काय पणिधाय परिमुख^१ सति उपट्टपेत्वा । सो अभिज्झ लोके पहाय विगताभिज्झेन चेतसा विहरति, अभिज्झाय चित्त परिसोधेति । ब्यापादपदोस^२ पहाय अब्यापन्नचित्तो विहरति सब्बपाण-भूतहितानुकम्पी, ब्यापादपदोसा चित्त परिसोधेति । थिनमिद्ध पहाय विगतथिनमिद्धो विहरति आलोकसञ्जी सतो सम्पजानो, थिनमिद्धा चित्त परिसोधेति । उद्धच्चकुक्कुच्चा पहाय अनुद्धतो विहरति, अज्झत्त वूप-सन्तचित्तो, उद्धच्चकुक्कुच्चा चित्त परिसोधेति । विचिकिच्छ पहाय तिण्ण-विचिकिच्छो विहरति, अकथकथी कुसलेसु धम्मेषु, विचिकिच्छाय चित्त परिसोधेति ।

B 41 १७ “सो इमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्जाय दुब्बलीकरणे मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस^३ फरित्वा विहरति, तथा दुतिय,

१ भावितमासीसति - सी० स्या०, रो० । २ परिमुख - स्या० । ३ ब्यापादपदोस - म०, ब्यापाददोस - रो० ।

तथा ततिय, तथा चतुत्थ । इति उद्धमधो तिरिय सब्बधि सब्बत्तताय
सब्बावन्त लोक भेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन
अब्ब्यापज्जेन फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन चेतसा पे० मुदिता-
सहगतेन चेतसा पे० उपेक्खासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा
विहरति, तथा दुतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थ । इति उद्धमधो तिरिय 5
सब्बधि सब्बत्तताय^१ सब्बावन्त लोक उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन
महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्ब्यापज्जेन फरित्वा विहरति ।

R 50

१८ “त कि मञ्जासि, निग्गोध, यदि एव सन्ते तपोजिगुच्छा
परिसुद्धा वा होति अपरिसुद्धा वा” ति ?

“अद्धा खो, भन्ते, एव सन्ते तपोजिगुच्छा परिसुद्धा होति, नो 10
अपरिसुद्धा, अग्गप्पत्ता च^२ सारप्पत्ता चा” ति ।

“न खो, निग्गोध, एत्तावता तपोजिगुच्छा अग्गप्पत्ता च^३ होति
सारप्पत्ता च, अपि च खो तचप्पत्ता होती” ति ।

१९ “कित्तावता खो पन, भन्ते, तपोजिगुच्छा अग्गप्पत्ता च
होति सारप्पत्ता च ? साधु मे, भन्ते, भग्वा तपोजिगुच्छाय अग्गञ्जेव 15
पापेतु सारञ्जेव पापेतू” ति ।

“इध, निग्गोध, तपस्सी चातुयामसवरसवुतो होति । कथ च,
निग्गोध, तपस्सी चातुयामसवरसवुतो होति पे० यतो खो, निग्गोध,
तपस्सी चातुयामसवरसवुतो होति, अदु चस्स होति तपस्सिताय । सो
अभिहरति, नो हीनायावत्तति । सो विवित्त सेनासन भजति पे० सो 20
इमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्जाय दुब्बलीकरणे
भेत्तासहगतेन चेतसा पे० करुणासहगतेन चेतसा पे० मुदितासहगतेन
चेतसा पे० उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन
अवेरेन अब्ब्यापज्जेन फरित्वा विहरति । सो अनेकविहित पुब्बेनिवास
अनुस्सरति, सेय्यथिद^४— एक पि जाति द्वे पि जातिर्यो^५ तिस्सो पि जातियो 25
चतस्सो पि जातियो पृञ्च पि जातियो दस पि जातियो बीस पि जातियो
तिस पि जातियो चत्तालीस^६ पि जातियो पञ्जास पि जातियो जातिसत्त
पि जातिसहस्स पि जातिसत्तसहस्स पि^{*} अनेके पि सवट्टकप्पे अनेके पि

B 42

R 51

१ सब्बत्तताय — सी० । २ च होति — स्या० । ३ वा — स्या० । ४ सेय्यथिद —
स्या०, रो० । ५ बीसति — रो० । ६ चत्तालीस — सी०, स्या०, चत्तारीस — रो० । * एत्थ सी०
पोत्थके अनेकानि पि जातिसत्तानि अनेकानि पि जातिसहस्सानि अनेकानि पि जातिसत्तसहस्सानि
इति अधिको पाठो दिस्सति ।

विवट्टकप्पे अनेके पि सवट्टविवट्टकप्पे- 'अमुत्रासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी' एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो अमुत्र उदपादि, तत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो ति,
5 इति साकार सउद्देस अनेकविहित पुब्बेनिवास अनुस्सरति ।

२० "त कि मञ्जासि, निग्रोध, यदि एव सन्ते तपोजिगुच्छा परिसुद्धा वा होति अपरिसुद्धा वा" ति ?

"अद्धा खो, भन्ते, एव सन्ते तपोजिगुच्छा परिसुद्धा होति, नो अपरिसुद्धा, अग्गप्पत्ता च सारप्पत्ता चा" ति ।

10 "न खो, निग्रोध, एत्तावता तपोजिगुच्छा अग्गप्पत्ता च होति सारप्पत्ता च, अपि च खो फेग्गुप्पत्ता होती" ति ।

२१ "कित्तावता पन, भन्ते, तपोजिगुच्छा अग्गप्पत्ता च होति सारप्पत्ता च ? साधु मे, भन्ते, भगवा तपोजिगुच्छाय अग्गञ्जेव पापेतु सारञ्जेव पापेतू" ति ।

15 "इध, निग्रोध, तपस्सी चातुयामसवरसवुतो होति । कथ च, निग्रोध, तपस्सी चातुयामसवरसवुतो होति पे० यतो खो, निग्रोध, तपस्सी चातुयामसवरसवुतो होति, अद्दु चस्स होति तपस्सिताय । सो अभिहरति, नो हीनायावत्तति । सो विवित्त सेनासन भजति पे० सो इमे पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलसे पञ्जाय दुब्बलीकरणे मेत्तासह-
20 गतेन चेतसा पे० उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेण अब्यापज्जेण फरित्वा विहरति । सो अनेकविहित पुब्बेनिवास अनुस्सरति, सेय्यथिद - एक पि जाति द्वे पि जातियो तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो पे० इति साकार सउद्देस अनेकविहित पुब्बनिवास अनुस्सरति । सो दिब्बेन चक्खुना
R 52 विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूष्णगे^१ सत्ते पजानाति -
B 43 'इमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियान उपवादका मिच्छादिट्टिका मिच्छादिट्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुग्गति
30 विनिपात निरय उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन

१ दुक्खपटिसवेदी - रो० । २ यथाकम्मपणे - स्या० ।

समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता
अरियान अनुपवादका सम्मादिट्टिका सम्मादिट्टिकम्मसमादाना, ते
कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपन्ना' ति । इति
दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने
उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपणे सत्ते 5
पजानाति ।

२२ “त कि मञ्जासि, निग्रोध, यदि एव सन्ते तपोजिगुच्छा
परिसुद्धा वा होति अपरिसुद्धा वा” ति ?

“अद्धा खो, भन्ते, एव सन्ते तपोजिगुच्छा परिसुद्धा होति, नो
अपरिसुद्धा, अग्ग पत्ता च सारप्पत्ता चा” ति । 10

२३ “एत्तावता खो, निग्रोध, तपोजिगुच्छा अग्गप्पत्ता च होति
सारप्पत्ता च । इति खो, निग्रोध, य म त्व अवचासि — ‘को नाम सो,
भन्ते, भगवतो धम्मो येन भगवा सावके विनेति, येन भगवता सावका
विनीता अस्सासप्पत्ता पटिजानन्ति अज्भासय आदिब्रह्मचरिय’ ति, इति
खो त', निग्रोध, ठान उत्तरितर च पणीततर च येनाह सावके विनेमि, 15
येन मया सावका विनीता अस्सासप्पत्ता पटिजानन्ति अज्भासय आदि-
ब्रह्मचरिय’ ति ।

एव वुत्ते, ते परिब्बाजका उन्नादिनो उच्चासद्दमहासद्दा अहेसु-
“एत्थ मय अनस्साम^१ साचरियका*, न मय इतो भिय्यो उत्तरितर पजा-
नामा” ति । 20

§ ७ सन्धानो गृहपति निग्रोध चोदेति

२४ यदा अञ्जासि सन्धानो गृहपति—“अञ्जदत्थु खो दानिमे
अञ्जातित्थिया परिब्बाजका भगवतो भासित सुस्सुसन्ति सोत ओदहन्ति
अञ्जाचित्त उपट्ठापेन्ती” ति, अथ^२ निग्रोध परिब्बाजक एतदवोच—“इति
खो, भन्ते निग्रोध, य म त्व अवचासि—‘यग्घे, गृहपति, जानेय्यासि केन समणो
गोतमो सर्द्धि सल्लपति केन साकच्छ समापज्जति केन पञ्जावेय्यत्तिय
समापज्जति^३, सुञ्जागारहता समणस्स गोतमस्स पञ्जा, अपरिसावचरो 25
समणो गोतमो नाल सल्लापाय, सो अन्तमन्तानेव सेवति, सेय्यथापि नाम

१ स्या० पोत्थके नत्थि । २ पस्साम — स्या० । * सी० स्या० पोत्थकेसु — एत्थ मय
पस्साम (पनस्साम — सी०) साचरियका इति अधिको पाठो विज्जति । ३ उपट्ठापेन्ती — सी०,
रो० स्या० । ४ अथ न — सी० । ५ आपज्जति — रो० ।

गोकाणा परियन्तचारिनी अन्तमन्तानेव सेवति एवमेव सुञ्जागरहता समणस्स गोतमस्स पञ्जा, अपरिसावचरो समणो गोतमो, नाल सल्लापाय, सो अन्तमन्तानेव सेवति, इद्ध च, गहपति, समणो गोतमो इम परिस आगच्छेय्य, एकपञ्हेनेव न ससादेय्याम, तुच्छकुम्भीव न मञ्जे ओरोधेय्यामा' 5 ति, अय खो सो, भन्ते, भ।वा अरह सम्मासम्बुद्धो इधानुप्पत्तो । अपरिसावचर पन न करोथ, गोकाण परियन्तचारिनि करोथ, एकपञ्हेनेव न ससादेथ, तुच्छकुम्भीय न' ओरोधेथा" ति ।

२५ एव वुत्ते, निग्रोधो परिब्बाजको तुण्हीभूतो मङ्कुभूतो पत्तक्खन्धो अधोमुखो पञ्जायन्तो अप्पटिभानो निसीदि । अथ खो भगवा निग्रोध 10 परिब्बाजक तुण्हीभूत मङ्कुभूत पत्तक्खन्ध अधोमुख पञ्जायन्त अप्पटिभान विदित्वा निग्रोध परिब्बाजक एतदवोच—“सच्च किर, निग्रोध, भासिता ते एसा वाचा” ति ?

R 4 “सच्च, भन्ते, भासिता मे एसा वाचा, यथाबालेन यथामूब्हेन यथाअकुकुसलेना” ति ।

15 “त कि मञ्जसि, निग्रोध, किन्ति ते सुत परिब्बाजकान वुद्धान' महल्लकान आचरियपाचरियान भासमानान - ‘ये ते अहेसु अतीतमद्धान अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा एव सु ते भगवन्तो सगम्म समागम्म उन्नादिनो उच्चासद्दमहासद्दा अनेकविहित तिरच्छानकथ अनुयुत्ता विहरिसु, सेय्यथिद- राजकथ चोरकथ पे० इतिभवाभवकथ इति वा, सेय्यथापि त्व एतरहि 20 साचरियको ? उदाहु, एव सु ते भगवन्तो अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति अप्पसद्धानि अप्पनिग्घोसानि विजनवातानि मनुस्स- राहस्सेय्यकानि पटिसल्लानसारुप्पानि, सेय्यथापाह एतरही” ति ?

B 45 “सुत मेत, भन्ते, परिब्बाजकान वुद्धान महल्लकान आचरियपाचरियान भासमानान -‘ये ते अहेसु अतीतमद्धान अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा, न एव सु 25 ते भगवन्तो सगम्म समागम्म उन्नादिनो उच्चासद्दमहासद्दा अनेकविहित तिरच्छानकथ अनुयुत्ता विहरन्ति, सेय्यथिद - राजकथ चोरकथ पे० इति- भवाभवकथ इति वा, सेय्यथापाह एतरहि साचरियको । एव सु ते भगवन्तो अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति अप्पसद्धानि अप्प- निग्घोसानि विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्लानसारुप्पानि, 30 सेय्यथापि भगवा एतरही” ति ।

“तस्स ते^१, निग्रोध, विञ्जूस्स सतो महल्लकस्स न एतदहोसि—
‘बुद्धो सो भगवा बोधाय धम्म देसेति, दन्तो सो भगवा दमथाय धम्म
देसेति, सन्तो सो भगवा समथाय धम्म देसेति, तिण्णो सो भगवा तरणाय
धम्म देसेति, परिनिब्बुतो सो भगवा परिनिब्बानाय धम्म देसेती” ति ?

R 55

§ ८ निग्रोधो अचचय अचचयतो पटिजानि

२६ एव वुत्ते, निग्रोधो परिब्बाजको भगवन्त एतदवोच—“अचचयो
म, भन्ते, अचचगमा यथाबाल यथामूब्ह यथाअकुसल, य्वाह एव भगवन्त
अवचासि । तस्स मे, भन्ते, भगवअचचय अचचयतो पटिग्गण्हातु^२ आयति
सवराया” ति ।

5

“तग्घ त्व, निग्रोध, अचचयो अचचगमा यथाबाल यथामूब्ह यथा-
अकुसल, यो म त्व एव अवचासि । यतो च खो त्व, निग्रोध, अचचय अचच-
यतो दिस्वा यथाधम्म पटिकरोसि त ते मय पटिग्गण्हाम । वुद्धि हेसा,
निग्रोध, अरियस्स विनये यो अचचय अचचयतो दिस्वा यथाधम्म पटि-
करोति, आयति सवर आपज्जति । अह खो पन, निग्रोध, एव वदामि—

10

‘एतु विञ्जू पुरिसो असठो अमायावी उजुजातिको, अहमनुसासामि,
अह धम्म देसेमि । यथानुसिट्ठ तथा पटिपज्जमानो — यस्सत्थाय कुलपुत्ता
सम्मदेव अगारस्सा अनगारिय पब्बजन्ति तदनुत्तर — ब्रह्मचरियपरियोसान
दिट्ठेव धम्मे सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सति सत्तव-
स्सानि । तिट्ठन्तु, निग्रोध, सत्त वस्सानि । एतु विञ्जू पुरिसो असठो अमायावी
उजुजातिको, अहमनुसासामि, अह धम्म देसेमि । यथानुसिट्ठ तथा पटि-
पज्जमानो — यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्सा अनगारिय पब्बजन्ति
तदनुत्तर — ब्रह्मचरियपरियोसान दिट्ठेव धम्मे सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा
उपसम्पज्ज विहरिस्सति छ वस्सानि पञ्च वस्सानि चत्तारि वस्सानि

15

20 B 46

तीणि वस्सानि द्वे वस्सानि एक वस्स । तिट्ठन्तु, निग्रोध, एक वस्स ।
एतु विञ्जू पुरिसो असठो अमायावी उजुजातिको, अहमनुसासामि, अह
धम्म देसेमि । यथानुसिट्ठ तथा पटिपज्जमानो — यस्सत्थाय कुलपुत्ता
सम्मदेव अगारस्सा अनगारिय पब्बजन्ति तदनुत्तर — ब्रह्मचरियपरियोसान
दिट्ठेव धम्मे सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सति सत्त मासानि ।
तिट्ठन्तु, निग्रोध, सत्त मासानि छ मासानि पञ्च मासानि चत्तारि
मासानि तीणि मासानि द्वे मासानि एक मास अड्ढमास^३ । तिट्ठन्तु,

25

K 56

निग्रोध, अङ्गुमासो । एतु विञ्जू पुरिसो असठो अमायावी उजुजातिको, अहमनु-
सासामि, अह धम्म देसेमि । यथानुसिट्ठ तथा पटिपज्जमानो- यस्सत्थाय कुल-
पुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारिय पब्बजन्ति तदनुत्तर- ब्रह्मचरियपरियो-
सान दिट्ठेव धम्मे सय अभिञ्जा सच्छिक्त्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सति सत्ताह ।

- 5 २७ “सिया खो पनेत^१, निग्रोध, एवमस्स-‘अन्तेवासिकम्यता नो
समणो गोतमो एवमाहा’ ति । न खो पनेत, निग्रोध, एव दट्ठब्ब । यो एव
वो आचरियो सो एव वो आचरियो होतु । सिया खो पन ते, निग्रोध,
एवमस्स-‘उद्देसा नो चावेतुकामो समणो गोतमो एवमाहा’ ति । न खो
पनेत, निग्रोध, एव दट्ठब्ब । यो एव वो उद्देसो सो एव वो उद्देसो होतु ।
10 सिया खो पन ते, निग्रोध, एवमस्स- ‘आजीवा नो चावेतुकामो समणो
गोतमो एवमाहा’ ति । न खो पनेत, निग्रोध, एव दट्ठब्ब । यो एव^२ वो^३
आजीवो सो एव वो आजीवो होतु । सिया खो पन ते, निग्रोध,
एवमस्स - ‘यो नो धम्मा अकुसला अकुसलसङ्घाता साचरियकान, तेसु
पतिट्ठापेतुकामो समणो गोतमो एवमाहा’ ति । न खो पनेत, निग्रोध, एव
15 दट्ठब्ब । अकुसला चैव वो ते धम्मा होन्तु अकुसलसङ्घाता च साचरियकान ।
सिया खो पन ते, निग्रोध, एवमस्स- ‘ये नो धम्मा कुसला कुसलसङ्घाता
साचरियकान तेहि विवेचेतुकामो समणो गोतमो एवमाहा’ ति । न खो
पनेत, निग्रोध, एव दट्ठब्ब । कुसला चैव वो ते धम्मा होन्तु कुसलसङ्घाता
च साचरियकान । इति ख्वाह, निग्रोध, नेव अन्तेवासिकम्यता एव वदामि,
R 57 20 न पि^४ उद्देसा चावेतुकामो एव वदामि, न पि आजीवा चावेतुकामो एव
वदामि, न पि ये च वो धम्मा अकुसला अकुसलसङ्घाता साचरियकान तेसु
पतिट्ठापेतुकामो एव वदामि, न पि ये वो धम्मा कुसला कुसलसङ्घाता
साचरियकान तेहि विवेचेतुकामो एव वदामि । सन्ति च खो, निग्रोध,
अकुसला धम्मा अप्पहीना सकिलेसिका पोनोब्भविका सदरा दुक्खविपाका
25 आयति जातिजरामरण्या, येसाह पहाणाय धम्म देसेमि । यथापटिपन्नान
वो सकिलेसिका धम्मा पहीयिस्सन्ति, वोदानीया धम्मा अभिवड्ढिस्सन्ति,
पञ्जापारिपूरि वेपुल्लत्त च दिट्ठेव धम्मे सय अभिञ्जा सच्छिक्त्वा
उपसम्पज्ज विहरिस्सथा” ति ।

२८ एव वुत्ते, ते परिब्बाजका तुण्हीभूता मङ्कुभूता^५ पत्तक्खन्धा

१ पन ते - सी० । २ च - स्या० । ३ ते - सी० स्या० । ४ ते - स्या० । ५ नापि -
स्या० । ६ मङ्कुभूता - म० ।

अधोमुखा पञ्जायन्ता अप्पटिभानां निसीदिसु, यथा त मारेण परि-
युद्धितचित्ता । अथ खो भगवतो एतदहोसि – “सब्बे पिमे मोघपुरिसा फुट्ठा
पापिमता, यत्र हि नाम एकस्स पि न एव भविस्सति— ‘हन्द मय अञ्जाणत्थ
पि समणे गोतमे ब्रह्मचरिय चराम, कि करिस्सति सत्ताहो’” ति । अथ
खो भगवा उदुम्बरिकाय परिब्बाजकारामे सीहनाद नदित्वा वेहास 5
अभुग्गन्त्वा गिञ्जकूटे पब्बते पच्चुपट्टासि । सन्धानो पन गहपति तावदेव
राजगह पाविसी ति ।

उदुम्बरिकसुत्त निद्धित दुतिय ।

३ चक्कवत्तिसुत्तं

B 48
R 58

१ एव मे सुत । एक समय भगवा मगधेसु विहरति मातुलाय । तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि – “भिक्खवो” ति । “भद्वन्ते” ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतद्वोच – “अत्तदीपा, भिक्खवे, विहरथ अत्तसरणा अनञ्जसरणा, धम्मदीपा धम्मसरणा अनञ्जसरणा ।
5 कथ च पन, भिक्खवे, भिक्खु अत्तदीपो विहरति अत्तसरणो अनञ्जसरणो, धम्मदीपो धम्मसरणो अनञ्जसरणो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सत्तिमा, विनेय्य लोके अभिज्झा-
दोमनस्स।वेदनासु वेदनानपस्सी पे० चित्ते चित्तानुपस्सी पे० धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सत्तिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्स ।
10 एव खो, भिक्खवे, भिक्खु अत्तदीपो विहरति अत्तसरणो अनञ्जसरणो, धम्मदीपो धम्मसरणो अनञ्जसरणो ।

“गोचरे, भिक्खवे, चरथ सके पेत्तिके विसये । गोचरे, भिक्खवे, चरत सके पेत्तिके विसये न लच्छति मारो ओतार, न लच्छति मारो आरम्मण । कुसलान, भिक्खवे, धम्मान समादानहेतु एवमिद पुञ्ज पवड्ढति ।

§ १ दब्बहेमिचक्कवत्तिराजा

R 59 15

२ “भूतपुब्ब, भिक्खवे, राजा दब्बहेमि^१ नाम अहोसि चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरियप्पत्तो सत्तरतन-समन्नागतो । तस्सिमानि सत्त रतनानि अहेसु, सेय्यथिद – चक्करतन, हत्थिरतन, अस्सरतन, मणिरतन, इत्थिरतन, गहपतिरतन, परिणायक-रतनमेव सत्तम । परोसहस्स खो पनस्स पुत्ता अहेसु सूरा वीरङ्गरूपा
20 परसेनप्पमहना । सो इम पथवि सागरपरियन्त अदण्डेन असत्थेन धम्मेन^२ अभिविजिय अज्झावसि ।

B 49

३ “अथ खो, भिक्खवे, राजा दब्बहेमि बहुन्न वस्सान बहुन्न वस्ससतान बहुन्न वस्ससहस्सान अच्चयेन अञ्जातर पुरिस आमन्तेसि – ‘यदा त्व, अम्भो पुरिस, पस्सेय्यासि दिब्ब चक्करतन ओसक्कित ठाना
25 चुत, अथ मे आरोचेय्यासी’ ति । ‘एव, देवा’ ति खो, भिक्खवे, सो

१ चक्कवत्ति – सीहनादसुत्त – सी०, रो० । २ दब्बहेमि – स्या० । ३ धम्मेन समेन – सी०, स्या० ।

पुरिसो रञ्जो दल्हनेमिस्स पच्चस्सोसि । अद्दसा खो, भिक्खवे, सो
 पुरिसो बहुन्न वस्सान बहुन्न वस्ससतान बहुन्न वस्ससहस्सान अच्चयेन
 दिब्ब चक्करतन ओसक्कित ठाना चुत । दिस्वान येन राजा दल्हनेमि
 तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा राजान दल्हनेमि एतदवोच — ‘यग्घे, देव,
 जानेय्यासि, दिब्ब ते चक्करतन ओसक्कित ठाना चुत’ ति । अथ खो, 5
 भिक्खवे, राजा दल्हनेमि जेट्टुपुत्त कुमार आमन्तापेत्वा^१ एतदवोच — ‘दिब्ब
 किर मे, तात कुमार, चक्करतन ओसक्कित ठाना चुत । सुत खो पन
 मेत—यस्स रञ्जो चक्कवत्तिस्स दिब्ब चक्करतन ओसक्कित ठाना चवति, न
 दानि तेन रञ्जा चिर जीवितब्ब होती ति । भुत्ता खो पन मे मानुसका
 कामा । समयो दानि मे दिब्बे कामे परियेसितु । एहि त्व, तात 10
 कुमार, इम समुद्दपरियन्त पथवि पटिपज्ज । अह पन केसमस्सु ओहा-
 रेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्सा अनगारिय पब्ब-
 जिस्सामी’ ति ।

R 60

४ “अथ खो, भिक्खवे, राजा दल्हनेमि जेट्टुपुत्त कुमार साधुक
 रज्जे समनुसासित्वा केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छा- 15
 देत्वा अगारस्सा अनगारिय पब्बजि । सत्ताहपब्बजिते खो पन,
 भिक्खवे, राजिसिम्हि दिब्ब चक्करतन अन्तरधायि ।

“अथ खो, भिक्खवे, अञ्जातरो पुरिसो येन राजा खत्तियो
 मुद्धाभिसित्तो^३ तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा राजान खत्तिय मुद्धा-
 भिसित्त एतदवोच — ‘यग्घे, देव, जानेय्यासि, दिब्ब चक्करतन अन्तर- 20
 हित’ ति । अथ खो, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो दिब्बे
 चक्करतने अन्तरहिते अनत्तमनो अहोसि, अनत्तमनत च पटिसवेदेसि ।
 सो येन राजिसि तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा राजिसि एतदवोच —
 ‘यग्घे, देव, जानेय्यासि, दिब्ब चक्करतन अन्तरहित’ ति । एव वुत्ते,
 भिक्खवे, राजिसि राजान खत्तिय मुद्धाभिसित्त एतदवोच — ‘मा खो त्व, 25
 तात, दिब्बे चक्करतने अन्तरहिते अनत्तमनो अहोसि, मा^४ अनत्तमनत च
 पटिसवेदेसि^५ । न हि ते, तात, दिब्ब चक्करतन पेट्ठिक दायज्ज ।
 इद्ध त्व, तात, अरिये चक्कवत्तिवत्ते वत्ताहि । ठान खो पनेत विज्जति
 य ते अरिये चक्कवत्तिवत्ते वत्तमानस्स तदहुपोसथे पन्नरसे सीसन्हातस्स

B 50

१ आमन्तेत्वा — सी० स्या० । २ मानुसिभा — सी० । ३ मुद्धावसित्तो — स्या०, रो० ।
 ४ स्या० रो० । त्थकेसु नत्थि । ५ पटिसवेदेहि — सी० ।

उपोसथिकस्स उपरिपासादवरगतस्स^१ दिब्ब चक्करतन पातुभविस्सति
सहस्सार सनेमिक सनाभिक सब्बाकारपरिपूर^२ ति ।

§२ चक्कवत्तिअरियवत्त

R 61

५ 'कतम पन त, देव, अरिय चक्कवत्तिवत्त' ति ?

'तेन हि त्व, तात, धम्म येव निस्साय धम्म सक्करोन्तो धम्म
5 गरु करोन्तो धम्म मानेन्तो धम्म पूजेन्तो धम्म अपचायमानो धम्म-
द्धजो धम्मकेतु धम्माधिपतेय्यो धम्मिक रक्खावरणगुत्ति सविदहस्सु
अन्तोजनस्मि बलकार्यास्मि खत्तियेसु अनुयन्तेसु^३ ब्राह्मणगहपतिकेसु
नेगमजानपदेसु समणब्राह्मणेषु मिगपक्खीसु । मा च ते, तात, विजिते
अधम्मकारो पवत्तित्थ । ये च ते, तात, विजिते अधना अस्सु^४ तेस च
10 धनमनुप्पदेय्यासि । ये च ते, तात, विजिते समणब्राह्मणा मदप्पमादा
पटिविरता खन्तिसोरच्चे निविट्ठा एकमत्तान दमेन्ति एकमत्तान समेन्ति
एकमत्तान परिनिब्बापेन्ति, ते कालेन काल उपसङ्कमित्वा परिपुच्छेय्यासि
परिपुच्छेय्यासि^५— कि, भन्ते, कुसल, कि अकुसल, कि सावज्ज, कि अन-
वज्ज, कि सेवितब्ब, कि न सेवितब्ब, कि मे करीयमान^६ दीघरत्त
15 अहिताय दुक्खाय अस्स, कि वा पन मे करीयमान दीघरत्त हिताय
सुखाय अस्सा ति ? तेस सुत्वा य अकुसल त अभिनिवज्जेय्यासि, य
कुसल त समादाय वत्तेय्यासि । इद खो, तात, त अरिय चक्कवत्तिवत्त'
ति ।

§३ चक्करतन

६ "एव, देवा' ति खो, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो
20 राजिसिस्स पटिस्सुत्वा अरिये चक्कवत्तिवत्ते वत्ति । तस्स अरिये चक्क-
वत्तिवत्ते वत्तमानस्स तदहुपोसथे पन्नरसे सीसन्हातस्स उपोसथिकस्स उपरि-
B 51 पासादवरगतस्स दिब्बा चक्करतन पातुरहोसि सहस्सार सनेमिक सनाभिक
सब्बाकारपरिपूर । दिस्वान रज्जो खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स एतदहोसि-
'सुत खो पन मेत— यस्स रज्जो खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स तदहुपोसथे
25 पन्नरसे सीसन्हातस्स उपोसथिकस्स उपरिपासादवरगतस्स दिब्ब चक्करतन
पातुभवति सहस्सार सनेमिक सनाभिक सब्बाकारपरिपूर, सो होति
R 62 राजा चक्कवत्ती ति । अस्स नु खो अह राजा चक्कवत्ती' ति ।

१ आनुयन्तेसु — सी०, अनुयन्तेसु — रो० । २ स्या० पोत्थके नत्थि । ३ परिगह्येय्यासि — म०, रो० पोत्थके नत्थि । ४ करियमान — सी०, स्या०, कथियमान — रो० ।

“अथ खो, भिक्खवे, राजा^१ खत्तियो मुद्धाभिसित्तो उट्टायासना एकस उतरासङ्ग करित्वा वामेन हत्थेन भिङ्गार गहेत्वा दक्खिणेन हत्थेन चक्ररतन अभुक्किरि - ‘पवत्तु भव चक्ररतन, अभिविजिनातु भव चक्ररतन’ ति ।

“अथ खो त, भिक्खवे, चक्ररतन पुरत्थिम दिस पवत्ति, 5
अन्वदेव राजा चक्रवत्ती सद्धि चतुरङ्गिनिया सेनाय । यस्मि खो पन, भिक्खवे, पदेसे चक्ररतन पतिट्ठासि तत्थ राजा चक्रवत्ती^१ वास उपगच्छि^२ सद्धि चतुरङ्गिनिया सेनाय । ये खो पन, भिक्खवे, पुरत्थिमाय दिसाय पटिराजानो ते राजान चक्रवत्ति उपसङ्कमित्वा एवमाहसु - ‘एहि खो, महाराज । स्वागत^३ ते’, महाराज । सक ते, महाराज । अनुसास, 10
महाराजा’ ति । राजा चक्रवत्ती एवमाह - ‘पाणो न हन्तब्बो, अदिन्न नादातब्बं, कामेसुमिच्छा न चरितब्बा, मुसा न भासितब्बा, मज्ज न पातब्ब, यथाभुत्त च भुञ्जथा’ ति । ये खो पन, भिक्खवे, पुरत्थिमाय दिसाय पटिराजानो ते रञ्जो चक्रवत्तिस्स अनुयन्ता अहेसु ।

७ “अथ खो त, भिक्खवे, चक्ररतन पुरत्थिम समुद् अज्झो- 15
गाहेत्वा^४ पच्चुत्तरित्वा दक्खिण दिस पवत्ति पे० दक्खिण समुद् अज्झोगाहेत्वा पच्चुत्तरित्वा पच्छिम दिस पवत्ति, अन्वदेव राजा चक्रवत्ती सद्धि चतुरङ्गिनिया सेनाय । यस्मि खो पन, भिक्खवे, पदेसे दिब्ब चक्ररतन पतिट्ठासि, तत्थ राजा चक्रवत्ती वास उपगच्छि सद्धि चतुर- 20
रङ्गिनिया सेनाय । ये खो पन, भिक्खवे, पच्छिमाय दिसाय पटिराजानो ते राजान चक्रवत्ति उपसङ्कमित्वा एवमाहसु - ‘एहि खो, महाराज । स्वागत ते, महाराज । सक ते, महाराज । अनुसास, महाराजा’ ति । राजा चक्रवत्ती एवमाह - ‘पाणो न हन्तब्बो, अदिन्न नादातब्ब, 25
कामेसुमिच्छा न चरितब्बा, मुसा न भासितब्बा, मज्ज न पातब्ब, यथाभुत्त च भुञ्जथा’ ति । ये खो पन, भिक्खवे, पच्छिमाय दिसाय पटिराजानो ते रञ्जो चक्रवत्तिस्स अनुयन्ता^५ अहेसु ।

B 52

२ 63

८ “अथ खो त, भिक्खवे, चक्ररतन पच्छिम समुद् अज्झो-
गाहेत्वा पच्चुत्तरित्वा उत्तर दिस पवत्ति, अन्वदेव राजा चक्रवत्ती सद्धि

१ चक्रवत्ति - स्या० रो० । २ उपगच्छि - सी० । ३ सागत - रो० । ४ स्या०
पोत्यके नत्थि । ५ अज्झोगहेत्वा - सी० रो०, स्या० । ६ अनुयन्ता - रो०, अनुयन्ता - सी० ।
दीर्घ० - ३

चतुरङ्गिनिया सेनाय । यस्मि खो पन, भिक्खवे, पदेसे दिब्ब^१ चक्करतन पतिट्ठासि, तत्थ राजा चक्कवत्ती वास उपगच्छि सद्धि चतुरङ्गिनिया सेनाय । ये खो पन, भिक्खवे, उत्तराय दिसाय पटिराजानो ते राजान चक्कवत्ति उपसङ्कमित्वा एवमाहसु – ‘एहि खो, महाराज । स्वागत ते,
 5 महाराज । सक ते, महाराज । अनुसास, महाराजा’ ति । राजा चक्कवत्ती एवमाह – ‘पाणो न हन्तब्बो, अदिन्न नादातब्ब, कामेसुमिच्छा न चरितब्बा, मुसा न भासितब्बा, मज्ज न पातब्ब, यथाभुत्त च भुञ्जथा’ ति । ये खो पन, भिक्खवे, उत्तराय दिसाय पटिराजानो ते रञ्जो चक्कवत्तिस्स अनुयन्ता अहेसु ।

10 “अथ खो त, भिक्खवे, चक्करतन समुद्दपरियन्त पथवि^२ अभिविजिनित्वा तमेव राजधानि पच्चागन्त्वा रञ्जो चक्कवत्तिस्स अन्तेपुरद्वारे अत्थकरणपमुखे^३ अक्खाहत मज्जे अट्ठासि, रञ्जो चक्कवत्तिस्स अन्तेपुर उपसोभयमान ।

६ “दुतियो पि खो, भिक्खवे, राजा चक्कवत्ती पे० ततियो पि
 15 खो, भिक्खवे, राजा चक्कवत्ती चतुत्थो पि खो, भिक्खवे, राजा चक्कवत्ती पञ्चमो पि खो, भिक्खवे, राजा चक्कवत्ती छट्ठो पि खो, भिक्खवे, राजा चक्कवत्ती सत्तमो पि खो, भिक्खवे, राजा चक्कवत्ती बहुन्न वस्सान बहुन्न वस्ससतान बहुन्न वस्ससहस्सान अच्चयेन अञ्जतर पुरिस आमन्तेसि—
 ‘यदा त्व, अम्भो पुरिस, पस्सेय्यासि दिब्ब चक्करतन ओसक्कित ठाना
 20 चुत्त, अथ मे आरोचेय्यासी’ ति । ‘एव, देवा’ ति खो, भिक्खवे, सो पुरिसो रञ्जो चक्कवत्तिस्स पच्चस्सोसि । अद्दसा खो, भिक्खवे, सो पुरिसो बहुन्न वस्सान बहुन्न वस्ससतान बहुन्न वस्ससहस्सान अच्चयेन दिब्ब चक्करतन ओसक्कित ठाना चुत्त । दिस्वान येन राजा चक्कवत्ती तेनुपसङ्कमि, उप-
 B 53 सङ्कमित्वा राजान चक्कवत्ति एतदवोच—‘यग्घे, देव, जानेय्यासि, दिब्ब ते
 R 64 चक्करतन ओसक्कित, ठाना चुत्त’ ति ?
 25

१० “अथ खो, भिक्खवे, राजा चक्कवत्ती जेट्टपुत्त कुमार आमन्तापेट्वा एतदवोच—‘दिब्ब किर मे, तात्त कुमार, चक्करतन ओस-
 क्कित, ठाना चुत्त । सुत्त खो पन मेत्त—यस्स रञ्जो चक्कवत्तिस्स दिब्ब
 चक्करतन ओसक्कति, ठाना चवत्ति, न दानि तेन रञ्जा चिर जीवित्तब्ब
 30 होती ति । भुत्ता खो पन मे मानुसका कामा । समयो दानि मे दिब्बे कामे

१ स्ता० रो० पोत्थवेसु गत्थि । २ पठवि – स्या०, रो० । ३ अट्ठकरणपमुखे – सो० ।

परियेसितु । एहि त्व, तात कुमार, इम समुद्परियन्त पथवि पटिपज्ज ।
अह पन केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा
अनगारिय पब्बजिस्सामी' ति ।

“अथ खो, भिक्खवे, राजा चक्कवत्ती जेट्टुपुत्त कुमार साधुक रज्जे
समनुसासित्वा केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा 5
अगारस्मा अनगारिय पब्बजि । सत्ताहपब्बजिते खो पन, भिक्खवे,
राजिसिम्हि दिब्ब चक्करतन अन्तरधायि ।

११ “अथ खो, भिक्खवे, अञ्जतरो पुरिसो येन राजा खत्तियो
मुद्धाभिसित्तो तेनुपसङ्गमि, उपसङ्गमित्वा राजान खत्तिय मुद्धाभिसित्त
एतदवोच— यग्घे, देव, जानेय्यासि, दिब्ब चक्करतन अन्तरहित' ति ? 10
अथ खो, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो दिब्बे चक्करतने
अन्तरहिते अनत्तमनो अहोसि, अनत्तमनत च पटिसवेदेसि, नो च
खो राजिसि उपसङ्गमित्वा अरिय चक्कवत्तिवत्त पुच्छि । सो समतेनेव
सुद जनपद पसासति । तस्स समतेन जनपद पसासतो पुब्बेनापर'
जनपदा न पब्बन्ति', यथा त पुब्बकान राजून अरिये चक्कवत्तिवत्ते 15
वत्तमानान ।

“अथ खो, भिक्खवे, अमच्चा पारिसज्जा गणकमहामत्ता अनीकट्टा
दोवारिका मन्तस्साजीविनो सन्नपत्तित्वा राजान खत्तिय मुद्धाभिसित्त*
एतदवोचु— 'न खो ते, देव, समतेन सुद' जनपद पसासतो पुब्बेनापर
जनपदा पब्बन्ति, यथा त पुब्बकान राजून अरिये चक्कवत्तिवत्ते वत्तमानान । 20
सविज्जन्ति खो ते, देव, विजिते अमच्चा पारिसज्जा गणकमहामत्ता
अनीकट्टा दोवारिका मन्तस्साजीविनो मयञ्चेव अञ्जे च ये मय अरिय
चक्कवत्तिवत्त धारेम । इद्ध त्व, देव, अम्हे अरिय चक्कवत्तिवत्त पुच्छि ।
तस्स ते मय अरिय चक्कवत्तिवत्त पुट्टा ब्याकरिस्सामा' ति ।

R 65,
B 54

§ ४ दालिद्विये वेपुल्ल गते

१२ “अथ खो, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो अमच्चे 25
पारिसज्जे गणकमहामत्ते अनीकट्टे दोवारिके मन्तस्साजीविनो सन्नि-
पातेत्वा अरिय चक्कवत्तिवत्त पुच्छि । तस्स ते अरिय चक्कवत्तिवत्त पुट्टा
ब्याकरिसु । तेस सुत्वा धम्मिकञ्चि खो रक्खावरणगुत्ति सविदहि, नो

१ न पुब्बे नापर - रो० । २ पच्चति - स्या० । * एत्थ सी०, रो० पोत्थकेसु उपसङ्गमित्वा
इति अधिको पाठो विज्जति । ३ रो० पोत्थके नत्थि ।

च खो अधनान धनमनुप्पदासि^१ । अधनान धने अननुप्पदीयमाने दालिद्विय^२ वेपुल्लमगमासि । दालिद्विये वेपुल्ल गते अञ्जतरो पुरिसो परेस अदिन्न थ्येयसङ्घात आदियि । तमेन अग्गहेसु । गहेत्वा रञ्जो खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स दस्सेसु - 'अय, देव, पुरिसो परेस अदिन्न थ्येयसङ्घात आदियी' ति । एव वुत्ते, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो त पुरिस एतदवोच- 'सच्च किर त्व, अम्भो पुरिस, परेस अदिन्न थ्येयसङ्घात आदियी' ति ?

'सच्च, देवा' ति ।

'किंकारणा' ति ?

10 'न हि, देव, जीवामी' ति ।

6 "अथ खो, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो तस्स पुरिसस्स धनमनुप्पदासि- 'इमिना त्व, अम्भो पुरिस, धनेन अत्तना च जीवाहि, मातापितरो च पोसेहि, पुत्तदार च पोसेहि, कम्मन्ते च पयोजेहि, समण- ब्राह्मणेसु उद्धग्गिक दक्खिण पतिट्ठापेहि सोवग्गिक सुखविपाक सग्गसवत्तनिक'^३ ति । 'एव, देवा' ति खो, भिक्खवे, सो पुरिसो रञ्जो खत्तियस्स मुद्धा- भिसित्तस्स पच्चस्सोसि ।

20 "अञ्जतरो पि खो, भिक्खवे, पुरिसो परेस अदिन्न थ्येयसङ्घात आदियि । तमेन अग्गहेसु । गहेत्वा रञ्जो खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स दस्सेसु- 'अय, देव, पुरिसो परेस अदिन्न थ्येयसङ्घात आदियी' ति । एव वुत्ते, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो त पुरिस एतदवोच-

55 'सच्च किर त्व, अम्भो पुरिस, परेस अदिन्न थ्येयसङ्घात आदियी' ति ?

'सच्च, देवा' ति ।

'किंकारणा' ति ?

25 'न हि, देव, जीवामी' ति ।

"अथ खो, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो तस्स पुरिसस्स धनमनुप्पदासि- 'इमिना त्व, अम्भो पुरिस, धनेन अत्तना च जीवाहि, मातापितरो च पोसेहि, पुत्तदार च पोसेहि, कम्मन्ते च पयोजेहि, समण- ब्राह्मणेसु उद्धग्गिक दक्खिण पतिट्ठापेहि^४ सोवग्गिक सुखविपाक सग्ग-

१ धनमनुप्पादासि - सी० । २ दालिद्विय - सी० स्या० दलिद्विय - रो० । ३ आदियसी - स्या० । ४ पतिट्ठापेहि - सी० स्या० ।

सवत्तनिक' ति । 'एव, देवा' ति खो, भिक्खवे, सो पुरिसो रञ्जो खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स पच्चस्सोसि ।

१३ "अस्सोसु खो, भिक्खवे, मनुस्सा— 'ये किर, भो, परेस अदिन्न थ्य्यसङ्घात आदियन्ति तेस राजा धनमनुप्पदेती'" ति । सुत्वान तेस एतदहोसि— 'यन्नून मय पि परेस अदिन्न थ्य्यसङ्घात आदियेय्यामा' ति । 5
अथ खो, भिक्खवे, अञ्जतरो पुरिसो परेस अदिन्न थ्य्यसङ्घात आदियि । तमेन अग्गहेसु । गहेत्वा रञ्जो खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स दस्सेसु— 'अय, देव, पुरिसो परेस अदिन्न थ्य्यसङ्घात आदियी' ति । एव 6
वुत्ते, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो त पुरिस एतदवोच— 'सच्च किर त्व, अम्भो पुरिस, परेस अदिन्न थ्य्यसङ्घात आदियी' ति ? 10

'सच्च, देवा' ति ।

'किंकारणा' ति ?

'न हि, देव, जीवामी' ति ।

"अथ खां, भिक्खवे, रञ्जो खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स एतदहोसि— 'सचे खो अह यो यो परेस अदिन्न थ्य्यसङ्घात आदियिस्सति तस्स 15
तस्स धनमनुप्पदस्सामि, एवमिद अदिन्नादान पवड्डिस्सति । यन्नूनाह इम पुरिसे सुनिसेध निसेधेय्य, मूलघच्च करेय्य, सीसमस्स छिन्देय्य' ति । अथ खो, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो पुरिसे आणापेसि— 'तेन हि, भणे, इम पुरिस दब्हाय रज्जुया पच्छाबाह^१ गाब्हबन्धन बन्धित्वा खुरमुण्ड करित्वा खरस्सरेण पणवेण रथिकाय^२ रथिक^३ सिङ्घाटकेन 20
सिङ्घाटक परिनेत्वा दक्खिणेन द्वारेण निक्खमित्वा दक्खिणतो नगरस्स सुनिसेध निसेधेय्य, मूलघच्च करोथ, सीसमस्स छिन्दथा' ति । 'एव, देवा' ति खो, भिक्खवे, ते पुरिसा रञ्जो खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स पटिस्सुत्वा त पुरिस दब्हाय रज्जुया पच्छाबाह गाब्हबन्धन बन्धित्वा खुरमुण्ड करित्वा खरस्सरेण पणवेण रथिकाय रथिक सिङ्घाटकेन सिङ्घाटक परिनेत्वा दक्खिणेन 25
द्वारेण निक्खमित्वा दक्खिणतो नगरस्स सुनिसेध निसेधेसु, मूलघच्च अकसु, सीसमस्स छिन्दिसु । B 56

१४ "अस्सोसु खो, भिक्खवे, मनुस्सा— 'ये किर, भो, परेस अदिन्न थ्य्यसङ्घात आदियन्ति ते राजा सुनिसेध निसेधेति, मूलघच्च

१ धनमनुप्पदेसी — रो० । २ मूलघच्च — स्या० मूलछेज्ज — सी० । ३ पच्छाबाहु — स्या० । ४ रथियाय — स्या० रो० रथिया — सी० । ५ रथिय — स्या०, रो० रथि — सी० ।

करोति, सीसानि तेस छिन्दती' ति । सुत्वान तेस एतदहोसि- 'यन्नून मय पि तिण्हानि सत्थानि कारापेस्साम', तिण्हानि सत्थानि कारापेत्वा येस अदिन्न थ्येयसङ्घात आदियिस्साम ते सुनिसेध निसेधेस्साम, मूलघच्च करिस्साम, सीसानि तेस छिन्दिस्सामा' ति । ते तिण्हानि सत्थानि कारापेसु, तिण्हानि
5 सत्थानि कारापेत्वा गामघात पि उपक्कमिसु कातु, निगमघात पि उपक्कमिसु कातु, नगरघात पि उपक्कमिसु कातु, पन्थदूहन^१ पि उपक्कमिसु कातु । येस ते अदिन्न थ्येयसङ्घात आदियन्ति ते सुनिसेध निसेधेन्ति, मूलघच्च करोन्ति, सीसानि तेस छिन्दन्ति ।

१५ "इति खो, भिक्खवे, अधनान धने अननुप्पदीयमाने दालिद्विय
10 वेपुल्लमगमासि, दालिद्विये वेपुल्ल गते अदिन्नादान वेपुल्लमगमासि, अदिन्नादाने वेपुल्ल गते सत्थ वेपुल्लमगमासि, सत्थे वेपुल्ल गते पाणातिपातो वेपुल्लमगमासि, पाणातिपाते वेपुल्ल गते तेस सत्तान आयु पि परिहायि वण्णो पि परिहायि । तेस आयुना पि परिहायमानान वण्णेन पि परिहायमानान असीतिवस्ससहस्सायुकान मनुस्सान चत्तारीसवस्ससहस्सायुका पुत्ता अहेसु ।

15 "चत्तारीसवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु अञ्जतरो पुरिसो परेस अदिन्न थ्येयसङ्घात आदियि । तमेन अगगहेसु । गहेत्वा रञ्जो खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स दस्सेसु- 'अय, देव, पुरिसो परेस अदिन्न थ्येयसङ्घात आदियी' ति । एव वुत्ते, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धाभिसित्तो त पुरिस एतदवोच- 'सच्च किर त्व, अम्भो पुरिस, परेस अदिन्न थ्येयसङ्घात
20 आदियी' ति ? 'न हि, देवा' ति सम्पजानमुसा अभासि' ।

१६ "इति खो, भिक्खवे, अधनान धने अननुप्पदीयमाने दालि-
द्विय वेपुल्लमगमासि, दालिद्विये वेपुल्ल गते अदिन्नादान वेपुल्लमगमासि,
9 अदिन्नादाने वेपुल्ल गते सत्थ वेपुल्लमगमासि, सत्थे वेपुल्ल गते पाणातिपातो वेपुल्लमगमासि, पाणातिपाते वेपुल्ल गते मुसावादो वेपुल्लमगमासि,
25 मुसावादे वेपुल्ल गते तेस सत्तान आयु पि परिहायि वण्णो पि परिहायि । तेस आयुना पि परिहायमानान वण्णेन पि परिहायमानान चत्तारीसवस्ससहस्सायुकान मनुस्सान वीसतिवस्ससहस्सायुका पुत्ता अहेसु ।

"वीसतिवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु अञ्जतरो पुरिसो

१ कारापेय्याम - स्या०, रो० । २ पन्थदूहण - स्या०, पन्थदूहन - म० । ३ भासि - स्या० । ४ नानुप्पदियमाने - स्या० अननुप्पदियमाने - म० ।

परेस अदिन्न थेय्यसङ्घात आदियि । तमेन अञ्जतरो पुरिसो रञ्जो
खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स आरोचेसि- 'इत्थन्नामो, देव, पुरिसो परेस
अदिन्न थेय्यसङ्घात आदियी', ति पेसुञ्जमकासि ।

१७ "इति खो, भिक्खवे, अधनान धने अननुप्पदीयमाने दालिद्विय
वेपुल्लमगमासि, दालिद्विये वेपुल्ल गते अदिन्नादान वेपुल्लमगमासि, 5
अदिन्नादाने वेपुल्ल गते सत्थ वेपुल्लमगमासि, सत्थे वेपुल्ल गते पाणातिपातो
वेपुल्लमगमासि, पाणातिपाते वेपुल्ल गते मुसावादो वेपुल्लमगमासि,
मुसावादे वेपुल्ल गते पिसुणा वाचा वेपुल्लमगमासि, पिसुणाय वाचाय
वेपुल्ल गताय तेस सत्तान आयु पि परिहायि वण्णो पि परिहायि । तेस
आयुना पि परिहायमानान वण्णेन पि परिहायमानान वीसतिवस्ससहस्सायु- 10
कान मनुस्सान दसवस्ससहस्सायुका पुत्ता अहेसु ।

"दसवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु एकिद सत्ता वण्णवन्तो'
होन्ति, एकिद सत्ता दुब्बण्णा । तत्थ ये ते सत्ता दुब्बण्णा ते वण्णवन्ते
सत्ते अभिज्जायन्ता परेस दारेसु चारित्त आपज्जिसु ।

१८ "इति खो, भिक्खवे, अधनान धने अननुप्पदीयमाने दालिद्विय 15
वेपुल्लमगमासि, दालिद्विये वेपुल्ल गते पे० कामेसुमिच्छाचारो
वेपुल्ल गते तेस सत्तान आयु पि परिहायि वण्णो पि परिहायि । तेस
आयुना पि परिहायमानान वण्णेन पि परिहायमानान दसवस्ससहस्सायुकान
मनुस्सान पञ्चवस्ससहस्सायुका पुत्ता अहेसु । B 58

१९ "पञ्चवस्ससाहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु द्वे धम्मा 20
वेपुल्लमगमसु - फरुसावाचा सम्फप्पलापो च । द्वीसु धम्मेसु वेपुल्ल
गतेसु तेस सत्तान आयु पि परिहायि वण्णो पि परिहायि । तेस आयुना पि
परिहायमानान वण्णेन पि परिहायमानान पञ्चवस्ससहस्सायुकान
मनुस्सान अप्पेकच्चे अद्भुतेय्यवस्ससहस्सायुका अप्पेकच्चे द्वेवस्ससहस्सायुका
पुत्ता अहेसु । R 70

२० "अद्भुतेय्यवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु अभिज्जा-
ब्यापादा^१ वेपुल्लमगमसु । अभिज्जाब्यापादेसु वेपुल्ल गतेसु तेस सत्तान
आयु पि परिहायि वण्णो पि परिहायि । तेस आयुना पि परिहायमानान
वण्णेन पि परिहायमानान अद्भुतेय्यवस्ससहस्सायुकान मनुस्सान वस्ससह-
स्सायुका पुत्ता अहेसु । 30

२१ “वस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु मिच्छादिट्ठि वेपुल्लम-
गमासि । मिच्छादिट्ठिया वेपुल्ल गताय तेस सत्तान आयु पि परिहायि
वण्णो पि परिहायि । तेस आयुना पि परिहायमानान वण्णेन पि परिहायमानान
वस्ससहस्सायुकान^१ मनुस्सान पञ्चवस्ससतायुका पुत्ता अहेसु ।

5 २० “पञ्चवस्ससतायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु तयो धम्मा वेपुल्ल-
मगमसु – अधम्मरागो, विसमलोभो, मिच्छाधम्मो । तीसु धम्मेसु वेपुल्ल
गतेसु तेस सत्तान आयु पि परिहायि वण्णो पि परिहायि । तेस आयुना पि
परिहायमानान वण्णेन पि परिहायमानान पञ्चवस्ससतायुकान मनुस्सान
अप्पेकच्चे अद्भुतेय्यवस्ससतायुका अप्पेकच्चे द्वेवस्ससतायुका पुत्ता अहेसु ।

10 “अद्भुतेय्यवस्ससतायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु इमे धम्मा वेपुल्ल-
मगमसु – अमत्तेय्यता, अपेत्तेय्यता, असामञ्जता, अब्रह्मञ्जता, न कुले
जेट्ठापचायिता ।

59 २३ “इति खो, भिक्खवे, अधनान धने अननुप्पदीयमाने दालिद्विय
वेपुल्लमगमासि, दालिद्विये वेपुल्ल गते अदिन्नादान वेपुल्लमगमासि, अदिन्नादाने
15 वेपुल्ल गते सत्थ वेपुल्लमगमासि, सत्थे वेपुल्ल गते पाणातिपातो वेपुल्लम-
गमासि, पाणातिपाते वेपुल्ल गते मुसावादो वेपुल्लमगमासि, मुसावादे
वेपुल्ल गते पिसुणा वाचा वेपुल्लमगमासि, पिसुणाय वाचाय वेपुल्ल गताय
71 कामेसुमिच्छाचारो वेपुल्लमगमासि, कामेसुमिच्छाचारे वेपुल्ल गते द्वे
धम्मा वेपुल्लमगमसु – फरसा वाचा सम्फप्पलापो च । द्वीसु धम्मेसु
20 वेपुल्ल गतेसु अभिज्झाब्ब्यापादा वेपुल्लमगमसु, अभिज्झाब्ब्यापादेसु
वेपुल्ल गतेसु मिच्छादिट्ठि वेपुल्लमगमासि, मिच्छादिट्ठिया वेपुल्ल गताय
तयो धम्मा वेपुल्लमगमसु – अधम्मरागो, विसमलोभो, मिच्छाधम्मो ।
तीसु धम्मेसु वेपुल्ल गतेसु इम धम्मा वेपुल्लमगमसु – अमत्तेय्यता,
अपेत्तेय्यता, असामञ्जता, अब्रह्मञ्जता, न कुले जेट्ठापचायिता । इमेसु
25 धम्मेसु वेपुल्ल गतेसु तेस सत्तान आयु पि परिहायि वण्णो पि परिहायि ।
तेस आयुना पि परिहायमानान वण्णेन पि परिहायमानान अद्भुतेय्यवस्स
सतायुकान मनुस्सान वस्ससतायुका पुत्ता अहेसु ।

दसवस्सायुकसमयो

२४ “भविस्सति, भिक्खवे, सो समयो य इमेस मनुस्सान
दसवस्सायुका पुत्ता भविस्सन्ति । दसवस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु

१ पञ्चवस्ससहस्सायुकान – सी० ।

पञ्चवस्सिका कुमारिका अलपतेय्या भविस्सन्ति । दसवस्सायुकेसु, भिक्खवे,
मनुस्सेसु इमानि रसानि अन्तरधायिस्सन्ति, सेय्यथिद - सप्पि नवनीत तेल
मधु फाणित लोण । दसवस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु कुद्रूसको अग्ग'
भोजनान' भविस्सति । मेय्यथापि, भिक्खवे, एतरहि सालिमसोदनो अग्ग
भोजनान, एवमेव खो, भिक्खवे, दसवस्सायुकेसु मनुस्सेसु कुद्रूसको अग्ग 5
भोजनान भविस्सति ।

“दसवस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु दस कुसलकम्मपथा सब्बेन
सब्ब अन्तरधायिस्सन्ति । दस अकुसलकम्मपथा अतिवियादिप्पिस्सन्ति' ।
दसवस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु कुसल ति पि न भविस्सति, कुतो B 60
पन कुसलस्स कारको । दसवस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु ये ते भविस्सन्ति 10
अमत्तेय्या अपेत्तेय्या असामञ्जा अब्रह्मञ्जा न कुले जेट्ठापचायिनो, ते
पुज्जा' च भविस्सन्ति पाससा च । सेय्यथापि, भिक्खवे, एतरहि मत्तेञ्जा R 72
पेत्तेञ्जा सामञ्जा ब्रह्मञ्जा कुले जेट्ठापचायिनो पुज्जा च पाससा च,
एवमेव खो, भिक्खवे, दसवस्सायुकेसु मनुस्सेसु ये ते भविस्सन्ति अमत्तेय्या
अपेत्तेय्या असामञ्जा अब्रह्मञ्जा न कुले जेट्ठापचायिनो, ते पुज्जा 15
च भविस्सन्ति पाससा च ।

“दसवस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु न भविस्सति माता ति वा
मातुच्छा ति* वा मातुलानी ति वा आचरियभरिया ति वा गरून दारा'
ति वा । सम्भेद लोको गमिस्सति, यथा अजेळको कुक्कुटसूकरा सोण-
सिङ्गाला । 20

“दसवस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु तेस सत्तान अञ्जमञ्जम्हि
तिब्बो आघातो पच्चुपट्टितो भविस्सति तिब्बो ब्यापादो तिब्बो मनोपदोसो
तिब्ब वधकचित्त । मातु पि पुत्तम्हि, पुत्तस्स पि मातरि, पितु पि पुत्तम्हि,
पुत्तस्स पि पितरि, भातु पि भगिनिया, भगिनिया पि भातरि तिब्बो
आघातो पच्चुपट्टितो भविस्सति तिब्बो ब्यापादो तिब्बो मनोपदोसो 25
तिब्ब वधकचित्त । सेय्यथापि, भिक्खवे, मागविकस्स मिग दिस्वा तिब्बो
आघातो पच्चुपट्टितो होति तिब्बो ब्यापादो तिब्बो मनोपदोसो तिब्ब
वधकचित्त, एवमेव खो, भिक्खवे, दसवस्सायुकेसु मनुस्सेसु तेस सत्तान

१-१ अग्गभोजन - स्या० । २ अति या दिप्पिस्सति - म० । ३ पूजा - स्या० ।
४ मेत्तेञ्जा - रो० । * एत्थ स्या० पोट्थके 'पिता ति वा पितुच्छा ति वा' इति अधिको पाठो
विस्सति । ५ दारो - सी० ।

अञ्जमञ्जमिह तिब्बो आघातो पञ्चुपट्टितो भविस्सति तिब्बो व्यापादो तिब्बो मनोपदोसो तिब्ब वधकचित्त । मातु पि पुत्तमिह, पुत्तस्स पि मातरि, पितु पि पुत्तमिह, पुत्तस्स पि पितरि, भातु पि भगिनिया, भगिनिया पि भातरि तिब्बो आघातो पञ्चुपट्टितो भविस्सति तिब्बो व्यापादो तिब्बो 73
5 मनोपदोसो तिब्ब वधकचित्त ।

२५ “दसवस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु सत्ताह सत्थन्तरकप्पो भविस्सति । ते अञ्जमञ्जमिह मिगसञ्ज पटिलभिस्सन्ति । तेस तिण्हानि सत्थानि हत्थेसु पातुभविस्सन्ति । ते तिण्हेन सत्थेन ‘एस मिगो, एस मिगो’ ति अञ्जमञ्ज जीविता वोरपेस्सन्ति’ । 61

२६ “अथ खो तेस, भिक्खवे, सत्तान एकच्चान एव भविस्सति – ‘मा च मय कञ्चि’, मा च अम्हे कोचि । यन्नून मय तिणगहन वा वनगहन वा रुक्खगहन वा नदीविदुग्ग वा पब्बतविसम वा पविसित्था वनमूलफलाहारा यापेय्यामा’ ति । ते तिणगहन वा वनगहन वा रुक्खगहन वा नदीविदुग्ग वा पब्बतविसम वा पविसित्त्वा सत्ताह वनमूल- 15 फलाहारा यापेस्सन्ति’ । ते तस्स’ सत्ताहस्स अच्चयेन तिणगहना वनगहना रुक्खगहना नदीविदुग्गा पब्बतविसमा निक्खमित्त्वा अञ्जमञ्ज आलिङ्गित्त्वा सभागायिस्सन्ति समस्सासिस्सन्ति – ‘दिट्ठा, भो, सत्ता जीवसि, दिट्ठा, भो, सत्ता जीवसी’ ति ।

§ ५ सङ्घो नाम चक्कवत्ती राजा उप्पज्जिस्सति

२७ “अथ खो तेस, भिक्खवे, सत्तान एव भविस्सति – ‘मय 20 खो अकुसलान धम्मान समादानहेतु एवरूप आयत आतिकखय पत्ता । यन्नून मय कुसल करेय्याम । किं कुसल करेय्याम ? यन्नून मय पाणातिपाता विरमेय्याम, इद कुसल धम्म समादाय वत्तेय्यामा’ ति । ते पाणातिपाता विरमिस्सन्ति, इद कुसल धम्म समादाय वत्तिस्सन्ति । ते कुसलान धम्मान समादानहेतु आयुना पि वड्ढिस्सन्ति वण्णेन पि वड्ढिस्सन्ति । तेस 74
25 आयुना पि वड्ढमानान वण्णेन पि वड्ढमानान दसवस्सायुकान मनुस्सान वीसतिवस्सायुका पुत्ता भविस्सन्ति ।

“अथ खो तेस, भिक्खवे, सत्तान एवं भविस्सति – ‘मय खो कुसलान धम्मान समादानहेतु आयुनापि वड्ढाम वण्णेन पि वड्ढाम । यन्नून मय भिय्योसोमत्ताय कुसल करेय्याम । किं कुसल करेय्याम ?

१ वोरपिस्सन्ति – स्या० । २ किञ्चि – सी० । ३ यापेय्यन्ति – रो० । ४ तत्थ – सी० ।

यन्नून मय अदिन्नादाना विरमेय्याम, कामेसुमिच्छाचारा विरमेय्याम,
मुसावादा' विरमेय्याम', पिसुणाय वाचाय विरमेय्याम, फरुसाय वाचाय
विरमेय्याम, सम्फप्पलापा विरमेय्याम, अभिज्झ पजहेय्याम, ब्यापाद
पजहय्याम, मिच्छादिट्ठि पजहेय्याम, तयो धम्मे पजहेय्याम — अघम्मराग,
विसमलोभ, मिच्छाधम्म । यन्नून मय मत्तेय्या अस्साम पेत्तेय्या सामञ्जा 5
ब्रह्मञ्जा कुले जेट्ठापचायिनो, इद कुसल धम्म समादाय वत्तेय्यामा'
ति । ते मत्तेय्या भविस्सन्ति पेत्तेय्या सामञ्जा ब्रह्मञ्जा कुले जेट्ठा- B 62
पचायिनो, इद कुसल धम्म समादाय वत्तिस्सन्ति ।

२८ ते कुसलान धम्मान समादानहेतु आयुना पि वड्ढिस्सन्ति
वण्णेन पि वड्ढिस्सन्ति । तेस आयुना पि वड्ढमानान वण्णेन पि वड्ढमानान 10
वोसतिवस्सायुकान मनुस्सान चत्तारीसवस्सायुका पुत्ता भविस्सन्ति । चत्तारीस-
वस्सायुकान मनुस्सान असीतिवस्सायुका पुत्ता भविस्सन्ति । असीति-
वस्सायुकान मनुस्सान सट्ठिवस्ससतायुका पुत्ता भविस्सन्ति । सट्ठिवस्ससतायु-
कान मनुस्सान वीसतितिवस्ससतायुका पुत्ता भविस्सन्ति । वीसतितिवस्स-
सतायुकान मनुस्सान चत्तारीसछब्बस्ससतायुका पुत्ता भविस्सन्ति । चत्तारीस- 15
छब्बस्ससतायुकान मनुस्सान द्वेवस्ससहस्सायुका पुत्ता भविस्सन्ति । द्वेवस्स-
सहस्सायुकान मनुस्सान चत्तारिवस्ससहस्सायुका पुत्ता भविस्सन्ति ।
चत्तारिवस्ससहस्सायुकान मनुस्सान अट्ठवस्ससहस्सायुका पुत्ता भविस्सन्ति ।
अट्ठवस्ससहस्सायुकान मनुस्सान वीसतिवस्ससहस्सायुका पुत्ता भविस्सन्ति ।
वीसतिवस्ससहस्सायुकान मनुस्सान चत्तारीसवस्ससहस्सायुका पुत्ता 20 R 75
भविस्सन्ति । चत्तारीसवस्ससहस्सायुकान मनुस्सान असीतिवस्ससहस्सायुका
पुत्ता भविस्सन्ति । असीतिवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु पञ्चवस्स-
सतिका कुमारिका अलपतेय्या भविस्सन्ति ।

सङ्घराजउप्पत्ति

२९ “असीतिवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु तयो आबाधा
भविस्सन्ति — इच्छा, अनसन, जरा । असीतिवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, 25
मनुस्सेसु अय जम्बुदीपो इद्धो चैव भविस्सति फीतो च, कुक्कुटसम्पातिका'
गामनिगमराजधानियो' । असीतिवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु
अय जम्बुदीपो अवीचि' मञ्जे फुटो भविस्सति मनुस्सेहि, सेय्यथापि

१-१: स्या० पोत्थके नत्थि । २ कुक्कुटसम्पातिता — स्या० । ३ ०निगमजनपद० — सी० ।

नलवन^१ वा सारवन^२ वा । असीतिवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु
 अय बाराणसी केतुमती नाम राजधानी भविस्सति इद्धा चैव फीता च
 बहुजना च आकिण्णमनुस्सा च सुभिक्खा च । असीतिवस्ससहस्सायुकेसु,
 3 68 भिक्खवे, मनुस्सेसु इमस्मि जम्बुदीपे चतुरासीतिनगरसहस्सानि भविस्सन्ति
 5 केतुमतीराजधानीपमुखानि । असीतिवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु
 केतुमतिया राजधानिया सङ्घो नाम राजा उप्पज्जिस्सति चक्कवत्ती
 धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरियप्पत्तो सत्तरतन-
 समन्नागतो । तस्सिमानि सत्त रतनानि भविस्सन्ति, सेय्यथिद - चक्करतन,
 हत्थिरतन, अस्सरतन, मणिरतन, इत्थिरतन, गहपतिरतन, परिणायकर-
 10 तनमेव सत्तम । परोसहस्स खो पनस्स पुत्ता भविस्सन्ति सूरा वीरङ्गरूपा
 परसेनप्पमद्दना । सो इम पथविं सागरपरियन्त अदण्डेन असत्थेन
 धम्मेन अभिविजिय अज्झावसिस्सति ।

१६ मेत्तेय्यो नाम भगवा उप्पज्जिस्सति

R 76

३० “असीतिवस्ससहस्सायुकेसु, भिक्खवे, मनुस्सेसु मेत्तेय्यो
 नाम भगवा लोके उप्पज्जिस्सति अरह सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो
 15 सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा,
 सेय्यथापाहमेतरहि^३ लोके उप्पन्नो अरह सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो
 सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान बुद्धो
 भगवा । सो इम लोक सदेवक समारक सब्रह्मक सस्समणब्राह्मणि पज
 सदेवमनुस्स सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेस्सति, सेय्यथापाहमेतरहि
 20 इम लोक सदेवक समारक सब्रह्मक सस्समणब्राह्मणि पज सदेवमनुस्स सय
 अभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेमि । सो धम्म देसेस्सति आदिकल्याण
 मज्जेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सब्यञ्जन, केवलपरिपुण्ण
 परिसुद्ध ब्रह्मचरिय पकासेस्सति, सेय्यथापाहमेतरहि धम्म देसेमि आदि-
 कल्याण मज्जेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सब्यञ्जन, केवलपरिपुण्ण
 25 परिसुद्ध ब्रह्मचरिय पकासेमि । सो अनेकसहस्स भिक्खुसङ्घ परिहरिस्सति,
 सेय्यथापाहमेतरहि अनेकसत भिक्खुसङ्घ परिहरामि ।

B 64

३१ “अथ खो, भिक्खवे, सङ्घो नाम राजा, यो सो यूपो रञ्जा
 महापनादेन कारापित्तो, त यूप उस्सापेत्वा अज्झावसित्वा त दत्वा^४ विस्स-

१ नलवन - रो० । २ सारवन - स्या०, रो० । ३ ०पह० - सी० । ४ ददित्वा -
 रो०, स्या० पोत्थके नत्थि ।

ज्जित्वा^१ समणब्राह्मणकपणद्धिकवणिब्बकयाचकान दान दत्त्वा मेत्तेय्यस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्सा अनगारिय पब्बजिस्सति । सो एव पब्बजितो समानो एको वूपकट्ठो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव- यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्सा अनगारिय पब्बजन्ति 5 तदनुत्तर- ब्रह्मचरियपरियोसान दिट्ठेव धम्मे सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सति ।

R 77

§ ७ अत्तदीपा विहरथ धम्मदीपा

३२ “अत्तदीपा, भिक्खवे, विहरथ अत्तसरणा अनञ्जसरणा, धम्मदीपा धम्मसरणा अनञ्जसरणा । कथं च, भिक्खवे, भिक्खु अत्तदीपो विहरति अत्तसरणो अनञ्जसरणो, धम्मदीपो धम्मसरणो अनञ्जसरणो ? इध, 10 भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिञ्जादोमनस्स । वेदनासु वेदानानुपस्सी पे० चित्ते चित्तानुपस्सी पे० धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिञ्जादोमनस्स । एव खो, भिक्खवे, भिक्खु अत्तदीपो विहरति अत्तसरणो अनञ्जसरणो, धम्मदीपो धम्मसरणो अनञ्जसरणो । 15

गोचरे चरथ

३३ “गोचरे, भिक्खवे, चरथ सके पेत्तिके विसये । गोचरे, भिक्खव, चरन्ता सके पेत्तिके विसये आयुना पि वड्ढिस्सथ वण्णेन पि वड्ढिस्सथ सुखेन पि वड्ढिस्सथ भोगेन पि वड्ढिस्सथ बलेन पि वड्ढिस्सथ ।

“किं च, भिक्खवे, भिक्खुनो आयुस्मि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 20 छन्दसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागत इद्धिपाद भावेति, विरियसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागत इद्धिपाद भावेति, चित्तसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागत इद्धिपाद भावेति, वीमसासमाधिपधानसङ्खारसमन्नागत इद्धिपाद भावेति । सो इमेस चतुन्न इद्धिपादान भावितत्ता बहुलीकतत्ता आकङ्खमानो कप्प वा तिट्ठेय्य कप्पावसेस वा । इदं खो, भिक्खवे, भिक्खुनो आयुस्मि । 25

“किं च, भिक्खवे, भिक्खुनो वण्णास्मि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सीलवा होति, पातिमोक्खसवरसवुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु

R 78

65

वज्जेषु भयदस्सावी समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु । इद खो, भिक्खवे,
भिक्खुनो वण्णस्मि ।

“किं च, भिक्खवे, भिक्खुनो सुखस्मि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु
विविच्चवेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क सव्विचार
5 विवेकज पीतिसुख पठम' भान' उपसम्पज्ज विहरति । वितक्कविचारान
वूपसमा पे० दुतिय भान ततिय भान चतुत्थ भान उपसम्पज्ज
विहरति । इद खो, भिक्खवे, भिक्खुनो, सुखस्मि ।

“किं च, भिक्खवे, भिक्खुनो भोगस्मि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु
मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा
10 ततिय, तथा चतुत्थ । इति उद्धमधो तिरिय सब्बधि सब्बत्तताय^३
सब्बावन्त लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेण
अवेरेण अब्यापज्जेण^४ फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन चेतसा पे०
मुदितासहगतेन चेतसा पे० उपेक्खासहगतेन चेतसा एक दिस
फरित्वा विहरति, तथा दुतिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थ । इति उद्धमधो
15 तिरिय सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्त लोक उपेक्खासहगतेन चेतसा
विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेण अवेरेण अब्यापज्जेण फरित्वा विहरति ।
इद खो, भिक्खवे, भिक्खुनो भोगस्मि ।

“किं च, भिक्खवे, भिक्खुनो बलस्मि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु
आसवान खया अनासव चेतोविमुत्ति पज्जाविमुत्ति दिट्ठेव धम्मे सय अभिञ्जा
20 सच्चिक्कत्वा उपसम्पज्ज विहरति । इद खो, भिक्खवे, भिक्खुनो
बलस्मि ।

३४ “नाह, भिक्खवे, अञ्ज एकबल पि समनुपस्सामि य' एव
79 दुप्पसंह—यथयिद, भिक्खवे, मारबल । कुसलान, भिक्खवे, धम्मान समादान-
हेतु एवमिद पुञ्ज पवड्ढती” ति ।

25 इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित अभि-
नन्दु ति ।

चक्कवत्तिसुत्त निट्ठित ततिय ।

१-१ पठमज्ज्ञान - सी०, रो० । २ सब्बत्तताय - सी० । ३ अब्यापज्जेण - सी०,
अब्यापज्जेण - रो० । ४ रो० पोत्थके नत्थि ।

४ अगगञ्जसुतां

§ १ वासेट्टुभारद्वाजा भगवन्त उपसङ्कमिसु

१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति पुब्बारामे मिगारमातुपासादे । तेन खो पन समयेन वासेट्टुभारद्वाजा भिक्खूसु परिवसन्ति' भिक्खुभाव आकङ्खमाना । अथ खो भगवा सायण्हसमय' पटिसल्लाना वुट्टितो पासादा ओरोहित्वा पासादपच्छायाय अब्भोकासे चङ्कमति ।

R 80
B 66

5

२ अइसा खो वासेट्टो भगवन्त सायण्हसमय पटिसल्लाना वुट्टित पासादा ओरोहित्वा पासादपच्छायाय अब्भोकासे चङ्कमन्त । दिस्वान भारद्वाज आमन्तेसि - "अय, आवुसो भारद्वाज, भगवा सायण्हसमय पटिसल्लाना वुट्टितो पासादा ओरोहित्वा पासादपच्छायाय अब्भोकासे चङ्कमति । आयामावुसो भारद्वाज, येन भगवा तेनुपसङ्कमिस्साम, अप्पेव नाम लभेय्याम भगवतो सन्तिका धम्मि कथ सवनाया" ति । "एवमावुसो" ति खो भारद्वाजो वासेट्टुस्स पच्चस्सोसि ।

10

३ अथ खो वासेट्टुभारद्वाजा येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु, उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा भगवन्त चङ्कमन्त अनुचङ्कमिसु । अथ खो भगवा वासेट्टु आमन्तेसि - "तुम्हे ख्वत्थ, वासेट्टु, ब्राह्मणजच्चा ब्राह्मणकुलीना ब्राह्मणकुला अगारस्सा अनगारिय पब्बजिता । कच्च वो, वासेट्टु, ब्राह्मणा न अक्कोसन्ति न परिभासन्ती" ति ?

15 R 81

"तग्घ नो, भन्ते, ब्राह्मणा अक्कोसन्ति परिभासन्ति अत्तरूपाय परिभासाय परिपुण्णाय, नो अपरिपुण्णाय" ति ।

"यथा कथ पन वो, वासेट्टु, ब्राह्मणा अक्कोसन्ति परिभासन्ति अत्तरूपाय परिभासाय परिपुण्णाय, नो अपरिपुण्णाय" ति ?

20

"ब्राह्मणा, भन्ते, एवमाहसु - 'ब्राह्मणो व सेट्टो वण्णो, हीना अञ्जे वण्णा । ब्राह्मणो व सुक्को वण्णो, कण्हा' अञ्जे वण्णा' । ब्राह्मणा व सुज्झन्ति, नो अब्राह्मणा । ब्राह्मणा व ब्रह्मनो पुत्ता ओरसा मुखतो जाता ब्रह्मजा ब्रह्मनिम्मिता ब्रह्मदायादा । ते तुम्हे सेट्टु वण्ण हित्वा हीनमत्थ वण्ण

B 67

25

१ पटिवसन्ति - सी० । २ सायण्हसमय - म० । ३ दिस्वा - रो० । ४ सवणाया - सी० । ५-५ कण्हा अञ्जो वण्णो - रो० ।

अज्भुपगता यदिद मुण्डके समणके इब्भे कण्हे बन्धुपादापच्चे । तयिद न साधु, तयिद नप्पतिरूप', य तुम्हे सेट्ठ वण्ण हित्वा हीनमत्थ वण्ण अज्भुपगता यदिद मुण्डके समणके इब्भे कण्हे बन्धुपादापच्चे' ति । एव खो नो, भन्ते, ब्राह्मणा अक्कोसन्ति परिभासन्ति अत्तरूपाय परिभासाय परिपुण्णाय, 5 नो अपरिपुण्णाय' ति ।

४ 'तग्घ वो, वासेट्ठ, ब्राह्मणा पोराण अस्सरन्ता' एवमाहसु- ब्राह्मणो व सेट्ठो वण्णो, हीना अञ्जे वण्णा, ब्राह्मणो व सुक्को वण्णो, कण्हा अञ्जे वण्णा, ब्राह्मणा व सुज्झन्ति, नो अब्राह्मणा, ब्राह्मणा व ब्रह्मनो पुत्ता ओरसा मुखतो जाता ब्रह्मजा ब्रह्मनिम्मिता ब्रह्मदायादा' ति । दिस्सन्ति खो पन, R 82 10 वासेट्ठ, ब्राह्मणान ब्राह्मणियो उतुनियो पि गब्भिनियो पि विजायमाना पि पायमाना पि । ते च ब्राह्मणा योनिजा व समाना एवमाहसु- ब्राह्मणो व सेट्ठो वण्णो, हीना अञ्जे वण्णा, ब्राह्मणो व सुक्को वण्णो, कण्हा अञ्जे वण्णा, ब्राह्मणा व सुज्झन्ति, नो अब्राह्मणा, ब्राह्मणा व ब्रह्मनो पुत्ता ओरसा मुखतो जाता ब्रह्मजा ब्रह्मनिम्मिता ब्रह्मदायादा' ति । ते ब्रह्मान चव 15 अग्गभाच्चिक्खन्ति मुसा च भासन्ति बहु च अपुञ्ज पसवन्ति ।

१ २ धम्मो हि सेट्ठो जनेतास्मि

५ "चत्तारोमे, वासेट्ठ, वण्णा- खत्तिया, ब्राह्मणा, वेस्सा, सुट्ठा । खत्तियो पि खो, वासेट्ठ, इधेकच्चो पाणातिपाती होति, अदिन्नादायी कामेसु- मिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचो फरुसवाचो सम्फप्पलापी अभिज्जालु ब्यापन्नचित्तो मिच्छादिट्ठी । इति खो, वासेट्ठ, येमे धम्मा अकुसला अकुसल- 20 सङ्घाता सावज्जा सावज्जसङ्घाता असेवितब्बा असेवितब्बसङ्घाता नअल- मरिया नअलमरियसङ्घाता कण्हा कण्हविपाका विञ्जुगरहिता, खत्तिये पि ते इधेकच्चे सन्दिस्सन्ति । ब्राह्मणो पि खो, वासेट्ठ पे० वेस्सो पि खो, B 68 वामेट्ठ पे० सुट्ठो पि खो, वासेट्ठ, इधेकच्चो पाणातिपाती होति अदिन्ना- दायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचो फरुसवाचो सम्फप्पलापी 25 अभिज्जालु ब्यापन्नचित्तो मिच्छादिट्ठी । इति खो, वासेट्ठ, येमे धम्मा अकुसला अकुसलसङ्घाता पे० कण्हा कण्हविपाका विञ्जुगरहिता सुट्ठे पि ते इधेकच्चे सन्दिस्सन्ति ।

"खत्तियो पि खो, वासेट्ठ, इधेकच्चो पाणातिपाता पटिविरतो होति अदिन्नादाना पटिविरतो कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो मुसावादा पटिविरतो

पिसुणाय वाचाय पटिविरतो फरुसाय वाचाय पटिविरतो सम्फप्पलापा पटि-
 विरतो अनभिज्जालु अब्यापन्नचित्तो सम्मादिट्ठी^१ । इति खो, वासेट्ठ, येमे
 धम्मा कुसला कुसलसङ्घाता अनवज्जा अनवज्जसङ्घाता सेवितब्बा सेवि-
 तब्बसङ्घाता अलमरिया अलमरियसङ्घाता सुक्का सुक्कविपाका विञ्चुप्पसत्था^२
 खत्तिये^३पि ते इधेकच्चे सन्दिस्सन्ति । ब्राह्मणो पि खो, वासेट्ठ पे० वेस्सो 5
 पि खो, वासेट्ठ पे० सुट्ठो पि खो, वासेट्ठ, इधेकच्चो पाणातिपाता पटि-
 विरतो होति पे० अनभिज्जालु अब्यापन्नचित्तो सम्मादिट्ठी । इति खो,
 वासेट्ठ, येमे धम्मा कुसला कुसलसङ्घाता अनवज्जा अनवज्जसङ्घाता सेवितब्बा
 सेवितब्बसङ्घाता अलमरिया अलमरियसङ्घाता सुक्का सुक्कविपाका विञ्चु-
 प्पसत्था सुट्ठे पि ते इधेकच्चे सन्दिस्सन्ति । 10

R 83

६ ‘इमेसु खो, वासेट्ठ, चतूसु वण्णेषु एव उभयवोकिण्णेषु वत्तमानेषु
 कण्हसुक्कसु धम्मेसु विञ्चुगरहितेषु चैव विञ्चुप्पसत्थेषु च यदेत्थ
 ब्राह्मणा एवमाहसु—‘ब्राह्मणो व सेट्ठो वण्णो, हीना अञ्जे वण्णा, ब्राह्मणो व
 सुक्को वण्णो, कण्हा अञ्जे वण्णा, ब्राह्मणा व सुज्झन्ति, नो अब्राह्मणा,
 ब्राह्मणा व ब्रह्मणो पुत्ता ओरसा मुखतो जाता ब्रह्मजा ब्रह्मनिम्मिता ब्रह्मा- 15
 दायादा’ति, त तेस विञ्चू नानुजानन्ति । त किस्स हेतु ? इमेस हि,
 वासेट्ठ, चतुन्न वण्णान यो होति भिक्खु अरह् खीणासवो वुसितवा कत-
 करणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसयोजनो सम्मदञ्जा-
 विमुत्तो, सो नेस^४ अगमक्खायति धम्मेनेव नो अधम्मेन । धम्मो हि,
 वासेट्ठ, सेट्ठो जनेतस्मि, दिट्ठे चैव धम्मे अभिसम्पराय च । 20

७ “तदिमिनापेत, वासेट्ठ, परियायेन वेदितब्ब यथा धम्मो व सेट्ठो
 जनेतस्मि, दिट्ठे चैव धम्मे अभिसम्पराय च ।

“जानाति खो, वासेट्ठ, राजा पसेनदि कोसलो—‘समणो गोतमो
 अनन्तरा सक्ककुला पब्बजितो’ति । सक्कया खो पन, वासेट्ठ, रञ्जे
 पसेनदिस्स कोसलस्स अनुयुत्ता भवन्ति । करोन्ति खो, वासेट्ठ, सक्कया रञ्जे 25
 पसेनदिस्सिह् कोसले निपच्चकार अभिवादन पच्चुट्ठान अञ्जलिकम्म सामीचि-
 कम्म । इति खो, वासेट्ठ, य करोन्ति सक्कया रञ्जे पसेनदिस्सिह् कोसले
 निपच्चकार अभिवादन पच्चुट्ठान अञ्जलिकम्म सामीचिकम्म, करोति त
 राजा पसेनदि कोसलो तथागते निपच्चकार अभिवादन पच्चुट्ठान अञ्जलि-

B 69

R 84

१ सम्मादिट्ठी - म०, स्या० । २ विञ्चुप्पसत्था - स्या० । ३ तेस - रो० । ४ पसेनदिनो
 - सी० ।

कम्म सामीचिकम्म । न' न' सुजातो समणो गोतमो दुज्जातोहमस्मि',
 बलवा समणो गोतमो दुब्बलोहमस्मि, पासादिको समणो गोतमो दुब्बणो-
 हमस्मि, महेसक्खो समणो गोतमो अप्पेसक्खोहमस्मी ति । अथ खो न
 धम्म येव सक्करोन्तो धम्म गरु करोन्तो धम्म मानेन्तो धम्म पूजेन्तो धम्म
 5 अपचायमानो एव राजा पसेनदि कोसलो तथागते निपच्चकार करोति
 अभिवादन पच्चुट्टान अञ्जलिकम्म सामीचिकम्म । इमिना पि खो एत,
 वासेट्ट, परियायेन वेदितब्ब यथा धम्मो सेट्टो जनेतस्मि, दिट्ठे चेव धम्मे
 अभिसम्पराय च ।

धम्मकायो तथागतो

८ "तुम्हे ख्वत्थ, वासेट्ट, नानाजच्चा नानानामा नानागोत्ता नाना-
 10 कुला अगारस्सा अनगारिय पब्बजिता । 'के तुम्हे' ति- पुट्ठा समाना
 'समणा सक्कपुत्तियाम्हा' ति- पट्टिजानाथ । यस्स खो पनस्स, वासेट्ट, तथा-
 गते सद्धा निविट्ठा मूलजाता पतिट्ठिता दब्बा असहारिया' समणेन वा
 ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मिणा वा केनचि वा लोकस्मि,
 तस्सेत कल्ल वचनाय- 'भगवतोमिह पुत्तो ओरसो मुखतो जातो धम्मजो
 15 धम्मनिम्मितो धम्मदायादो' ति । त किस्स हेतु ? तथागतस्स हेत, वासेट्ट,
 अधिवचन धम्मकायो इति पि ब्रह्मकायो इति पि धम्मभूतो इति पि
 ब्रह्मभूतो इति पि ।

§ ३ अय लोको सवट्ठति विवट्ठति

९ "होति खो सो, वासेट्ट, समयो य कदाचि करहचि दीघस्स
 अद्धुनो अच्चयेन अय लोको सवट्ठति । सवट्ठमाने लोके येभ्ययेन सत्ता
 B. 70 20 आभस्सरसवत्तनिका होन्ति । ते तत्थ होन्ति मनोमया पीतिभक्खा सय-
 पभा अन्तलिक्खचरा सुभट्टायिनो चिर दीघमद्धान तिट्ठन्ति ।

"होति खो सो, वासेट्ट, समयो य कदाचि करहचि दीघस्स
 अद्धुनो अच्चयेन अय लोको विवट्ठति । विवट्ठमाने लोके येभ्ययेन सत्ता
 R 85 आभस्सरकाया चवित्वा इत्थत्त आगच्छन्ति । तेध' होन्ति मनोमया
 25 पीतिभक्खा सयपभा अन्तलिक्खचरा सुभट्टायिनो चिर दीघमद्धान
 तिट्ठन्ति ।

१-१ ननु - सी० रो० । २ दुजातो० - स्या० । ३ असहारिका - रो० । ४ ते च -
 स्या०, रो० ।

रसपथविपातुभावो

१० “एकोदकीभूत खो पन, वासेट्ट, तेन समयेन होति अन्धकारो अन्धकारतिमिसा । न चन्दिमसुरिया पञ्जायन्ति, न नक्खत्तानि तारकरूपानि पञ्जायन्ति, न रत्तिन्दिवा पञ्जायन्ति, न मासद्धमासा^१ पञ्जायन्ति, न उतुसवच्छरा पञ्जायन्ति, न इत्थिपुमा^२ पञ्जायन्ति, सत्ता सत्तात्वेव सङ्ख्य^३ गच्छन्ति । अथ खो तेस वासेट्ट, सत्तान कदाचि^५ करहचि दीघस्स अद्दुनो अच्चयेन रसपथवी^४ उदकस्मि समतनि^५ । सेय्यथापि नाम पयसो तक्कस्स निब्बायमानस्स उपरि सन्तानक होति, एवमेव पातुरहोसि । सा अहोसि वण्णसम्पन्ना गन्धसम्पन्ना रससम्पन्ना । सेय्यथापि नाम सम्पन्न वा सप्पि सम्पन्न वा नवनीत एववण्णा अहोसि । सेय्यथापि नाम खुद्दमधु अनेळक एवमस्सादा अहोसि । अथ खो, वासेट्ट, अञ्जतरो^{१०} सत्तो लोलजातिको— ‘अम्भो, किमेविद भविस्सती’ ति रसपथवि अङ्गुलिया सायि । तस्स रसपथवि अङ्गुलिया सायतो अच्छादेसि, तण्हा चस्स^६ ओक्कमि । अञ्जे^७ पि खो, वासेट्ट, सत्ता तस्स सत्तस्स दिट्ठानुगति आपज्जमाना रसपथवि अङ्गुलिया सायिसु । तेस^८ रसपथवि अङ्गुलिया सायत अच्छादेसि, तण्हा च तेस^९ ओक्कमि ।^{१५}

चन्दिमसुरियादिपातुभावो

११ “अथ खो ते, वासेट्ट, सत्ता रसपथवि हत्थेहि आलुप्पकारक उपक्कमिसु परिभुञ्जितु । यतो खो ते, वासेट्ट, सत्ता रसपथवि हत्थेहि आलुप्पकारक उपक्कमिसु परिभुञ्जितु, अथ तेस सत्तान सयपभा अन्तरधायि । सयपभाय अन्तरहिताय चन्दिमसुरिया पातुरहेसु । चन्दिमसुरियेसु पातुभूतेसु नक्खत्तानि तारकरूपानि पातुरहेसु । नक्खत्तेसु^{२०} तारकरूपेसु पातुभूतेसु रत्तिन्दिवा पञ्जायिसु । रत्तिन्दिवेसु पञ्जायमानेसु मासद्धमासा पञ्जायिसु । मासद्धमासेसु पञ्जायमानेसु उतुसवच्छरा पञ्जायिसु । एत्तावता खो, वासेट्ट, अथ लोको पुन विवट्टो होति ।

१२ “अथ खो ते, वासेट्ट, सत्ता रसपथवि परिभुञ्जन्ता तभक्खा^{११} तदाहारा चिर दीघमद्धान अद्दुसु । यथा यथा खो ते, वासेट्ट, सत्ता रसपथवि^{२५}

१ मासद्धमासा - म० । २ इत्थिपुरिसा - स्या० । ३ सङ्ख - सी० । ४ वासेट्टा - स्या० रो० । ५ रसपथवी - स्या०, रो० रसा पथवी - सी० । ६ समतानि - सी० रो०, समन्तानि - स्या० । ७ पायासो - सी० । ८ पस्स - स्या० । ९ अञ्जतरे - रो० । १० नेस - सी० । ११ नेस - स्या० । १२-१२ सी० पोत्थके नत्थि । १३ तभक्खा - स्या० ।

परिभुञ्जन्ता तभक्खा तदाहारा चिर दीघमद्धान अट्टसु, तथा तथा तेस सत्तान^१ खरत्त चैव कायस्मि ओक्कमि, वण्णवेण्णता^२ च पञ्जायित्थ । एकिद सत्ता वण्णवन्तो होन्ति एकिद सत्ता दुब्बण्णा । तत्थ ये ते सत्ता वण्णवन्तो ते दुब्बण्णे सत्ते अतिमञ्जन्ति - 'मयमेतेहि वण्णवन्ततरा, 5 अम्हेहेते दुब्बण्णतरा' ति । तेस वण्णातिमानपच्चया मानातिमानजातिकान रसपथवी अन्तरधायि । रसाय पथविया अन्तरहिताय सन्निपतिसु । सन्निपतित्वा अनुत्थुनिसु - 'अहो रस, अहो रस' ति । तदेतरहि पि मनुस्सा किञ्चिदेव^३ सुरस लभित्वा एवमाहसु - 'अहो रस, अहो रस' ति । तदेव पोराण अग्गञ्ज अक्खर अनुसरन्ति, न त्वेवस्स अत्थ आजानन्ति ।

भूमिपप्पटकपातुभावो

87 10 १३ "अथ खो तेस, वासेट्ट, सत्तान रसाय पथविया अन्तरहिताय भूमिपप्पटको^४ पातुरहोसि । सेय्यथापि नाम अहिच्छत्तको एवमेव पातुरहोसि । सो अहोसि वण्णसम्पन्ना गन्धसम्पन्ना रससम्पन्ना । सेय्यथापि नाम सम्पन्ना^५ वा सप्पि सम्पन्न वा नवनीत एववण्णो अहोसि । सेय्यथापि नाम खुद्दमधु अनेळक एवमस्सादो अहोसि ।

3 72 15 "अथ खो ते, वासेट्ट, सत्ता भूमिपप्पटक उपक्कमिसु परिभुञ्जितु । ते त^६ परिभुञ्जन्ता तभक्खा तदाहारा चिर दीघमद्धान अट्टसु । यथा यथा खो ते, वासेट्ट, सत्ता भूमिपप्पटक परिभुञ्जन्ता तभक्खा तदाहारा चिर दीघ-मद्धान अट्टसु तथा तथा तेस सत्तान भिय्योसोमत्ताय खरत्त चैव कायस्मि ओक्कमि, वण्णवेवण्णता च पञ्जायित्थ । एकिद सत्ता वण्णवन्तो होन्ति, 20 एकिद सत्ता दुब्बण्णा । तत्थ ये ते सत्ता वण्णवन्तो ते दुब्बण्णे सत्ते अति-मञ्जन्ति - 'मयमेतेहि वण्णवन्ततरा, अम्हेहेते दुब्बण्णतरा' ति । तेस वण्णाति-मानपच्चया मानातिमानजातिकान भूमिपप्पटको अन्तरधायि ।

पदालतापातुभावो

१४ "भूमिपप्पटके अन्तरहिते पदालता पातुरहोसि । सेय्यथापि नाम कलम्बुका^७ एवमेव पातुरहोसि । सा आहोसि वण्णसम्पन्ना गन्धसम्पन्ना 25 रससम्पन्ना । सेय्यथापि नाम सम्पन्ना वा सप्पि सम्पन्न वा नवनीत एव-वण्णा अहोसि । सेय्यथापि नाम खुद्दमधु अनेळक एवमस्सादा अहोसि ।

१ एत्थ म० पोत्थके 'रसपथवि परिभुञ्जन्तान' इति अधिको पाठो दिस्सति । २ वण्णवे-वज्जता - सी०, वण्णविण्णता - स्या०, रो० । ३ कञ्चिदेव - म० । ४ साधु - रो० । ५ भूमिपप्पटिको - सी०, स्या० । ६ सम्पन्ना - स्या० । ७ स्या० पोत्थके नत्थि । ८ कलम्बुका - स्या० ।

“अथ खो ते, वासेदु, सत्ता पदालत उपक्कमिसु परिभुञ्जितु ।
 ते त परिभुञ्जन्ता तभक्खा तदाहारा चिर दीघमद्धान अट्टसु । यथा
 यथा खो ते, वासेदु, सत्ता पदालत परिभुञ्जन्ता तभक्खा तदाहारा चिर
 दीघमद्धान अट्टसु तथा तथा तेस सत्तान भिय्योसोमत्ताय खरत्त चैव
 कायस्मि ओक्कमि, वण्णवेवण्णता च पञ्जायित्थ । एकिद सत्ता वण्ण- 5 R 88
 वन्तो होन्ति, एकिद सत्ता दुब्बण्णा । तत्थ ये ते सत्ता वण्णवन्तो ते
 दुब्बण्णे सत्ते अतिमञ्चन्ति— ‘भयमेतेहि वण्णवन्ततरा, अम्हेहेते दुब्बण्ण-
 तरा’ ति । तेस वण्णातिमानपच्चया मानातिमानजातिकान पदालता
 अन्तरधायि । पदालताय अन्तरहिताय सन्निपतिसु । सन्निपतित्वा अनु-
 त्थुनिसु— ‘अहु वत नो, अहायि वत नो पदालता’ ति । तदेतरहि पि मनुस्सा 10
 केनचि दुक्खधम्मेन फुट्टा एवमाहसु— ‘अहु वत नो, अहायि वत नो’
 ति । तदेव पोरण अगञ्ज अक्खर अनुसरन्ति, न त्वेवस्स अत्थ आज्ञा-
 नन्ति ।

अकट्टपाकसालिपातुभावो

१५ “अथ खो तेस, वासेदु, सत्तान पदालताय अन्तरहिताय
 अकट्टपाको सालि पातुरहोसि अकणो अथुसो सुद्धो सुगन्धो तण्डुलफलो^१ । 15
 य त साय सायमासाय आहरन्ति पातो त होति पक्क पटिविरूब्हु, य त
 पातो पातरासाय आहरन्ति साय त होति पक्क पटिविरूब्हु, नापदान
 पञ्जायति । अथ खो ते, वासेदु, सत्ता अकट्टपाक सालि परिभुञ्जन्ता
 तभक्खा तदाहारा चिर दीघमद्धान अट्टसु ।

इत्थिपुरिसलिङ्गपातुभावो

१६ “यथा यथा खो ते, वासेदु, सत्ता अकट्टपाक सालि परि- 20
 भुञ्जन्ता तभक्खा तदाहारा चिर दीघमद्धान अट्टसु तथा तथा तेस सत्तान
 भिय्योसोमत्ताय खरत्त चैव कायस्मि ओक्कमि, वण्णवेवण्णता च
 पञ्जायित्थ । इत्थिया च इत्थिलिङ्ग पातुरहोसि पुरिसस्स च पुरिस-
 लिङ्ग । इत्थी च पुरिस अतिवेल उपनिज्जायति पुरिसो च इत्थि । तेस
 अतिवेल अञ्जमञ्ज उपनिज्जायत सारागो उदपादि, परिळाहो कायस्मि 25
 ओक्कमि । ते परिळाहपच्चया मेथुन धम्म पटिसेविसु ।

“ये खो पन ते, वासेदु, तेन समयेन सत्ता पस्सन्ति मेथुन धम्म
 पटिसेवन्ते अञ्जे पसु खिपन्ति, अञ्जे सेट्टि खिपन्ति, अञ्जे गोमय खिपन्ति —

१ अनुपतन्ति - रो०, अनुस्सरन्ति - स्या० । २ तण्डुलफलो - सी० ।

‘नस्स असुचि’, नस्स असुची ति । कथं हि नाम सत्तो सत्तस्स एवरूप करिस्सती’ ति । तदेतरहि पि मनुस्सा एकच्चेसु जनपदेसु वधुया^१ निब्बुयहमानाय अञ्जे पसु खिपन्ति, अञ्जे सेट्ठि खिपन्ति, अञ्जे गोमय खिपन्ति, तदेव पोराण अगञ्ज अक्खर अनुसरन्ति, न त्वेवस्स अत्थ
5 आजाणन्ति ।

मेथुनधम्मसमाचारो

१७ “अधम्मसम्मत् खो पन, वासेट्ठ, तेन समयेन होति तदेतरहि धम्मसम्मत् । ये खो पन, वासेट्ठ, तेन समयेन सत्ता मेथुन धम्म पटिसेवन्ति ते मास पि द्वेमास पि न लभन्ति गाम वा निगम वा पविसितु । यतो खो ते, वासेट्ठ, सत्ता तस्मि असद्धम्मे अतिवेल पातब्यत^२ आपज्जिसु अथ
10 अगारानि उपक्कमिसु कातु तस्सेव असद्धम्मस्स पटिच्छादनत्थ । अथ खो, वासेट्ठ, अञ्जतरस्स सत्तस्स अलसजातिकस्स एतदहोसि — ‘अम्भो, किमेवाह विहञ्जामि सालि आहरन्तो साय सायमासाय पातो पातरासाय । यन्नूनाह सालि आहरेय्य सकिदेव सायपातरासाया’ ति ।

“अथ खो सो, वासेट्ठ, सत्तो सालि आहासि सकिदेव
15 सायपातरासाय । अथ खो, वासेट्ठ, अञ्जतरो सत्तो येन सो सत्तो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा त सत्त एतदवोच — ‘एहि, भो सत्त, सालाहार गमिस्सामा’ ति ।

‘अल, भो सत्त, आहतो मे सालि सकिदेव सायपातरासाया’ ति ।

“अथ खो सो, वासेट्ठ, सत्तो तस्स सत्तस्स दिट्ठानुगति आपज्ज-
20 मानो सालि आहासि सकिदेव द्वीहाय—‘एव पि किर, भो, साधू’ति । अथ खो, वासेट्ठ, अञ्जतरो सत्तो येन सो सत्तो तेनुपसङ्कमि, उप-
90 सङ्कमित्वा त सत्त एतदवोच—‘एहि, भो सत्त, सालाहार गमिस्सामा’ति ।

‘अल, भो सत्त, आहतो मे सालि सकिदेव द्वीहाया’ति ।

‘अथ खो सो, वासेट्ठ, सत्तो तस्स सत्तस्स दिट्ठानुगति आपज्जमानो
25 सालि आहासि सकिदेव चतूहाय—‘एव पि किर, भो, साधू’ति । अथ खो, वासेट्ठ, अञ्जतरो सत्तो येन सो सत्तो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा त सत्त एतदवोच—‘एहि, भो सत्त, सालाहार गमिस्सामा’ति ।

‘अल, भो सत्त, आहतो मे सालि सकिदेव चतूहाया’ति ।

१ वसली - स्या० वसली - सी० । २ वधनिया - स्या० । ३ पात-ब्यत - सी०, पातब्बत - रो० । ४ आहतो - स्या० । ५ साय पातरासाय - स्या० ।

“अथ खो सो, वासेट्ट, सत्तो तस्स सत्तस्स दिट्ठानुगति आपज्जमानो
सालि आहासि सकिदेव अट्टाहाय—‘एव पि किर, भो, साध’ति । यतो खो
ते, वासेट्ट, सत्ता सन्निधिकारक सालि उपक्कमिसु परिभुञ्जितु, अथ
कणो पि तण्डुल परियोनन्धि, थुसो पि तण्डुल परियोनन्धि, लून पि
नप्पटिविरूह् । अपदान पञ्जायित्थ । मण्डसण्डा सालयो’ अट्टसु ।

B 75

5

सालिविभागो

१८ “अथ खो ते, वासेट्ट, सत्ता सन्निपतिसु । सन्निपतित्वा अनुत्थुनिसु—
‘पापका वत, भो, धम्मा सत्तेसु पातुभूता । मय हि पुब्बे मनोमया अट्टमहा
पीतिभक्खा सयपभा अन्तलिक्खचरा । सुभट्टायिनो चिर दीघमद्धान
अट्टमहा’ । तेस नो अट्टाक कदाचि करहचि दीघस्स अट्टनो अच्चयेन
रसपथवी उदकस्मि समतनि । सा अहोसि वण्णसम्पन्ना गन्धसम्पन्ना रस- 10
सम्पन्ना । ते मय रसपथवि हत्थेहि आलुप्पकारक उपक्कमिम्ह परिभुञ्जितु ।
तेस नो रसपथवि हत्थेहि आलुप्पकारक उपक्कमत परिभुञ्जितु सयपभा
अन्तरधायि । ताय अन्तरहिताय चन्दिमसुरिया’ पातुरहेसु । चन्दिमसुरियेसु
पातुभूतेसु नक्खत्तानि तारकरूपानि पातुरहेसु । नक्खत्तेसु तारकरूपेसु 15
पातुभूतेसु रत्तिन्दिवा पञ्जायिसु । रत्तिन्दिवेसु पञ्जायमानेसु मासड्डमासा
पञ्जायिसु । मासड्डमासेसु पञ्जायमानेसु उतुसवच्छरा पञ्जायिसु ।
ते मय रसपथवि परिभुञ्जन्ता तभक्खा तदाहारा चिर दीघमद्धान
अट्टमहा । तेस नो पापकान येव अकुसलान धम्मान पातुभावा रसपथवी
अन्तरधायि । रसपथविया अन्तरहिताय भूमिपप्पटको पातुरहोसि । सो
अहोसि वण्णसम्पन्नो गन्धसम्पन्नो रससम्पन्नो । ते मय भूमिपप्पटक 20
उपक्कमिम्ह परिभुञ्जितु । ते मय त परिभुञ्जन्ता तभक्खा तदाहारा
चिर दीघमद्धान अट्टमहा । तेस नो पापकान येव अकुसलान धम्मान पातुभक्खा
भूमिपप्पटको अन्तरधायि । भूमिपप्पटके अन्तरहिते बदालता पातुरहोसि ।
सा अहोसि वण्णसम्पन्ना गन्धसम्पन्ना रससम्पन्ना । ते मय पदालत
उपक्कमिम्ह परिभुञ्जितु । ते मय त परिभुञ्जन्ता तभक्खा 25
तदाहारा चिर दीघमद्धान अट्टमहा । तेस नो पापकान येव अकुसलान
धम्मान पातुभावा पदालता अन्तरधायि । पदालताय अन्तर-
हिताय अकट्टपाको सालि पातुरहोसि अकणो अथुसो सुद्धो सुगन्धो

R 91

15

20

25

B 76

१ सालियो — रो० । २ अट्टमहा — सी० रो० । ३ ०सुरिया — म० । ४ बदालता —
रो० ।

तण्डुलपफलो । य त साय सायमासाय आहराम पातो त होति पक्क
 पटिविरूह् । य त पातो पातरासाय आहराम साय त होति पक्क
 पटिविरूह् । नापदान पञ्चायित्थ । ते मय अकट्टपाक सालि परभुञ्जन्ता
 तभक्खा तदाहारा चिर दीघमद्धान अट्टम्हा । तेस नो पापकान येव
 5 अकुसलान धम्मान पातुभावा कणो पि तण्डुल परियोनन्धि, थुसो पि तण्डल
 R 92 परियोनन्धि, लून पि नप्पटिविरूह् । अपदान पञ्चायित्थ । सण्डसण्डा
 सालयो ठिता । यन्नून मय सालि विभजेय्याम मरियाद ठपेय्यामा' ति ।

अदिन्नादानादि पञ्चायि

१६ “अथ खो ते, वासेट्ट, सत्ता सालि विभजिसु मरियाद ठपेसु ।
 अथ खो, वासेट्ट, अञ्चतरो सत्तो लोलजातिको सक भाग परिरक्खन्तो
 10 अञ्चतर भाग अदिन्न आदियिवा परिभुञ्जि । तमेन अग्गहेसु । गहेत्वा
 एतदवोचु— ‘पापक वत, भो सत्त, करोसि यत्र हि नाम सक भाग परि-
 रक्खन्तो अञ्चतर भाग अदिन्न आदियित्वा परिभुञ्जसि । मास्सु, भो
 सत्त, पुन पि एवरूपमकासी’ ति । ‘एव, भो’ ति खो, वासेट्ट, सो सत्तो
 तेस सत्तान पच्चस्सोसि । दुतिय पि खो, वासेट्ट, सो सत्तो पे० ततिय
 15 पि खो, वासेट्ट, सो सत्तो सक भाग परिरक्खन्तो अञ्चतर भाग अदिन्न
 आदियित्वा परिभुञ्जि । तमेन अग्गहेसु । गहेत्वा एतदवोचु—‘पापक वत,
 भो सत्त, करोसि यत्र हि नाम सक भाग परिरक्खन्तो अञ्चतर भाग
 अदिन्न आदियित्वा परिभुञ्जसि’ । मास्सु, भो सत्त, पुन पि एवरूपमकासी’
 ति । अञ्जे पाणिना पह्रिसु, अञ्जे लेडुना^१ पह्रिसु, अञ्जे दण्डेन पह्रिसु ।
 20 तदग्गे खो, वासेट्ट, अदिन्नादान पञ्चायति, गरहा पञ्चायति, मुसावादा
 पञ्चायति, दण्डादान पञ्चायति ।

महासम्मतराजा सम्मन्तितो

२० “अथ खो ते, वासेट्ट, सत्ता सन्निपतिसु । सन्निपतित्वा
 B 77 अनुत्थुनिसु— ‘पापका वत भो धम्मा सत्तेसु पातुभूता, यत्र हि नाम अदिन्ना-
 दान पञ्चायिस्सति, गरहा पञ्चायिस्सति, मुसावादो पञ्चायिस्सति, दण्डा-
 25 दान पञ्चायिस्सति । यन्नून मय एत सत्त सम्मन्नेय्याम यो^१ नो सम्मा
 खीयितब्ब खीयेय्य, सम्मा गरहितब्ब गरहेय्य, सम्मा पब्बाजेतब्ब पब्बाजेय्य ।
 मय पनस्स सालीन भाग अनुप्पदस्सामा’ ति ।

R 93

“अथ खो ते, वासेट्ट, सत्ता यो नेस सत्तो अभिरूपतरो च

१ परिभुञ्जि—स्या० । २ लेडुना—स्या० । ३ सो—रो० ।

दस्सनीयतरो च पासादिकतरो च महेसक्खतरो च त सत्त उपसङ्कमित्वा
 एतदवोचु-‘एहि, भो’ सत्त, सम्मा खीयितब्ब खीय^१, सम्मा गरहितब्ब गरह^३,
 सम्मा पब्बाजेतब्ब पब्बाजेहि । मय पन वो सालीन भाग अनुप्पदस्सामा’
 ति । ‘एव, भो’ ति खो, वासेट्ट, सो सत्तो तेस सत्तान पटिस्सुणित्वा सम्मा
 खीयितब्ब खीयि, सम्मा गरहितब्ब गरहि, सम्मा पब्बाजेतब्ब पब्बाजेसि । 5
 ने पनस्स सालीन भाग अनुप्पदसु ।

२१ “महाजनसम्मतो ति खो, वासेट्ट, ‘महासम्मतो, महासम्मतो’
 त्वेव पठम अक्खर उपनिब्बत्त । खेत्तान अधिपती ति खो, वासेट्ट, ‘खत्तियो,
 खत्तियो’ त्वेव दुतिय अक्खर उपनिब्बत्त । धम्मेन परे^४ रञ्जेती ति खो,
 वासेट्ट, ‘राजा, राजा’ त्वेव ततिय अक्खर उपनिब्बत्त । इति खो, वासेट्ट, 10
 एवमेतस्स खत्तियमण्डलस्स पोरणेन अग्गञ्जेन अक्खरेण अभिनिब्बत्ति
 अहोसि तेस येव सत्तान, अनञ्जेस , सदिसान येव, नो असदिसान, धम्मे-
 नेव, नो अधम्मेन । धम्मो हि, वासेट्ट, सेट्टो जनेतस्मि दिट्ठे चैव धम्मे अभि-
 म्पराय च ।

ब्राह्मणमण्डल

२२ अथ खो तेस, वासेट्ट, सत्तान येव एकच्चान एतदहोसि - 15
 ‘पापका वत, भो, धम्मा सत्तेसु पातुभूता, यत्र हि नाम अदिन्नादान
 पञ्जायिस्सति, गरहा पञ्जायिस्सति, मुसावादो पञ्जायिस्सति, दण्डादान
 पञ्जायिस्सति, पब्बाजन पञ्जायिस्सति । यन्नून मय पापके अकुसले
 धम्मे वाहेय्यामा’ ति । ते पापके अकुसले धम्मे वाहेसु । पापके अकुसले R 94
 धम्मे वाहेन्ती ति खो, वासेट्ट, ‘ब्राह्मणा, ब्राह्मणा’ त्वेव पठम अक्खर 20
 उपनिब्बत्त । ते अरञ्जायतने पण्णकुटियो करित्वा पण्णकुटीसु भायन्ति B 78
 वीतङ्गारा वीतधूमा पन्नमुसला साय सायमासाय पातो पातरासाय गाम्म-
 निगमराजधानियो ओसरन्ति घासमेसमाना^५ । ते घास पटिलभित्वा पुनदेव
 अरञ्जायतने पण्णकुटीसु भायन्ति । तमेन मनुस्सा दिस्वा एवमाहसु-
 ‘इमे खो, भो, सत्ता अरञ्जायतने पण्णकुटियो करित्वा पण्णकुटीसु भायन्ति 25
 वीतङ्गारा वीतधूमा पन्नमुसला, साय सायमासाय पातो पातरासाय
 गाम्मनिगमराजधानियो ओसरन्ति घासमेसमाना । ते घास पटिलभित्वा
 पुनदेव अरञ्जायतने पण्णकुटीसु भायन्ती’ ति । भायन्ती ति खो, वासेट्ट,

१ खो - रो० । २ खीयि - स्या० रो० । ३ गरहि - रो० । ४ ते - स्त्री०, रो० म० ।

५ परेस - स्या० । ६ अञ्जेस - स्या० । ७ बाहेसु - रो० । ८ घासमेसवा - स्या० ।

‘भायका, भायका’ त्वेव दुतिय अक्खर उपनिब्बत्त । तेस येव खो, वासेट्टु, सत्तान एकच्चे सत्ता अरञ्जायतने पण्णकुटीसु त भान अनभिसम्भुणमाना^१ गामसामन्त निगमसामन्त ओसरित्वा गन्थे^२ करोन्ता अच्छन्ति^३ । तमेन मनुस्सा दिस्वा एवमाहसु—‘इमे खो, भो, सत्ता अरञ्जायतने पण्णकुटीसु त भान
 5 अनभिसम्भुणमाना गामसामन्त निगमसामन्त ओसरित्वा गन्थे^४ करोन्ता अच्छन्ति । न दानिमे भायन्ती^५ ति । न दानिमे भायन्ती ति खो, वासेट्टु, ‘अज्झायका अज्झायका’ त्वेव ततिय अक्खर उपनिब्बत्त । हीनसम्मत खो पन, वासेट्टु, तेन समयेन होति, तदेतरहि सेट्टुसम्मत । इति खो, वासेट्टु, एवमेतस्स ब्राह्मणमण्डलस्स पोरणेन अगगञ्जेन अक्खरेन अभिनिब्बत्ति
 R 95 10 अहोसि तेस येव सत्तान, अनञ्जेस, सदिसान येव, नो असदिसान, धम्मेनेव, नो अधम्मेन । धम्मो हि, वासेट्टु, सेट्टो जनेतस्मि दिट्ठे चैव धम्मे अभिसम्प-
 राय च ।

वेस्समण्डल

२३ “तेस येव खो, वासेट्टु, सत्तान एकच्चे सत्ता मेथुन धम्म समादाय विसुकम्मन्ते^६ पयोजेसु । मेथुन धम्म समादाय विसुकम्मन्ते पयो-
 15 जेन्ती ति खो, वासेट्टु, ‘वेस्सा, वेस्सा’ त्वेव अक्खर उपनिब्बत्त^७ । इति खो, वासेट्टु, एवमेतस्स वेस्समण्डलस्स पोरणेन अगगञ्जेन अक्खरेन अभि-
 B 79 निब्बत्ति अहोसि तेस येव सत्तान, अनञ्जेस, सदिसान येव, नो असदिसान, धम्मेनेव, नो अधम्मेन । धम्मो हि, वासेट्टु, सेट्टो जनेतस्मि दिट्ठे चैव धम्मे अभिसम्पराय च ।

सुद्धमण्डल

२४ “तेस येव खो, वासेट्टु, सत्तान ये त सत्ता अवसेसा ते लुद्दा-
 न्गारा खुद्दाचारा^८ अहेसु । लुद्दाचारा खुद्दाचारा ति खो, वासेट्टु, ‘सुद्दा, सुद्दा’
 त्वेव अक्खर उपनिब्बत्त । इति खो, वासेट्टु, एवमेतस्स सुद्धमण्डलस्स
 पोरणेन अगगञ्जेन अक्खरेन अभिनिब्बत्ति अहोसि तेस येव सत्तान,
 अनञ्जेस, सदिसान येव, नो असदिसान, धम्मेनेव, नो अधम्मेन । धम्मो
 25 हि, वासेट्टु, सेट्टो जनेतस्मि दिट्ठे चैव धम्मे अभिसम्पराय च ।

१ अनभिसम्भुणमाना - स्या०, अनभिसम्भूतमाना - रो० । २ गच्चे - सी०, गण्ठे - स्या० । ३ आगच्छन्ति - स्या०, अच्छेन्ति - रो० । ४ अज्झायिका - स्या० । ५ विसु कम्मन्ते - स्या० सी० विसुत्तकम्मन्ते - रो० । ६ निब्बत्त - स्या० । ७ लुद्दाचारा - सी० । ८ रो० पात्थके नत्थि ।

२५ “अहु खो सो, वासेट्ट, समयो य खत्तियो पि सक धम्म गरहमानो अगारस्मा अनगारिय पब्बजति – ‘समणो भविस्सामी’ ति ।
 ब्राह्मणो पि खो, वासेट्ट पे० वेस्सो पि खो, वासेट्ट पे० सुट्ठो पि खो, वासेट्ट, सक धम्म गरहमानो अगारस्मा अनगारिय पब्बजति –
 ‘समणो भविस्सामी’ ति । इमेहि खो, वासेट्ट, चतूहि मण्डलेहि समण-
 मण्डलस्स अभिनिब्बत्ति अहोसि तेस येव सत्तान, अनञ्जेस, सदिसान येव,
 नो असदिसान, धम्मेनेव, नो अधम्मेन । धम्मो हि, वासेट्ट, सेट्ठो
 जनेतस्मि दिट्ठे चैव धम्मे अभिसम्पराय च

R 96

§ ४ खीणासवो नेस अगमवखायति

२६ “खत्तियो पि खो, वासेट्ट, कायेन दुच्चरित चरित्वा वाचाय
 दुच्चरित चरित्वा मनसा दुच्चरित चरित्वा मिच्छादिट्ठिको मिच्छादिट्ठि-
 कम्मसमादानो^१ मिच्छादिट्ठिकम्मसमादानहेतु कायस्स भेदा पर मरणा
 अपाय दुग्गतिं विनिपात निरय उपपज्जति । ब्राह्मणो पि खो, वासेट्ट,
 पे० वेस्सो पि खो, वासेट्ट सुट्ठो पि खो, वासेट्ट समयो पि खो,
 वासेट्ट, कायेन दुच्चरित चरित्वा वाचाय दुच्चरित चरित्वा मनसा दुच्चरित
 चरित्वा मिच्छादिट्ठिको मिच्छादिट्ठिकम्मसमादानो मिच्छादिट्ठिकम्म-
 समादानहेतु कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुग्गतिं विनिपात निरय
 उपपज्जति ।

10

15

“खत्तियो पि खो, वासेट्ट, कायेन सुचरित चरित्वा वाचाय सुचरित
 चरित्वा मनसा सुचरित चरित्वा सम्मादिट्ठिको सम्मादिट्ठिकम्मसमादानो
 सम्मादिट्ठिकम्मसमादानहेतु कायस्स भेदा पर मरणा सुगतिं सगग लोक
 उपपज्जति । ब्राह्मणो पि खो, वासेट्ट पे० वेस्सो पि खो वासेट्ट सुट्ठो
 पि खो, वासेट्ट समयो पि खो, वासेट्ट, कायेन सुचरित चरित्वा वाचाय
 सुचरित चरित्वा मनसा सुचरित चरित्वा सम्मादिट्ठिको सम्मादिट्ठिकम्म-
 समादानो सम्मादिट्ठिकम्मसमादानहेतु कायस्स भेदा पर मरणा सुगतिं सगग
 लोक उपपज्जति ।

B 80

20

25

२७ “खत्तियो पि खो, वासेट्ट, कायेन द्वयकारी वाचाय द्वयकारी
 मनसा द्वयकारी विमिस्सदिट्ठिको विमिस्सदिट्ठिकम्मसमादानो विमिस्स-
 दिट्ठिकम्मसमादानहेतु कायस्स भेदा पर मरणा सुखदुक्खप्पटिसवेदी^३ होति ।
 ब्राह्मणो पि खो, वासेट्ट पे० वेस्सो पि खो, वासेट्ट सुट्ठो पि खो, वासेट्ट

R 97

१-१ रो० पोत्थके नत्थि । २ रो० पोत्थके नत्थि । ३ सुखदुक्खप्पटिसवेदी - सी०, स्या० ।

समणो पि खो, वासेट्ट, कायेन द्वयकारी वाचाय द्वयकारी मनसा द्वयकारी विमिस्सदिट्ठिको विमिस्सदिट्ठिकम्मसमादानो विमिस्सदिट्ठिकम्मसमादानहेतु-कायस्स भेदा पर मरणा सुखदुक्खप्पटिसवेदी होति ।

बोधिपक्खियभावना

२८ “खत्तियो पि खो, वासेट्ट, कायेन सवुतो वाचाय सुवुतो मनसा सवुतो, सत्तन्न बोधिपक्खियान धम्मान भावनमन्वाय, दिट्ठेव धम्मे परिनिब्बायति’ । ब्राह्मणो पि खो, वासेट्ट पे० वेस्सो पि खो, वासेट्ट सुट्ठो पि खो, वासेट्ट समणो पि खो, वासेट्ट, कायेन सवुतो वाचाय सवुतो मनसा सवुतो, सत्तन्न बोधिपक्खियान भावनमन्वाय, दिट्ठेव धम्मे परिनिब्बायति ।

२९ “इमेस हि, वासेट्ट, चतुन्न वण्णान यो होति भिक्खु अरह खीणासवो वुसितवा’ कतकरणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीण-भवसयोजनो सम्मदञ्जा विमुत्तो, सो नेस अग्गमक्खायति, धम्मेनेव, नो अधम्मेन । धम्मो हि, वासेट्ट, सेट्ठो जनेतस्मि दिट्ठे चेव धम्मे अभिसम्पराय च ।

३० “ब्रह्मुना पेसा, वासेट्ट, सनङ्कमारेन गाथा भासिता -
‘खत्तियो सेट्ठो जनेतस्मि, ये गोत्तपटिसारिनो’ ।
विज्जाचरणसम्पन्नो’, सो सेट्ठो देवमानुसे’ ति ॥

“सा खो पनेसा, वासेट्ट, गाथा ब्रह्मुना सनङ्कमारेन सुगीता नो दुग्गीता, सुभासिता नो दुब्भासिता, अत्थसहिता’ नो अनत्थसहिता, अनुमता मया । अह पि, वासेट्ट, एव वदीमि -

R 98 20 ‘खत्तियो सेट्ठो जनेतस्मि, ये गोत्तपटिसारिनो ।
विज्जाचरणसम्पन्नो, सो सेट्ठो देवमानुसे’ ति ॥

इदमवोच भगवा । अत्तमना वासेट्टभारद्वाजा भगवतो भासित अभिनन्दु ति ।

अग्गञ्जसुत्ता निट्ठित चतुत्थ ।

— ० —

१ परिनिब्बाति - सी० । २ रो० पोत्यके नत्थि । ३ ० पटिसारिणो - रो० ।
४ ० सम्पण्णो - सी० । ५ अत्थसञ्छिता - स्या० ।

५ सम्पसादनीयसुत्त^१

§ १ सारिपुत्तस्स सीहनादो

१ एव मे सुत । एक समय भगवा नाळन्दाय विहरति पावारिक
म्बवने । अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो येन भगवा तेनुपसङ्गमि, उपसङ्ग-
मित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो
आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्त एतदवोच - “एवपसन्नो अह, भन्ते, भगवति ।
न चाहु न च भविस्सति न चेतर्हि विज्जति अञ्जो समणो वा ब्राह्मणो वा 5
भगवता भिय्योभिञ्जातरो यदिद सम्बोधिय” ति ।

B 82
R 99

२ “उळारा खो ते अय, सारिपुत्त, आसभी वाचा भासिता ।
एकसो गहितो । सीहनादो नदितो - ‘एवपसन्नो अह, भन्ते, भगवति, न
चाहु न च भविस्सति न चेतर्हि विज्जति अञ्जो समणो वा ब्राह्मणो वा
भगवता भिय्योभिञ्जातरो यदिद सम्बोधिय’ ति । कि ते^२, सारिपुत्त, ये 10
ते अहेसु अतीतमद्धान अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा सब्बे ते भगवन्तो चेतसा
चेतो परिच्च विदिता - ‘एवसीला ते भगवन्तो अहेसु इति पि, एवधम्मा
ते भगवन्तो अहेसु इति पि, एवपञ्जा ते भगवन्तो अहेसु इति पि, एव-
विहारी ते भगवन्तो अहेसु इति पि, एवविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसु
इति पी” ति ? 15

R 100

“नो हेत, भन्ते” ।

“कि पन ते, सारिपुत्त, ये ते भविस्सन्ति अनागतमद्धान
अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा सब्बे ते भगवन्तो चेतसा चेतो परिच्च विदिता -
‘एवसीला ते भगवन्तो भविस्सन्ति इति पि, एवधम्मा एवपञ्जा
एवविहारी एवविमुत्ता ते भगवन्तो भविस्सन्ति इति पी” ति ? 20

“नो हेत, भन्ते” ।

“कि पन ते, सारिपुत्त, अह एतरहि अरह सम्मासम्बुद्धो चेतसा
चेतो परिच्च विदितो - ‘एवसीलो भगवा इति पि, एवधम्मो एवपञ्जो
एवविहारी एवविमुत्तो भगवा इति पी” ति ? 25

B 83

“नो हेत, भन्ते” ।

25

१ सम्पसादनीयसुत्त - सी०, सम्पसादनीयसुत्तन्त - रो० । २ नु खो - स्या०,
नु - रो० ।

“एत्थ च^१ हि ते, सारिपुत्त^२, अतीतानागतपच्चुप्पन्नेसु अरहन्तेसु सम्मासम्बुद्धेसु चेतोपरियजाण नत्थि । अथ किञ्चरहि ते अय, सारिपुत्त, उळारा आसभी वाचा भासिता, एकसो गहितो, सीहनादो नदितो –
 5 ‘एवपसन्नो अह, भन्ते, भगवति न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति अञ्जो समणो वा ब्राह्मणो वा भगवता भिय्योभिञ्जतरो यदिद सम्बोधिय^३” ति ?

३ “न खो म,^४ भन्ते, अतीतानागतपच्चुप्पन्नेसु अरहन्तेसु सम्मा-
 सम्बुद्धेसु चेतोपरियजाण अत्थि, अपि च, मे धम्मन्वयो विदितो । सेय्य-
 101 थापि, भन्ते, रञ्जो पच्चन्तिम नगर दब्हुद्धाप^५ दब्हुपाकारतोरण एकद्वार ।
 10 तत्रस्स दोवारिको पण्डितो ब्यत्तो^६ मेधावी अञ्जातान निवारैता आतान पवेसेता । सो तस्स नगरस्स समन्ता^७ अनुपरियायपथ अनुक्कममानो^८ न पस्सेय्य पाकारसन्धि वा पाकारविवर वा अन्तमसो बिळारनिकखमनमत्त^९
 पि । तस्स एवमस्स—‘ये खो केचि ओळारिका पाणा इम नगर पविसन्ति
 वा निकखमन्ति वा सब्बे ते इमिनाव द्वारेण पविसन्ति वा निकखमन्ति
 15 वा’ ति । एवमेव खो मे, भन्ते, धम्मन्वयो विदितो । ये ते, भन्ते, अहेसु अतीतमद्धान अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा सब्बे ते भगवन्तो पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्जाय दुब्बलीकरणे, चतूसु^{१०} सतिपट्टानेसु सुप्प-
 तिद्वित्तित्ता, सत्त सम्बोज्झङ्गे यथाभूत भावेत्वा, अनुत्तर सम्मासम्बोधि
 अभिसम्बुज्झिसु । ये पि ते, भन्ते, भविस्सन्ति अनागतमद्धान अरहन्तो
 20 सम्मासम्बुद्धा सब्बे ते भगवन्तो पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किले-
 से पञ्जाय दुब्बलीकरणे, चतूसु सतिपट्टानेसु सुप्पतिद्वित्तित्ता, सत्त सम्बो-
 ज्झङ्गे यथाभूत भावेत्वा, अनुत्तर सम्मासम्बोधि अभिसम्बुज्झिस्सन्ति ।
 भगवा पि, भन्ते, एतरहि अरह सम्मासम्बुद्धो पञ्च नीवरणे पहाय चेतसो
 84 उपक्किलेसे पञ्जाय दुब्बलीकरणे, चतूसु सतिपट्टानेसु सुप्पतिद्वित्तित्तो, सत्त
 25 सम्बोज्झङ्गे^{११} यथाभूत भावेत्वा, अनुत्तर सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धो ।

102 ४ “इधाह,^१ भन्ते, येन भगवा तेनुपसङ्कमि धम्मस्सवनाय ” । तस्स मे, भन्ते, भगवा धम्म देसेति^{१२} उन्नरुत्तर^{१३} पणीतपणीत कण्हसुक्कसप्पट्टि-

१ सी० स्या० पोत्थकेसु नत्थि चरहि—रो० । २ पनेत—सी०, स्या० ।
 ३ दब्हुद्धाल—स्या०, दब्हुद्धाप—रो० । ४ वियत्ती—रो० स्या० । ५ सामन्ता—सी०,
 स्या० । ६ अनुक्कमन्ते—रो० । ७ बिलालनिस्सक्कनमत्त—रो० । ८ चतुसु—रो० ।
 ९ बोज्झङ्गे—रो० । १० इधाह—सी० । ११ धम्म सवनाय—रो० । १२ देसेसि—सी०,
 स्या०, रो० । १३ उन्नरुत्तरि—स्या०, रो० ।

भाग । यथा यथा मे, भन्ते, भगवा धम्म देसेसि उत्तस्तर पणीतपणीत कण्हसुक्कसप्पटिभाग तथा तथाह तस्मिं धम्मे अभिञ्जा इधेकच्च धम्म धम्मेसु निट्टमगम, सत्थरि पसीदि—‘सम्मासम्बुद्धो भगवा स्वाक्खातो भगवता धम्मो सुप्पटिपन्नो’ सावकसङ्घो’ ति ।

§ २ एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति

(१) कुसलेसु धम्मेसु

५ “अपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति 5
कुसलेसु धम्मेसु । तत्रिमे कुसला धम्मा, सेय्यथिद — चत्तारो सतिपट्टाना,
चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो इद्धिपादा, पञ्चिन्द्रियानि, पञ्च बलानि,
सत्त बोज्झङ्गा, अरियो अट्टङ्गिको मग्गो । इध, भन्ते, भिक्खु आसवान
खया अनासव चेतोविमुत्ति पञ्चाविमुत्ति दिट्ठेव धम्मे सय अभिञ्जा सच्छि
कत्वा उपसम्पज्ज विहरति । एतदानुत्तरिय, भन्ते, कुसलेसु धम्मेसु । 10
त भगवा असेसमभिजानाति । त भगवतो असेसमभिजानतो उत्तरि^१
अभिञ्जेय्य नत्थि यदभिजान अञ्जो समणो वा ब्राह्मणो वा भगवता
भिय्योभिञ्जतरो अस्स, यदिद कुसलेसु धम्मेसु ।

(२) आयतनपण्णत्तीसु

६ “अपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति
आयतनपण्णत्तीसु^२ । छयिमानि, भन्ते, अज्झत्तिकबाहिरानि आयतनानि— 15
चक्खु चैव रूपा च, सोत चैव सदा च, धान चैव गन्धा च, जिह्वा चैव
रसा च, कायो चैव फोटुब्बा च, मनो चैव धम्मा च । एतदानुत्तरिय,
भन्त, आयतनपण्णत्तीसु । त भगवा असेसमभिजानाति । त भगवतो असे-
समभिजानतो उत्तरि अभिञ्जेय्य नत्थि यदभिजान अञ्जो समणो वा
ब्राह्मणो वा भगवता भिय्योभिञ्जतरो अस्स, यदिद आयतनपण्णत्तीसु 20

(३) गब्भावक्कन्तीसु

७ “अपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति
गब्भावक्कन्तीसु । चतस्सो इमा, भन्ते, गब्भावक्कन्तियो — इध, भन्ते,
एकच्चो असम्पजानो मातुकुच्छि ओक्कमति, असम्पजानो मातुकुच्छिस्मि
ठाति, असम्पजानो मातुकुच्छिम्हा निक्खमति । अय पठमा गब्भा-
वक्कन्ति । 25

१ सुपटिपन्नो — रो०, स्या० । २ सङ्घो — स्या० । ३ उत्तरि — रो० । ४ ० पञ्च-
त्तीसु — रो० ।

“पुन च पर, भन्ते, इधेकच्चो सम्पजानो मातुकुच्छि ओक्कमति, असम्पजानो मातुकुच्छिस्मि ठाति, असम्पजानो मातुकुच्छिम्हा^१ निक्खमति । अय दुतिया गब्भावक्कन्ति ।

“पुन च पर, भन्ते, इधेकच्चो सम्पजानो मातुकुच्छि ओक्कमति, सम्पजानो मातुकुच्छिस्मि ठाति, असम्पजानो मातुकुच्छिम्हा निक्खमति ।
5 अय ततिया गब्भावक्कन्ति ।

“पुन च पर, भन्ते, इधेकच्चो सम्पजानो मातुकुच्छि ओक्कमति, सम्पजानो मातुकुच्छिस्मि ठाति, सम्पजानो मातुकुच्छिम्हा निक्खमति । अय चतुत्थी^३ गब्भावक्कन्ति । एतदानुत्तरिय, भन्ते, गब्भावक्कन्तीसु ।

(४) आदेसनविधासु

10 “अपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति आदेसनविधासु । चतस्सो इमा, भन्ते, आदेसनविधा - इध, भन्ते, एकच्चो निमित्तेन आदिसति-‘एव पि ते मनो, इत्थ पि ते मनो, इति पि ते चित्त’ ति । सो बहु चे पि आदिसति, तथेव त होति नो अञ्जथा । अय पठमा आदेसनविधा ।

15 “पुन च पर, भन्ते, इधेकच्चो न हेव खो निमित्तेन आदिसति, अपि च खो मनुस्सान वा अमनुस्सान वा देवतान वा सह सुत्वा आदिसति - ‘एव पि ते मनो, इत्थ पि ते मनो, इति पि ते चित्त’ ति । सो बहु चे पि आदिसति, तथेव त होति नो अञ्जथा । अय दुतिया आदेसनविधा ।

20 “पुन च पर, भन्ते, इधेकच्चो न हेव खो निमित्तेन आदिसति, ना पि^१ मनुस्सान वा अमनुस्सान वा देवतान वा सह सुत्वा आदिसति, अपि च खो वितक्कयतो विचारयतो वितक्कविप्फारसद् सुत्वा आदिसति - ‘एव पि ते मनो, इत्थ पि ते मनो, इति पि ते चित्त’ ति । सो बहु चे पि आदिसति, तथेव त होति नो अञ्जथा । अय ततिया आदेसनविधा ।

25 “पुन च पर, भन्ते, इधेकच्चो न हेव खो निमित्तेन आदिसति, ना पि मनुस्सान वा अमनुस्सान वा देवतान वा सह सुत्वा आदिसति, ना पि वितक्कयतो विचारयतो वितक्कविप्फारसद् सुत्वा आदिसति, अपि च खो अवितक्क अविचार समाधि समापन्नस्स चेतसा चेतो परिच्च पजानाति - ‘यथा इमस्स भोतो मनोसङ्गारा पणिहिता तथा इमस्स चित्तस्स अनन्तरा इम^२ नाम वितक्क वितक्केस्सती’ ति । सो बहु चे पि

R. 104
B 86

१ मातुकुच्छिस्मा - रो० । २ चतुत्था - म० । ३ न पि - रो० । ४ अमु - रो० ।

आदिसति तथेव त होति नो अञ्जथा ति । अय चतुत्था आदेसनविधा ।
एतदानुत्तरिय, भन्ते, आदेसनविधासु ।

(५) दस्सनसमापत्तीसु

६ “अपर^१ पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति
दस्सनसमापत्तीसु । चतस्सो इमा, भन्ते, दस्सनसमापत्तियो—

“इध, भन्ते, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा आतप्पमन्वाय 5
पधानमन्वाय अनुयोगमन्वाय अप्पमादमन्वाय सम्मामनसिकारमन्वाय
तथारूप चेतोसमाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते इममेव काय उद्ध पादतला
अधो केसमत्थका तचपरियन्त पूर नानप्पकारस्स असुचिनो पच्चवेक्खति—
‘अत्थि इमस्मि काये केसा लोमा नखा दन्ता तचो मस न्हारु^२ अट्ठि^३ अट्ठि-
मिञ्जा^४ वक्क हृदय यकन किलोमक पिहक पप्फास अन्त अन्तगुण 10
उदरिय करीस पित्त सेम्ह पुब्बो लोहित सेदो मेदो अस्सु वसा खेळो
सिञ्चानिका लसिका मुत्त’ ति । अय पठमा दस्सनसमापत्ति ।

“पुन च पर, भन्ते, इधेकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा आतप्पमन्वाय R 105
पे० तथारूप चेतोसमाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते इममेव काय
उद्ध पादतला अधो केसमत्थका तचपरियन्त पूर नानप्पकारस्स असुचिनो 15
पच्चवेक्खति — ‘अत्थि इमस्मि काये केसा लोमा पे० लसिका मुत्त’ ति ।
अतिक्कम्म च पुरिसस्स छविमसलोहित अट्ठि पच्चवेक्खति । अय
दुतिया दस्सनसमापत्ति । B 87

“पुन च पर, भन्ते, इधेकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा आतप्पमन्वाय
पे० तथारूप चेतोसमाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते इममेव काय 20
उद्ध पादतला अधो केसमत्थका तचपरियन्त पूर नानप्पकारस्स असुचिनो
पच्चवेक्खति — ‘अत्थि इमस्मि काये केसा लोमा पे० लसिका मुत्त’ ति ।
अतिक्कम्म च पुरिसस्स छविमसलोहित अट्ठि पच्चवेक्खति । पुरिसस्स च
विञ्जाणसोत्त पजानाति, उभयतो अब्बोच्छिन्न — इध लोके पत्तिट्ठित च
ररलोके पत्तिट्ठित च । अय ततिया दस्सनसमापत्ति । 25

“पुन च पर, भन्ते, इधेकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा आतप्पमन्वाय
पे० तथारूप चेतोसमाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते इममेव काय उद्ध
पादतला अधो केसमत्थका तचपरियन्त पूर नानप्पकारस्स असुचिनो

१ पुन चपर — स्त्री० । २ नहारु — सी० स्या०, रो० । ३ अट्ठी — स्या०, रो० । ४ अट्ठि-
मिञ्जा — रो० ।

पञ्चवेक्खति- 'अत्थि इमस्मि काये केसा लोमा पे० लसिका मुत्त' ति ।
अतिक्कम्म च पुरिसस्स छविमसलोहित अट्ठि पञ्चवेक्खति, पुरिसस्स च
विञ्जाणसोत्त पजानाति, उभयतो अब्बोच्छिन्न - इध लोके अप्पतिट्ठित च
परलोके अप्पतिट्ठित च । अय चतुत्था दस्सनसमापत्ति । एतदानुत्तरिय,
5 भन्ते, दस्सनसमापत्तीसु ।

(६) पुग्गलपञ्जात्तीसु

१० 'अपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति
पुग्गलपञ्जात्तीसु' । सत्तिमे, भन्ते, पुग्गला - उभतोभागविमुत्तो, पञ्जा-
विमुत्तो, कायसक्खी, दिट्ठिप्पत्तो, सद्धानुसारी, धम्मानुसारी ।
एतदानुत्तरिय, भन्ते, पुग्गलपञ्जात्तीसु ।

(७) पधानेसु

R 106 10

B 88

११ 'अपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति
पधानेसु । सत्तिमे, भन्ते, सम्बोज्झङ्गो- सतिसम्बोज्झङ्गो, धम्मविचय-
सम्बोज्झङ्गो, विरियसम्बोज्झङ्गो, पीतिसम्बोज्झङ्गो, पस्सद्विसम्बोज्झङ्गो,
समाधिसम्बोज्झङ्गो, उपेक्खासम्बोज्झङ्गो । एतदानुत्तरिय, भन्ते,
पधानेसु ।

(८) पटिपदासु

20 १२ 'अपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति
पटिपदासु । चतस्सो इमा, भन्ते, पटिपदा- दुक्खा पटिपदा दन्धाभिञ्जा,
दुक्खा पटिपदा खिप्पाभिञ्जा, सुखा पटिपदा दन्धाभिञ्जा, सुखा पटिपदा
खिप्पाभिञ्जा ति । तत्र, भन्ते, याय पटिपदा दुक्खा दन्धाभिञ्जा,
अय, भन्ते, पटिपदा उभयेनेव हीना अक्खायति - दुक्खत्ता च दन्धत्ता
20 च । तत्र, भन्ते, याय पटिपदा दुक्खा खिप्पाभिञ्जा, अय पन, भन्ते,
पटिपदा दुक्खत्ता हीना अक्खायति । तत्र, भन्ते, याय पटिपदा सुखा
दन्धाभिञ्जा, अय पन, भन्ते, पटिपदा दन्धत्ता हीना अक्खायति । तत्र,
भन्ते, याय पटिपदा सुखा खिप्पाभिञ्जा, अय पन, भन्ते, पटिपदा
उभयेनेव पणीता अक्खायति - सुखत्ता च खिप्पत्ता च । एतदानुत्तरिय,
25 भन्ते, पटिपदासु ।

(६) भस्ससमाचारे

१३ “अपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति भस्ससमाचारे । इध, भन्ते, एकच्चो न चेव मुसावादुपसञ्चित् वाच भासति न च वेभूतिय, न च पेसुणिय^१, न च सारम्भज जयापेक्खो, मन्ता मन्ता च वाच भासति निधानवति कालेन । एतदानुत्तरिय, भन्ते, भस्ससमाचारे ।

“अपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति 5
पुरिससीलसमाचारे । इध, भन्ते, एकच्चो सच्चो चस्स सद्धो च, न च कुहको,
न च लपको, न च नेमित्तिको, न च निप्पेसिको, न च लाभेन लाभ R 107
निजिगीसनको^२, इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो, भोजने^३ मत्तञ्चू, समकारी, जागरियानु
योगमनुयुत्तो, अतन्दितो, आरद्धविरियो, भायी^४, सतिमा, कल्याणपटिभानो,
गतिमा, धितिमा, मतिमा^५, न च कामेसु गिद्धो, सतो च निपको च । 10
एतदानुत्तरिय, भन्ते, पुरिससीलसमाचारे ।

(१०) अनुसासनविधासु

१४ “अपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति
अनुसासनविधासु । चतस्सो इमा भन्ते अनुसासनविधा--

“जानाति, भन्ते, भगवा अपर^६ पुग्गल^६ पच्चत्त योनिसोमनसिकारा
‘अय पुग्गलो यथानुसिट्ठ तथा पटिपज्जमानो तिण्ण सयोजनान परिक्खया 15
सोतापन्नो भविस्सति अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो’ ति ।
जानाति, भन्ते, भगवा पर पुग्गल पच्चत्त योनिसोमनसिकारा—‘अय पुग्गलो
यथानुसिट्ठ तथा पटिपज्जमानो तिण्ण सयोजनान परिक्खया रागदोसमोहान
तनुत्ता सकदागामी भविस्सति, सकिदेव इम लोक आगन्त्वा दुक्खस्सन्त
करिस्सती’ ति । जानाति, भन्ते, भगवा पर पुग्गल पच्चत्त योनिसो- 20
मनसिकारा —‘अय पुग्गलो यथानुसिट्ठ तथा पटिपज्जमानो पच्चन्न
ओरम्भागियान सयोजनान परिक्खया ओपपातिको भविस्सति तत्थ
परिनिब्बायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका’ ति । जानाति, भन्ते, भगवा
पर पुग्गल पच्चत्त योनिसोमनसिकारा—‘अय पुग्गलो यथानुसिट्ठ तथा
पटिपज्जमानो आसवान खया अनासव चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिट्ठेव धम्मे 25

१ पेसुणियं - रो० । २ निजिगिसनको - सी०, स्या०, निजिगिसिता - रो० । ३ भोजनेसु -
स्या० । ४ आयी - रो० । ५ मतिमा - सां०, रो० । ६-६ परपुग्गल - रो०, पर पुग्गल -
सी०, स्या० ।

सय अभिञ्जा सच्छिक्त्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सती' ति । एतदानुत्तरिय, भन्ते, अनुसासनविधासु ।

(११) परपुगलविमुत्तिञ्जाणे

108

१५ "अपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति परपुगलविमुत्तिञ्जाणे । जानाति, भन्ते, भगवा पर पुगल पच्चत्त योनिसोमनसिकारा - 'अय पुगलो तिण्ण सयोजनान परिक्खया सोतापन्नो भविस्सति अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो'" ति । जानाति, भन्ते, भगवा पर पुगल पच्चत्त योनिसोमनसिकारा - 'अय पुगलो तिण्ण सयोजनान परिक्खया रागदोसमोहान तनुत्ता सकदागामी भविस्सति,^१ सकिदेव इम लोक आगन्त्वा दुक्खस्सन्त करिस्सती' ति । जानाति, भन्ते, भगवा पर पुगल पच्चत्त योनिसोमनसिकारा - 'अय पुगलो पच्चन्न ओरम्मभागियान सयोजनान परिक्खया ओपपातिको भविस्सति, तत्थ परि- निब्बायी, अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका' ति । जानाति, भन्ते, भगवा पर पुगल पच्चत्त योनिसोमनसिकारा - 'अय पुगलो आसवान खया अनासव चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिट्ठेव धम्मे सय अभिञ्जा सच्छिक्त्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सती' ति । एतदानुत्तरिय, भन्ते, परपुगलविमुत्तिञ्जाणे ।

90

15

(१२) सस्सतवादेस

१६ "अपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति सस्सतवादेसु । तयोमे, भन्ते, सस्सतवादा -

"इध, भन्ते, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा आतप्पमन्वाय

पे० तथारूप चेतोसमार्धि फुसति यथासमाहिते चित्ते अनेकविहित

२० पुब्बेनिवास अनुस्सरति, सेय्यथिद - एक पि जाति द्वे पि जातियो तिस्सो

प्पि जातियो चतस्सो पि जातियो पच्च पि जातियो दस पि जातियो

वीस^२ पि जातियो तिस पि जातियो चत्तालीस^३ पि जातियो

पञ्जास पि जातियो जासिसत पि जातिसहस्स पि जातिसतसहस्स

पि अनेकानि पि जातिसतानि अनेकानि पि जातिसहस्सानि अनेकानि पि

109

25

जातिसतसहस्सानि- 'अमुत्रासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एव

सुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो अमुत्र उदपादि^४,

तत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी

१ ० परायणो - स्या० रो० । २ स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ३ वीसति - रो० ।

४ चत्तालीस - सी०, स्या०, चत्तारीस - रो० । ५ उपपादि - रो० ।

एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति । इति साकार सउद्देस
अनेकविहित पुब्बेनिवास अनुस्सरति । सो एवमाह—'अतीत पाह' अद्धान
जानामि—सवट्टि वा लोको विवट्टि वा ति, अनागत पाह अद्धान जानामि—
सवट्टिस्सति वा लोको विवट्टिस्सति वा ति, सस्सतो अत्ता च लोको च
वञ्भो कूटट्टो' एसिकट्टायिट्ठितो, ते च सत्ता सन्धावन्ति ससरन्ति चवन्ति 5
उपपज्जन्ति, अत्थित्वेव सस्सतिसम' ति । अय पठमो सस्सतवादो ।

“पुन च पर, भन्ते, इधेकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा आतप्पमन्वाय
पे० तथारूप चेतोसमाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते अनेकविहित
पुब्बेनिवास अनुस्सरति, सेय्यथिद—एक पि सवट्टिविट्टि द्वे पि
सवट्टिविट्टानि तीणि पि सवट्टिविट्टानि चत्तारि पि सवट्टिविट्टानि पञ्च 10
पि सवट्टिविट्टानि दस पि सवट्टिविट्टानि—'अमुत्रासि एवनामो एवगोत्तो
एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो
चुतो अमुत्र उदपादि, तत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो
एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति ।
इति साकार सउद्देस अनेकविहित पुब्बेनिवास अनुस्सरति । सो एवमाह— 15
'अतीत पाह अद्धान जानामि सवट्टि वा' लोको' विवट्टि वा ति', अनागत
च एवाह अद्धान जानामि सवट्टिस्सति वा लोको विवट्टिस्सति वा ति,
सस्सतो अत्ता च लोको च वञ्भो कूटट्टो एसिकट्टायिट्ठितो, ते च सत्ता
सन्धावन्ति ससरन्ति चवन्ति उपपज्जन्ति, अत्थित्वेव सस्सतिसम' ति ।
अय, भन्ते, दुतियो सस्सतवादा । 20

“पुन च पर, भन्ते, इधेकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा आतप्प-
मन्वाय पे० तथारूप चेतोसमाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते
अनेकविहित पुब्बेनिवास अनुस्सरति, सेय्यथिद—दस पि ससट्टिविट्टानि
वीस पि सवट्टिविट्टानि तिस पि सवट्टिविट्टानि चत्तालीस पि
सवट्टिविट्टानि—'अमुत्रासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो 25
एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो अमुत्र उदपादि,
तत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी
एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति । इति साकार सउद्देस
अनेकविहित पुब्बेनिवास अनुस्सरति । सो एवमाह—'अतीत पाह अद्धान

१ चाह—स्या०, पह—रो० । २ कूटट्टो—स्या० । ३ तीनि—सी० । ४ पि—रो० ।
५-५ विवट्टि पि लोको—रो० ।

- जानामि सवट्टि पि लोको विवट्टि पी ति, अनागत पाह अद्धान जानामि सवट्टिस्सति पि लोको विवट्टिस्सति पी ति, सस्सतो अत्ता च लोको च वञ्छो कूटट्ठो एसिकट्टायिट्ठितो, ते च सत्ता सन्धावन्ति ससरन्ति चवन्ति उपपज्जन्ति, अत्थित्वेव सस्सतिसम' ति । अय, भन्ते, ततियो सस्सतवादो ।
- 5 एतदानुत्तरिय, भन्ते, सस्सतवादेसु ।

(१३) पुब्बेनिवासानुस्सतिआणे

- १७ “अपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति पुब्बेनिवासानुस्सतिआणे । इध, भन्ते, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा आतप्प-
मन्वाय पे तथारूप चेतोसमाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते अनेक-
विहित पुब्बेनिवास अनुस्सरति, सेय्यथिद' – एक पि जाति द्वे पि जातियो
10 तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस पि जातियो
B 92 वीस पि जातियो तिस पि जातियो चत्तालीस पि जातियो पञ्चास पि
जातियो जातिसत पि जातिसहस्स पि जातिसतसहस्स पि अनेके पि सवट्ट-
R 111 कप्पे अनेके पि विवट्टकप्पे अनेके पि सवट्टिविवट्टकप्पे—‘अमुत्रासि एवनामो
एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो
15 ततो चुतो अमुत्र उदपादि, तत्रापसि एवनामो एवगोत्तो एववण्णो एवमाहारो
एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो इधूपपन्नो' ति । इति
साकार सउद्देस अनेकविहित पुब्बेनिवास अनुस्सरति । सन्ति, भन्ते, देवा^१ येस
न सक्का गणनाय वा सङ्खानेन वा आयु^२ सङ्घातु । अपि च, यस्मि यस्मि^३
अत्तभावे अभिनिवुत्थपुब्बो^४ होति, यदि वा रूपीसु यदि वा अरूपीसु
20 यदि वा सञ्जीसु यदि वा असञ्जीसु यदि वा नेवसञ्जीनासञ्जीसु,
इति साकार सउद्देस अनेकविहित पुब्बेनिवास अनुस्सरति । एतदानु-
त्तरिय, भन्ते, पुब्बेनिवासानुस्सतिआणे ।

(१४) सत्तान चुतूपपातआणे

- १८ “अपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति सत्तान चुतूपपातआणे । इध, भन्ते, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा आतप्प-
2. मन्वाय पे० तथारूप चेतोसमाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते दिब्बेन
चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने

१ सेय्यथीद – स्या०, रो० । २ सत्ता – स्या० । ३ सङ्घातो – रो० । ४ आयु – सी०, रो०, अय – स्या० । ५ स्या० पोत्यके नत्थि । ६ अभिनिवुत्थपुब्बो – सी० स्या०, अभिनिवुत्थपुब्ब – रो० ।

हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति—
 'इमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्ना-
 गता मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियान उपवादका मिच्छादिट्टिका मिच्छा-
 दिट्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुग्गति विनिपात
 निरय उपपन्ना इमे वा पन भोन्तो सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वची- 5
 सुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियान अनुपवादका सम्मा-
 दिट्टिका सम्मादिट्टिकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग
 लोक उपपन्ना' ति । इति दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन
 सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीन पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे सुगते दुग्गते,
 यथाकम्मूपगे सत्ते पजानाति । एतदानुत्तरिय, भन्ते, सत्तान चतूप- 10
 पातभाणे ।

R 112

B 93

10

(१५) इद्धिविधासु

१६ 'अपर पन, भन्ते, एतदानुत्तरिय यथा भगवा धम्म देसेति
 इद्धिविधासु । द्वेमा, भन्ते, इद्धिविधायो'—

'अत्थि, भन्ते, इद्धि सासवा' सउपधिका, नो अरिया ति वुच्चति ।
 अत्थि, भन्ते, इद्धि अनासवा अनुपधिका, अरिया ति वुच्चति । 15

'कतमा च, भन्ते, इद्धि सासवा सउपधिका, नो अरिया ति
 वुच्चति ? इध, भन्ते, एकच्चो समणो वा ब्राह्मणो वा आतप्पमन्वाय
 पे० तथारूप चेतोसमाधि फुसति यथासमाहिते चित्ते अनेकविहित
 इद्धिविध पच्चनुभोति । एको पि हुत्वा बहुधा होति, बहुधा पि हुत्वा
 एको होति, आविभाव, तिरोभाव, तिरोकुट्टु^३ तिरोपाकार तिरोपब्बत 20
 असज्जमानो गच्छति, सेय्यथापि आकासे, पठविया पि उम्मुज्जनिमुज्ज
 करोति, सेय्यथापि उदके, उदके पि अभिज्जमाने गच्छति, सेय्यथापि
 पठविय, आकासे पि पल्लङ्गेन कमति, सेय्यथापि पक्खी सकुणो, इमे पि
 चन्दिमसुरिये^४ एवमहिद्धिके एवमहानुभावे पाणिना परामसति परि-
 मज्जति, याव ब्रह्मलोका पि कायेन वस वत्तेति । अय, भन्ते, इद्धि सासवा 25
 सउपधिका, नो अरिया ति वुच्चति ।

'कतमा पन, भन्ते, इद्धि अनासवा अनुपधिका, अरिया ति
 वुच्चति ? इध, भन्ते, भिक्खु सचे आकङ्खति—'पटिकूले अप्पटिकूल-

१ इद्धियो—रो० । २ या सासवा—रो०, सी० । ३ तिरोकुट्टु—म० । ४ अभिज्जमानो—
 रो० । ५ ० सुरिये—म० । ६ परिससति—रो० ।

- R 113 सञ्जी विहरेय्य' ति, अप्पटिकूलसञ्जी तत्थ विहरति, सचे आकङ्खति-
 'अप्पटिकूले पटिकूलसञ्जी' विहरेय्य' ति, पटिकूलसञ्जी तत्थ विहरति,
 सचे आकङ्खति-पटिकूले च अप्पटिकूले च अप्पटिकूलसञ्जी विहरेय्य
 ति, अप्पटिकूलसञ्जी तत्थ विहरति, सचे आकङ्खति-पटिकूले च अप्पटि-
 5 कूले च पटिकूलसञ्जी विहरेय्य' ति, पटिकूलसञ्जी तत्थ विहरति,
 सचे आकङ्खति-पटिकूल च अप्पटिकूल च तदुभय अभिनिवज्जेत्वा उपे-
 क्खको' विहरेय्य सतो सम्पजानो' ति, उपेक्खको तत्थ विहरति सतो
 सम्पजानो । अय, भन्ते, इद्धि अनासवा अनुपधिका अरिया ति वुच्चति ।
 एतदानुत्तरिय, भन्ते, इद्धिविधासु । त भगवा असेसमभिजानाति । त
 10 भगवतो असेसमभिजानतो उत्तरि अभिञ्जेय्य नत्थि, यदभिजान अञ्जो
 B 94 समणो वा ब्राह्मणो वा भगवता भिय्योभिञ्जतरो अस्स - यदिद इद्धि
 विधासु ।

§ ३ सत्था अब्भनुमोदि

- २० "य त, भन्ते, सद्धेन कुलपुत्तेन पत्तब्ब आरद्धविरियेन
 थामवता पुरिसथामेन पुरिसविरियेन पुरिसपरक्कमेन पुरिसधोरय्हेन,
 15 अनुप्पत्त त भगवता । न च, भन्ते, भगवा कामेसु कामसुखल्लिकानुयोग-
 मनुयुत्तो हीन गम्म पोथुज्जनिक अनरिय अनत्थसहित', न च अत्तकिलमथानु-
 योगमनुयुत्तो दुक्ख अनरिय अनत्थसहित । चतुन्न च भगवा भानान
 आभिचेतसिकान दिट्ठधम्मसुखविहारान निकामलाभी अकिच्छलाभी
 अकसिरलाभी ।
- 20 २१ "सचे म, भन्ते, एव पुच्छेय्य- 'कि नु खो, आवुसो सारिपुत्त,
 अहेसु अतीतमद्धान अञ्जे समणा वा ब्राह्मणा वा भगवता भिय्यो-
 भिञ्जतरा' सम्बोधिय' ति, एव पुट्ठो अह, भन्ते, 'नो' ति वदेय्य । 'कि
 पनावुसो सारिपुत्त, भविस्सन्ति अनागतमद्धान अञ्जे समणा वा ब्राह्मणा वा
 भगवता भिय्योभिञ्जतरा सम्बोधिय' ति, एव पुट्ठो अह, भन्ते, 'नो' ति
 25 वदेय्य । 'कि पनावुसो सारिपुत्त, अत्थेतरहि अञ्जो' समणो वा ब्राह्मणो'
 वा भगवता भिय्योभिञ्जतरो सम्बोधिय' ति, एव पुट्ठो अह, भन्ते, 'नो'
 ति वदेय्य ।
- R 114

"सचे पन म, भन्ते, एव पुच्छेय्य- 'कि नु खो, आवुसो सारिपुत्त,

१ उपेक्खको - रो० । २ अनत्थसहित - स्या० । ३ ० भिञ्जतरो - स्या० ।
 ४-४ अञ्जे समणा वा ब्राह्मणा - स्या० ।

अहेसु अतीतमद्धान अञ्जे समणा वा ब्राह्मणा वा भगवता समसमा सम्बोधिय' ति, एव पुट्टो अह, भन्ते, 'एव' ति वदेय्य । 'कि पनावुसो सारिपुत्त, भविस्सन्ति अनागतमद्धान अञ्जे समणा वा ब्राह्मणा वा भगवता समसमा सम्बोधिय' ति, एव पुट्टो अह, भन्ते, 'एव' ति वदेय्य । 'कि पनावुसो' सारिपुत्त, अत्येतरहि अञ्जे' समणा वा ब्राह्मणा' वा भगवता 5 समसमा' सम्बोधिय' ति, एव पुट्टो अह भन्ते 'नो' ति वदेय्य ।

"सचे पन म, भन्ते, एव पुच्छेय्य—'कि' पनायस्मा सारिपुत्तो एकच्च अभिमानुजानाति एकच्च न अभिमानुजानाती' ति, एव पुट्टो अह, भन्ते, एव व्याकरेय्य — 'सम्मुखा मेत, आवुसो, भगवतो सुत सम्मुखा पटिग्गहित— 10 अहेसु अतीतमद्धान अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा मया समसमा सम्बोधिय ति, सम्मुखा मेत, आवुसो, भगवतो सुत सम्मुखा पटिग्गहित — भविस्सन्ति अनागतमद्धान अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा मया समसमा सम्बोधिय ति, सम्मुखा मेत, आवुसो, भगवतो सुत सम्मुखा पटिग्गहित— अट्टानमेत अनवकासो य एकिस्सा लोकधातुया द्वे अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा अपुब्ब अचरिम उप्पज्जेय्यु नेत ठान विज्जती' ति । 15

"कच्चाह", भन्ते, एव पुट्टो एव व्याकरमानो वुत्तवादी चेव भगवतो होमि, न च भगवन्त अभूतेन अभिचिक्खामि, धम्मस्स चानुधम्म व्याकरोमि, न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादो गारय्ह ठान आगच्छती" ति ? R 115

"तग्घ त्व, सारिपुत्त, एव पुट्टो एव व्याकरमानो वुत्तवादी चेव मे' होसि, न च म अभूतेन अभिचिक्खसि, धम्मस्स चानुधम्म व्याकरोसि, 20 न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादो गारय्ह ठान आगच्छती" ति ।

२२ एव वुत्ते, आयस्मा उदायी भगवन्त एतदवोच — "अच्छरिय, भन्ते, अभिमत, भन्ते, तथागतस्स अप्पिच्छता सन्तुट्ठिता सल्लेखता, यत्र हि नाम तथागतो एवमहिद्धिको एवमहानुभावो, अथ च पन नेवत्तान पातुकरिस्सति । एकमेकञ्चे पि' इतो, भन्ते, धम्म अञ्जतित्थिया 25 परिब्बाजका अत्तनि समनुपस्सेय्यु ते तावतकेनेव पटाक परिहरेय्यु । अच्छरिय, भन्ते, अभिमत, भन्ते, तथागतस्स अप्पिच्छता सन्तुट्ठिता सल्लेखता,

१-१ अञ्जो समणो वा ब्राह्मणो - रो० । २ समसमो - रो० । ३ कस्मा - स्या० रो० । ४ व्याकरेय्य - रो० । ५ एकच्चाह - सी० किच्चाह - स्या० । ६ मम - रो० । ७ वादानुपातो - सी० । ८ उदायि - सी० स्या० रो० । ९ ० चपि - स्या० ।

यत्र हि नाम तथागतो एव महिद्धिको एवमहानुभावो, अथ च पन नेवत्तान पातुकरिस्सती” ति ।

“पस्स खो त्व, उदायि, तथागतस्स अप्पिच्छता सन्तुट्ठिता सल्लेखता, यत्र हि नाम तथागतो एवमहिद्धिको एवमहानुभावो, अथ च पन नेवत्तान
5 पातुकरिस्सति । एकमेकञ्चे पि इतो, उदायि, धम्म अञ्जातित्थिया
96 परिब्बाजका अत्तनि समनुपस्सेय्यु, ते तावतकेनेव पटाक परिहरेय्यु ।
पस्स खो त्व, उदायि, तथागतस्स अप्पिच्छता सन्तुट्ठिता सल्लेखता, यत्र
हि नाम तथागतो एवमहिद्धिको एवमहानुभावो, अथ च पन नेवत्तान
पातुकरिस्सती” ति ।

116 10 २३ अथ खो भगवा आयस्मन्त सारिपुत्त आमन्तसि – “तस्मा-
तिह^१ त्व, सारिपुत्त, इम धम्मपरियाय अभिक्खण भासेय्यासि भिक्खून
भिक्खुनीन उपासकान उपासिकान । येस पि हि, सारिपुत्त, भोगपुरिसान
भविस्सति तथागते कङ्खा वा विमति वा तेसमि^२ धम्मपरियाय सुत्वा
तथागते कङ्खा वा विमति वा सा पहीयिस्सती” ति । इति हिद आयस्मा
15 सारिपुत्तो भगवतो सम्मुखा सम्पसाद पवेदेसि । तस्मा इमस्स वेय्याकरणस्स
सम्पसादनीयन्त्वेव अधिवचन ति ।

सम्पसादनीयसुत्त निट्ठित पञ्चम ।

— ० —

६ पासादिकसुत्तं

§ १ निगण्ठो नाटपुत्तो कालङ्कतो

१ एव मे सुत । एक समय भगवा सक्केसु^१ विहरति
वेधञ्जा नाम सक्का तेस अम्बवने पासादे । तेन खो पन
समयेन निगण्ठो नाटपुत्तो^२ पावाय अधुनाकालङ्कतो^३ होति ।
तस्स कालङ्किरियाय भिन्ना निगण्ठा द्वेधिकजाता भण्डनजाता
कलहजाता विवादापन्ना अञ्जामञ्ज मुखसत्तीहि वितुदन्ता^४ विहरन्ति — 5
“न त्व इम धम्मविनय आजानासि, अह इम धम्मविनय आजानामि ।
कि त्व इम धम्मविनय आजानिस्ससि ? मिच्छापटिपन्नो त्वमसि, अहमस्मि
सम्मापटिपन्नो । सहित मे, असहित ते । पुरेवचनीय पच्छा अवच, पच्छा-
वचनीय पुरे अवच । अधिचिण्ण^५ ते विपरावत्त । आरोपितो ते वादो ।
निगह्णितो^६ त्वमसि^७ । चर^८ वादप्पमोक्खाय । निब्बेठेहि^९ वा सचे पहोसी” 10
ति । वधो येव^{१०} खो मञ्जे निगण्ठेसु नाटपुत्तियेसु^{११} वत्तति । ये पि
निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स सावका गिही ओदातवसना ते पि निगण्ठेसु
नाटपुत्तियेसु निब्बिन्नरूपाः^{१२} विरत्तरूपा पटिवानरूपा — यथा त दुरक्खाते
धम्मविनये दुप्पवेदिते अनिय्यानिके अनुपसमसवत्तनिके असम्मासम्बुद्ध-
प्पवेदिते भिन्नथूपे अप्पटिसरणे । 15

B 97
R 117

R 118

२ अथ खो चुन्दो समणुद्देशो पावाय वस्सवुत्तो^{१३} येन सामगामो
येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा आयस्मन्त आनन्द अभि-
वादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो चुन्दो समणुद्देशो
आयस्मन्त आनन्द एतदवोच — “निगण्ठो, भन्ते, नाटपुत्तो पावाय
अधुनाकालङ्कतो । तस्स कालङ्किरियाय भिन्ना निगण्ठा द्वेधिकजाता 20
पे० भिन्नथूपे अप्पटिसरणे” ति ।

एव वुत्ते, आयस्मा आनन्दो चुन्द समणुद्देश एतदवोच — “अत्थि
खो इद, आवुसो चुन्द, कथापाभत भगवन्त दस्सनाय । आयामावुसो चुन्द,

B 98

१ सक्केसु — स्या० । २ नाथपुत्तो — सी० रो० । ३ कालकतो — सी० स्या०, रो० ।
४ वितदता — रो० । ५ अधिचिण्ण — रो०, अधिचिन्न — सी० । ६-६ निगह्णितोसि — स्या० ।
७ पर० — स्या० । ८ निब्बेठेहि — स्या० । ९ वधोयेवेको — सी० । १० नाथपुत्तियेसु — सी०,
रो० । ११ निब्बिण्णरूपा — रो० । १२ वस्स वुत्तो — सी० स्या०, रो० ।

येन भगवा तेनुपसङ्कमिस्साम, उपसङ्कमित्वा एतमत्थ भगवतो आरो-
चेस्सामा” ति । “एव, भन्ते” ति खो चुन्दो समणुद्देशो आयस्मतो
आनन्दस्स पच्चस्सोसि ।

अथ खो आयस्सा च आनन्दो चुन्दो च समणुद्देशो येन भगवा
5 तेनुपसङ्कमिसु, उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु ।
एकमन्त निसिन्नो खो आयस्सा आनन्दो भगवन्त एतदवोच — “अथ, भन्ते,
चुन्दो समणुद्देशो एवमाह — ‘निगण्ठो, भन्ते, नाटपुत्तो पावाय अधुना
कालङ्कतो । तस्स कालङ्किरियाय भिन्ना निगण्ठा पे० भिन्नथूपे
अप्पटिसरणे” ति ।

§ २ एव हेतुं होति दुरक्खाते धम्मविनये

119 10 ३ “एव हेतुं, चुन्द, होति दुरक्खाते^१ धम्मविनये दुप्पवेदिते
अनिय्यानिके अनुपसमसवत्तनिके असम्मासम्बुद्धप्पवेदिते । इध, चुन्द,
सत्था च होति असम्मासम्बुद्धो, धम्मो च दुरक्खातो दुप्पवेदितो
अनिय्यानिको अनुपसमसवत्तनिको असम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, सावको च
तस्मिं धम्मे न धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो विहरति न सामीचिप्पटिपन्नो न
15 अनुधम्मचारी, वोक्कम्म च तम्हा धम्मा वत्तति । सो एवमस्स वचनीयो —
‘तस्स ते, आवुसो, लाभा, तस्स ते सुलद्ध, सत्था च ते असम्मासम्बुद्धो,
धम्मो च दुरक्खातो दुप्पवेदितो अनिय्यानिको अनुपसमसवत्तनिको
असम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, त्व च तस्मिं धम्मे न धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो
विहरसि न सामीचिप्पटिपन्नो^२ न अनुधम्मचारी, वोक्कम्म च तम्हा
20 धम्मा वत्तसी’ ति । इति खो, चुन्द, सत्था पि तत्थ गारय्हो, धम्मो पि
तत्थ गारय्हो, सावको च तत्थ एव पाससो । यो खो, चुन्द, एवरूप
सावक एव वदेय्य — ‘एतायस्सा तथा पटिपज्जतु यथा ते सत्थारा धम्मो
देसितो पञ्जात्तो’ ति, यो च समादपेति, य च समादपेति, यो च समा-
दपितो तथत्ताय पटिपज्जति सब्बे ते बहु अपुञ्ज पसवन्ति । त किस्स हेतु ?
25 एव हेतुं, चुन्द, होति दुरक्खाते धम्मविनये दुप्पवेदिते अनिय्यानिके अनुप-
समसवत्तनिके असम्मासम्बुद्धप्पवेदिते ।

B 99

४ “इध पन, चुन्द, सत्था च होति असम्मासम्बुद्धो, धम्मो च
दुरक्खातो दुप्पवेदितो अनिय्यानिको अनुपसमसवत्तनिको असम्मासम्बुद्ध-

१ आरोचेय्यामा — स्या० । २ दुरक्खाते — स्या० । ३ सामीचिप्पटिपन्नो —
स्या०, रो० ।

प्पवेदितो, सावको च तस्मिं धम्मो धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो विहरति सामीचि-
 प्पटिपन्नो अनुधम्मचारी समादाय त धम्म वत्तति^१ । सो एवमस्स
 वचनीयो —‘तस्स ते, आवुसो, अलाभा, तस्स ते दुल्लद्ध, सत्था च ते
 असम्मासम्बुद्धो, धम्मो च दुरक्खातो दुप्पवेदितो अनिय्यानिको अनुपसम-
 सवत्तनिको, असम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, त्व च तस्मिं धम्मो धम्मानुधम्म-
 प्पटिपन्नो विहरसि सामीचिप्पटिपन्नो अनुधम्मचारी, समादाय त धम्म
 वत्तसी’ ति । इति खो, चुन्द, सत्था पि तत्थ गारय्हो, धम्मो पि तत्थ
 गारय्हो, सावको पि तत्थ एव गारय्हो । यो खो, चुन्द, एवरूप सावक एव
 वदेय्य — ‘अद्दायस्मा आयप्पटिपन्नो जायमारधेस्सती’ ति, यो च पससति,
 य च पससति, यो च पससितो^२ भिय्योसोमत्ताय विरिय^३ आरभति सब्बे
 ते बहु अपुञ्च पसवन्ति । त किस्स हेतु ? एवञ्हेत, चुन्द, होति दुरक्खाते
 धम्मविनये दुप्पवेदिते अनिय्यानिके अनुपसमसवत्तनिके असम्मासम्बुद्धप्प-
 वेदिते ।

§ ३ एव हेतुं होति स्वाक्खाते धम्मविनये

५ “इध पन, चुन्द, सत्था च होति सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च स्वा-
 क्खातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मासम्बुद्धप्पवेदितो,
 सावको च तस्मिं धम्मो न धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो विहरति न सामीचिप्पटि-
 पन्नो न अनुधम्मचारी, वोक्कम्म च तम्हा वत्तति । सो एवमस्स वचनीयो—
 ‘तस्स ते, आवुसो, अलाभा, तस्स ते दुल्लद्ध, सत्था च ते सम्मासम्बुद्धो,
 धम्मो च स्वाक्खातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मा-
 सम्बुद्धप्पवेदितो, त्व च तस्मिं धम्मो न धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो विहरसि न
 सामीचिप्पटिपन्नो न अनुधम्मचारी, वोक्कम्म च तम्हा धम्मा वत्तसी’
 ति । इति खो, चुन्द, सत्था पि तत्थ पाससो, धम्मो पि तत्थ पाससो,
 सावको च तत्थ एव गारय्हो । यो खो, चुन्द, एवरूप सावक एव वदेय्य—
 ‘एत्तायस्मा तथा पटिपज्जतु यथा ते सत्थारा धम्मो देसितो पञ्जत्तो’
 ति, यो च समादपेति, य च समादपेति, यो च समादपितो तथत्ताय
 पटिपज्जति सब्बे ते बहु पुञ्च पसवन्ति । त किस्स हेतु ? एवञ्हेत, चुन्द,
 होति स्वाक्खाते धम्मविनये सुप्पवेदिते निय्यानिके उपसमसवत्तनिके सम्मा-
 सम्बुद्धप्पवेदिते ।

६ “इध पन, चुन्द, सत्था च होति सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च

१ पवत्तति — स्या० । २ पसत्थो — रो० । ३ वीरिय — म० ।

- स्वाक्खातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, सावको च तस्मिं धम्मे धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो विहरति समीचिप्पटिपन्नो अनुधम्मचारी, समादाय त धम्म वत्तति । सो एवमस्स वचनीयो- 'तस्स ते, आवुसो, लाभा', तस्स ते सुलद्ध, सत्था च ते *सम्मासम्बुद्धो, धम्मो
- 5 च स्वाक्खातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, त्व च तस्मिं धम्मे धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो विहरसि सामीचिप्पटिपन्नो अनुधम्मचारी, समादाय त धम्म वत्तसी' ति । इति खो, चुन्द, सत्था पि तत्थ पाससो, धम्मो पि तत्थ पाससो, सावको पि तत्थ एव पाससो । यो खो, चुन्द, एवरूप सावक एव वदेय्य - 'अद्दायस्मा
- 10 जायप्पटिपन्नो जायमाराधेस्सती' ति, यो च पससति, य च पससति, यो च पससितो^१ भिय्योसोमत्ताय विरिय आरभति सब्बे ते बहु पुञ्ज पसवन्ति । त किस्स हेतु ? एवञ्हेत, चुन्द, होति स्वाक्खाते धम्मविनये सुप्पवेदिते निय्यानिके उपसमसवत्तनिके सम्मासम्बुद्धप्पवेदिते ।

१४ एवरूपो सत्था अनुत्तप्पो होति

- ७ "इध पन, चुन्द, सत्था च लोके उदपादि अरह सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च स्वाक्खातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, अविञ्जापितत्था चस्स होन्ति सावका सद्धम्मे, न च
- 15 नेस^३ केवल परिपूर ब्रह्मचरिय आविकत होति उत्तानीकत^४ सब्बसङ्गाहपदकत^५ सप्पाटिहीरकत^६ याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित, अथ नेस सत्थुनो अन्तरधान होति । एवरूपो खो, चुन्द, सत्था सावकान कालङ्कतो अनुत्तप्पो
- 20 होति । त किस्स हेतु ? सत्था च लोके उदपादि अरह सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च स्वाक्खातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, अविञ्जापितत्था चम्ह^७ सद्धम्मे, न च नो केवल परिपूर ब्रह्मचरिय आविकत होति उत्तानीकत सब्बसङ्गाहपदकत सप्पाटिहीरकत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित, अथ नो सत्थुनो अन्तरधान होती ति । एवरूपो खो,
- 25 चुन्द, सत्था सावकान कालङ्कतो अनुत्तप्पो होति ।

१५ एवरूपो सत्था अननुत्तप्पो होति

- ८ "इध पन, चुन्द, सत्था च लोके उदपादि अरह सम्मासम्बुद्धो,

१ सुलाभा - स्या० । *एत्थ स्या०, रो० पोत्थकेसु 'अरह इति अधिको पाठो विज्जति ।
 २ पसत्थो - स्या०, रो० । ३ तेस - स्या०, रो० । ४ उत्तानिकत - रो० । ५ पदकं - स्या० ।
 ६ सप्पाटिहिरकत - सी०, स्या० । ७ चम्हा - स्या० ।

धम्मो च स्वाक्खातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मा-
सम्बुद्धप्पवेदितो, विञ्जापितत्था चस्स होन्ति सावका सद्धम्मे, केवल च तेस
परिपूर ब्रह्मचरिय आविकत होति उत्तानीकत सब्बसङ्गाहपदकत सप्पाटि-
हीरकत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित, अथ नेस सत्थुनो अन्तरधान^१ होति ।
एवरूपो खो, चुन्द, सत्था सावकान कालङ्कतो अननुत्पपो^१ होति । त किस्स 5
हेतु ? सत्था च नो लोके उदपादि अरह सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च
स्वाक्खातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मासम्बुद्धप्पवेदितो,
विञ्जापितत्था चम्ह सद्धम्मे, केवल च नो परिपूर ब्रह्मचरिय आविकत होति
उत्तानीकत सब्बसङ्गाहपदकत सप्पाटिहीरकत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित,
अथ नो सत्थुनो अन्तरधान होती ति । एवरूपो खो, चुन्द, सत्था 0
सावकान कालङ्कतो अननुत्पपो होति ।

§ ६ ब्रह्मचरियपरिपूरिअङ्गानि

६ “एतेहि चे पि, चुन्द, अङ्गेहि समन्नागत ब्रह्मचरिय होति, नो
च खो सत्था होति थेरो रत्तञ्जू चिरपब्बजितो अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो-
एव त ब्रह्मचरिय अपरिपूर होति तेनङ्गेन ।

“यतो च खो, चुन्द, एतेहि चेव अङ्गेहि समन्नागत ब्रह्मचरिय होति, 5
सत्था च होति थेरो रत्तञ्जू चिरपब्बजितो अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो - एव त
ब्रह्मचरिय परिपूर होति तेनङ्गेन ।

१० “एतेहि चे पि, चुन्द, अङ्गेहि समन्नागत ब्रह्मचरिय होति, सत्था
च होति थेरो रत्तञ्जू चिरपब्बजितो अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो, नो च ख्वस्स
थेरा भिक्खू सावका होन्ति वियत्ता^२ विनीता विसारदा पत्तयोगक्खेमा, अल 20
समक्खातु सद्धम्मस्स, अल उप्पन्न परप्पवाद सहधम्महेहि सुनिग्गहित निग्ग-
हेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म देसेतु - एव त ब्रह्मचरिय अपरिपूर होति
तेनङ्गेन ।

“यतो च खो, चुन्द, एतेहि चेव अङ्गेहि समन्नागत ब्रह्मचरिय
होति, सत्था च होति थेरो रत्तञ्जू चिरपब्बजितो अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो, 25
थेरा चस्स भिक्खू सावका होन्ति वियत्ता विनीता विसारदा पत्तयोगक्खेमा,
अल समक्खातु सद्धम्मस्स, अल उप्पन्न परप्पवाद सहधम्महेहि सुनिग्गहित
निग्गहेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म देसेतु - एव त ब्रह्मचरिय परिपूर होति
तेनङ्गेन ।

१ अनानुत्पपो - स्या० । २ व्यत्ता - रो० ।

११ “एतेहि चे पि, चुन्द, अङ्गेहि समन्नागत ब्रह्मचरिय होति, सत्था च होति थेरो रत्तञ्जू चिरपब्बजितो अद्दगतो वयोअनुप्पत्तो, थेरा चस्स भिक्खू सावका होन्ति वियत्ता विनीता विसारदा पत्तयोगक्खेमा, अल समक्खातु सद्धम्मस्स, अल उप्पन्न परप्पवाद सहधम्मेहि सुनिग्गहित

5 निग्गहेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म देसेतु । नो च रवस्स मज्झिमा भिक्खू सावका होन्ति पे० मज्झिमा चस्स भिक्खू सावका होन्ति, नो च ख्वस्स नवा भिक्खू सावका होन्ति पे० नवा चस्स भिक्खू सावका होन्ति, नो च रवस्स थेरा भिक्खुनियो साविका होन्ति पे० थेरा चस्स

124 भिक्खुनियो साविका होन्ति, नो च ख्वस्स मज्झिमा भिक्खुनियो साविका होन्ति पे० मज्झिमा चस्स भिक्खुनियो साविका होन्ति,

10 नो च ख्वस्स नवा भिक्खुनियो साविका होन्ति पे० नवा चस्स भिक्खुनियो साविका होन्ति, नो च रवस्स उपासका सावका होन्ति गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनो पे० उपासका चस्स सावका होन्ति गिही ओदातवसना ब्रह्मचारिनो, नो च ख्वस्स उपासका सावका होन्ति गिही

15 ओदातवसना कामभोगिनो पे० उपासका चस्स सावका होन्ति गिही ओदातवसना कामभोगिनो, नो च ख्वस्स उपासिका साविका होन्ति गिहिनियो ओदातवसना ब्रह्मचारिनियो पे० उपासिका चस्स साविका होन्ति गिहिनियो ओदातवसना ब्रह्मचारिनियो, नो च रवस्स उपासिका साविका होन्ति गिहिनियो ओदातवसना कामभोगिनियो पे० उपासिका

20 चस्स साविका होन्ति गिहिनियो ओदातवसना कामभोगिनियो, नो च रवस्स ब्रह्मचरिय होति इद्ध चेव फीत च वित्थारिक बाहुजञ्ज^१ पुथुभूत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित पे० ब्रह्मचरिय चस्स होति इद्ध चेव

103 फीत च वित्थारिक बाहुजञ्ज पुथुभूत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित, नो च खो लाभग्गयसग्गप्पत्त । एव त ब्रह्मचरिय अपरिपूर होति

25 तेनङ्गेन ।

“यतो च खो, चुन्द, एतेहि चेव अङ्गेहि समन्नागत ब्रह्मचरिय होति, सत्था च होति थेरो रत्तञ्जू चिरपब्बजितो अद्दगतो वयोअनुप्पत्तो, थेरा चस्स भिक्खू सावका होन्ति वियत्ता विनीता विसारदा पत्तयोगक्खेमा, अल समक्खातु सद्धम्मस्स, अल उप्पन्न परप्पवाद सहधम्मेहि सुनिग्गहित निग्गहेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म देसेतु , मज्झिमा चस्स भिक्खू

30

सावका होन्ति नवा चस्स भिक्खू सावका होन्ति थेरा चस्स भिक्खुनियो
 साविका होन्ति मज्झिमा चस्स भिक्खुनियो साविका होन्ति नवा चस्स
 भिक्खुनियो साविका होन्ति उपासका चस्स सावका होन्ति गिही
 ओदातवसना ब्रह्मचारिनो उपासका चस्स सावका होन्ति गिही
 ओदातवसना कामभोगिनो उपासिका चस्स साविका होन्ति गिहिनियो 5
 ओदातवसना ब्रह्मचारिनियो उपासिका चस्स साविका होन्ति गिहिनियो
 ओदातवसना कामभोगिनियो ब्रह्मचरिय चस्स होति इद्ध चेष फीत च
 वित्थारिक बाहुजञ्ज पुथुभूत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित लाभग-
 प्तञ्च' यसग्गप्पत्तञ्च' । एव त ब्रह्मचरिय परिपूर होति तेनङ्गेन ।

R 1:

१२ "अह खो पन, चुन्द, एतरहि सत्था लोके उप्पन्नो अरह 10
 सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च स्वाक्खातो सुप्पवेदितो नित्थानिको उपसम-
 सवत्तनिको सम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, विञ्जापितत्था च मे सावका सद्धम्मे,
 केवल च तेस परिपूर ब्रह्मचरिय आविकत उत्तानीकत सब्बसङ्गाहपदकत
 सप्पाटिहीरकत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित । अह खो पन, चुन्द,
 एतरहि सत्था थेरो रत्तञ्जू चिरपब्बजितो अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो । 15

"सन्ति खो पन मे, चुन्द, एतरहि थेरा भिक्खू सावका होन्ति' वियत्ता
 विनीता विसारदा पत्तयोगक्खेमा, अल समक्खातु सद्धम्मस्स, अल उप्पन्न
 परप्पवाद सहधम्महेहि सुनिग्गहित निग्गहेत्वा सप्पाटिहारिय धम्म देसेतु ।
 सन्ति खो पन मे, चुन्द, एतरहि' मज्झिमा भिक्खू सावका सन्ति खो पन
 मे, चुन्द, एतरहि नवा भिक्खू सावका सन्ति खो पन मे, चुन्द, एतरहि थेरा 20 B 10
 भिक्खुनियो साविका सन्ति खो पन मे, चुन्द, एतरहि मज्झिमा भिक्खुनियो
 साविका सन्ति खो पन मे, चुन्द, एतरहि नवा भिक्खुनियो साविका
 सन्ति खो पन मे, चुन्द, एतरहि उपासका सावका गिही ओदातवसना
 ब्रह्मचारिनो सन्ति खो पन मे, चुन्द, एतरहि उपासका सावका गिही
 ओदातवसना कामभोगिनो सन्ति खो पन मे, चुन्द, एतरहि उपासिका 25
 साविका गिहिनियो ओदातवसना ब्रह्मचारिनियो सन्ति खो पन मे, चुन्द,
 एतरहि उपासिका साविका गिहिनियो ओदातवसना कामभोगिनियो ।
 एतरहि खो पन मे, चुन्द, ब्रह्मचरिय इद्ध चेष फीत च वित्थारिक' बाहु-
 जञ्ज पुथुभूत याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासित ।

R 1:

१-१ लाभग्गयसग्गप्पत्त च - स्या०, लाभग्गयसग्गप्पत्त च - रो० । २ रो० पोत्थके
 नत्थि । ३ रो० पोत्थके नत्थि । ४ वित्थारित - सी० ।

१३ “यावता खो, चुन्द, एतरहि सत्थारो लोके उप्पन्ना, नाह, चुन्द, अञ्ज एकसत्थार पि समनुपस्सामि एवलाभग्गयसग्गप्पत्त यथरिवाह । यावता खो पन, चुन्द, एतरहि सङ्घो वा गणो वा लोके उप्पन्नो, नाह, चुन्द, अञ्ज एक सङ्घ पि समनुपस्सामि एवलाभग्गयसग्गप्पत्त यथरिवाय^१,
 5 चुन्द, भिक्खुसङ्घो । य खो त, चुन्द, सम्मा वदमानो वदेय्य — ‘सब्बाकार-सम्पन्न सब्बाकारपरिपूर अनूनमनधिक स्वाक्खात केवल परिपूर ब्रह्मचरिय सुप्पकासित’ ति, इदमेव त सम्मा वदमानो वदेय्य—‘सब्बाकारसम्पन्न पे० सुप्पकासित’ ति ।

“उद्दको सुद, चुन्द, रामपुत्तो एव वाच भासति—‘पस्स न पस्सती’
 10 ति । कि च पस्स न पस्सती ति ? खुरस्स साधुनिसितस्स तलमस्स पस्सति, धार च रवस्स न पस्सति । इद वुच्चति^२, चुन्द — ‘पस्स न पस्सती’ ति । य खो पनेत, चुन्द, उद्दकेन^३ रामपुत्तेन भासित हीन गम्म पोथुज्जनिक अनरिय अनत्थसहित खुरमेव सन्धाय । य च त, चुन्द, सम्मा वदमानो
 127 वदेय्य—‘पस्स न पस्सती’ ति, इदमेव त सम्मा वदमानो वदेय्य—‘पस्स न
 15 पस्सती’ ति । कि च पस्स न पस्सती ति ? एव सब्बाकारसम्पन्न सब्बाकार-परिपूर अनूनमनधिक स्वाक्खात केवल परिपूर ब्रह्मचरिय सुप्पकासित ति, इति हेत पस्सति^४ । इदमेत्थ अपकङ्खेय्य । एव त परिसुद्धतर अस्सा ति ।
 105 इति हेत न पस्सति । इदमेत्थ उपकङ्खेय्य, एव त परिपूर^५ अस्सा ति, इति हेत न पस्सति । इद वुच्चति — ‘पस्स न पस्सती’ ति । य खो त, चुन्द,
 20 सम्मा वदमानो वदेय्य — ‘सब्बाकारसम्पन्न पे० ब्रह्मचरिय सुप्पकासित’ ति, इदमेव त सम्मा वदमानो वदेय्य — ‘सब्बाकारसम्पन्न सब्बाकारपरिपूर अनूनमनधिक स्वाक्खात केवल परिपूर ब्रह्मचरिय सुप्पकासित’ ति ।

§ ७ सब्बेहि सङ्गायितब्ब न विवदितब्ब

१४ तस्मातिह, चुन्द, ये वो^६ मया धम्मा अभिञ्जा देसिता, तत्थ सब्बेहेव सङ्गम्म समागम्म अत्थेन अत्थ ब्यञ्जनेन^७ ब्यञ्जन सङ्गायितब्ब
 25 न विवदितब्ब^८, यथयिद ब्रह्मचरिय अद्धनिय अस्स चिरट्टितिक, तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देव-मनुस्सान । कतमे च ते, चुन्द, धम्मा मया अभिञ्जा देसिता, यत्थ सब्बेहेव सङ्गम्म समागम्म अत्थेन अत्थ ब्यञ्जनेन ब्यञ्जन सङ्गायितब्ब

१ यथरिवा — स्या० रो० । २ उद्दकेन — म० । ३ न पस्सतीति — सी०, स्या० । ४ परि सुद्धतर — सी०, स्या० । ५ ते — स्या० । ६ यञ्जनेन — रो० । ७-७ विचरितब्ब — स्या० ।

न विवदितब्ब, यथयिद ब्रह्मचरिय अद्धनिय अस्स चिरट्टितिक, तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान ? सेय्यथिद - चत्तारो सतिपट्टाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो इद्धिपादा, पञ्चिन्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्झङ्गा, अरियो अट्टङ्गिको मग्गो । इमे खो ते, चुन्द, धम्मा मया अभिञ्जा देसिता, यत्थ सब्बेहेव 5 सङ्गम्म समागम्म अत्थेन अत्थ ब्यञ्जनेन ब्यञ्जन सङ्गायितब्ब न विवदितब्ब, यथयिद ब्रह्मचरिय अद्धनिय अस्स चिरट्टितिक, तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान ।

१५ सब्रह्मचारिर्हि धम्म भासिते

१५ “तेस च वो, चुन्द, समग्गान सम्मोदमानान अविवदमानान सिक्खितब्ब^१ अञ्जतरो सब्रह्मचारी सङ्घे^२ धम्म भासेय्य । तत्र चे तुम्हाक 10 एवमस्स - ‘अय खो आयस्मा अत्थ चेव मिच्छा गण्हाति ब्यञ्जनानि च मिच्छा रोपेती’ ति, तस्स नेव अभिनन्दितब्ब न पटिक्कोसितब्ब, अनभिनन्दित्वा अप्पटिक्कोसित्वा सो एवमस्स वचनीयो-‘इमस्स नु खो, आवुसो, अत्थस्स इमानि वा ब्यञ्जनानि एतानि वा ब्यञ्जनानि कतमानि ओपायिकतरानि, इमेस च ब्यञ्जनान अय वा अत्थो एसो वा अत्थो कतमो ओपायिक- 15 तरो’ ति ? सो चे एव वदेय्य - ‘इमस्स खो, आवुसो, अत्थस्स इमानेव ब्यञ्जनानि ओपायिकतरानि, या^३ चेव एतानि, इमेस च ब्यञ्जनान अयमेव अत्थो ओपायिकतरो, या चेव एसो’ ति, सो नेव उस्सादेतब्बो^४ न अपसादेतब्बो, अनुस्सादेत्वा अनपसादेत्वा^५ स्वेव साधुक सञ्जापेतब्बो तस्स च अत्थस्स तेस च ब्यञ्जनान निसन्तिया । 20

१६ “अपरो पि चे, चुन्द, सब्रह्मचारी सङ्घे धम्म भासेय्य । तत्र चे तुम्हाक एवमस्स - ‘अय खो आयस्मा^६ अत्थ हि खो मिच्छा गण्हाति, ब्यञ्जनानि सम्मा रोपेती’ ति, तस्स नेव अभिनन्दितब्ब न पटिक्कोसितब्ब, अनभिनन्दित्वा अप्पटिक्कोसित्वा सो एवमस्स वचनीयो - ‘इमेस नु खो, आवुसो, ब्यञ्जनान अय वा अत्थो एसो वा अत्थो, कतमो ओपायिकतरो’ 25 ति ? सो चे एव वदेय्य - ‘तेस खो, आवुसो, ब्यञ्जनान अयमेव अत्थो ओपायिकतरो यो चेव एसो’ ति, सो नेव उस्सादेतब्बो न अपसादेतब्बो,

१ सिक्खित - म० । २ सङ्घो - स्या० । ३ यानि - रो० स्या० । ४ यो - स्या० ।

५ उस्सारेतब्बो - सी० । ६ न अपसादेत्वा - रो० । ७ इमेस - सी०, स्या०, रो० ।

अनुस्सादेत्वा अनपसादेत्वा स्वेव साधुक सञ्जापेतब्बो तस्सेव अत्थस्स निसन्तिया ।

१७ “अपरो पि चे, चुन्द, सब्रह्मचारी सञ्जे धम्म भासेय्य । तत्र चे तुम्हाक एवमस्स - ‘अय खो आयस्मा अत्थ हि खो सम्मा गण्हाति, 5 व्यञ्जनानि मिच्छा रोपेती’ ति, तस्स नेव अभिनन्दितब्ब न पटिक्कोसितब्ब, अनभिनन्दित्वा अप्पटिक्कोसित्वा सो एवमस्स वचनीयो - ‘इमस्स नु खो, आवुसो, अत्थस्स इमानि वा व्यञ्जनानि एतानि वा व्यञ्जनानि, कतमानि ओपायिकतरानी’ ति ? सो चे एव वदेय्य - ‘इमस्स खो, आवुसो, अत्थस्स इमानेव व्यञ्जनानि ओपयिकतरानि यानि चेव एतानी’ ति, सो 10 नेव उस्सादेतब्बो न अपसादेतब्बो, अनुस्सादेत्वा अनपसादेत्वा स्वेव साधुक सञ्जापेतब्बो तेसञ्जेव व्यञ्जनानि निसन्तिया ।

“अपरो पि चे, चुन्द, सब्रह्मचारी सञ्जे धम्म भासेय्य । तत्र चे तुम्हाक एवमस्स - ‘अय खो आयस्मा अत्थ चेव सम्मा गण्हाति 15 व्यञ्जनानि च सम्मा रोपेती’ ति, तस्स साधू ति भासित अभिनन्दितब्ब अनुमोदितब्ब, तस्स साधू ति भासित अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा सो एवमस्स वचनीयो - ‘लाभा नो आवुसो, सुलद्ध नो आवुसो, ये मय आयस्मन्त तादिस सब्रह्मचारि पस्साम’ एव अत्थुपेत^१ व्यञ्जनुपेत^२’ ति ।

§ ६ पटिसङ्घा योनिसो पच्चयपटिसेवना

R 130 १८ “न^३ वो^४ अह, चुन्द, दिट्ठधम्मिकान येव आसवान सवराय धम्म देसेमि, न पनाह, चुन्द, सम्परायिकान येव आसवान पटिघाताय 20 धम्म देसेमि । दिट्ठधम्मिकान चैवाह, चुन्द, आसवान सवराय धम्म देसेमि, सम्परायिकान च आसवान पटिघाताय । तस्मात्तिह, चुन्द, य वो मया चीवर अनुञ्जात, अल वो त - यावदेव सीतस्स पटिघाताय, उण्हस्स पटिघाताय, डसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सान^५ पटिघाताय, यावदेव हिरिकोपीन-पटिच्छादनत्थ^६ । यो वो मया पिण्डपातो अनुञ्जातो, अल वो सो - यावदेव 25 इमस्स कायस्स ठितिया थापनाय विहिसूपरतिया ब्रह्मचरियानुग्गाहाय, इति पुराण च वेदन पटिहङ्गामि, नव च वेदन न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति अनवज्जता च फासुविहारो च । य वो मया सेनासन अनुञ्जात, अल वो त - यावदेव सीतस्स पटिघाताय, उण्हस्स पटिघाताय, डसमकस-

१ सरिस्साम - स्या० । २ अत्थुपेत - रो० । ३ व्यञ्जनुपेत - रो० । ४-४ नव - रो० । ५ ० सरिस्सप० - सी०, स्या०, रो० । ६ हिरिकोपिन० - स्या० ।

विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिञ्जाय सम्बोधाय निब्बानाय सवत्तन्ति ।
कतमे चत्तारो ?

“इध, चुन्द, भिक्खु’ विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि
धम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख पठम’ ज्ञान’ उपसम्पज्ज
B 109 5 विहरति । अय पठमो सुखल्लिकानुयोगो । पुन च पर, चुन्द, भिक्खु
वितक्कविचारान वूपसमा पे० दुतिय भान उपसम्पज्ज विहरति ।
अय दुतियो सुखल्लिकानुयोगो । पुन च पर, चुन्द, भिक्खु पीतिया च
विरागा ततिय भान उपसम्पज्ज विहरति । अय ततियो सुखल्लिकानुयोगो ।
R 132 पुन च पर, चुन्द, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना चतुत्थ
10 भान उपसम्पज्ज विहरति । अय चतुत्थो सुखल्लिकानुयोगो ।

“इमे खो, चुन्द, चत्तारो सुखल्लिकानुयोगा एकन्तनिब्बिदाय
विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिञ्जाय सम्बोधाय निब्बानाय
सवत्तन्ति ।

“ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य अञ्जतित्थिया परिब्बाजका
15 एव वदेय्यु – ‘इमे चत्तारो सुखल्लिकानुयोगे अनुयुत्ता समणा सक्कपुत्तिया
विहरन्ती’ ति । ते वो ‘एव’ तिस्सु वचनीया । सम्मा ते वो वदमाना
वदेय्यु, न ते वो अब्भाचिक्खेय्यु असता अभूतेन ।

२२ “ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य अञ्जतित्थिया
परिब्बाजका एव वदेय्यु – ‘इमे पनावुसो, चत्तारो सुखल्लिकानुयोगे अनु-
20 युत्तान विहरत कति फलानि कतानिससा पाटिकङ्खा’ ति ? एववादिनो,
चुन्द, अञ्जतित्थिया परिब्बाजका एवमस्सु वचनीया—‘इमे खो, आवुसो,
चत्तारो सुखल्लिकानुयोगे अनुयुत्तान विहरत चत्तारि फलानि चत्तारो
आनिससा पाटिकङ्खा । कतमे चत्तारो ? इधावुसो, भिक्खु तिण्ण सयोजनान
परिक्खया सोतापन्नो होति अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो ।
25 इद पठम फल, पठमो आनिससो । पुन च पर, आवुसो, भिक्खु तिण्ण
सयोजनान परिक्खया रागदोसमोहान तनुत्ता सकदागामी होति,
सकिदेव इम लोक आगन्त्वा दुक्खस्सन्त करोति । इद दुतिय फल,
दुतियो आनिससो । पुन च पर, आवुसो, भिक्खु पञ्चन्न ओरम्भागियान
सयोजनान परिक्खया ओपपातिको होति, बत्थ परिनिब्बायी, अनावत्ति-
30 धम्मो तस्मा लोका । इद ततिय फल, ततियो आनिससो । पुन च पर,

आवुसो, भिक्खु आसवान खया अनासव चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिट्ठेव धम्मे सय अभिञ्जा सच्छिक्त्वा उपसम्पज्ज विहरति । इद चतुत्थ फल, चतुत्थो आनिससो । इमे खो, आवुसो, चत्तारो' सुखल्लिकानुयोगे अनुयुत्तान विहरत इमानि चत्तारि फलानि, चत्तारो आनिससा पाटिकङ्खा' ति ।

B ।

5

§ ११ खीणासवस्स अभब्बानि ठानानि

२३ "ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य अञ्जातित्थिया परिब्बाजका एव वदेय्यु - 'अट्ठित्थिधम्मा समणा सक्यपुत्तिया विहरन्ती' ति । एववादिनो, चुन्द, अञ्जातित्थिया परिब्बाजका एवमस्सु वचनीया- 'अत्थि खो, आवुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन सावकान धम्मा देसिता पञ्जत्ता यावजीव अनतिककमनीया । सेय्यथापि, आवुसो, इन्दखीलो वा अयोखीलो वा गम्भीरनेमो सुनिखातो' अचलो असम्पवेधी, एवमेव खो, आवुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन सावकान धम्मा देसिता पञ्जत्ता यावजीव अनतिककमनीया । यो सो, आवुसो, भिक्खु अरह खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसयोजनो सम्मदञ्जा विमुत्तो, अभब्बो सो नव ठानानि अज्झाचरितु । अभब्बो, आवुसो, खीणासवो भिक्खु सञ्चिच्च पाण जीविता वोरपेतु, अभब्बो खीणासवो भिक्खु अदिन्न थ्ययसङ्घात आदियितु^१, अभब्बो खीणासवो भिक्खु मेथुन धम्म पटिसेवितु, अभब्बो खीणासवो भिक्खु सम्पजानमुसा भासितु, अभब्बो खीणासवो भिक्खु सन्निधिकारक कामे परिभुञ्जितु सेय्यथापि पुब्बे आगारिकभूतो, अभब्बो खीणासवो भिक्खु छन्दागति गन्तु, अभब्बो खीणासवो भिक्खु दोसागति गन्तु, अभब्बो खीणासवो भिक्खु मोहागति गन्तु, अभब्बो खीणासवो भिक्खु भयागति गन्तु - यो सो, आवुसो, भिक्खु अरह खीणासवो वुसितवा कतकरणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभवसयोजनो सम्मदञ्जा विमुत्तो, अभब्बो सो इमानि नव ठानानि' अज्झाचरितु' ति ।

R

10

1a

20

25

§ १२ तस्मा 'तथागतो' ति वुच्चति

२४ "ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य अञ्जातित्थिया परिब्बाजका एव वदेय्यु - 'अतीत खी अद्धान आरब्भ समणो गोतमो अतीरक'

R

१ स्या० पोत्थके नत्थि । २ सुनिक्खित्तो - स्या० । ३ आदातु - रो० । ४ अगारिकभूतो - सी०, अगारियभूतो - रो० । ५-५ नवठानानि - सी० । ६ अतिरेक - म०, सी० ।

111 ज्ञाणदस्सन पञ्जापेति', नो च खो अनागत अद्धान आरब्भ अतीरक
 ज्ञाणदस्सन पञ्जापेति, तयिद किमु तयिद कथसू' ति ? ते च अञ्ज-
 त्तिथिया परिब्बाजका अञ्जविहितकेन ज्ञाणदस्सनेन अञ्जविहितक^१
 ज्ञाणदस्सन' पञ्जापेतब्ब मञ्जन्ति यथरिव बाला अब्यत्ता । अतीत खो,
 5 चुन्द, अद्धान आरब्भ तथागतस्स सतानुसारिजाण^२ होति, सो थावतक
 आकङ्खति तावतक अनुस्सरति । अनागत च खो अद्धान आरब्भ तथा-
 गतस्स बोधिज ज्ञाण उप्पज्जति - 'अयमन्तिमा जाति, नत्थिदानि
 पुनब्भवो' ति । अतीत चे पि खो, चुन्द, होति अभूत अतच्छ अनत्थ-
 सहित, न त तथागतो ब्याकरोति । अतीत चे पि, चुन्द, होति भूत तच्छ
 10 अनत्थसहित, त पि तथागतो न ब्याकरोति । अतीत^३ चे पि खो, चुन्द,
 होति भूत तच्छ अत्थसहित,^४ तत्र कालञ्जू तथागतो होति तस्स
 पञ्हस्स वेय्याकरणाय । अनागत चे पि, चुन्द, होति अभूत अतच्छ अनत्थ-
 सहित, न त तथागतो ब्याकरोति पे० तस्स पञ्हस्स वेय्याकरणाय ।
 पच्चुप्पन्न चे पि, चुन्द, होति अभूत अतच्छ अनत्थसहित, न त तथागतो
 135 15 ब्याकरोति । पच्चुप्पन्न चे पि, चुन्द, होति भूत तच्छ अनत्थसहित,
 त पि तथागतो न ब्याकरोति । पच्चुप्पन्न चे पि, चुन्द, होति भूत
 तच्छ अत्थसहित, तत्र कालञ्जू तथागतो होति तस्स पञ्हस्स
 वेय्याकरणाय ।

२५ "इति खो, चुन्द, अतीतानागतपच्चुप्पन्नेसु धम्मेसु तथागतो
 20 कालवादी* भूतवादी अत्थवादी धम्मवादी विनयवादी, तस्मा 'तथागतो'
 ति वुच्चति । य च खो, चुन्द, सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सब्रह्मकस्स
 सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय दिट्ठ सुत भुत विञ्जात पत्त
 परियेसित अनुविचरित मनसा सब्ब^५ तथागतेन अभिसम्बुद्ध, तस्मा 'तथा-
 गतो' ति वुच्चति । य च, चुन्द, रत्ति तथागतो अनुत्तर सम्मासम्बोधि
 2. अभिसम्बुज्झति, य च रत्ति अनुपादिसेसाय निब्बानधातुया परिनिब्बायति,
 य एतस्मि अन्तरे भासति लपति निद्दिसति, सब्ब त तथेव होति नो
 अञ्जथा, तस्मा 'तथागतो' ति वुच्चति । यथावादी, चुन्द, तथागतो
 तथाकारी, यथाकारी तथावादी । इति यथावादी तथाकारी, यथाकारी

१ पञ्जापेति - म०, सी० । २ अञ्जविहितक - स्या० । ३ अज्ञाणदस्सन - स्या० ।
 ४ विञ्जाण - रो० । ५-५ सी० पोत्थके नत्थि । * एत्थ स्या० पोत्थके 'सच्चवादी' इति अधिको
 पाठो विज्जति । ६ सम्मा - स्या० । ७ परिनिब्बाति - सी० ।

तथावादी । तस्मा^१ 'तथागतो' ति वुच्चति । सदेवके लोके, चुन्द, समारके सब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय तथागतो अभिभू अनभिभूतो अञ्जदत्थुदसो वसवती । तस्मा 'तथागतो' ति वुच्चति ।

§ १३ किं अब्याकत किं वा ब्याकत

२६ "ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य अञ्जतित्थिया परिब्बा- B 1
जका एव वदेय्यु - 'कि नु खो, आवुसो, होति तथागतो पर मरणा, इदमेव 5
सच्च मोघमञ्ज' ति ? एववादिनो, चुन्द, अञ्जतित्थिया परिब्बाजका
एवमस्सु वचनीया - 'अब्याकत खो, आवुसो, भगवता - होति तथागतो पर R :
मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्ज' ति ।

"ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति, य अञ्जतित्थिया परिब्बाजका
एव वदेय्यु - 'कि पनावुसो, न होति तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्च मोघ- 10
मञ्ज' ति ? एववादिनो, चुन्द, अञ्जतित्थिया परिब्बाजका एवमस्सु वच-
नीया - 'एव पि खो, आवुसो, भगवता अब्याकत - न होति तथागतो पर
मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्ज' ति ।

"ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य अञ्जतित्थिया परिब्बाजका
एव वदेय्यु - 'कि पनावुसो, होति च न च होति तथागतो पर मरणा, इदमेव 15
सच्च मोघमञ्ज' ति ? एववादिनो, चुन्द अञ्जतित्थिया परिब्बाजका
एवमस्सु वचनीया - 'अब्याकत खो पनेत, आवुसो, भगवता - 'होति च न च
होति तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्ज' ति ।

"ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य अञ्जतित्थिया परिब्बाजका एव
वदेय्यु - 'कि पनावुसो, नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा, इदमेव 20
सच्च मोघमञ्ज' ति ? एववादिनो, चुन्द, अञ्जतित्थिया परिब्बाजका
एवमस्सु वचनीया - 'एत पि खो, आवुसो, भगवता अब्याकत - नेव होति न
न होति तथागतो पर मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्ज' ति ।

"ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य अञ्जतित्थिया परिब्बाजका
एव वदेय्यु - 'कस्मा पनेत, आवुसो, समणेन गोतमेन अब्याकत' ति ? एव- 25
वादिनो, चुन्द, अञ्जतित्थिया परिब्बाजका एवमस्सु वचनीया - 'न हेत,
आवुसो, अत्थसहित न धम्मसहित न आदिब्रह्मचरियक न निब्बिदाय न
विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिञ्जाय न सम्बोधाय न निब्बा-
नाय सवत्तति । तस्मा त भगवता अब्याकत' ति ।

१ वा तस्मा - स्या० । २ एव - म०, सी० ।

113

२७ “ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य अञ्जतित्थिया परि-
 ब्बाजका एव वदेय्यु - ‘कि पनावुसो, समणेन गोतमेन ब्याकत’ ति ?
 एववादिनो, चुन्द, अञ्जतित्थिया परिब्बाजका एवमस्सु वचनीया -
 ‘इद दुक्ख ति खो, आवुसो, भगवता ब्याकत । अय दुक्खसमुदयो ति
 5 खो, आवुसो, भगवता ब्याकत । अय दुक्खनिरोधो ति खो, आवुसो,
 भगवता ब्याकत । अय दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति खो, आवुसो,
 भगवता ब्याकत’ ति ।

137

“ठान खो पनेत, चुन्द, विज्जति य अञ्जतित्थिया परिब्बा-
 जका एव वदेय्यु - ‘कस्मा पनेत, आवुसो, समणेन गोतमेन ब्याकत’ ति ?
 10 एववादिनो, चुन्द, अञ्जतित्थिया परिब्बाजका एवमस्सु वचनीया -
 ‘एत हि, आवुसो, अत्थसहित, एत धम्मसहित, एत आदिब्रह्मचरियक
 एकन्तनिब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिञ्जाय सम्बोधाय
 निब्बानाय सवत्तति । तस्मा त भगवता ब्याकत’ ति ।

पुब्बन्तपरन्तसहगतदिट्ठिनिस्सया

२८ “ये पि ते, चुन्द, पुब्बन्तसहगता दिट्ठिनिस्सया, ते पि
 15 वो मया ब्याकता^१ । यथा ते ब्याकातब्बा^२ यथा च ते न ब्याकातब्बा, कि
 वो अह ते न^३ तथा^४ ब्याकरिस्सामि ? ये पि ते, चुन्द, अपरन्तसहगता
 दिट्ठिनिस्सया ते पि वो मया ब्याकता । यथा ते ब्याकातब्बा यथा च
 ते न ब्याकातब्बा, कि वो अह ते न तथा ब्याकरिस्सामि ? कतमे च
 ते, चुन्द, पुब्बन्तसहगता दिट्ठिनिस्सया ये वो मया ब्याकता, यथा ते
 20 ब्याकातब्बा यथा च ते न ब्याकातब्बा । सन्ति खो, चुन्द, एके समण-
 ब्राह्मणा एववादिनो एवदिट्ठिनो - ‘सस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च
 मोघमञ्ज’ ति । सन्ति पन, चुन्द, एके समणब्राह्मणा एववादिनो एव-
 दिट्ठिनो - ‘असस्सतो अत्ता च लोको च पे० सस्सतो च असस्सतो अ
 अत्ता च लोको च नेव सस्सतो नासस्सतो अत्ता च लोको च सयकतो
 3 114 25 अत्ता च लोको च परकतो अत्ता च लोको च सयकतो च परकतो च
 २ 138 अत्ता च लोको च असयकारो अपरकारो अधिच्चसमुप्पन्नो अत्ता च लोको
 च, इदमेव सच्च मोघमञ्ज ति । सस्सत सुखदुक्ख असस्सत सुखदुक्ख
 सस्सत च असस्सत च सुखदुक्ख नेवसस्सत नासस्सत सुखदुक्ख

१ ब्याकता - रो० । २ ब्याकतब्बा - रो० । ३-३ अञ्जतित्थिये तत्थ - स्सा० ।
 ४ तत्थ - सी०, स्या० ।

सयकत सुखदुक्ख परकत सुखदुक्ख सयकत च परकत च सुख-
दुक्ख असयकार अपरकार अधिच्चसमुप्पन्न सुखदुक्ख, इदमेव सच्च
मोघमञ्ज' ति ।

२९ "तत्र, चुन्द, ये ते समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिट्ठिनो-
'सस्सतो अत्ता च लोको च, इदमेव सच्च मोघमञ्ज' ति, त्याह उपसङ्कमित्वा 5
एव वदामि - 'अत्थि नु खो इद, आवुसो, वुच्चति - सस्सतो अत्ता च लोको
चा' ति ? य च खो ते एवमाहसु - 'इदमेव सच्च मोघमञ्ज' ति, त तेस
नानुजानामि । त किस्स हेतु ? अञ्जथासञ्जिनो पि हेत्थ, चुन्द, सन्तेके
सत्ता । इमाय पि खो अह, चुन्द, पञ्जत्तिया नेव अत्तना समसम समनु-
पस्सामि, कुतो भिय्यो । अथ खो अहमेव तत्थ भिय्यो यदिद अधिपञ्जत्ति । 10

३० "तत्र, चुन्द, ये ते समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिट्ठिनो -
'असस्सतो अत्ता च लोको च सस्सतो च असस्सतो च अत्ता च लोको
च नेवसस्सतो नासस्सतो अत्ता च लोको च सयकतो अत्ता
च लोको च परकतो अत्ता च लोको च सयकतो च पर-
कतो च अत्ता च लोको च असयकारो अपरकारो अधिच्चसमुप्पन्नो 15
अत्ता च लोको च सस्सत सुखदुक्ख असस्सत सुखदुक्ख सस्सत च
असस्सत च सुखदुक्ख नेवसस्सत नासस्सत सुखदुक्ख सयकत
सुखदुक्ख परकत सुखदुक्ख सयकत च परकत च सुखदुक्ख असयकार
अपरकार अधिच्चसमुप्पन्न सुखदुक्ख, इदमेव सच्च मोघमञ्ज' ति, त्याह
उपसङ्कमित्वा एव वदामि - 'अत्थि नु खो इद, आवुसो, वुच्चति - 20
असयकार अपरकार अधिच्चसमुप्पन्न सुखदुक्ख' ति । य च खो ते
एवमाहसु - 'इदमेव सच्च मोघमञ्ज' ति, त तेस नानुजानामि । त
किस्स हेतु ? अञ्जथासञ्जिनो पि हेत्थ, चुन्द, सन्तेके सत्ता । इमाय
पि खो अह, चुन्द, पञ्जत्तिया नेव अत्तना' समसम समनुपस्सामि,
कुतो भिय्यो । अथ खो अहमेव तत्थ भिय्यो यदिद अधिपञ्जत्ति । 25
इमे खो ते, चुन्द, पुब्बन्तसहगता दिट्ठिनिस्सया ये वो मया ब्याकता ।
यथा ते ब्याकातब्बा यथा च ते न ब्याकातब्बा, किं वो अह ते न तथा
ब्याकरिस्सामी' ति ?

३१ "कतमे च ते, चुन्द, अपरन्तसहगता दिट्ठिनिस्सया, ये वो
मया ब्याकता, यथा ते ब्याकातब्बा', यथा च ते न ब्याकातब्बा, किं वो 30

अह ते न तथा ब्याकरिस्सामी ति ? सन्ति, चुन्द, एके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिट्ठिनो - 'रूपी अत्ता होति अरोगो पर मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्ज' ति । सन्ति पन, चुन्द, एके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिट्ठिनो - 'अरूपी अत्ता होति रूपी च अरूपी च अत्ता होति नेवरूपी नारूपी 140 5 अत्तां होति सञ्जी अत्ता होति असञ्जी अत्ता होति नेवसञ्जी-नासञ्जी' अत्ता होति अत्ता उच्छिज्जति विनस्सति न होति पर मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्ज' ति । तत्र, चुन्द, ये ते समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिट्ठिनो - 'रूपी अत्ता होति अरोगो पर मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्ज' ति, त्याह उपसङ्कमित्वा एव वदामि - 'अत्थि नु खो 10 इद, आवुसो, वुच्चति - रूपी अत्ता होति अरोगो पर मरणा' ति ? य च खो ते एवमाहसु - 'इदमेव सच्च मोघमञ्ज' ति, त तेस नानुजानामि । त किस्स हेतु ? अञ्जथासञ्जिनो पि हेत्थ, चुन्द, सन्तेके सत्ता । इमाय पि खो अह, चुन्द, पञ्जत्तिया नेव अत्तना' समसम समनुपस्सामि, कुतो भिय्यो । अथ खो अहमेव तत्थ भिय्यो यदिद अधिपञ्जत्ति ।

15 ३२ 'तत्र, चुन्द, ये ते समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिट्ठिनो - 'अरूपी अत्ता होति रूपी च अरूपी च अत्ता होति नेवरूपीनारूपी अत्ता होति सञ्जी अत्ता होति असञ्जी अत्ता होति *नेव-सञ्जीनासञ्जी अत्ता होति अत्ता उच्छिज्जति विनस्सति न होति पर मरणा, इदमेव सच्च मोघमञ्ज' ति, त्याह उपसङ्कमित्वा एव वदामि - 20 'अत्थि नु खो इद, आवुसो, वुच्चति - अत्ता उच्छिज्जति विनस्सति न होति पर मरणा' ति । य च खो ते, चुन्द, एवमाहसु - 'इदमेव सच्च मोघमञ्ज' ति, त तेस नानुजानामि । त किस्स हेतु ? 25 अञ्जथासञ्जिनो पि हेत्थ, चुन्द, सन्तेके सत्ता । इमाय पि खो अह, चुन्द, पञ्जत्तिया नेव अत्तना समसम समनुपस्सामि, कुतो भिय्यो । 30 अथ खो अहमेव तत्थ भिय्यो यदिद अधिपञ्जत्ति । इमे खो ते, चुन्द, अपरन्तसहगता दिट्ठिनिस्सया ये वो मया ब्याकता । यथा ते ब्याकातब्बा, यथा च ते न ब्याकातब्बा, कि वो अह ते न तथा ब्याकरिस्सामी' ति ?

B 116

R 141

३३ "इमेस च, चुन्द, पुब्बन्तसहगतान दिट्ठिनिस्सयान इमेस च अपरन्तसहगतान दिट्ठिनिस्सयान प्हाणाय समतिक्कमाय एव मया

१ नेवसञ्जिनासञ्जी - स्या० । २ अत्तनो - स्या०, रो० । * एत्थ स्या० पोत्थके 'सञ्जी च असञ्जी च अत्ता होति इति अधिको पाठो दिस्सति ।

चत्तारो सतिपट्टाना देसिता पञ्जत्ता । कतमे चत्तारो ? इध, चुन्द, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्स । वेदनासु वेदानुपस्सी पे० चित्ते चित्तानुपस्सी पे० धम्मसेसु धम्मनुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्स । इमेस च चुन्द, पुब्बन्तसहगतान 5 दिट्ठिनिस्सयान इमेस च अपरन्तसहगतान दिट्ठिनिस्सयान पहानाय समतिक्कमाय । एव मया इमे चत्तारो सतिपट्टाना देसिता पञ्जत्ता” ति ।

३४ तेन खो पन समयेन आयस्मा उपवाणो^१ भगवतो पिट्ठितो^२ ठितो^३ होति भगवन्त बीजयमानो । अथ खो आयस्मा उपवाणो भगवन्त एतदवोच – “अच्छरिय, भन्ते, अब्भुत, भन्ते । पासादिको वताय, 10 भन्ते, धम्मपरियायो, सुपासादिको^४ वताय भन्ते, धम्मपरियायो । को नामाय, भन्ते धम्मपरियायो” ति ?

“तस्मातिह त्व, उपवाण, इम धम्मपरियाय ‘पासादिको’ त्वेव न धारेही” ति ।

इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा उपवाणो भगवतो भासित 15 अभिनन्दी ति ।

पासादिकसुत्त निट्ठित छट्ठ ।

— ० —

१ उपदानो – स्या०, उपवानो – रो० । २ सी० पोत्थके नत्थि । ३ अतिपासादिको – रो० । ४ स्या० पोत्थके नत्थि ।

७ लक्षणासुत्तं

§ १ द्वितिसमहापुरिसलक्षणानि

B 117
R 142

१ एव मे सुत । एक समय भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि — “भिक्खवो” ति । “भवन्ते” ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच —

- २ “द्वितिसिमानि, भिक्खवे, महापुरिसस्स महापुरिसलक्षणानि
- 5 येहि समन्नागतस्स महापुरिसस्स द्वेव गतियो भवन्ति अनञ्जा — सचे अगार अज्जावसति राजा होति चक्कवत्ती^१ धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरियप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सिमानि सत्तरतनानि भवन्ति, सेय्यथिद^२ — चक्करतन, हत्थिरतन, अस्सरतन, मणिरतन, इत्थिरतन,^३ गहपतिरतन, परिणायकरतनमेव^४ सत्तम ।
- 10 परोसहस्स खो पनस्स पुत्ता भवन्ति^५ सूरा वीरङ्गरूपा परसेनप्पमहना । सो इम पठवि सागरपरियन्त * अदण्डेन असत्थेन धम्मेन^६ अभिविजिय अज्जावसति । सचे खो पन अगारस्सा अनगारिय पब्बजति, अरह होति सम्मासम्बुद्धो लोके विवट्छदो^७ ।

- ३ “कतमानि च तानि, भिक्खवे, द्वितिस महापुरिसस्स
- १ 143 15 महापुरिसलक्षणानि येहि समन्नागतस्स महापुरिसस्स द्वेव^१ गतियो भवन्ति अनञ्जा — सचे अगार अज्जावसति राजा होति चक्कवत्ती पे० सचे खो पन अगारस्सा अनगारिय पब्बजति, अरह होति सम्मासम्बुद्धो लोको विवट्छदो ?

- “इध, भिक्खवे, महापुरिसो सुप्पतिट्ठितपादो” होति । य पि,
- 20 भिक्खवे, महापुरिसो सुप्पतिट्ठितपादो होति, इद पि, भिक्खवे, महापुरिसस्स महापुरिसलक्षण भवति ।

“पुन च पर, भिक्खवे, महापुरिसस्स हट्टापादतलसु चक्कानि

१ भवन्ते — सी०, स्या०, रो० । २ चक्कवत्ति — स्या०, रो० । ३ सेय्यथिद — स्या०, रो० । ४ इत्थिरतन — स्या० । ५ परिणायक० — सी० । ६ होन्ति — सी० । ७ पथवि — सी०, म०, रो० । * एत्थ स्या० पेत्यके ‘अखील अनिमित्त अकण्ठक इद्ध फीत खेम सीव निरब्बुद इति अक्खिको पाठो द्विस्सति । ८ धम्मेन समेन — स्या०, सी० । ९ विवट्छदो — सी०, स्या० विवत्तच्छदो — रो० । १० द्वे — रो० । ११ सुप्पतिट्ठितपादो — स्या० ।

जातानि होन्ति सहस्रारानि सनेमिकानि सनाभिकानि सब्बाकारपरि-
पूरानि । य पि, भिक्खवे, महापुरिसस्स हेट्ठापादतलेसु चक्कानि जातानि
होन्ति सहस्रारानि सनेमिकानि सनाभिकानि सब्बाकारपरिपूरानि,
इद पि, भिक्खवे, महापुरिसस्स महापुरिसलक्षण भवति ।

‘पुन च पर, भिक्खवे, महापुरिसो आयतपण्हि’ होति पे० 5
दीघङ्गुलि’ होति मुदुतलुनहत्थपादो’ होति जालहत्थपादो होति
उस्सङ्खपादो होति एणिजङ्घो होति ठितको व अनोनमन्तो उभोहि
पाणितलेहि जण्णुकानि परिमसति परिमज्जति कोसोहितवत्थगुय्हो
होति सुवण्णवण्णो होति कञ्चनसन्निभत्तचो’ सुखुमच्छवि’ होति,
सुखुमत्ता छवि्या रजोजल्ल काये न उपलिम्पति एकेकलोमो होति, 10
एकेकानि लोमानि लोमकूपेसु जातानि उद्धग्गलोमो होति, उद्धग्गानि
लोमानि जातानि नीलानि अञ्जनवण्णानि कुण्डलावट्टानि^५ दक्खिणावट्टक-
जातानि’ ब्रह्मजुगत्तो होति सत्तुस्सदो होति सीहपुब्बद्धकायो
होति चित्तन्तरसो होति निग्रोधपरिमण्डलो होति, यावतक्वस्स कायो
तावतक्वस्स’ ब्यामो यावतक्वस्स ब्यामो तावतक्वस्स कायो समवट्ट- 15
क्खन्धो होति रसग्गसग्गी होति सीहहनु होति चत्तालीसदन्तो”
होति समदन्तो होति अविरळदन्तो” होति सुसुक्कदाठो होति
पहूतजिह्वो होति ब्रह्मस्सरो होति करवीकभाणी” अभिनीलनेत्तो
होति गोपखुमो होति उण्णा भमुकन्तरे जाता होति ओदाता मुदुतूल-
सन्निभा । य पि, भिक्खवे, महापुरिसस्स उण्णा भमुकन्तरे जाता होति 20
ओदाता मुदुतूलसन्निभा, इद पि, भिक्खवे, महापुरिसस्स महापुरिसलक्षण
भवति ।

‘पुन च पर, भिक्खवे, महापुरिसो उण्हीससीसो होति । य पि,
भिक्खवे, महापुरिसो उण्हीससीसो होति, इद पि, भिक्खवे, महापुरिसस्स
महापुरिसलक्षण भवति ।

25

१ आयतपण्ही - सी०, रो० । २ दीघङ्गुली - सी०, स्या०, रो० । ३ मुदुतलनहत्थ
पादो - स्या०, मुदुतलुण० - रो० । ४ जङ्गुकानि - स्या०, रो० । ५ काञ्चनसन्निभत्तचो -
स्या० । ६ सुखुमच्छत्री - स्या०, रो० । ७ उपलिम्पति - स्या०, रो० । ८ कुण्डलवत्तानि -
रो०, कुण्डलावत्तानि - सी०, स्या० । ९ वत्तकजातानि - स्या०, पदक्खिणावत्तकजातानि -
सी०, रो० । १० ब्यामो - रो० । ११ चत्तालीस० - सी०, स्या० चत्तारीस० - रो० । १२
अविवर० - रो० । १३ करविकभाणी - स्या० ।

३ 119

“इमानि खो तानि, भिक्खवे, द्वत्तिस महापुरिसस्स महापुरिस-
लक्खणानि येहि समन्नागतस्स महापुरिसस्स द्वेव गतियो भवन्ति अनञ्जा -
सचे अगार अज्जावसति राजा होति चक्कवत्ती पे० सचे खो पन
अगारस्सा अनगारिय पब्बजति, अरह होति सम्मासम्बुद्धो लोके
5 विवट्टच्छदो ।

“इमानि खो’, भिक्खवे, द्वत्तिस महापुरिसस्स महापुरिसलक्खणानि
बाहिरका पि इसयो धारेन्ति, नो च खो ते जानन्ति - ‘इमस्स
कम्मस्स कटत्ता’ इद लक्खण पटिलभती’ ति ।

§ २ इमस्स कम्मस्स कटत्ता इद लक्खण

(१.) सुप्पतिट्ठितपादता

R 146

४ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम
10 निकेत पुब्बे मनुस्सभूतो समानो दब्बहसमादानो अहोसि कुसलेसु धम्मेषु,
अवत्थितसमादानो कायसुचरिते वचीसुचरिते मनोसुचरिते दानसविभागे
सीलसमादाने उपोसथूपवासे’ मत्तेय्यताय पत्तेय्यताय सामञ्जताय ब्रह्म-
ञ्जताय कुले जेट्ठापचायिताय अञ्जतरञ्जतरसेसु च अधिकुसलेसु धम्मेषु,
सो, तस्स कम्मस्स कटत्ता उपचितत्ता उस्सन्नत्ता विपुलत्ता, कायस्स भेदा
15 पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जति । सो तत्थ अञ्जे देवे दसहि
ठानेहि अधिग्गह्णाति - दिब्बेन आयुना, दिब्बेन वण्णेन, दिब्बेन सुखेन, दिब्बेन
यसेन, दिब्बेन आधिपत्तेय्येन, दिब्बेहि रूपेहि, दिब्बेहि सद्देहि, दिब्बेहि
गन्धेहि, दिब्बेहि रसेहि, दिब्बेहि फोट्टब्बेहि । सो ततो चुतो इत्थत्त
आगतो समानो इम महापुरिसलक्खण पटिलभति - सुप्पतिट्ठितपादो होति,
20 सम पाद भूमिय निक्खपति, सम उद्धरति, सम सब्बावन्तेहि पादतलेहि
भूमिं फुसति ।

५ “सो तेन लक्खणेन समन्नागतो सचे अगार अज्जावसति, राजा
होति चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्था-
वरियप्पत्तो’ सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सिमानि सत्त रतनानि भवन्ति,
25 सेय्यथिद - चक्करतन, हत्थिरतन, अस्सरतन, मणिरतन, इत्थिरतन,
गहपतिरतन, परिणायकरतनमेव सत्तम । परोसहस्स खो पनस्स पुत्ता
भवन्ति सूरा वीरङ्गरूपा परसेनप्पमद्दना । सो इम पठवि सागरपरियन्त

१ खो ते - रो० । २ कटत्ता - स्या०, रो० । ३ उपोसथूपवासे - रो० । ४ अधि
पत्तेय्येन - रो०, स्या० । ५ जनपदद्वी० - स्या० ।

अखिलमनिमित्तमकण्टक^१ इद्ध फीत खेम सिव निरब्बुद अदण्डेन असत्थेन धम्ममेन अभिविजिय अज्झावसति । राजा समानो कि लभति ? अक्खम्भियो^२ होति केनचि मनुस्सभूतेन पच्चत्थिकेन पच्चामित्तेन — राजा समानो इद लभति ।

“सच्चे खो पन अगारस्सा अनगारिय पब्बजति, अरह् होति सम्मा-
सम्बुद्धो लोके विवट्टच्छदो । बुद्धो समानो कि लभति ? अक्खम्भियो होति
अब्भन्तरेहि वा बाहिरेहि वा पच्चत्थिकेहि पच्चामित्तेहि, रागेन वा
दोसेन वा मोहेन वा समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मना
वा केनचि वा लोकस्मि — बुद्धो समानो इद लभति” । एतमत्थ भगवा
अवोच ।

६ तत्थेत वुच्चति—

“सच्चे च धम्मो च दमो च सयमे,
सोचेय्यसीलालयुपोसथेसु च ।

दाने^३ अहिंसाय असाहसे रतो,
दब्ध समादाय समत्तमाचरि^४ ॥

“सो तेन कम्ममेन दिव^५ समक्कमि^६,
सुख च खिड्डारतियो च अन्वभि ।
ततो चवित्वा पुनरागतो इध,
समेहि पादेहि फुसी वसुन्धर ॥

“व्याकसु^७ वेय्यञ्जनिका समागता,
समप्पतिट्टस्स न होति खम्भना ।
गिहिस्स वा पब्बजितस्स वा पुन,
त लक्षण भवति तदत्थजोतक ॥

“अक्खम्भियो होति अगारमावस,
पराभिभू सत्तुभि नप्पमहनो ।
मनुस्सभूतेनिध^८ होति केनचि,
अक्खम्भियो^९ तस्स फलेन कम्मूनो ॥

१ अखील० — स्या०, सी० । २ अक्खम्भियो — सी०, रो० । ३ पाणे — स्या० ।

४ समन्तमाचरि — स्या० । ५ त्तिदिव — स्या० । ६ अपक्कमि — सी०, स्या० । ७ अनुभि
— सी० स्या०, आनुभि — रो० । ८ व्याकसु — रो० । ९ मनुस्सभूतेन न — रो० ।
१० सुखम्भियो — रो० ।

B 121

“सचे च' पब्बज्जमुपेति तादिसो,
नेक्खम्मछन्दाभिरतो विचक्खणो ।
अग्गो न सो गच्छति जातु खम्भन',
नरुत्तमो एस हि तस्स धम्मता' ति ॥

(२) पादतलचक्कता

R.148

5 ७ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जातिं पुरिम भव पुरिम
निकेत पुब्बे मनुस्सभूतो समानो बहुजनस्स' सुखावहो' अहोसि, उब्बेग-
उत्तासभय' अपनुदिता, धम्मिक च रक्खावरणगुत्ति सविधाता, सपरिवार
च दान अदासि, सो तस्स कम्मस्स कटत्ता उपचितत्ता उस्सन्नत्ता
विपुलत्ता कायस्स भेदा पर-भरणा सुगतिं सग्ग लोके उपपज्जति पे०
10 सो ततो चुतो इत्थत्त आगतो समानो इम महापुरिसलक्खण पटिलभति -
हेट्ठापादतलेसु' चक्कानि जातानि होन्ति सहस्सारानि सनेमिकानि
सनाभिकानि सब्बाकारपरिपूरानि सुविभत्तन्तरानि ।

“सो तेन लक्खणेन समन्नागतो, सचे अगार अज्जावसति, राजा
होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो किं लभति ? महापरिवारो होति
15 महास्स होन्ति' परिवारा', ब्राह्मणगहपतिका नेगमजानपदा' गणकमहामत्ता'
अनीकट्टा दोवारिका अमच्चा पारिसज्जा राजानो भोगिया' कुमारा । राजा
समानो इदं लभति । सचे अगारस्सा अनगारिय पब्बजति, अरह होति सम्मा-
सब्बुद्धो लोके विवट्टच्छदो । बुद्धो समानो किं लभति ? महापरिवारो होति
महास्स होन्ति परिवारा, भिक्खू भिक्खुनियो उपासका उपासिकायो देवा
20 मनुस्सा असुरा नागा गन्धब्बा । बुद्धो समानो इदं लभति' । एतमत्थं
भगवा अवोच ।

८ तत्थेत वुच्चति-

“पुरे पुरत्था पुरिमासु जातिसु,
मनुस्सभूतो बहुन' सुखावहो ।
25 उब्बेगउत्तासभयापनूदनो",
गुत्तीसु रक्खावरणेषु उस्सुको ॥

१ व - स्या० । २ गम्भ - रो० । ३ - ३ बहुजनसुखाय - रो० । ४ उब्बेग
उत्तास भय - सी०, रो० । ५ हेत्था० - रो० । ६ - ६ होति परिवारो - रो० । ७, नेगमा० -
स्या० । ८ गणका० - सी० । ९ भोगिका - स्या० । १० बहुन्न - रो० । ११ उब्बेग० - म० ।

“सो तेन कम्पेन दिव' समक्कमि',
सुख च खिड्डारतियो च अन्वभि ।
ततो चवित्वा पुनरागतो इध,
चक्कानि पादेसु दुवेसु विन्दति ॥

“समन्तनेमीनि सहस्सरानि च,
ब्याकसु वेय्यञ्जनिका समागता ।
दिस्वा कुमार सत्पुञ्जलक्खण,
परिवारवा हेस्सति सत्तुमद्दुनो ॥

“तथा हि चक्कानि समन्तनेमिनि',
सचे न पब्बज्जमुपेति तादिसो ।
वत्तेति चक्क पठवि पसासति,
तस्सानुयन्ताध' भवन्ति खत्तिया ॥

“महायस' सपरिवारयन्ति' न,
सचे च पब्बज्जमुपेति तादिसो ।
नेक्खम्मल्लन्दाभिरतो विचक्खणो,
देवा-मनुस्सासुर-सक्क-रक्खसा ॥

“गन्धब्बनागा विहगा चतुप्पदा,
अनुत्तर देवमनुस्सपूजित ।
महायस सपरिवारयन्ति न" ति ॥

(३-५) आयत्तपण्हितादि

६ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम 20
निकेत पुब्बे मनुस्सभूतो समानो पाणातिपात पहाय पाणातिपाता पटि-
विरतो अहोसि निहितदण्डो निहितसत्थो, लज्जी दयापन्नो सब्बपाणभूत-
हितानुकम्पी विहासि, सो, तस्स कम्मस्स कटत्ता उपचितत्ता उस्सन्नत्ता विपु-
लत्ता पे० सो ततो चुतो इत्थत्त आगदो समानो इमानि तीणि महा- 1
पुरिसलक्खणानि पटिलभति - आयत्तपण्हि' च होति, दीघङ्गलि' च, 25
ब्रह्मजुगत्तो' च ।

सो तेहि लक्खणेहि समन्नागतो, सचे अगार अज्झावसति, राजा 1

१ तिदिव - स्या० । २ अपक्कमि - सी०, स्या० । ३ ० नेमीनि - रो० । ४ तस्सानु-
युत्तो इध - रो० । ५ महायसा - स्या० । ६ सपरिवारयन्ति - स्या० । ७ विहङ्गा -
स्या० । ८ आयत्तपण्ही - रो० । ९ दीघङ्गली - रो० । १० ब्रह्मज्जुगत्तो - रो० ।

होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो कि लभति ? दीघायुको होति चिर-
द्वितिको, दीघमायु पालेति, न सक्का होति अन्तरा जीविता वोरपेतु
केनचि मनुस्सभूतेन पच्चत्थिकेन पच्चामित्तेन । राजा समानो इद लभति
पे० बुद्धो समानो कि लभति ? दीघायुको होति चिरद्वितिको, दीघ-
5 मायु पालेति, न सक्का होति अन्तरा जीविता वोरपेतु पच्चत्थिकेहि
पच्चामित्तेहि समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मना वा
केनचि वा लोकस्मि । बुद्धो समानो इद लभति” । एतमत्थ भगवा
अवोच ।

१० तत्थेत वुच्चति-

10 “मारणवधभयमत्तनो” विदित्वा,
पटिविरतो^१ पर मारणायहोसि ।
तेन सुचरितेन सग्गमगमा^३,
सुकतफलविपाकमनुभोसि 11
‘चविय पुनरिधागतो समानो,
15 पटिलभति इध तीणि लक्खणानि ।
भवति विपुलदीघपासण्हिको^४,
ब्रह्मा व सुजु^५ सुभो सुजातगत्तो ॥
“सुभुजो सुसु सुसण्ठितो सुजातो,
मुदुतलुनङ्गुलियस्स होन्ति ।
R 151 20 दीघा तीभि^६ पुरिसवरग्गलक्खणेहि^७,
चिरयपनाय^८ कुमारमादिसन्ति ॥
“भवति यदि गिही चिर यपेति,
चिरतर पब्बजति यदि ततो हि ।
यापयति च वसिद्धिभावनाय,
25 इति दीघायुकताय त निमित्त” ति ॥

(६) सत्तुस्सदत्ता

B 124

११ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम
निकेत पुब्बे मनुस्सभूतो समानो दाता अह्मेसि पणीतान रसितान खाद-

१ मरण० - सी०, स्या० रो० । २ पटिविरतो - रो० । ३ सग्गमगमासि - स्या० ।
४ विपुलदीघपासुणिको - स्या० ० पाणिको - रो० । ५ सुजु - स्या०, वियुज्जु - रो० ।
६ तीहि - रो० । ७ पुरिसलक्खणेभि - स्या० । ८ चिरयापनाय - स्या० ।

नीयान भोजनीयान सायनीयान लेहनीयान पानान, सो, तस्स कम्मस्स कटत्ता पे० सो ततो चुतो इत्थत्त आगतो समानो इमं महापुरिसल्लक्खण पटिलभति - सतुस्सदो होति, सत्तस्स उस्सदा होति, उभोसु हत्थेसु उस्सदा होन्ति, उभोसु पादेसु उस्सदा होन्ति, उभोसु असकूटेसु उस्सदा होन्ति, खन्धे उस्सदो^१ होति^१ ।

5

“सो तेन लक्खणेन समन्नागतो, सचे अगार अज्झावसति, राजा होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो किं लभति ? लाभी होति पणी तान रसितान खादनीयान भोजनीयान सायनीयान लेहनीयान पानान । राजा समानो इदं लभति पे० बुद्धो समानो किं लभति ? लाभी होति पणीतान रसितान खादनीयान भोजनीयान सायनीयान लेहनीयान पानान । बुद्धो समानो इदं लभति” । एतमत्थं भगवा अवोच ।

10 R

१२ तत्थेत वुच्चति-

“खज्जभोज्जमथ^१ लेय्य^१ सायिय^१,
उत्तमग्गरसदायको अहु ।
तेन सो सुचरितेन कम्मणा,
नन्दने^१ चिरमभिप्पमोदति ॥

15

“सत्त चुस्सदे इधाधिगच्छति,
हत्थपादमुदुत्तं च विन्दति ।
आहु ब्यञ्जननिमित्तकोविदा,
खज्जभोज्जरसलाभितय्य^१ न^१ ॥

20

“य^१ गिहिस्स^१ पि तदत्थजोतक,
पब्बज्ज पि च तदाधिगच्छति ।
खज्जभोज्जरसलाभिरुत्तम^१,
आहु सब्बगिहिबन्धनच्छिद^१” ति ।

(७८) करचरणमुदुजालता

१३ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जातिं पुरिम भव पुरिम 25 B

११ उस्सदा होति - सी०, स्या० । २ खज्जभोजनं अथ - सी०, स्या० । ३ लह - स्या० ।
४ सायित्त - सी० । ५ नन्दवने - स्या० । ६ ० भोजन० - स्या०, ० भोजनस्सलाभितय्य -
सी० । ७ रो० पोत्थके नत्थि । ८ त - सी०, न त - रो०, स्या० । ९ गिहिस्स - सी० ।
१० खज्जभोजनस्स लाभि० - सी०, स्या०, ० लाभी० - रो० ।

निकेत पुब्बे मनुस्सभूतो समानो चतूहि सङ्गहवत्थूहि जन' सङ्गाहको'
अहोसि - दानेन, पेय्यवज्जेन', अत्थचरियाय, समानत्तताय, सो, तस्स
कम्मस्स कटत्ता पे० सो ततो चुतो इत्थत्त आगतो समानो इमानि
२ 153 द्वे महापुरिसलक्खणानि पटिलभति - मुदुतलुनहत्थपादो' च होति जाल-
5 हत्थपादो च ।

“सो तेहि लक्खणेहि समन्नागतो, सच्च अगार अज्भावसति, राजा
होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो कि लभति ? सुसङ्गहितपरिजनो
होति, सुसङ्गहितास्स” होन्ति ब्राह्मणगहपतिका नेगमजानपदा गणकमहा-
मत्ता अनीकट्टा दोवारिका अमच्चा पारिसज्जा राजानो भोगिया कुमारा ।
10 राजा समानो इद लभति पे० बुद्धो समानो कि लभति ? सुसङ्ग-
हितपरिजनो होति, सुसङ्गहितास्स होन्ति भिक्खू भिक्खुनियो उपासका
उपासिकायो देवा मनुस्सा असुरा नागा गन्धब्बा । बुद्धो समानो इद
लभति” । एतमत्थ भगवा अबोच ।

१४ तत्थेत वुच्चति-

15 “दान पि चत्थचरियत्त च,
पियवादित' च समानत्तत' च ।
करियचरियसुसङ्गह बहून,
अनवमतेन गुणेन याति सग्ग ॥

20 “चविय पुनरिधागतो समानो,
करचरणमुदुत' च जालिनो च ।
अतिरुचिरसुवग्गुदस्सनेय्य,
पटिलभति दहरो सुसु कुमारो ॥

B 126
R. 154

25 “भवति परिजनस्सवो विधेय्यो,
महिम आवसितो सुसङ्गहितो ।
पियवदू हितसुखत्त जिगीसमानो',
अभिरुचितानि गुणानि आचरति ॥

१-१ जनसङ्गहिको - स्या०, जन सङ्गहिता - रो० । २ पियवाचेन - स्या०,
पेय्यवाचेन - रो० । ३ मुदुतल० - स्या० मुदुतलुण० - सी०, रो० । ४ ० हितस्स - स्या० ।
५ पियवदत्तं - स्या०, रो० । ६ समानच्छन्दत्त - रो०, समानच्छन्द - स्या० । ७ बहुन्त -
सी०, स्या० रो० । ८ करचरणमुदुतल - सी०, ० मुदुत्तं - स्या० । ९ जिगीसमानो - रो०,
स्या०, सी० ।

“यदि च जहति सब्बकामभोग^१,
 कथयति धम्मकथ जिनो जनस्स ।
 वचनपटिकरस्साभिप्पसत्ता^२,
 सुत्वान^३ धम्मानुधम्ममाचरन्ती” ति ॥

(६-१०) उस्सह्वपाद उद्धग्गलोमता

१५ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव 5
 पुरिम निकेत पुब्बे मनुस्सभूतो समानो^४ अत्थूपसहित^५ धम्मूपसहित वाच
 भासिता अहोसि, बहुजन निदसेसि^६, पाणीन हितसुखावहो धम्मयागी^७,
 सो, तस्स कम्मस्स कटत्ता पे० सो ततो चुतो इत्थत्त आगतो
 समानो इमानि द्वे महापुरिसलक्खणानि पटिलभति - उस्सह्वपादो च
 होति उद्धग्गलोमो च ।

10

“सो तेहि लक्खणेहि समन्नागतो, सचे अगार अज्भावसति,
 राजा होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो कि लभति ? अग्गो च
 होति सेट्ठो च पामोक्खो च उत्तमो च पवरो च कामभोगीन । राजा समानो
 इद लभति पे० बुद्धो समानो कि लभति ? अग्गो च होति सेट्ठो च
 पामोक्खो च उत्तमो च पवरो च सब्बसत्तान । बुद्धो समानो इद 15
 नभति” । एतमत्थ भगवा अवाच ।

१६ तत्थेत वुच्चति -

“अत्थधम्मसहित^८ पुरे गिर,
 एरय^९ बहुजन निदसयि^{१०} ।
 पाणिन हितसुखावहो अहु,
 धम्मयागमयजी^{११} अमच्छरी ॥

R 1

20

“तेन सो सुचरितेन कम्मना,
 सुग्गति^{१२} वजति तत्थ मोदति ।

B

१ ० कामगुण० - रो० । २ वचनप्पटि०^१ - रो० वचनपतिकर० - सी० ।
 ३ सुत्वा - सी०, रो० । ४ समानो वहनो जनस्स - सी०, रो० । ५ अत्थूप० - सी०
 स्या० । ६ निदसेति - रो०, निदस्सेति - स्या० । ७ अहु धम्मयागी - रो० । ८ ० धम्मूपस-
 हित - सी०, ० सञ्जित - स्या० । ९ एरिय - स्या० । १० निदसयी - सी० । ११
 धम्मयागम अस्सजि - स्या०, रो० । १२ सुग्गति - सी०, रो० ।

लक्खणानि च दुवे इधागतो,
उत्तमप्पमुखताय^१ विन्दति^२ ॥

“उब्भमुप्पतितलोमवा ससो^३,
पादगण्ठिरहु^४ साधुसण्ठिता ।
5 मसलोहिताचिता तचोत्थता,^५
उपरिचरणसोभना^६ अहु ॥

“गेहमावसति चे तथाविधो,
अग्गत वजति कामभोगिन^७ ।
तेन उत्तरितरो^८ न विज्जति,
10 जम्बुदीपमभिभुय्य इरियति^९ ॥

R 156

“पब्बज^{१०} पि च अनोमनिक्कमो,
अग्गत वजति सब्बपाणिन ।
तेन उत्तरितरो न विज्जति,
सब्बलोकमभिभुय्य विहरती” ति ॥

(११) एणिजङ्घता

15 १७ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम
निकेत पुब्बे मनुस्सभूतो समनो सक्कच्च वाचेता अहोसि सिप्प वा विज्ज
वा चरण वा कम्म वा - ‘कि तिमि खिप्प विजानेय्यु^{११}’, खिप्प
पटिपज्जेय्यु,^{१२} न चिर किलिस्सेय्यु^{१३}’ ति, सो, तस्स कम्मस्स कटत्ता पे०
सो ततो चुतो इत्थत्त आगतो समानो इमं महापुरिसलक्खण पटिलभति-
20 एणिजङ्घो होति ।

B₁128

“सो तेन लक्खणेन समन्नागतो, सचे अगार अज्झावसति, राजा
होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो किं लभति ? यानि तानि^{१४} राजा-
रहानि राजङ्गानि राजूपभोगानि राजानुच्छविकानि तानि खिप्प लभति^{१५} ।
राजा समानो इद लभति पे० बुद्धो समानो कि लभति ? यानि

१ उत्तमपमोक्खताय - सी०, उत्तमसुखताय - स्या०, उत्तमसुखानि - रो० ।
२ सविन्दति - रो० । ३ सेसो - सी० । ४ पादगण्ठीरहु - सी० । ५ तचोत्थता - सी०, तचोत्थता -
रो० । ६ उपरिजानुसोभना - स्या० उपरि च पन सोभणा - रो० । ७ कामभोगीन - रो० ।
८ उत्तरितर च - स्या० । ९ इरीयति - रो० । १० पब्बज्जा - स्या० । ११ आजानेय्यु - रो० ।
१२ विजानेय्यु खिप्प सम्पटिपज्जेय्यु - रो० सम्पटिपज्जेय्यु - स्या० । १३ किलिसेय्यु - स्या० ।
१४ इद - सी०, स्या० । १५ एतानि - रो० । १६ पटिलभति - सी०, स्या०, रो० ।

तानि समणारहानि समणज्जानि समणूपभोगानि^१ समणानुच्छविकानि तानि खिप्प पटिलभति । बुद्धो समानो इदं लभति^२ । एतमत्थं भगवा अवोच ।

१८ तत्थेत वुच्चति-

“सिप्पेसु विज्जाचरणेसु कम्मसेसु^३,
 कथं विजानेय्यु^४ लहुन्ति^५ इच्छति ।
 यदूपघाताय^६ न होति कस्सचि,
 वाचेति खिप्पं न चिरं किलिस्सति ॥

5

R

“तं कम्मं कत्वा कुसलं सुखुद्वयं
 जद्ध्वा मनुञ्जा लभते सुसण्ठिता ।
 वट्टा^७ सुजाता अनुपुब्बमुग्गता,
 उद्धग्गलोमा सुखुमत्तचोत्थिता ॥

10

“एणय्यजद्धोति तमाहु पुग्गलं,
 सम्पत्तिया खिप्पमिधाहु लक्खणं ।
 गेहानुलोमानि^८ यदाभिकद्धति,
 अपुब्बजं खिप्पमिधाधिगच्छति ॥

15

“सच्चे च पुब्बज्जमुपेति तादिसो,
 नेक्खम्मच्छन्दाभिरतो विचक्खणो ।
 अनुच्छविकस्स यदानुलोमिक^९,
 तं विन्दति खिप्पमनोमविककमो^{१०}” ति ॥

20

(१२) सुखुमच्छविता

१६ “यं पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिमं जातिं पुरिमं भव पुरिमं निकेतं पुब्बे मनुस्सभूतो समानो समणं वा ब्राह्मणं वा उपसङ्कमित्वा परिपुच्छिता अहोसि - “किं, भन्ते, कुसलं, किं अकुसलं, किं सावज्जं, किं अनवज्जं, किं सेवितब्बं, किं न सेवितब्बं, किं मे करीयमानं दीघरत्तं अहिताय दुक्खाय अस्स, किं वा पणं मे करीयमानं दीघरत्तं हिताय 25

१ समणूपभोगानि - सी० स्या० । २ कम्मसु - रो० । ३ विजानेय्य - रो० ।

४ लहुति - रो० । ५ यदूपघाताय - रो० यदुपघाताय - सी० स्या० । ६ वट्टा - स्या० ।

७ एकैकलोमानि - स्या०, रो० । ८ लोमिय - स्या० । ९ करियमान - रो०, करियमान - सी० ।

३ 129 सुखाय अस्सा' नि, सो, तस्स कम्मस्स कटत्ता पे० सो ततो चुतो
२ 158 इत्थत्त आगतो समानो इम महापुरिसलक्खण पटिलभति - सुखुमच्छवि
होति, सुखुमत्ता छविया रज्जोजल्ल काये न उपलिम्पति ।

“सो तेन लक्खणेन समन्नागतो, सचे अगार अज्झावसति, राजा
5 होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो किं लभति ? महापञ्ची होति,
नास्स होति कोचि पञ्जाय सदिसो वा सेट्ठो' वा कामभोगीन । राजा
समानो इद लभति पे० बुद्धो समानो किं लभति ? महापञ्चो
होति पुथुपञ्चो हासपञ्चो' जवनपञ्चो तिक्खपञ्चो निब्बेधिकपञ्चो,
नास्स होति कोचि पञ्जाय सदिसो वा सेट्ठो वा सब्बसत्तान । बुद्धो
10 समानो इद लभति” । एतमत्थ भगवा अवोच ।

२० तत्थेत वुच्चति-

“पुरे पुरत्था पुरिमासु जातिसु,
अज्जातुकामो परिपुच्छिता अहु ।
सुस्सुसिता' पब्बजित उपासिता,
15 अत्थन्तरो अत्थकथ निसामयि ॥

“पञ्जापटिलाभगतेन कम्मुना,
मनुस्सभूतो सुखुमच्छवी अहु ।
ब्याकसु' उप्पादनिमित्तकोविदा',
सुखुमानि अत्थानि अवेच्च दक्खति' ॥

20 “सचे न पब्बज्जमुपेति तादिसो,
वत्तेति चक्क पठविं पसासति ।
अत्थानुसिद्धीसु परिग्गहेसु च,
न तेन सय्यो सदिसो च' विज्जति ॥

R 159

25

“सचे च पब्बज्जमुपेति तादिसो,
नेक्खम्मच्छन्दाभिरतो विचक्खणो ।
पञ्जाविसिट्ठ लभते अनुत्तर,
पप्पोति बोधिं वरभूरिमेधसो” ति ॥

१ विसिट्ठो - रो० । २ हासुपञ्चो - रो० । ३ सुस्सुसिता - सी० । ४ ब्याकसु -
रो० । ५ उप्पाट० - स्या० । ६ दक्खति - रो०, सी० । ७ अत्थानुसत्थीसु - सी० । ८ व -
सी०, रो०, न - स्या० ।

(१३) सुवण्णवण्णता

२१ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जातिं पुरिम भव पुरिम
निकेत पुब्बे मनुस्सभूतो समानो अक्कोधनो अहोसि अनुपायासबहुलो,
बहु पि वुत्तो समानो नाभिसज्जि न कुप्पि न ब्यापज्जि न पतित्थीयि^१, न
कोप च दोस च अप्पच्चय च पात्वाकासि, दाता च अहोसि सुखुमान
मुदुकान अत्थरणान पावुरणान^२ खोमसुखुमान कप्पासिकसुखुमान 5
कोसेय्यसुखुमान कम्बलसुखुमान, सो, तस्स कम्मस्स कटत्ता उपचितत्ता
पे० सो ततो चुतो इत्थत्त आगतो समानो इम महापुरिसलक्खण
पटिलभति – सुवण्णवण्णो होति कञ्चनसन्निभत्तचो^३ ।

“सो तेन लक्खणेन समन्नागतो, सचे अगार अज्झावसति, राजा
होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो किं लभति ? लाभी होति 10
सुखुमान मुदुकान अत्थरणान पावुरणान खोमसुखुमान कप्पासिकसुखुमान
कोसेय्यसुखुमान कम्बलसुखुमान । राजा समानो इद लभति पे०
बुद्धो समानो किं लभति ? लाभी होति सुखुमान मुदुकान अत्थरणान
पावुरणान खोमसुखुमान कप्पासिकसुखुमान कोसेय्यसुखुमान कम्बलसुखु-
मान । बुद्धो समानो इद लभति” । एतमत्थ भगवा अवोच । 15

२२ तत्थेत वुच्चति –

“अक्कोध च अधिट्ठहि अदासि,
दान च वत्थानि सुखुमानि सुच्छवीनि ।
पुरिमतरभवे ठितो अभिविस्सज्जि^४,
महिमिव सुरो अभिवस्स ॥ 20

“त कत्वान इतो चुतो दिब्ब,
उपपज्जि^५ सुकतफलविपाकमनुभुत्वा^६ ।
कनकतनुसन्निभो इधाभिभवति^७,
सुरवरतरोरिव इन्दो ॥

“गेहञ्चावसति नरो अपब्बज्ज,
मिच्छ महतिमहिं अनुसासति । 25 B

१ पतिट्ठयि – स्या०, रो० । २ पापुरणान – सी०, रो०, स्या० । ३ ० होति – रो० ।
४ अभिविस्सज्जि – स्या०, अभिविस्सज्जि – रो० । ५ उपपज्ज – रो० । ६ ० अनुभुत्वा – रो० ।
७ ० पटिभो – स्या० । ८ इध भवति – रो० ।

पस्य्ह सहिध सत्तरतन,
पटिलभति विमल'सुखुमच्छवि' सुचि च ॥

“लाभी अच्छादनवत्थमोक्खपावुरणान,
भवति यदि अनागारियत' उपेति ।

5 सहितो' पुरिमकतफल अनुभवति,
न भवति कतस्स पनासो' ति ॥

(१४) कोसोहितवत्थगुहता

२३ य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम
निकत पुब्ब मनुस्सभूतो समानो चिरप्पनट्टे सुचिरप्पवासिनो' जातिमित्ते
सुहज्जे सखिनो समानेता अहोसि, मातर पि पुत्तेन समानेता अहोसि,
R 161 10 पुत्त पि मातरा समानेता अहोसि, पितर पि पुत्तेन समानेता अहोसि,
पुत्त पि पितरा समानेता अहोसि, भातर पि भातरा समानेता
अहोसि, भातर पि भगिनिया समानेता अहोसि, भगिनि पि भातरा
समानेता अहोसि, भगिनि पि भगिनिया समानेता अहोसि, समङ्गीकत्वा
च अब्भनुमोदिता अहोसि, सो, तस्स कम्मस्स कटत्ता पे० सो ततो
15 चुतो इत्थत्त आगतो समानो इम महापुरिसलक्खण पटिलभति - कोसोहित-
वत्थगुहो होति ।

“सो तेन लक्खणेन समन्नागतो, सच्च अगार अज्झावसति, राजा
होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो कि लभति ? पहूतपुत्तो' होति,
परोसहस्स खो पनस्स पुत्ता भवन्ति सूरा वीरङ्गरूपा परसेनप्पमहना । राजा
20 समानो इद लभति पे० बुद्धो समानो कि लभति ? पहूतपुत्तो' होति',
अनेकसहस्स खो पनस्स पुत्ता भवन्ति सूरा वीरङ्गरूपा परसेनप्पमहना ।
बुद्धो समानो इद लभति' । एतमत्थ भगवा अवोच ।

२४ तत्थेत वुच्चति -

“पुरे पुरत्था पुरिमासु जातिसु,
R 182 25 चिरप्पनट्टे सुचिरप्पवासिनो ।
जाती सुहज्जे सखिनो समानयि,
समङ्गीकत्वा अनुमोदिता अहू ॥

१ विपुल - स्या०, रो० । २ सुखुम च सुच्छवि च - रो० । ३ अनागारियत - सी०,
रो० । ४ सखी - रो० । मुहि - स्या० । सदि - सी० । ५ सुचिरप्पवासिने - स्या० । ६ जाती
मित्ते सी० । ७ समङ्गी कत्वा - स्या० रो० । ८ बहुलकुतो - सी० । ९ अहोसि - स्या० ।

“सो तेन कम्मेन दिव समक्कमि,
सुख च खिङ्गारतियो च अन्वभि ।
ततो चवित्वा पुनरागतो इध,
कोसोहित विन्दति वत्थच्छादिय ॥

पहूतपुत्तो भवती तथाविधो,
परोसहस्स^१ च भवन्ति अत्रजा ।
सूरा च वीरा च अमित्तापना,
गिहिस्स पीतिजनना^२ पियवदा ॥

5 R

बहूतरा पब्बजितस्स इरियतो,
भवन्ति पुत्ता वचनानुसारिनो ।
गिहिस्स वा पब्बजितस्स पुन,
त लक्खण जायति^३ तदत्थजोतक^४ ति ॥

10

पठमकभाणवार ।

(१५-१६) निग्रोधपरिमण्डलता अनोनमन्तजाणुपरिमण्डजनता च

२५ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम
निकेत पुब्बे मनुस्सभूतो समानो महाजनसङ्गह^५ समेक्खमानो^६ साम^७
जानाति”, पुरिस जानाति पुरिसविसेस जानाति - ‘अयमिदमरहति, 15
अयमिदमरहती’ ति, तत्थ तत्थ पुरिसविसेसकरो^८ अहोसि, सो, तस्स
कम्मस्स कटत्ता पे० सो ततो चुतो इत्थत्त आगतो समानो इमानि द्वे B
महापुरिसलक्खणानि पटिलभति - निग्रोध परिमण्डलो च होति, ठितको येव^९
व अनोनमन्तो उभोहि पाणितलेहि जण्णुकानि परिमसति परिमज्जति ।

‘सो तेहि लक्खणेहि समन्नागतो, सचे अगार अज्भावसति, राजा 20
होति चक्कवती^{१०}’ पे० राजा समानो कि लभति ? अद्धो होति महद्धनो R
महाभोगो पहूतजातरूपरजतो पहूतवित्तूपकरणो पहूतधनधञ्जो परिपुण्णकोस-
कोट्टागारो । राजा समानो इद लभति पे० बुद्धो समानो कि लभति ?

१ अपक्कमि - सी०, स्या० । २ परोसहस्सस्स - रो० । ३ अत्रजा - रो० । ४ वीरङ्ग-
रूपा - सी० । ५ पीति० - म० । ६ पहूतरा - स्या० । ७ पन - स्या० । ८ भवति -
सी०, स्या० रो० । ९ महाजनसङ्गाहक स्या० महाजनान सङ्गाहक - सी० । १० समेक्ख
मानो - सी० । ११-१२ सञ्जानाति - रो० । १२ विसेसत्थकरो - स्या० । १३ ठितको - रो०,
ठितो येव - स्या० ठितकोव - सी० । १४ चक्कवति - स्या० रो० ।

अद्भुते होति महद्वनो महाभोगो । तस्सिमानि धनानि होन्ति, सेय्यधिद -
सद्भाधन सीलधन हिरिधन^१ ओत्तप्पधन सुतधन चागधन पञ्जाधन । बुद्धो
समानो इद लभति” । एतमत्थ भगवा अबोच ।

२६ तत्थेत वुच्चति -

5

‘तुलिय^२ पटिविचिय^३ चिन्तयित्वा,
महाजनसङ्गहन समेक्खमानो ।

अयमिदमरहति तत्थ तत्थ,
पुरिसविसेसकरो पुरे अहोसि ॥

10

“महि^४ च पन^५ ठितो^६ अनोनमन्तो,
फुसति करेहि उभोहि जण्णुकानि ।

महिरुहपरिमण्डलो अहोसि,
सुचरितकम्मविपाकसेसकेन ॥

15

“बहुविविधनिमित्तलक्खणञ्जू,
अतिनिपुणा मनुजा ब्याकरिसु ।

बहुविविधा गिहीन अरहानि^७,
पटिलभति दहरो सुसु^८ कुमारो ॥

R 164

“इध च महीपतिस्स कामभोगी^९,
गिहिपतिरूपका^{१०} बहू भवन्ति ।

यदि च जहति सब्बकामभोग,
लभति अनुत्तर उत्तमधनग्ग^{११} ति ॥

20

(१७-१८) सीहपुब्बद्धकायतादि

B 134

२७ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम
निकेत पुब्बे मनुस्सभूतो समानो बहुजनस्स^{१२}” अत्थकामो अहोसि हितकामो
फासुकामो योगक्खेमकामो - ‘किन्तिमे सद्भाय वड्ढेय्यु, सीलेन वड्ढेय्यु, सुतेन
वड्ढेय्यु, चागेन वड्ढेय्यु, धम्मेन वड्ढेय्यु, पञ्जाय वड्ढेय्यु, धनधञ्जेन वड्ढेय्यु,

१ हिरिधन - सी० । २ तुलय - रो० । ३ पविचेय्य - रो०, पविचय - स्या०,
पटिविचय - म० । ४ महाजनसङ्गहत - रो० महाजनसङ्गाहक - सी०, स्या० । ५ समा -
स्या०, स हि - रो० । ६-६ पनठितो - स्या० । ७ अभिनिपुणा - सी०, स्या० रो० ।
८ आरहानि - रो० । ९ सुसू - स्या० । १० कामभोगा - स्या०, रो० । ११ गिहिपतिरूपका -
सी० । १२ बहुनो जनस्स - सी०, रो० ।

खेत्तवत्थुना वड्ढेय्यु, द्विपदचतुप्पदेहि^१ वड्ढेय्यु, पुत्तदारेहि वड्ढेय्यु, दासकम्मकर-
पोरिसेहि वड्ढेय्यु, ज्ञातीहि वड्ढेय्यु, मित्तेहि वड्ढेय्यु, बन्धवेहि वड्ढेय्यु^२ ति,
सो तस्स कम्मस्स कटत्ता पे० सो ततो चुतो इत्थत्त आगतो समानो
इमानि तीणि महापुरिसलक्खणानि पटिलभति - सीहपुब्बद्धकायो चहोति,
चित्तन्तरसो^३ च, समवट्टक्खन्धो च ।

5

“सो तेहि लक्खणेहि समन्नागतो, सचे अगार अज्झावसति, राजा
होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो किं लभति ? अपरिहानधम्मो
होति, न परिहायति धनधञ्जेन खेत्तवत्थुना द्विपदचतुप्पदेहि पुत्तदारेहि
दासकम्मकरपोरिसेहि ज्ञातीहि मित्तेहि बन्धवेहि, न परिहायति सब्ब-
सम्पत्तिया । राजा समानो इद लभति पे० बुद्धो समानो किं लभति ?
अपरिहानधम्मो होति, न परिहायति सद्दाय सीलेन सुतेन^४ चागेन पञ्जाय,
न परिहायति सब्बसम्पत्तिया । बुद्धो समानो इद लभति^५ । एतमत्थ भगवा
अवोच ।

R 16:

10

२८ तत्थेत वुच्चति -

“सद्दाय सीलेन सुतेन बुद्धिया,
चागेन धम्मेन बहूहि साधुहि ।
धनेन ँञ्जेन च खेत्तवत्थुना,
पुत्तेहि दारेहि चतुप्पदेहि च ॥

15

“ज्ञातीहि मित्तेहि च बन्धवेहि च,
बलेन वण्णेन सुखेन चूभय ।
कथं न हायेय्यु परेति इच्छति,
अत्थस्स मिद्धी च पनाभिकङ्कति ॥

20

“स सीहपुब्बद्धसुसण्ठितो अहु,
समवट्टक्खन्धो च चित्तन्तरसो ।
पुब्बे सुचिण्णेन कतेन कम्मना,
अहानिय^६ पुब्बनिमित्तमस्स त ॥

B 13:

25

“गिही पि ँञ्जेन धनेन वड्ढति,
पुत्तेहि दारेहि चतुप्पदेहि च ।

१ द्विपद० - रो० । २ चित्तन्तरसो - स्या० । ३ समवत्तक्खन्धो - रो० । ४ सुतेन -
रो० । ५ अहानिया - रो० ।

अकिञ्चनो पब्बजितो अनुत्तर,
पप्पोति बोधि असहानधम्मत' ति ॥

(२०) रसग्गसग्गिता

R 166

२६ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम
निकेत पुब्बे मनुस्सभूतो समानो सत्तान अविहेठकजातिको अहोसि पाणिना
5 वा लेड्डुना वा दण्डेन वा सत्थेन वा, सो, तस्स कम्मस्स कटत्ता उपचितत्ता
पे० सो ततो चुतो इत्थत्त आगतो समानो इम महापुरिसलक्खण
पटिलभति – रसग्गसग्गी होति, उद्धग्गास्स रसहरणीयो गीवाय जाता
होन्ति समाभिवाहिनियो’ ।

‘सो तेन लक्खणेन समन्नागतो, सचे अगार अज्जावसति, राजा
10 होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो कि लभति ? अप्पाबाधो होति
अप्पातङ्को, समवेपाकिनिया गहणिया समन्नागतो नातिसीताय नाच्चुण्हाय ।
राजा समानो इद लभति पे० बुद्धो समानो कि लभति ? अप्पाबाधो
होति अप्पातङ्को, समवेपाकिनिया गहणिया समन्नागतो नातिसीताय
नाच्चुण्हाय मज्झिमाय पधानक्खमाय । बुद्धो समानो इद लभति’ । एतमत्थ
15 भगवा अबोच ।

३० तत्थेत वुच्चति –

“न’ पाणिदण्डेहि पनाथ लेड्डुना’,
सत्थेन वा मरणवधेन वा पन’ ।

उब्बाधनाय परितज्जनाय वा,
20 न हेठयी’ जनत्तमहेठको अहु ॥

B 136

“तेनेव सो सुगतिमुपेच्च’ मोदति,
सुखप्फल करिय सुखानि विन्दति ।

R. 167

समोजसा’ रसहरणी सुसण्ठिता,
इधागतो लभति रसग्गसग्गित’ ॥

25

“तेनाहु न अतिनिपुणा विचक्खणा,
अय नरो सुखबहुलो भविस्सति ।

१ समवाहरसहरणियो – स्या० समभिवाहिनियो – रो०, समावाहिनियो – सी० ।
२-२ न पाणिना न च पन दण्डलेड्डुना – स्या० रो० । ३ पुन – सी० रो० । ४
विहेठयि – स्या० । ५ सुगतिसु पेच्च – सी०, स्या० । ६ समपज्जसा – रो०, पामुञ्जसा –
स्या०, सामञ्जसा – सी० । ७ रसग्गि० – स्या० ।

गिहिस्स वा पब्बजितस्स वा पुन,
त लक्खण भवति तदत्थजोतक"ति ॥

(२१-२२) अभिनीलनेत्तता गोपखुमता च

३१ "य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भवं पुरिम
निकेत पुब्बे मनुस्सभूतो समानो न च विसट्ट न च विसाचि' न च पन
विचेय्य' पेक्खिता उजु' तथा पसट्टमुजुमनो * पियचक्खुना बहुजन उदक्खिता' 5
अहोसि, सो तस्स कम्मस्स कटत्ता पे० सो ततो चुतो इत्थत्त आगतो
समानो इमानि द्वे महापुरिसलक्खणानि पटिलभति - अभिनीलनेत्तो च होति
गोपखुमो च ।

"सो तेहि लक्खणेहि समन्नागतो, सचे अगार अज्झावसति, राजा
होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो किं लभति ? पियदस्सनो होति, 10
बहुनो जनस्स पियो होति मनापो ब्राह्मणगहपतिकान नेगमजानपदान
गणकमहामत्तान अनीकट्टान' दोवारिकान अमच्चान पारिसज्जान राजून R
भोगियान' कुमारान । राजा समानो इद लभति पे० बुद्धो समानो किं
लभति ? पियदस्सनो होति, बहुनो जनस्स पियो होति मनापो भिक्खून
भिक्खुनीन उपासकान उपासिकान देवान मनुस्सान असुरान नागान 15
गन्धब्बान । बुद्धो समाना इद लभति" । एतमत्थ भगवा अबोच ।

३२ तत्थेत वुच्चति -

"न च विसट्ट न च विसाचि , न च पन विचेय्यपेक्खिता ।
उजु तथा पसट्टमुजुमनो, पियचक्खुना बहुजन उदक्खिता ॥

"सुगतीसु सो फलविपाक,
अनुभवति तत्थ मोदति ।

इध च पन भवति गोपखुमो,
अभिनीलनेत्तनयनो सुदस्सनो ॥

"अभियोगिनो च निपुणा,
बहू पन' निमित्तकोविडा ' 25

१ विसाचि - स्या०, विसाभित - रो० । २ विधय्य - स्या० । ३ उजु - म० ।

* एत्थ स्या० पेत्यके 'हुत्वा उजुपेक्खिता अहोसि इति अघिको पाठो विज्जति । ४ उदक्खिता -
स्या० । ५ अणिकट्टान' - सी० । ६ भोगिकान - स्या० । ७ विसाची - सी० । ८ पद -
स्य० ।

सुखुमनयनकुसला^१ मनुजा,
पियदस्सनो ति अभिनिहिसन्ति^२ न ॥

“पियदस्सनो गिही पि सन्तो च,
भवति बहुजनपियायितो^३”

R 169 5

यदि च न भवति गिही^४ समणो होति
पियो बहून सोकनासनो^५” ति ॥

(२३) उण्हीससीसता

३३ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम
निकेत पुब्बे मनुस्सभूतो समानो बहुजनपुब्बङ्गमो अहोसि कुसलेसु धम्मेषु
बहुजनपामोक्खो कायसुचरिते वचिसुचरिते मनोसुचरिते^६ दानसविभागो
10 सीलसमादाने उपोसथुपवासे मत्तेय्यताय पेत्तेय्यताय मामञ्जताय
ब्रह्मञ्जताय कुले जेट्ठापचायिताय अञ्जतरञ्जतरसेसु च अधिकुसलेसु
धम्मेषु, सो तस्स कम्मस्स कटत्ता पे० सो ततो चुतो इत्थत्त
आगतो समानो इम महापुरिसलक्खण पटिलभति – उण्हीससीसो होति ।

“सो तेन लक्खणेन समन्नागतो, सचे अगार अञ्जावसति, राजा
15 होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो किं लभति ? महास्स जनो
अन्वायिको होति ब्राह्मणगहपतिका नेगमजानपदा गणकमहामत्ता अनीकट्ठा
दोवारिका अमच्चा पारिसज्जा राजानो भोगिया कुमारा । राजा समानो
इद लभति पे० बुद्धो समानो किं लभति ? महास्स जनो अन्वायिको
होति भिक्खू भिक्खुनियो उपासका उपासिकायो देवा मनुस्सा असुरा
20 नागा गन्धब्बा । बुद्धो समानो इद लभति” । एतमत्थ भगवा अबोच ।

B 138

३४ तत्थेत वुच्चति –

“पुब्बङ्गमो सुचरितेसु अहु,
धम्मेषु धम्मचरियाभिरतो ।

25

अन्वायिको बहुजनस्स अहु,
सगोसु वेदयित्थ^६ पुञ्जफल ॥

“वेदित्वा सो सुचरितस्स फल,
उण्हीससीसत्तमिधज्जगमा ।

R 170

१ गोपखुम० – स्या० । २ अभिनन्दसति – स्या० । ३ ० पियायको – स्या० । ४
गिहि – स्या० । ५-५ कायसुचरितेन वचिसुचरितेन मनोसुचरितेन – स्या० । ६ वेदयिथ – स्या० ।

ब्याकसु ब्यञ्जननिमित्तधरा,
पुब्बङ्गमो बहुजनं हेस्सति ॥

“पटिभोगिया” मनुजेसु इध,
पुब्बेव तस्स अभिहरन्ति तदा ।

यदि खत्तिथो भवति भूमिपति,
पटिहारक् बहुजने लभति ॥

5

“अथ चे पि पब्बजति सो मनुजो,
धम्मेसु होति पगुणो विसवी ।

तस्सानुसासनिगुणाभिरतो,

अन्वायिको बहुजनो भवती” ति ॥

10

(२४-२५) एकैकलोमता उण्णाभमुकन्तरत्ता च

३५ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जाति पुरिम भव पुरिम
निकेत पुब्बे मनुस्सभूतो समानो मुसावाद पहाय मुसावादा पटिविरतो अहोसि
सच्चवादी सच्चसन्धो थेतो पच्चयिको अविस्वादको लोकस्स, सो तस्स
कम्मस्स कटत्ता उपचितत्ता पे० सो ततो चुतो इत्थत्त आगतो समानो
इमानि द्वे महापुरिसलक्खणानि पटिलभति - एकैकलोमो च होति उण्णा
च भमुकन्तरे जाता होति ओदाता मुदुतूलसन्निभा ।

15

“सो तेहि लक्खणेहि समन्नागतो, सचे अगार अज्झावसति, राजा
होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो कि लभति ? महास्स जनो उप-
वत्तति ब्राह्मणगहपतिका नेगमजानपदा गणकमहामत्ता अनीकट्टा दोवारिका
अमच्चा पारिसज्जा राजानो भोगिया कुमारा । राजा समानो इदं लभति
पे० बुद्धो समानो कि लभति ? महास्स जनो उपवत्तति भिक्खू
भिक्खुनियो उपासका उपासिकायो देवा मनुस्सा असुरा नागा गन्धब्बा ।
बुद्धो समानो इदं लभति” । एतमत्थं भगवा अवोच ।

R 171

20 B 139

३६ तत्थेत वुच्चति -

“सच्चप्पटिञ्जो पुरिमासु जातिसु,

अद्वेज्जभाचो अलिक विवज्जाय ।

25

न सो विसवादयिता पि कस्सच्चि,

भूतेनं तच्छेन तथेन भासयि ।

१ बहुज - रो० । २ हेस्स गय - सी०, रो० । ३ पटिभोगियाणि - रो०, स्या० । ४
पोसयि - रो० ।

“सेता सुसुक्का मुद्रुतूलसन्निभा,
उण्णा सुजाता भमुकन्तरे अहु ।
न लोमकूपेसु दुवे अजायिसु,
एकेकलोमूपचितङ्गवा अहु ॥

5 “त लक्खणञ्जू बहवो समागता,
ब्याकसु उप्पादनिमित्तकोविदा ।
उण्णा च लोमा च यथा सुसण्ठिता,
उपवत्तती^१ ईदिसक बहुज्जनो^२ ॥

10 “गिहि पि सन्त उपवत्तती जनो,
बहु पुरत्थापकतेन कम्मुना ।
अकिञ्चन पब्बजित अनुत्तर,
बुद्ध पि सन्त उपवत्तति जनो” ति ॥

(२६-२७) चत्तालीसदन्तता अविरळदन्तता च

3७ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जातिं पुरिम भव पुरिम
निकेत पुब्बे मनुस्सभूतो समानो पिसुण वाच पहाय पिसुणाय वाचाय पटि
15 विरतो अहोसि, इतो सुत्वा न अमुत्र अक्खाता इमेस भेदाय, अमुत्र वा
सुत्वा न इमेस अक्खाता अमूस भेदाय, इति भिन्नान वा सन्धाता, सहितान
वा अनुप्पदाता, समगगारामो समगगरतो समगगनन्दी समगगकरण वाच
भासिता अहोसि, सो तस्स कम्मस्स कटत्ता पे० सो ततो चुतो इत्थत्त
आगतो समानो इमानि द्वे महापुरिसलक्खणानि पटिलभति - चत्तालीस
20 दन्तो च होति अविरळदन्तो च ।

“सो तेहि लक्खणेहि समन्नागतो, सचे अगार अज्झावसति, राजा
होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो कि लभति ? अभेज्जपरिसो होति,
अभेज्जास्स^१ होन्ति परिसा ब्राह्मणगहपतिका नेगमजानपदा गणकमहामत्ता
अनीकट्टा दोवारिका अमच्चा पारिसज्जा राजानो भोगिया कुमारो -
25 राजा समानो इद लभति पे० बुद्धो समानो कि लभति ? अभेज्ज-
परिसो होति अभेज्जास्स होन्ति परिसा भिक्खू भिक्खुनियो उपासका

१ उपवत्तति - स्या०, रो० । २ बहुजनो - स्या० । ३ अभज्जस्स - स्या० ।
४ रो० पोत्थके नत्थि ।

उपासिकायो देवा मनुस्सा असुरा नागा गन्धब्बा । बुद्धो समानो इद
लभति” । एतमत्थ भगवा अबोच ।

३८ तत्थेत वुच्चति -

“वेभूतिय^१ सहितभेदकारि,
भेदप्पवड्डुनविवादकारि ।

5

कलहप्पवड्डुनअकिच्चकारि,
सहितान भेदजननि न भणि ॥

“अविवादवड्डुनकरि^२ सुगिर^३,
भिन्नानुसन्धिजननि अभणि ।

10 R 17

कलह जनस्स पनुदी समङ्गी,
सहितेहि नन्दति पमोदति च ॥

“सुगतीसु सो फलविपाक,
अनुभवति तत्थ मोदति ।
दन्ता इध होन्ति अविरळा^४ सहिता,
चतुरो दसस्स मुखजा सुसण्ठिता ॥

15

B 1'

“यदि खत्तियो भवति भूमिपति,
अविभेदियास्स^५ परिसा भवति ।
समणो च होति विरजो विमलो^६,
परिसास्स होति अनुगता अचला” ति ॥

(२८-२९) पहूतजिह्वता ब्रह्मस्सरता च

३९ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जातिं पुरिम भव पुरिम 20
निकेत पुब्बे मनुस्सभूतो समानो फरुस वाच पहाय फरुसाय वाचाय
पटिविरतो अहोसि, या सा वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया हृदयङ्गमा
पोरी बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपि वाचा भासिता अहोसि, सो
तस्स कम्मस्स कटत्ता उपचितत्ता पे० सो ततो चुतो इत्थत्त आगतो
समानो इमानि द्वे महापुरिसलक्खणानि पटिलभति - पहूतजिह्वो च होति 25
ब्रह्मस्सरो च करवीकभाणी ।

१ सवेभूतिय - स्या० । २ ० कारि - रो० ० कारी - सी० । ३ चिर - रो० ।

४ मोदति - रो० । ५ अविवरा - रो० । ६ अविहेट्ठिया - रो० अविभेदयस्स - स्या० ।

७ भवन्ति - सी० । ८ वीतमलो - सी० ।

“सो तेहि लक्खणेहि समन्नागतो, सचे अगार अज्झावसति, राजा होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो किं लभति ? आदेय्यवाचो होति, आदियन्तिस्स वचनं ब्राह्मणगहपतिका नेगमजानपदा गणकमहामत्ता अनीकट्टा दोवारिका अमच्चा पारिसज्जा राजानो भोगिया कुमारा ।
 R 174 5 राजा समानो इदं लभति पे० बुद्धो समानो किं लभति ? आदेय्यवाचो होति, आदियन्तिस्स वचनं भिक्खू भिक्खुनियो उपासका उपासिकायो देवा मनुस्सा असुरा नागा गन्धब्बा । बुद्धो समानो इदं लभति” । एतमत्थं भगवा अवोच ।

४० तत्थेत वुच्चति—

10

“अक्कोसभण्डनविहेसकारि,
 उब्बाधिकं बहुजनप्पमद्दं
 अब्बाहं गिर सो न भणि फरस,
 मधुरं भणिं सुसहितं सखिलं ॥

B 142

15

“मनसो पिया हृदयगामिनियो,
 वाचा सो एरयति कण्णसुखा ।
 वाचासुचिण्णफलमनुभवि,
 सग्गोसु वेदयथ पुञ्जफलं ॥

20

“वेदित्वा सो सुचरितस्स फल,
 ब्रह्मस्सरत्तमिधमज्झगमा ।
 जिब्हास्स होति विपुला पुथुला,
 आदेय्यवाक्यवचनो भवति ॥

R 175

25

“गिहिनो पि इज्झति यथा भणतो,
 अथ चे पब्बजति सो मनुजो ।
 आदियन्तिस्स वचनं जनता,
 बहूनां बहु सुभणितं भणतो” ति ॥

(३०) सीहहनुता

४१ “यं पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिमं जातिं पुरिमं भव पुरिमं निकेतं पुब्बे मनुस्सभूतो समानो सम्फप्पलापं पहाय सम्फप्पलापा पटि-

१ भणी - सी० । २ सुसहित - स्या० । ३ ० मानुभवि - रो० । ४ वेदयिथ - स्या० ।
 ५ थूला - रो० । ६ आदियन्तिस्स - स्या० । ७ जनका - स्या० । ८ भणित - रो० ।

विरतो अहोसि कालवादी भूतवादी अत्यवादी धम्मवादी विनयवादी,
निधानवति वाच भासिता अहोसि^१ कालेन सापदेस परियन्तवति अत्य-
सहित, सो तस्स कम्मस्स कटत्ता पे० सो ततो चुतो इत्थत्त आगतो
समानो इम महापुरिसलक्खण पटिलभति - सीहहनु होति ।

“सो तेन लक्खणेन समन्नागतो, सचे अगार अज्झावसति, राजा 5
होति चक्कवत्ती पे० राजा समानो किं लभति ? अप्पघसियो^२
होति केनचि मनुस्सभूतेन पच्चत्थिकेन पच्चामित्तेन । राजा समानो
इद लभति पे० बुद्धो समानो किं लभति ? अप्पघसियो होति
अब्भन्तरेहि वा बाहिरेहि वा पच्चत्थिकेहि पच्चामित्तेहि रागेन वा
दोसेन वा मोहेन वा समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा 10
ब्रह्मना^३ वा केनचि वा लोकस्मि । बुद्धो समानो इद लभति” । एतमत्थ
भगवा अवोच ।

४२ तत्थेत वुच्चति -

B 1

“न सम्फप्पलाप न मुद्धत,
अविकिण्णवचनव्यप्पथो अहोसि ।

15

अहितमपि च अपनुदि,
हितमपि च बहुजनसुख च अभणि ॥

“त कत्वा^४ इतो चुतो दिवमुपपज्जि^५,
सुकतफलविपाकमनुभोसि ।

R 1

चविय पुनरिधागतो समानो,
द्विदुग्गमवरतरहनुत्तमलत्थ ॥

20

“राजा होति सुदुप्पघसियो,
मनुजिन्दो मनुजाधिपति^६ महानुभावो ।

तिदिवपुरवरसमो भवति,
सुरवरतरोरिव इन्दो ॥

25

“गन्धब्बासुरयक्खरक्खसेभि^७,
सुरेहि न हि भवति सुप्पघसियो ।

१ स्या०, सी० पोत्यकेसु नत्थि । २ अप्पघसिको - सी० स्या०, रो० । ३ ब्रह्मणा - रो० ।
४ वुच्चदत्त ति - स्या०, बुद्धत ति - सी० । ५ कत्वान - स्या०, रो० । ६ दिव्व० - रो० ।
७ द्विदुग्गम० - सी०, स्या० । ८ मनुजानधिपति - सी० मनुजानाधिपति - रो० । ९
०सक्क० - स्या०, रो० ।

तथत्तो यदि भवति * तथाविधो,

इध दिसा च पटिदिसा च विदिसा चा” ति ।।

(३१-३२) समदतता सुक्कदाठता च

४३ “य पि, भिक्खवे, तथागतो पुरिम जातिं पुरिम भव पुरिम
निकेत पुब्बे मनुस्सभूतो समनो मिच्छाजीव पहाय सम्माआजीवेन जीविक
5 कप्पेसि, तुलाकूट-कसकूट-मानकूट-उक्कोटन-वञ्चन-निकति-साचियोग-छेदन-
वध-बन्धन-विपरामोस-आलोप-सहसाकारा पटिविरतो अहोसि, सो, तस्स
R 177 कम्मस्स कटत्ता उपचितत्ता उस्सन्नत्ता विपुलत्ता, कायस्स भेदा पर मरणा
सुर्गतिं सग्ग लोक उपपज्जति । सो तत्थ^१ अञ्जे देवे दसहि ठानेहि अधि-
गण्हाति-दिब्बेन आयुना, दिब्बेन वण्णेन, दिब्बेन सुखेन, दिब्बेन
10 यसेन, दिब्बेन आधिपतेय्येन, दिब्बेहि रूपेहि, दिब्बेहि सद्देहि, दिब्बेहि
B 144 गन्धेहि, दिब्बेहि रसेहि, दिब्बेहि फोट्टब्बेहि । सो ततो चुतो इत्थत्त आगतो
समानो इमानि द्वे महापुरिसलक्खणानि पटिलभति - समदन्तो च होति
सुसुक्कदाठो च ।

सो तेहि लक्खणेहि समन्नागतो, सचे अगार अज्झावसति, राजा
15 होति चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरि-
यप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सिमानि सत्त रतनानि भवन्ति, सेय्यथिद^२
-चक्करतन, हत्थिरतन, अस्सरतन, मणिरतन, इत्थिरतन^३, गहपतिरतन,
परिणायकरतनमेव^४ सत्तम । परोसहस्स खो पनस्स पुत्ता भवन्ति सूरा
वीरङ्ग रूपा परसेनप्पमद्दना । सो इम पठवि सागरपरियन्त अखिलमनिमित्तम-
20 कण्टक इद्ध फीत खेम सिव निरब्बुद अदण्डेन असत्थेन धम्मेना अभिविजिय
अज्झावसति । राजा समानो किं लभति ? सुचिपरिवारो होति, सुचिस्स
होन्ति परिवारा ब्राह्मणगहपतिका नेगमजानपदा गणकमहामत्ता अनीकट्टा
दोवारिका अमच्चा पारिसज्जा राजानो भोगिया कुमारा । राजा समानो
इद लभति ।

25 “सचे खो पन अगारस्सा अनगारिय पब्बजति, अरह होति सम्मा-
सम्बुद्धो लोके विवट्टच्छदो । बुद्धो समानो किं लभति ? सुचिपरिवारो
होति, सुचिस्स होन्ति परिवारा भिक्खू भिक्खुनियो उपासका उपासिकायो

* एत्थ रो० पोत्थके ‘गिही इति अधिको पाठो दिस्सति । १ तस्स - स्या० । २ सेय्यथिद -
स्या०, रो० । ३ इत्थिरतन - स्या० । ४ परिनायक० - सी० । † एत्थसी० स्या० पोत्थकेसु
‘समेन’ इति अधिको पाठो दिस्सति ।

देवा मनुस्सा असुरा नागा गन्धब्बा । बुद्धो समानो इद लभति' । एतमत्थ
भगवा अवोच ।

४४ तत्थेत वुच्चति —

‘मिच्छाजीव च अवस्सजि समेन वुत्ति,
सुचिना सो जनयित्थ धम्मिकेन । 5
अहितमपि च अपनुदि,
हितमपि च बहुजनसुख च अचरि' ॥ R. 1

‘सग्गे वेदयति नरो सुखप्फलानि',
करित्वा निपुणेभि विदूहि सन्धि' ।
वण्णितानि तिदिवपुरवरसमो, 10
अभिरमति रतिखिड्डासमङ्गी ॥

‘लद्धान' मानुसक' भव ततो,
चवित्वान' * सुकतफलविपाक । B 14
सेसकेन पटिलभति लपनज,
सममपि सुचिसुसुक्क ॥ 15

‘त वेय्यञ्जनिना समागता बहवो,
ब्याकसु निपुणसम्मता मनुजा' ।
सुचिजनपरिवारगणो भवति,
दिजसमसुक्कसुचिसोभनदन्तो' ॥

‘रञ्जो होति बहुजनो, 20
सुचिपरिवारो महर्ति' महि अनुसासतो' ।
पस्य्ह न च जनपदतुदन,
हितमपि च बहुजनसुख च' चरन्ति ॥ R. 17

‘अथ चे पब्बजति भवति विपापो,
समणो समितरजो विवट्टच्छदो । 25'

१ आचरि — रो० । २ सुफलानि — स्या० । ३ समभि० — रो० । ४ अलद्धान — स्या०
लद्धा — सी०, रो० । ५ मनुसक — स्या० । ६ चविय — स्या०, रो० चवित्वा — सी० । * एत्थ 'पुन'
इति अधिको पाठो स्या० पेत्यके दिस्सति । ७ सुचि च सुविसुद्धसुसुक्क — स्या०, सुविसुद्ध
सुविसुक्क — रो० । ८ मनुजिन्दा — रो० । ९ विजा० — रो० । १० महति — रो०, महतिम —
स्या० । ११ अनुसासको — सी० । १२ स्या०, रो० पेत्यकेसु नत्थि ।

विगतदरथकिलमथो,

इममपि^१ च परमपि^२ च पस्सति लोक ।

“तस्सोवादकरा बहुगिही च पब्बजिता च,

असुचि^३ गरहित धुनन्ति पाप^४ ।

स^५ हि सुचिभि^६ परिवुतो भवति,

मलखिलकलिकिलेसे पनुदेही^७” ति ॥

5

इदमवोच^१ भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित अभि-
नन्दु ति^१ ।

लक्षणमुत्त निद्धित सत्तम ।

— ० —

१ पर पि - स्या० । २ परम पि - स्या० । ३ असुचि - स्या० । ४-४ विगरहित -
रो०, विगरहितपनुदिपापस्स - स्या० । ५ स्या० पोत्थके नत्थि । ६ सुचि० - रो० ।
७ मलखील० - सी० । ८ पनुदेती - सी०, रो० पनुदेभी - स्या० । ९-९ सी०, रो०
पोत्थकेसु नत्थि ।

८. सिङ्गालसुत्तं

§ १ सिङ्गालको गहपतिपुत्तो

१ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति वेळुवने कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन सिङ्गालको^१ गहपतिपुत्तो कालस्सेव वुट्टाय^२ राजगहा निक्खमित्वा अल्लवत्थो अल्लकेसो पञ्जलिको पुथुदिसा^३ नमस्सति – पुरत्थिम दिस, दक्खिण दिस, पच्छिम दिस, उत्तर दिस, हेट्ठिम दिस, उपरिम दिस ।

B 1
R 1

5

२ अथ खो भगवा पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय राजगह पिण्डाय पाविसि । अद्दसा खो भगवा सिङ्गालक गहपतिपुत्त कालस्सेव वुट्टाय राजगहा निक्खमित्वा अल्लवत्थ अल्लकेस पञ्जलिक पुथुदिसा नमस्सन्त – पुरत्थिम दिस, दक्खिण दिस, पच्छिम दिस, उत्तर दिस, हेट्ठिम दिस, उपरिम दिस । दिस्वा^४ सिङ्गालक गहपतिपुत्त एतदवोच – किं नु खो त्व, गहपतिपुत्त, कालस्सेव वुट्टाय राजगहा निक्खमित्वा अल्लवत्थो अल्लकेसो पञ्जलिको पुथुदिसा नमस्ससि – पुरत्थिम दिस, दक्खिण दिस, पच्छिम दिस, उत्तर दिस, हेट्ठिम दिस, उपरिम दिस” ति ?

R

10

“पिता म, भन्ते, काल करोन्तो एव अवच – ‘दिसा, तात, नमस्सेय्यासी’ ति । सो खो अह, भन्ते, पितुवचन सक्करोन्तो गरु करोन्तो मानेन्तो पूजेन्तो कालस्सेव वुट्टाय राजगहा निक्खमित्वा अल्लवत्थो अल्लकेसो पञ्जलिको पुथुदिसा नमस्सामि – पुरत्थिम दिस, दक्खिण दिस, पच्छिम दिस, उत्तर दिस, हेट्ठिम दिस, उपरिम दिस” ति ।

15

§ २ एव छ दिसा नमस्सितब्बा

३ “न खो, गहपतिपुत्त, अरियस्स विनये एव छ दिसा नमस्सितब्बा” ति ।

20

“यथा कथ पन, भन्ते, अरियस्स विनये छ दिसा नमस्सितब्बा ? साधु मे, भन्ते, भगवा तथा धम्म देसेतु यथा अरियस्स विनये छ दिसा नमस्सितब्बा” ति ।

१ सिङ्गालकसुत्त – स्या०, सिङ्गालसुत्त – सी०, सिङ्गालोवादसुत्तन्त – रो० । २ सिङ्गालको – सी० । ३ उट्टाय – म० । ४ पुथुदिसा – सी० । ५ दिस्वान – स्या० ।

“तेन हि, गहपतिपुत्त, सुणोहि^१, साधुक मनसिकरोहि, भासि-
स्सामी” ति ।

“एव, भन्ते” ति खो सिङ्गालको^२ गहपतिपुत्तो भगवतो पच्च-
स्सोसि । भगवा एतदवोच - “यतो खो, गहपतिपुत्त, अरियसावकस्स
५ चत्तारो कम्मकिलेसा पहीना^३ होन्ति, चतूहि च ठानेहि पापकम्म न
करोति, छ च भोगान अपायमुखानि न सेवति, सो एव चुद्दस पापका
पगतो छद्दिसापटिच्छादी उभोलोकविजयाय पटिपन्नो होति । तस्स अयञ्चेव
लोको आरद्धो होति परो च लोको । सो कायस्स भेदा पर मरणा सुगतिं
सग्ग लोक उपपज्जति ।

(१) चत्तारो कम्मकिलेसा पहीना होति

४ “कतमस्स चत्तारो कम्मकिलेसा पहीना होन्ति ? पाणातिपातो
खो, गहपतिपुत्त, कम्मकिलेसो, अदिन्नादान कम्मकिलेसो, कामेसुमिच्छा-
चारो कम्मकिलेसो, मुसावादो कम्मकिलेसो - इमस्स चत्तारो कम्मकिलेसा
पहीना होन्ती” ति । इदमवोच भगवा । इद वत्वान^४ सुगतो अथापर
एतदवोच सत्था -

R 182 15 “पाणातिपातो^५ अदिन्नादान, मुसावादो च वुच्चति ।
परदारगमनञ्चेव, नप्पससन्ति पण्डिता” ति ॥

(२) चतूहि ठानेहि पापकम्म न करोति

५ “कतमेहि चतूहि^६ ठानेहि पापकम्म न करोति ? छन्दागति
गच्छन्तो पापकम्म करोति, दोसागति गच्छन्तो पापकम्म करोति, मोहा-
गतिं गच्छन्तो पापकम्म करोति, भयागतिं गच्छन्तो पापकम्म करोति ।
२० यतो खो, गहपतिपुत्त, अरियसावको नेव छन्दागति गच्छति, न दोसा-
गति गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति, इमेहि चतूहि
ठानेहि पापकम्म न करोती” ति । इदमवोच भगवा । इद वत्वान
सुगतो अथापर एतदवोच सत्था-

“छन्दा दोसा भया मोहा, यो धम्म अतिवत्तति ।
२५ निहीयति यसो तस्स, काळपक्खे^७ व चन्दिमा ॥

१ सुणाहि - सी०, स्या०, रो० । २ सिंगालो - सी० । ३ पहीणा - सी० । ४ छाद्दसा
पटिच्छादी - सी०, स्या० । ५ वत्वा - सी० । ६ पाणातिपात - सी० । ७ पवुच्चति - स्या० ।
८ चतुहि - रो० । ९ कालपक्खे - रो० ।

“छन्दा दोसा भया मोहा, यो धम्म नातिवत्तति ।
आपूरति यसो तस्स, सुक्कपक्खे व चन्दिमा” ति ॥

(३) छ अपायमुखानि न सेवति

६ “कतमानि छ भोगान अपायमुखानि न सेवति ? सुरामरय-
मज्जप्पमादट्टानानुयोगो^१ खो, गहपतिपुत्त, भोगान अपायमुख, विकाल-
विसिखाचरियानुयोगो भोगान अपायमुख, समज्जाभिचरण भोगान 5
अपयमुख, जूतप्पमादट्टानानुयोगो भोगान अपायमुख, पापमित्तानुयोगो
भोगान अपायमुख, आलस्यानुयोगो^२ भोगान अपायमुख ।

सुरामेरयस्स छ आदीनवा

७ “छ खोमे, गहपतिपुत्त, आदीनवा सुरामेरयमज्जप्पमादट्टानानु-
योगे । सन्दिट्टिका धनजानि, कलहप्पवड्डनी, रोगान आयतन, अकित्ति-
सञ्जननी, कोपीननिदसनी^३, पञ्चाय दुब्बलिकरणीत्वेव छट्ट पद भवति — 10 R 183
इमे खो, गहपतिपुत्त, छ आदीनवा सुरामेरयमज्जप्पमादट्टानानुयोगे^४ ।

विकालचरियाय छ आदीनवा

८ “छ खोमे, गहपतिपुत्त, आदीनवा विकालविसिखाचरियानु-
योगे । अत्ता पिस्स अगुत्तो अरक्खितो होति, पुत्तदारो पिस्स अगुत्तो अर-
क्खितो होति, सापतेय्य पिस्स अगुत्त अरक्खित होति, सङ्घियो च होति
पापकेसु^५ ठानेसु, अभूतवचन च तस्मि रूहति, बहून च दुक्खधम्मान 15
पुरक्खतो होति — इमे खो, गहपतिपुत्त, छ आदीनवा विकालविसिखा-
चरियानुयोगे ।

समज्जाभिचरणस्स छ आदीनवा

९ “छ खोमे, गहपतिपुत्त, आदीनवा समज्जाभिचरणे । क्व
नच्च, क्व गीत, क्व वादित, क्व अक्खान^६, क्व पाणिस्सर, क्व कुम्भथुन^७ ति—
इमे खो, गहपतिपुत्त, छ आदीनवा समज्जाभिचरणे । 20

जूतप्पमादस्स छ आदीनवा

१० “छ खोमे, गहपतिपुत्त, आदीनवा जूतप्पमादट्टानानुयोगे ।
जय वेर पसवति, जिनो वित्तमनुसोचति, सन्दिट्टिका धनजानि, सभागतस्स 5
B 149

१ सुरामेरयमज्जपमाद० — स्या०, रो० । २ आलस्सा० — सी०, स्या० रो० । ३ हिरि
कोपिननिदसनी — स्या० कोपीननिदसनी — रो० । ४ दुब्बलीकरणीत्वेव — सी० स्या०, रो० ।
५ सुरामेरयमज्जपमादट्टानानुयोगो — रो० । ६ तैसु तैसु — स्या० । ७ कुव — रो० । ८ अक्खात —
स्या० । ९ कुम्भथुन — स्या०, रो०, कुम्भथुण — सी० ।

वचन न रूहति, मित्तामच्चान परिभूतो होति, आवाहविवाहकान अपत्थितो होति - 'अक्खधुत्तो अय पुरिसपुग्गलो नाल दारभरणाया' ति - इमे खो, गहपतिपुत्त, छ आदीनवा जूतप्पमादट्टानानुयोगे ।

पापमित्तताय छ आदीनवा

११ "छ खोमे, गहपतिपुत्त, आदीनवा पापमित्तानुयोगे । ये धुत्ता, ये सोण्डा, ये पिपासा, ये नेकतिका, ये वञ्चनिका, ये साहसिका त्यास्स'
R 184 मित्ता होन्ति ते सहाया - इमे खो, गहपतिपुत्त, छ आदीनवा पापमित्तानु-
योगे ।

आलस्यस्स छ आदीनवा

२ "छ खोमे, गहपतिपुत्त, आदीनवा आलस्यानुयोगे । अतिसीत
ति कम्म न करोति, अतिउण्ह ति कम्म न करोति, अतिसाय ति कम्म
10 न करोति, अतिपातो ति कम्म न करोति, अतिछातोस्मी^३ ति कम्म न
करोति, अतिघातोस्मी^४ ति कम्म न करोति, तस्स एव किच्चापदेसबहुलस्स
विहरतो अनुप्पन्ना चेव भोगा नुप्पज्जन्ति, उप्पन्ना च भोगा परिक्खय
गच्छन्ति - इमे खो, गहपतिपुत्त, छ आदीनवा आलस्यानुयोगे" ति ।

इदमवोच भगवा । इद वत्वान सुगतो अथापर एतदवोच सत्था -

15 "होति पानसखा नाम, होति सम्पियसम्पियो" ।
यो च अत्थेसु जातेसु, सहायो होति सो सखा ॥

B 150

"उस्सूरसेय्या परदारसेवना,
वेरप्पसवो^५ च अनत्थता च ।

पापा च मित्ता सुकदरियता च,
20 एते छ ठाना पुरिस धंसयन्ति ॥

"पापमित्तो पापसखो, पापआचारगोचरो ।
अस्मा लोका परम्हा च, उभया धसते नरो ॥

"अक्खित्थियो वारुणी नच्चगीत,
दिवा सोप्प पारिचरिया अकाले^६ ।

25 पापा च मित्ता सुकदरियता च,
एते छ ठाना पुरिस धंसयन्ति ॥

१ त्यस्स - सी० । २ अतिच्छातोस्मी - स्या० । ३ अतिपिपासितोस्मी - स्या० ।
४ सम्पियसम्पियो - स०, रो०, स्या० । ५ वेरप्पसङ्गो - स्या०, रो० । ६ अकाल - रो०

“अक्खेहि दिब्बन्ति सुर पिवन्ति,
यन्तित्थियो पाणसमा परेस ।

निहीनसेवी न च बुद्धसेवी,
निहीयते^१ काळपक्खे व चन्दो^३ ॥

R 185

“यो वारुणी अद्धनो^४ अकिञ्चना^५,
पिपासो पिव^६ पपागतो^७ ।

5

उदकमिव इण विगाहति,
अकुल^८ काहिति^९ खिप्पमत्तनो ॥

“न दिवा सोप्पसीलेन^{१०}, रत्तिमुट्टानदेस्सिना^{११} ।
निच्च मत्तेन सोण्डेन, सक्का आवसितु घर ॥

10

“अतिसीत अतिउण्ह, अतिसायमिद अहु ।
इति विस्सट्टकम्मन्ते^{१२}, अत्था अच्चेन्ति माणवे^{१३} ॥

“योध^{१४} सीत च उण्ह च, तिणा भिय्यो न मञ्जति ।
कर पुरिसकिच्चानि, सो सुख^{१५} न विहायती” ति ॥

B 151

३ अमिता मित्तपतिरूपका वेदितब्बा

१३ “चत्तारोमे, गहपतिपुत्त, अमिता मित्तपतिरूपका” वेदि- 15
तब्बा – अञ्जदत्थुहरो अमित्तो मित्तपतिरूपको वेदितब्बो, वचीपरमो अमित्तो
मित्तपतिरूपको वेदितब्बो, अनुप्पियभाणी अमित्तो मित्तपतिरूपको वेदि-
तब्बो, अपायसहायो अमित्तो मित्तपतिरूपको वेदितब्बो ।

१४ “चतूहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि अञ्जदत्थुहरो अमित्तो
मित्तपतिरूपको वेदितब्बो ।

R 186

20

“अञ्जदत्थुहरो होति, अप्पेन बहुमिच्छति ।
भयस्स किच्च करोति^{१६}, सेवति अत्थकारणा ॥

१ बुद्धिसेवी – सी०, बुद्धिसेवी – स्या० । २ निहीयति – स्या०, रो० । ३ चन्दिमा –
स्या० । ४ वारुणि – सी० । ५ अघनो – स्या० । ६ अमिच्छनो – स्या० । ७ पिपासोसि –
स्या० । ८-८ अत्थपागतो – स्या० । ९ आकुल – स्या० । १० काहिति – स्या०, रो० । ११
सुप्पनासीलेन – रो० सुप्पसीलेन – स्या० । १२ रत्तिमुट्टानदस्सना – रो० रत्तिमुट्टान-
देस्सिना – स्या० । १३ कम्मन्तो – रो० । १४ मानवे – रो० । १५ यो च – स्या० रो० ।
१६ सुखा – सी०, स्या०, रो० । १७ मित्तपतिरूपका – सी०, स्या०, रो० । १८ न करोति – स्या० ।

“इमेहि खो, गहपतिपुत्त, चतूहि ठानेहि अञ्जदत्थुहरो अमित्तो मित्तपतिरूपको वेदितब्बो ।

१५ “चतूहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि वचीपरमो अमित्तो मित्त-
पतिरूपको वेदितब्बो । अतीतेन पटिसन्थरति, अनागतेन पटिसन्थरति,
5 निरत्थकेन सङ्गणाति, पच्चुप्पन्नेसु किच्चेसु व्यसन दस्सेति - इमेहि खो,
गहपतिपुत्त, चतूहि ठानेहि वचीपरमो अमित्तो मित्तपतिरूपको वेदितब्बो ।

१६ “चतूहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि अनुप्पियभाणी अमित्तो
मित्तपतिरूपको वेदितब्बो । पापक पिस्स अनुजानाति, कल्याण पिस्स
अनुजानाति, सम्मुखास्स^१ वण्ण भासति, परम्मुखास्स अवण्ण भासति -
10 इमेहि खो, गहपतिपुत्त, चतूहि ठानेहि अनुप्पियभाणी अमित्तो मित्तपति-
रूपको वेदितब्बो ।

B 152

१७ “चतूहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि अपायसहायो अमित्तो
मित्तपतिरूपको वेदितब्बो । सुरामेरयमज्जप्पमादट्टानानुयोगे सहायो होति,
विकालविसिखाचरियानुयोगे सहायो होति, समज्जाभिचरणे सहायो होति,
15 जूतप्पमादट्टानानुयोगे सहायो होति - इमेहि खो, गहपतिपुत्त, चतूहि ठानेहि
अपायसहायो अमित्तो मित्तपतिरूपको वेदितब्बो” ति ।

१८ इदमवोच भगवा । इद वत्तान सुगतो अथापर एतदवोच
सत्था -

“अञ्जदत्थुहरो मित्तो, यो च मित्तो वचीपरो^२ ।
20 अनुप्पिय च यो आह^३, अपायेसु च यो सखा ॥
“एते अमित्ते चत्तारो, इति विञ्जाय पण्डितो ।
आरका परिवज्जेय्य, मग्ग पटिभय यथा” ति ॥

§ ४ मित्ता सुहदा वेदितब्बा

R 187

१९ “चत्तारोमे, गहपतिपुत्त, मित्ता सुहदा वेदितब्बा - उपकारको^४
मित्तो सुहदो वेदितब्बो, समानसुखदुक्खो मित्तो सुहदो वेदितब्बो,
25 अत्थक्खायी मित्तो सुहदो वेदितब्बो, अनुकम्पको मित्तो सुहदो वेदितब्बो ।

२० “चतूहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि उपकारको मित्तो सुहदो
वेदितब्बो । पमत्त रक्खति, पमत्तस्स सापत्तेय्य रक्खति, भीतस्स सरण

१ सम्मुखस्स - स्या० । २ वचीपरमो - स्या० । ३ आह - स्या० । ४ उपकारो - म०,
सी०, रो० ।

होति, उप्पन्नेसु^१ किच्चकरणीयेसु^२ तद्दिगुण भोग अनुप्पदेति^३ - इमेहि खो, गहपतिपुत्त, चतूहि ठानेहि उपकारको मिक्ता सुहदो वेदितब्बो ।

२१ “चतूहि खो गहपतिपुत्त, ठानेहि समानसुखदुक्खो मिक्ता सुहदो वेदितब्बो । गुय्हमस्स आचिक्खति, गुय्हमस्स परिगूहति^४ आपदासु न विजहंति, जीवित पिस्स अत्थाय पडिच्चत्त होति - इमेहि खो, गहपतिपुत्त, चतूहि ठानेहि समानसुखदुक्खो मिक्ता सुहदो वेदितब्बो ।

२२ “चतूहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि अत्थक्खायी मिक्ता सुहदो वेदितब्बो । पापा निवारति, कल्याणे निवेसेति, अस्सुत सज्जेति, सग्गस्स मग्ग आचिक्खति - इमेहि खो, गहपतिपुत्त, चतूहि ठानेहि अत्थक्खायी मिक्ता सुहदो वेदितब्बो ।

२३ “चतूहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि अनुकम्पको मिक्ता सुहदो वेदितब्बो । अभवेनस्स न नन्दति, भवेनस्स नन्दति, अवण्ण भणमान निवारति, वण्ण भणमान पससति - इमेहि खो, गहपतिपुत्त, चतूहि ठानेहि अनुकम्पको मिक्ता सुहदो वेदितब्बो” ति ।

२४ इदमवोच भगवा । इद वत्वान सुगतो अथापर एतदवोच सत्था -

“उपकारो च यो मिक्ता, सुखे^५ दुक्खे^६ च यो सखा । अत्थक्खायी च यो मिक्ता, यो च मिक्तानुकम्पको ॥

“एते पि मिक्ते चत्तारो, इति विञ्जाय पण्डितो । सक्कच्च पयिरूपासेय्य, माता पुत्त व ओरस । पण्डितो सीलसम्पन्नो, जल अग्गी व भासति ॥

“भोगे सहरमानस्स, भमरस्सेव इरीयतो । भोगा सन्निचय यन्ति, वम्मिकोवुपचीयति ॥

“एव भोगे समाहत्वा^७, अलमत्तो कुले गिही । चतुधा विभजे भोगे, स वे मिक्तानि गन्थति ॥

“एकेन भोगे भुञ्जेय्य, द्वीहि कम्म पयोजयो । चतुत्थ च निधापेय्य, आपदासु भविस्सती” ति ॥

१-१ उप्पन्ने किच्चकरणीये - सी० । २ अनुप्पादेति - रो० । ३ परियुहति - स्या० ।

४-४ सुखदुक्खो - सी०, स्या० । ५ समाहरित्वा - स्या०, समाहत्वा - सी० ।

§ ५ छद्दिसापटिच्छादन

२५ “कथं च, गृहपतिपुत्र, अरियसावको छद्दिसापटिच्छादी
होति ? छ इमा, गृहपतिपुत्र, दिसा वेदितब्बा – पुरत्थिमा दिसा मातापितरो
वेदितब्बा, दक्खिणा दिसा आचरिया वेदितब्बा, पच्छिमा दिसा पुत्रदारा
वेदितब्बा, उत्तरा दिसा मित्तमच्चा वेदितब्बा, हेट्ठिमा दिसा दासकम्मकरा^१
5 वेदितब्बा, उपरिमा दिसा समणब्राह्मणा वेदितब्बा ।

R 189
B 154

पुरत्थिमा दिसा मातापितरो

२६ “पञ्चहिं खो, गृहपतिपुत्र, ठानेहिं पुत्तेन पुरत्थिमा दिसा
मातापितरो पञ्चुपट्ठातब्बा – भतो ने^२ भरिस्सामि किञ्च नेस करिस्सामि,
कुलवस ठपेस्सामि, दायज्ज पट्टिपज्जामि, अथ वा पन पेतान कालङ्कतान^३
दक्खिण अनुप्पदस्सामी ति । इमेहिं खो, गृहपतिपुत्र, पञ्चहिं ठानेहिं पुत्तेन
10 पुरत्थिमा दिसा मातापितरो पञ्चुपट्ठिता पञ्चहिं ठानेहिं पुत्र अनुकम्पन्ति –
पापा निवारन्ति, कल्याणे निवेसेन्ति, सिप्प सिक्खापेन्ति, पतिरूपेण दारेण
सयोजेन्ति, समये दायज्ज निव्यादेन्ति । इमेहिं खो, गृहपतिपुत्र, पञ्चहिं
ठानेहिं पुत्तेन पुरत्थिमा दिसा मातापितरो पञ्चुपट्ठिता इमेहिं पञ्चहिं
ठानेहिं पुत्र अनुकम्पन्ति । एवमस्स एसा पुरत्थिमा दिसा पटिच्छन्ना होति
15 खेमा अप्पट्ठिभया ।

दक्खिणा दिसा आचरिया

२७ “पञ्चहिं खो, गृहपतिपुत्र, ठानेहिं अन्तेवासिना दक्खिणा
दिसा आचरिया पञ्चुपट्ठातब्बा – उट्ठानेन, उपट्ठानेन, सुस्सुसाय, पारि-
चरियाय, सक्कच्च सिप्पपट्टिग्गहणेन । इमेहिं खो, गृहपतिपुत्र, पञ्चहिं ठानेहिं
अन्तेवासिना दक्खिणा दिसा आचरिया पञ्चुपट्ठिता पञ्चहिं ठानेहिं अन्ते-
20 वासि अनुकम्पन्ति – सुविनीत विनेन्ति, सुग्गहित गाहापेन्ति, सब्बसिप्पस्सुत
समक्खायिनो भवन्ति, मित्तमच्चेसु पट्टियादेन्ति^४, दिसासु परित्ताण
करोन्ति । इमेहिं खो, गृहपतिपुत्र, पञ्चहिं ठानेहिं अन्तेवासिना दक्खिणा
दिसा आचरिया पञ्चुपट्ठिता इमेहिं पञ्चहिं ठानेहिं अन्तेवासि अनु-
कम्पन्ति । एवमस्स एसा दक्खिणा दिसा पटिच्छन्ना होति खेमा अप्पट्ठिभया ।

R 190

पच्छिमा दिसा भरिया

२८ “पञ्चहिं खो, गृहपतिपुत्र, ठानेहिं सामिकेण पच्छिमा

१ ०कम्मकरा पोरिसा – रो० । २ नेस – सी०, स्या०, रो० । ३ कालकत्तान – सी०
स्या०, रो० । ४ परिवेदेन्ति – रो०, पट्टिवेदेन्ति – स्या० ।

दिसा भरिया पच्चुपट्टातब्बा - सम्माननाय, अनवमाननाय', अनतिचरियाय, इस्सरियवोस्सग्गेन, अलङ्कारानुप्पदानेन । इमेहि खो, गहपतिपुत्त, पच्चहि ठानेहि सामिकेन पच्छिमा दिसा भरिया पच्चुपट्टिता पच्चहि ठानेहि सामिक अनुकम्पति - सुसविहितकम्मन्ता च होति, सङ्गहितपस्जिना^१ च, अनतिचारिनी च, सम्भत च अनुरक्खति, दक्खा च होति अनलसा 5 सव्वकिच्चेसु । इमेहि खो, गहपतिपुत्त, पच्चहि ठानेहि सामिकेन पच्छिमा दिसा भरिया पच्चुपट्टिता इमेहि पच्चहि ठानेहि सामिक अनुकम्पति । एवमस्स एसा पच्छिमा दिसा पटिच्छन्ना होति खेमा अप्पटिभया ।

B. I.

उत्तरा दिसा मित्तामच्चा

२६ "पच्चहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि कुलपुत्तेन उत्तरा दिसा मित्तामच्चा पच्चुपट्टातब्बा - दानेन, पियवज्जेन^२, अत्थचरियाय, समानत्ताय, अविसवादनताय । इमेहि खो, गहपतिपुत्त, पच्चहि ठानेहि कुलपुत्तेन उत्तरा दिसा मित्तामच्चा पच्चुपट्टिता पच्चहि ठानेहि कुलपुत्त अनुकम्पन्ति - पमत्त रक्खन्ति, पमत्तस्स सापतेय्य रक्खन्ति, भीतस्स सरण होन्ति, आपदासु न विजहन्ति, अपरपजा^३ चस्स^३ पटिपूजेन्ति । इमेहि खो, गहपतिपुत्त, पच्चहि ठानेहि कुलपुत्तेन उत्तरा दिसा मित्तामच्चा 15 पच्चुपट्टिता इमेहि पच्चहि ठानेहि कुलपुत्त अनुकम्पन्ति । एवमस्स एसा उत्तरा दिसा पटिच्छन्ना होति खेमा अप्पटिभया ।

हेट्ठिमा दिसा दासकम्मकरा

३० "पच्चहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि अय्यिरकेन हेट्ठिमा दिसा दासकम्मकरा पच्चुपट्टातब्बा - यथाबल कम्मन्तसविधानेन, भत्तवेतनानुप्प - दानेन, गिलानुपट्टानेन, अच्छरियान रसान सविभागेन, समये वोस्सग्गेन । इमेहि खो, गहपतिपुत्त, पच्चहि ठानेहि अय्यिरकेन हेट्ठिमा दिसा दास - कम्मकरा पच्चुपट्टिता पच्चहि ठानेहि अय्यिरक अनुकम्पन्ति - पुब्बुट्ठायिनो च होन्ति, पच्छा निपातिनो च, दिन्नादायिनो च, सुकतकम्मकरा च, कित्तिवण्णहरा च । इमेहि खो, गहपतिपुत्त, पच्चहि ठानेहि अय्यिरकेन हेट्ठिमा दिसा दासकम्मकरा पच्चुपट्टिता इमेहि पच्चहि ठानेहि अय्यिरक अनु- 25 कम्पन्ति । एवमस्स एसा हेट्ठिमा दिसा पटिच्छन्ना होति खेमा अप्पटिभया ।

R. I.

१ अविमाननाय ३ स्या०, रो० । २ सुसङ्गहित० - स्या०, रो० । ३ पेय्यवज्जेन - म०, रो० । ४-४ अपरपज पिस्स - स्या०, अपरपज च पिस्स - रो० ।

उपरिमा दिसा समणब्राह्मणा

३१ “पञ्चहि खो, गहपतिपुत्त, ठानेहि कुलपुत्तेन उपरिमा दिसा
 56 समणब्राह्मणा पञ्चुपट्टात्तब्बा – मेत्तेन कायकम्मेन, मेत्तेन वचीकम्मेन, मेत्तेन
 मनोकम्मेन, अनावटद्वारताय, आमिसानुप्पदानेन । इमेहि खो, गहपतिपुत्त,
 5 पञ्चहि ठानेहि कुलपुत्तेन उपरिमा दिसा समणब्राह्मणा पञ्चुपट्टिता छहि
 ठानेहि कुलपुत्त अनुकम्पन्ति- पापा निवारन्ति, कल्याणे निवेसेन्ति, कल्याणेन
 मनसा अनुकम्पन्ति, अस्सुत सावेन्ति, सुत परियोदपेन्ति^१, सग्गस्स मग्ग
 आचिक्खन्ति । इमेहि खो, गहपतिपुत्त, छहि^२ ठानेहि कुलपुत्तेन उपरिमा
 दिसा समणब्राह्मणा पञ्चुपट्टिता इमेहि छहि ठानेहि कुलपुत्त अनुकम्पन्ति ।
 एवमस्स एसा उपरिमा दिसा पटिच्छन्ना होति खेमा अप्पटिभया” ति ।

10 ३२ इदमवोच भगवा । इद वत्वान सुगतो अथापर एतदवोच
 सत्था –

192 “मातापिता दिसा पुब्बा, आचरिया दक्खिणा दिसा ।
 पुत्तदारा दिसा पच्छा, मित्तामच्चा च उत्तरा ॥

15 “दासकम्मकरा हेट्ठा, उद्ध समणब्राह्मणा ।
 एता दिसा नमस्सेय्य, अलमत्तो कुले गिही ॥

“पण्डितो सीलसम्पन्नो, सण्हो च पटिभानवा ।
 निवातवुत्ति अत्थद्धो, तादिसो लभते यस ॥

“उट्टानको अनलसो, आपदासु न वेधति ।
 अच्चिद्धवुत्ति^३ मेघावी, तादिसो लभते यस ॥

20 “सङ्गाहको मित्तकरो, वदञ्जू वीतमच्छरो ।
 नेता विनेता अनुनेता, तादिसो लभते यस ॥

“दान च पेय्यवज्ज च, अत्थचरिया च या इध ।
 समानत्तता च धम्मेषु, तत्थ तत्थ यथारह ।
 एते खो सङ्गहा लोके, रथस्साणीव यायतो ॥

25 “एते च सङ्गहा नास्सु, न माता पुत्तकारणा ।
 लभेथ मान पूज वा, पिता वा पुत्तकारणा ॥

१ परियोदापेन्ति – म० । २ पञ्चहि – स्या०, रो० । ३ अच्चिद्धवुत्ति – म०, सी० ।

“यस्मा च सङ्गहा^१ एते, समवेक्खन्ति^२ पण्डिता ।
तस्मा महत्त पप्पोन्ति, पाससा च भवन्ति ते” ति ॥

R 193

B 157

३३ एव वुत्ते, सिङ्गालको गहपतिपुत्तमे भगवन्त एतदवोच -
“अभिव्वकन्त, भन्ते, अभिव्वकन्त, भन्ते । सेय्यथापि, भन्ते, निक्कुज्जित वा
उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेय्य, मूब्हुस वा मग्ग आचिक्खेय्य, 5
अन्धकारे वा तेलपज्जोत^३ धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती” ति,
एवमेव भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाह, भन्ते, भगवन्त
सरण गच्छामि धम्म च भिक्खुसङ्घ च । उपासक म भगवा धारेतु
अज्जतग्गे पाणुपेत सरण गत” ति ।

सिङ्गालसत्त निद्धित अट्टम ।

— ० —

१ सङ्गहे - स्या० । २ सम्मवेक्खन्ति - म०, समवेक्खन्ति - स्या० । ३ तेलपज्जोत -
स्या० । ४ दक्खन्ती - म०, सी०, स्या० ।

६ आठानाटियसुतं

§ १ चत्तारो महाराजा

१ एव मे सुत । एक समय भगवा राजगहे विहरति गिज्झकूटे पब्बते । अथ खो चत्तारो महाराजा^१ महत्तिया च यक्खसेनाय महत्तिया च गन्धब्बसेनाय महत्तिया च कुम्भण्डसेनाय महत्तिया च नागसेनाय चतुद्दिस रक्ख ठपेट्वा, चतुद्दिस गुम्ब ठपेट्वा, चतुद्दिस ओवरण ठपेट्वा, अभिक्कन्ताय
5 रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प गिज्झकूट पब्बत^२ ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु, उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । ते पि खो यक्खा अप्पेकच्चे भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु, अप्पेकच्चे भगवता सद्धि सम्मोदिसु, सम्मोदनीय कथ सारणीय^३ वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिसु, अप्पेकच्चे येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा एकमन्त निसीदिसु,
10 अप्पेकच्चे नामगोत्त सावेत्वा एकमन्त निसीदिसु, अप्पेकच्चे तुण्हीभूता एकमन्त निसीदिसु ।

२ एकमन्त निसिन्नो खो वेस्सवणो महाराजा भगवन्त एतदवोच —
‘सन्ति हि, भन्ते, उळारा यक्खा भगवतो अप्पसन्ना । सन्ति हि, भन्ते,
5 उळारा यक्खा भगवतो पसन्ना^४ । सन्ति हि, भन्ते, मज्झिमा यक्खा भगवतो अप्पसन्ना । सति हि, भन्ते, मज्झिमा यक्खा भगवतो पसन्ना । सन्ति हि,
15 भन्ते, नीचा यक्खा भगवतो अप्पसन्ना । सन्ति हि, भन्ते, नीचा यक्खा भगवतो पसन्ना । येभुय्येन खो पन, भन्ते, यक्खा अप्पसन्ना येव भगवतो । त किस्स हेतु ? भगवा हि, भन्ते, पाणातिपाता वेरमणिया धम्म देसेति,
अदिन्नादाना वेरमणिया धम्म देसेति, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणिया धम्म
20 देसेति, मुसावादा वेरमणिया धम्म देसेति, सुरामेरयमज्जप्पमादट्टाना^५ वेरमणिया धम्म देसेति । येभुय्येन खो पन, भन्ते, यक्खा अप्पटिविरता येव पाणातिपाता, अप्पटिविरता अदिन्नादाना, अप्पटिविरता कामेसुमिच्छा-
चारा, अप्पटिविरता मुसावादा, अप्पटिविरता सुरामेरयमज्जप्पमादट्टाना । तेस त होति अप्पिय अमनाप । सन्ति हि, भन्ते, भगवतो सावका अरञ्जवनपत्थानि^६
9 25 पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति अप्पसद्धानि अप्पिनिग्घोसानि विजनवातानि

१ महाराजानो — सी० । २ स्या० रो० पेत्यकेसु नत्थि । ३ सारणीय — रो० ।
४ ० मज्जपमादट्टाना — रो०, स्या० । ५ अरञ्जे वनपत्थानि — स्या०, रो० ।

मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्लानसारुप्पानि । तत्थ सन्ति उळारा यक्खा
निवासिनो, ये इमस्मि भगवतो पावचने अप्पसन्ना । तेस पसादाय उग्गण्हातु,
भन्ते, भगवा आटानाटिय रक्ख भिक्खून भिक्खुनीन उपासकान उपासिकान
गुत्तिया रक्खाय अविहिंसाय फासुविहाराया' ति । अधिवासेसि भगवा
तुण्हीभाक्केन ।

5

§ २ आटानाटिया रक्खा

३ अथ खो वेस्सवणो महाराजा भगवतो अधिवासन विदित्वा ताय
वेलाय इम आटानाटिय रक्ख अभासि —

“विपस्सिस्स च नमत्थु, चक्खुमन्तस्स सिरीमतो ।

सिखिस्स पि च नमत्थु, सब्बभूतानुकम्पिनो ॥

“वेस्सभुस्स च नमत्थु, न्हातकस्स^१ तपस्सिनो ।

10

नमत्थु ककुसन्धस्स, मारसेनापमद्दिनो^२ ॥

R 196

“कोणागमनस्स नमत्थु, ब्राह्मणस्स वुसीमतो ।

कस्सपस्स च नमत्थु, विप्पमुत्तस्स सब्बधि ॥

“अङ्गीरसस्स नमत्थु, सक्क्यपुत्तस्स सिरीमतो ।

यो इम धम्म देसेसि^३, सब्बदुक्खापनूदन ॥

15

“ये चा पि निब्बुता लोके, यथाभूत विपस्सिसु ।

ते जना अपिसुणाथ, महन्ता वीतसारदा ॥

“हित देवमनुस्सान, य नमस्सन्ति गोतम ।

विज्जाचरणसम्पन्न, महन्त वीतसारद ॥

४ “यतो उग्गच्छति सुरियो^४, आदिच्चो मण्डली महा ।

20

यस्स चुग्गच्छमानस्स, सवरी पि निरुज्झति ।

यस्स चुग्गते सुरिये, दिवसो ति पवुच्चति ॥

“रहदो पि तत्थ गम्भीरो, समुद्दो सरित्तोदको ।

B 160

एव त तत्थ जानन्ति, समुद्दो सरित्तोदको ॥

“इतो सा पुरिमा दिसा, इति न आचिक्खती जनो ।

25 R 197

य दिस अभिपालेति, महाराजा यसस्सि सो ॥

१ नहातकस्स — रो० । २ मारसेनप्पमद्दिनो — सी०, स्या० । ३ अदेसेसि — रो० ।

४ अपिसुणा — स्या०, अपिसुणा — रो० । ५ सुरियो — म० ।

“गन्धब्बान अधिपति^१, धतरट्ठो ति नामसो ।
रमती नच्चगीतेहि, गन्धब्बेहि पुरक्खतो^२ ॥

“पुत्ता पि तस्स बहवो, एकनामा ति मे सुत ।
असीति दस एको च, इन्दनामा महब्बला ॥

5 “ते चा पि बुद्ध दिस्वान, बुद्ध आदिच्चबन्धुन ।
दूरतो व नमस्सन्ति, महन्त वीतसारद ॥

“नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम ।
कुसलेन समेक्खसि, अमनुस्सा पि त वन्दन्ति ।
सुत नेत अभिण्हसो, तस्मा एव वदेमसे^३ ॥

10 “जिन वन्दथ गोतम, जिन वन्दाम गोतम ।
विज्जाचरणसम्पन्न, बुद्ध वन्दाम गोतम ॥

५ “येन पेता पवुच्चन्ति, पिसुणा पिट्ठिमसिका ।
पाणातिपातिनो लुद्दा, चोरा नेकतिका जना ॥

15 इतो सा दक्खिणा दिसा, इति न आचिक्खती जनो ।
य दिस अभिपालेति, महाराजा यसस्सि सो ॥

“कुम्भण्डान अधिपति, विरूब्बो इति नामसो ।
रमती नच्चगीतेहि, कुम्भण्डेहि पुरक्खतो ॥

“पुत्ता पि तस्स बहवो, एकनामा ति मे सुत ।
असीति दस एको च, इन्दनामा महब्बला ॥

20 “ते चा पि बुद्ध दिस्वान, बुद्ध आदिच्चबन्धुन ।
दूरतो व नमस्सन्ति, महन्त वीतसारद ॥

“नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम ।
कुसलेन समेक्खसि, अमनुस्सा पि त वन्दन्ति ।
सुत नेत अभिण्हसो, तस्मा एव वदेमसे ॥

25 “जिन वन्दथ गोतम, जिन वन्दाम गोतम ।
विज्जाचरणसम्पन्न, बुद्ध वन्दाम गोतम ॥

- ६ “यत्थ चोग्गच्छति सुरियो, आदिच्चो मण्डली महा ।
यस्स चोग्गच्छमानस्स, दिवसो पि निरुज्झति ।
यस्स चोग्गते सुरिये, सवरी ति पवुच्चति ॥
- “रहदो पि तत्थ गम्भीरो, समुदो सरितोदको ।
एव त तत्थ जानन्ति, समुदो . सरितोदको ॥ 5
- “इतो सा पच्छिमा दिसा, इति न आचिक्खती जनो ।
य दिस अभिपालेति, महाराजा यसस्सि सो ॥ R. 199
- “नागान च अधिपति, विरूपक्खो ति नामसो' ।
रमती नच्चगीतेहि, नागेहेव^३ पुरक्खतो ॥
- “पुत्ता पि तस्स बहवो, एकनामा ति मे सुत ।
असीति दस एको च, इन्दनामा महब्बला ॥ 10
- “ते चा पि बुद्ध दिस्वान, बुद्ध आदिच्चबन्धुन ।
दूरतो व नमस्सन्ति, महन्त वीतसारद ॥
- “नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम ।
कुसलेन समेक्खसि, अमनुस्सा पि त वन्दन्ति ।
सुत नेत अभिण्हसो, तस्मा एव वदेमसे ॥ 15
- “जिन वन्दथ गोतम, जिन वन्दाम गोतम ।
विज्जाचरणसम्पन्न, बुद्ध वन्दाम गोतम ॥
- ७ “येन उत्तरकुरुव्हो^१, महानेर सुदस्सनो ।
मनुस्सा तत्थ जायन्ति, अममा अपरिग्गहा ॥ 20
- “न ते बीज पवपन्ति, न पि नीयन्ति नङ्गला ।
अकट्टपाकिम सालि, परिभुञ्जन्ति मानुसा ॥ B. 162
- “अकण अथुस सुद्ध, सुगन्ध तण्डुलप्फल ।
तुण्डिकीरे^४ पचित्वान, ततो भुञ्जन्ति भोजन ॥ — R. 200
- “गार्वि एकखुर कत्वा, अनुयन्ति दिसोदिस ।
पसु एकखुर कत्वा, अनुयन्ति दिसोदिस ॥ 25

१ नाम सो-रो० । २ नागेहि - स्या०, रो० । ३ उत्तरकुरुव्हो - सी०, उत्तरकुरु
रम्मा - स्या०, रो० । ४ तुण्डिकीरे - सी०, स्या० ।

“इत्थि^१ वा^२ वाहन कत्वा, अनुयन्ति दिसोदिस ।
पुरिस^३ वाहन कत्वा, अनुयन्ति दिसोदिस ॥

“कुमारि^४ वाहन कत्वा, अनुयन्ति दिसोदिस ।
कुमार^५ वाहन कत्वा, अनुयन्ति दिसोदिस ॥

5 “ते याने अभिरूहित्वा^६,
सब्बा दिसा अनुपरियायन्ति^७ ।
पचारा तस्स राजिनो ॥

“हत्थियान अस्सयान, दिब्ब यान उपट्ठित ।
पासादा सिविका चेव, महाराजस्स यसस्सिनो ॥

10 “तस्स च नगरा अहु^८,
अन्तलिक्खे^९ सुमापिता ।
आटानाटा कुसिनाटा परकुसिनाटा,
नाटसुरिया^{१०} परकुसिटनाटा” ॥

15 “उत्तरेण कसिवन्तो^{११},
जनोधमपरेण च ।
नवनवुत्तियो^{१२} अम्बरअम्बरवत्तियो,
आळकमन्दा नाम राजधानी^{१३} ॥

20 “कुवेरस्स खो पण मारिस महाराजस्स,
विसाणा नाम राजधानी ।
तस्मा कुवेरो महाराजा, वेस्सवणो ति पवुच्चति ॥

13 “पच्चेसन्तो पकासेन्ति, ततोला तत्तला ततोतला ।
ओजसि तेजसि ततोजसी, सूरु^{१४} राजा अरिट्ठो नेमि ॥

“रहदो पि तत्थ धरणी नाम, यतो मेघा पवस्सन्ति ।
वस्सा यतो पतायन्ति, सभा पि तत्थ सालवती^{१५} नाम ॥

१ इत्थी - रो० । २ सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ३ पुरिस० - रो० ।
कुमारि० - रो० । ४ कुमार० - रो० । ५ अभिरूहित्वा - म० । ६ अनुपरियायन्ति - स्या०,
रो० । ७ अहु - सी० । ८ अन्तलिक्खे - सी० । ९ नाटपुरिया - रो० । १० पुरकुसितनाटा -
सी०, रो० । ११ कपीवन्तो - स्या०, रो० । १२ नवनवत्तियो - स्या०, रो० । १३ राजधानि -
रो० । १४ सुरु - स्या० । १५ अगलवती - सी०, स्या०, रो० ।

‘यत्थ यक्खा पयिरुपासन्ति, तत्थ निच्चफला रक्खा ।
नाना दिजगणा युता, मयूरकोञ्चाभिरुदा’ ।
कोकिलादीहि वग्गुहि’ ॥

‘जीवञ्जीवकसद्देत्थ’^१, अथो ओट्टवचित्तका^२ ।
कुक्कुटका’ कुलीरका’^३, वने पोक्खरसातका ॥

5 R. 202

‘सुकसाळिकसद्देत्थ’^४, दण्डमाणवकानि च ।
सोभति सब्बकाल सा, कुवेरनळिनी सदा ॥

‘इतो सा उत्तरा दिसा, इति न आचिक्खती जनो ।
य दिस अभिपालेति, महाराजा यसस्सि सो ॥

‘यक्खान च अधिपति, कुवेरो इति नामसो ।
रमती नच्चगीतेहि, यक्खेहेव पुरक्खतो’^५ ॥

10

‘पुत्ता पि तस्स बहवो, एकनामा ति मे सुत ।
असीति दस एको च, इन्दनामा महब्बला ॥

‘ते चा पि बुद्ध दिस्वान, बुद्ध आदिच्चबन्धुन ।
दूरतो व नमस्सन्ति, महन्त वीतसारद ॥

15

‘नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम ।
कुसलेन समेक्खसि, अमनुस्सा पि त वन्दन्ति ।
सुत नेत अभिण्हसो’, तस्मा एव वदेमसे ॥

‘जिन वन्दथ गोतम, जिन वन्दाम गोतम ।
विज्जाचरणसम्पन्न, बुद्ध वन्दाम गोतम’ ति ॥

20

८ “अय खो सा, मारिस, आटानाटिया रक्खा भिक्खून भिक्खुनीन
उपासकान उपासिकान गुत्तिया रक्खाय अविहिंसाय फासुविहाराय ।

R 203

“यस्स कस्सचि, मारिस, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा उपासकस्स
वा उपासिकाय वा अय आटानाटिया रक्खा सुग्गहिता’ भविस्सति समत्ता
परियापुता, त चे अमनुस्सो यक्खो वा यक्खिनी वा यक्खपोतको वा 25

B 164

१ ० भिक्खा - सी० । २ वग्गुहि - सी० स्या० रो० । ३ जीवजीवकसद्देत्थ - सी० ।
४ कुक्कुटका - सी०, रो० । ५ कुलीरका - सी० कुलीरका - रो० । ६ सुकसाळिक० - सी०,
स्या० । ७ ० नलिनी - सी०, रो० । ८ पुरेक्खतो - सी० । ९ अभिण्हसो - रो० ।
१० सुग्गहिता - स्या० ।

यक्खपोतिका वा यक्खमहामत्तो वा यक्खपारिसज्जो वा यक्खपचारो वा,
 गन्धब्बो वा गन्धब्बी वा गन्धब्बपोतको वा गन्धब्बपोतिका वा गन्धब्बमहामत्तो
 वा गन्धब्बपारिसज्जो वा गन्धब्बपचारो वा, कुम्भण्डो वा कुम्भण्डी वा
 कुम्भण्डपोतको वा कुम्भण्डपोतिका वा कुम्भण्डमहामत्तो वा कुम्भण्डपारि-
 5 सज्जो वा कुम्भण्डपचारो वा, नागो वा नागी^१ वा नागपोतको वा नाग-
 पोतिका वा नागमहामत्तो वा नागपारिसज्जो वा नागपचारो वा पदुट्टचित्तो
 भिक्खु वा भिक्खुनि वा उपासक वा उपासिक वा गच्छन्त वा अनुगच्छेय्य,
 ठित वा उपतिट्ठेय्य, निसिन्न वा उपनिसीदेय्य, निपन्न वा उपनिपज्जय्य, न
 मे सो, मारिस, अमनुस्सो लभेय्य गामेसु वा निगमेसु वा सक्कार वा
 10 गरुकार वा, न मे सो, मारिस, अमनुस्सो लभेय्य आळकमन्दाय नाम
 राजधानिया वत्थु वा षास वा, न मे सो, मारिस, अमनुस्सो लभेय्य यक्खान
 समिति गन्तु । अपिस्सु न, मारिस, अमनुस्सा अनावय्ह^२ पि न^३ करेय्यु
 अविवय्ह । अपिस्सु न, मारिस, अमनुस्सा अत्ताहि पि परिपुण्णाहि परि-
 भासाहि परिभासेय्यु । अपिस्सु न, मारिस, अमनुस्सा रित्त^४ पिस्स^५ पत्त सीसे
 15 निककुज्जेय्यु । अपिस्सु न, मारिस, अमनुस्सा सत्तधा पिस्स मुद्ध फालेय्यु ।

§ ३ महासेनापतीन उज्झापेतब्ब

“सन्ति हि, मारिस, अमनुस्सा चण्डा रुद्धा रभसा । ते नेव
 महाराजान आदियन्ति, न महाराजान पुरिसकान आदियन्ति, न महाराजान
 4 पुरिसकान पुरिसकान आदियन्ति । ते खोते, मारिस, अमनुस्सा महाराजान
 अवरुद्धा नाम वुच्चन्ति । सय्यथापि, मारिस, रञ्जो मागधस्स विजित्ते
 20 महाचोरा । ते नेव रञ्जो मागधस्स आदियन्ति, न रञ्जो मागधस्स
 पुरिसकान आदियन्ति, न रञ्जो मागधस्स पुरिसकान पुरिसकान आदि-
 यन्ति । ते खोते, मारिस, महाचोरा रञ्जो मागधस्स अवरुद्धा नाम
 वुच्चन्ति । एवमेव खो, मारिस, सन्ति^५ अमनुस्सा चण्डा रुद्धा रभसा ।
 ते नेव महाराजान आदियन्ति, न महाराजान पुरिसकान आदियन्ति, न
 35 25 महाराजान पुरिसकान पुरिसकान आदियन्ति । ते खोते, मारिस, अमनुस्सा
 महाराजान अवरुद्धा नाम वुच्चन्ति । यो हि कोचि, मारिस, अमनुस्सो
 यक्खो वा यक्खिनी वा पे० गन्धब्बो वा गन्धब्बी वा पे०
 कुम्भण्डो वा कुम्भण्डी वा पे० नागो वा नागी वा नागपोतको वा

१ नागिनी - सी० स्या० । २ अनावय्ह - सी०, स्या० । ३ स्या० पोत्थके नत्थि ।
 ४-५ रित्त पि - स्या०, रो० । ५ सन्ति हि - सी०, स्या० ।

नागपोतिका वा नागमहामत्तो वा नागपारिसज्जो वा नागपचारो वा
पदुट्टचित्तो भिक्खु वा भिक्खुनि वा उपासक वा उपासिक वा गच्छन्त वा
अनुगच्छेय्य, ठित्त वा उपतिट्ठेय्य, निसिन्न वा उपनिसीदेय्य, निपन्न वा
उपनिपज्जेय्य, इमेस यक्खान महायक्खान सेनापतीन महासेनापतीन
उज्झापेतब्ब विक्कन्दितब्ब विरवितब्ब — ‘अय यक्खो गण्हाति, अय 5
यक्खो आविसति, अय यक्खो हेठेति, अय ‘यक्खो विहेठेति, अय यक्खो
हिंसति, अय यक्खो विहिसति, अय यक्खो न मुञ्चती’ ति ।

६ “कतमेस यक्खान महायक्खान सेनापतीन महासेनापतीन ?

“इन्दो सोमो वरुणो च, भारद्वाजो पजापति ।

चन्दनो कामसेट्ठो च, किन्नुघण्डु निघण्डु च ॥ 10

“पनादो ओपमञ्जो च, देवसूतो च मातलि ।

चित्तसेनो च गन्धब्बो, नळो राजा जनेसभो ॥

“सातागिरो हेमवतो, पुण्णको करतियो गुळो^१ ।

सिवको^२ मुचलिनदो^३ च, वेस्सामित्तो युगन्धरो ॥ R 205

“गोपालो सुप्परोधो^४ च, हिरि नेत्ति च मन्दियो । 15

पञ्चालचण्डो आळवको^५ पज्जुत्तो^६ सुमनो सुमुखो ।

दधिमुखो मणि माणिवरो दीघो, अथो सेरीसको सह ॥

“इमेस यक्खान महायक्खान सेनापतीन महासेनापतीन उज्झापेतब्ब
विक्कन्दितब्ब विरवितब्ब — ‘अय यक्खो गण्हाति, अय यक्खो आविसति, अय
यक्खो हेठेति, अय यक्खो विहेठेति, अय यक्खो हिंसति, अय यक्खो विहिसति, 20
अय यक्खो न मुञ्चती’ ति ।

“अय खो सा, मारिस, आटानाटिया रक्खा भिक्खून भिक्खुनीन
उपासकान उपासिकान गुत्तिया रक्खाय अविहिसाय फासुविहारया ।
हन्द च दानि मय, मारिस, गच्छाम, बहुकिच्चा मय बहुकरणीया” ति ।

B 166

यस्स दानि तुम्हे महाराजानो काल मञ्जथा” ति ।

—25

१० अथ खो चत्तारो महाराजा उट्टयासना भगवन्त अभिवादेत्वा
पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायिसु । ते पि खो यक्खा उट्टयासना

१ गुलो — स्या०, रो० । २ सिवको — रो० । ३ मुचलिनदो — स्या० । ४ सुप्परोधो — रो० ।
५ आळवको — स्या०, रो० । ६ पज्जुत्तो — स्या० । ७ फासुविहारया ति — सी०, स्या०, रो० ।

- अप्पेकच्चे भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायिसु ।
 अप्पेकच्चे भगवता सद्धि सम्मोदिसु, सम्मोदनीय कथ सारणीय वीति-
 16 सारेत्वा तत्थेवन्तरधायिसु । अप्पेकच्चे येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा
 तत्थेवन्तरधायिसु । अप्पेकच्चे नामगोत्त सावेत्वा तत्थेवन्तरधायिसु ।
 5 अप्पेकच्चे तुण्हीभूता तत्थेवन्तरधायिसू ति ।

पठमभाणवार निद्धित ।

§ ४ सत्था अब्भनुमोदि

- ११ अथ खो भगवा तस्सा रत्तिया अच्चयेन भिक्खू आमन्तेसि -
 “इम, भिक्खवे, रत्ति चत्तारो महाराजा महतिया च यक्खसेनाय महतिया
 च गन्धब्बसेनाय महतिया च कुम्भण्डसेनाय महतिया च नागसेनाय चतुद्दिस
 रक्ख ठपेत्वा चतुद्दिस गुम्ब ठपेत्वा चतुद्दिस ओवरण ठपेत्वा अभिक्कन्ताय
 10 रत्तिया अभिक्कन्तवण्णा केवलकप्प गिज्झकूट ओभासेत्वा येनाह तेनुप-
 सद्धिमिसु, उपसद्धमित्वा म अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । ते पि खो,
 भिक्खवे, यक्खा अप्पेकच्चे म अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । अप्पेकच्चे
 मया सद्धि सम्मोदिसु, सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त
 निसीदिसु । अप्पेकच्चे येनाह तेनञ्जलि पणामेत्वा एकमन्त निसीदिसु ।
 15 अप्पेकच्चे नामगोत्त सावेत्वा एकमन्त निसीदिसु । अप्पेकच्चे तुण्हीभूता
 एकमन्त निसीदिसु ।

- १२ “एकमन्त निसिन्नो खो, भिक्खवे, वेस्सवणो महाराजा म
 एतदवोच - ‘सन्ति हि, भन्ते, उळारा यक्खा भगवतो अप्पसन्ना पे०
 17 सन्ति हि, भन्ते, नीचा यक्खा भगवतो पसन्ना । येभुय्येन खो पन, भन्ते,
 20 यक्खा अप्पसन्ना येव भगवतो । त किस्स हेतु ? भगवा हि, भन्ते,
 पाणातिपात्ता वेरमणिया धम्म देसेति पे० सुरामेरयमज्जप्पमादट्टाना
 वेरमणिया धम्म देसेति । येभुय्येन खो पन, भन्ते, यक्खा अप्पटिविरता येव
 पाणातिपात्ता पे० अप्पटिविरता सुरामेरयमज्जप्पमादट्टाना । तेस त
 25 होति अप्पिय अमनाप । सन्ति हि, भन्ते, भगवतो सावका अरञ्जवनपत्थानि
 पन्तानि सेनासनानि पटिसेवन्ति अप्पसद्धानि अप्पनिग्घोसानि विजनवातानि
 मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्लानसारुप्पानि । तत्थ सन्ति उळारा यक्खा
 निवासिनो ये इमस्मि भगवतो पावचने अप्पसन्ना । तेस पसादाय उग्गण्हातु,
 भन्ते, भगवा आटानाटिय रक्ख भिक्खून भिक्खुनीन उपासकान उपासिकान
 गुत्तिया रक्खाय अविहिंसाय फासुविहाराया’ ति । अघिवासेसि खो अह,

भिक्षवे, तुण्हीभावेन । अथ खो, भिक्षवे, वेस्सवणो महाराजा मे^१
अधिवासन विदित्वा ताय वेलाय इम आटानाटिय रक्ख अभसि —

- १३ 'विपस्सिस्स च नमत्थु, चक्खुमत्तस्स सिरीमतो ।
सिखिस्स पि च नमत्थु सब्भूतानुकम्पिनो ॥
'वेस्सभुस्स च नमत्थु, न्हातक्कस्स तपस्सिनो । 5
नमत्थु ककुसन्धस्स, मारसेनापमद्दिनो ॥
'कोणागमनस्स नमत्थु, ब्राह्मणस्स वुसीमतो ।
कस्सपस्स च नमत्थु, विप्पमुत्तस्स सब्बधि ॥
'अङ्गीरसस्स नमत्थु, सक्क्यपुत्तस्स सिरीमतो । 10
यो इम धम्म देसेसि, सब्बदुक्खापनूदन ॥
'ये चा पि निब्बुता लोके, यथाभूत विपस्सिसु ।
ते जना अपिसुणाथ, महन्ता वीतसारदा ॥
'हित देवमनुस्सान, य नमस्सन्ति गोतम ।
विज्जाचरणसम्पन्न, महन्त वीतसारद ॥
- १४ 'यतो उग्गच्छति सुरियो, आदिच्चो मण्डली सहा । 15
यस्स चुग्गच्छमानस्स, सवरी पि निरुज्झति ।
यस्स चुग्गते सुरिये, दिवसो ति पवुच्चति ॥
'रहदो पि तत्थ गम्भीरो, समुद्दो सरित्तोदको । B 168
एव त तत्थ जानन्ति, समुद्दो सरित्तोदको ॥
'इतो सा पुरिमा दिसा, इति न आचिक्खती जनो । 20
य दिस अभिपालेति, महाराजा यसस्सि सो ॥
'गन्धब्बान अधिपति, घतरट्ठो ति नामसो ।
रमती नच्चगीतेहि, गन्धब्बेहि पुरक्खतो ॥
'पुत्ता पि तस्स बहवो, एकनामा ति मे सुत ।
असीति दस एको च, इन्दनामा महब्बला ॥ 25
'ते चा पि बुद्धि दिस्वान, बुद्ध आदिच्चबन्धुन ।
दूरतो व नमस्सन्ति, महन्त वीतसारद ॥

- ‘नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम ।
 कुसलेन समेक्खसि, अमनुस्सा पि त वन्दन्ति ।
 सुत नेत अभिण्हसो, तस्सा एव वदेमसे ॥
 ‘जिन वन्दथ गोतम, जिन वन्दाम गोतम ।
 5 विज्जाचरणसम्पन्न, बुद्ध वन्दाम गोतम ॥
- १५ ‘येन पेता पवुच्चन्ति, पिसुणा पिट्टिमसिका ।
 पाणातिपातिनो लुद्दा, चोरा नेकतिका जना ॥
 ‘इतो सा दक्खिणा दिसा, इति न आचिक्खती जनो ।
 य दिस अभिपालेति, महाराजा यसस्सि सो ॥
 10 ‘कुम्भण्डान अधिपति, विरुब्धो इति नामसो ।
 रमती नच्चगीतेहि, कुम्भण्डेहि पुरक्खतो ॥
 ‘पुत्ता पि तस्स बह्वो, एकनामा ति मे सुत ।
 असीति दस एको च, इन्दनामा महब्बला ॥
- ‘ते चा पि बुद्ध दिस्वान, बुद्ध आदिच्चबन्धुन ।
 15 दूरतो व नमस्सन्ति, महन्त वीतसारद ॥
- 69 ‘नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम ।
 कुसलेन समेक्खसि, अमनुस्सा पि त वन्दन्ति ।
 सुत नेत अभिण्हसो, तस्सा एव वदेमसे ॥
 ‘जिन वन्दथ गोतम, जिन वन्दाम गोतम ।
 20 विज्जाचरणसम्पन्न, बुद्ध वन्दाम गोतम ॥
- १६ ‘यत्थ^१ चोग्गच्छति सुरियो, आदिच्चो मण्डली महा ।
 यस्स चोग्गच्छमानस्स, दिवसो पि निरुज्झति ।
 यस्स चोग्गते सुरिये, सवरी ति पवुच्चति ॥
 ‘रहदो पि तत्थ गम्भीरो, समुद्दो सरितोदको ।
 25 एव त तत्थ जानन्ति, समुद्दो सरितोदको ॥
 ‘इतो सा पच्छिमा दिसा, इति च आचिक्खती जनो ।
 य दिस अभिपालेति, महाराजा यसस्सि सो ॥

'नागान च अधिपति, विरूपवखो ति नामसो ।
 रमती नच्चगीतेहि, नागेहेव पुरवखतो ॥
 'पुत्ता पि तस्स बहवो, एकनामा ति मे सुत ।
 असीति दस एको च, इन्दनामा महब्बला ॥
 'ते चा पि बुद्ध दिस्वान, बुद्ध = आदिच्चबन्धुन । 5
 दूरतो व नमस्सन्ति, महन्त वीतसारद ॥
 'नमो ते पुरिसाजञ्च, नमो ते पुरिसुत्तम ।
 कुसलेन समेक्खसि, अमनुस्सा पि त वन्दन्ति ।
 सुत नेत अभिण्हसो, तस्मा एव वदेमसे ॥
 'जिन वन्दथ गोतम, जिन वन्दाम गोतम । 10
 विज्जाचरणसम्पन्न, बुद्ध वन्दाम गोतम ॥
 १७ 'थेन उत्तरकुरुहो', महानेरु सुदस्सनो ।
 मनुस्सा तत्थ जायन्ति, अममा अपरिग्गहा ॥
 'न ते बीज पवपन्ति, ना पि^२ नीयन्ति नङ्गला । B 170
 अकट्टपाकिम सालि, परिभुञ्जन्ति मानुसा ॥ 15
 'अकण अथुस सुद्ध, सुगन्ध तण्डुलप्फल ।
 तुण्डिकीरे^३ पचित्वान, ततो भुञ्जन्ति भोजन ॥
 'गावि एकखुर कत्वा, अनुयन्ति दिसोदिस ।
 पसु एकखुर कत्वा, अनुयन्ति दिसोदिस ॥
 'इत्थि वा वाहन कत्वा, अनुयन्ति दिसोदिस । १०
 पुरिस वाहन कत्वा, अनुयन्ति दिसोदिस ॥
 'कुमारि वाहन कत्वा, अनुयन्ति दिसोदिस ।
 कुमार वाहन कत्वा, अनुयन्ति दिसोदिस ॥
 'ते याने अभिरुहित्वा,
 सब्बा दिसा अनुपरियायन्ति । 25
 पचारा तस्स राजिनो ॥
 'हत्थियान अस्सयान, दिब्ब यान उपट्ठित ।

१ उत्तरकुरुहो - सी० । २ नपि - सी० । ३ तुण्डिकीरे - सी० ।
 दीघ०-३

- पासादा सिविका चैव, महाराजस्स यसस्सिनो ॥
 'तस्स च नगरा अहु',
 अन्तलिक्खे सुमापिता ।
 आटानाटा कुसिनाटा परकुसिनाटा,
 5 नाटसुरिया परकुसिटनाटा^१ ॥
 'उत्तरेण कसिवन्तो,
 जनोघमपरेण च ।
 नवनवुतियो अम्बरअम्बरवतियो,
 आळकमन्दा नाम राजधानी ॥
- 10 'कुवेरस्स खो पण मारिस्स महाराजस्स,
 विसाणा नाम राजधानी ।
 B 171 तस्मा कुवेरो महाराजा, वेस्सवणो ति पवुच्चति ॥
 'पच्चेसन्तो पकासेन्ति, ततोला तत्तला ततोतला ।
 ओजसि तेजसि ततोजसी, सूरु राजा अरिट्ठो नेमि ॥
 15 'रहदो पि तत्थ धरणी नाम, यतो मेघा पवस्सन्ति ।
 वस्सा यतो पतायन्ति, सभा पि तत्थ सालवती नाम ॥
 'यत्थ यक्खा पयिरुपासन्ति, तत्थ निच्चफला ख्ख्वा ।
 नाना दिजगणा युता, मयूरकोञ्चाभिरुदा ।
 कोकिलादीहि कग्गुहि ॥
- 20 'जीवञ्जीवकसद्देत्थ, अथो ओट्टवचित्तका ।
 कुक्कुटका^२ कुळीरका, वने पोक्खरसातका ॥
 'सुकसाळिक सद्देत्थ, दण्डमाणवकानि च ।
 सोभति सब्बकाल सा, कुवेरनळिनी^३ सदा ॥
- 25 'इतो सा उत्तरा दिसा, इति न आचिक्खती जनो ।
 य दिस अभिपालेति, महाराजा यसस्सि सो ॥
 'यक्खान च अधिपति, कुवेरो इति नामसो ।
 रमती नच्चगीतेहि, यक्खेहेव पुरक्खतो ॥

१ आहु - सी० । २ परकुसितनाटा - सी० । ३ कुकुत्थका - सी० । ४ कुवेरनळिनी - सी०

‘पुत्ता पि तस्स बहवो, एकनामा ति मे सुत ।
असीति दस एको च, इन्दनामा महब्बला ॥
‘ते चा पि बुद्ध दिस्वान, बुद्ध आदिच्चबन्धुन ।
दूरतो व नमस्सन्ति, महन्त वीतसारद ॥

‘नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते धुरिसुत्तम ।
कुसलेन समेक्खसि, अमनुस्सा पि त वन्दन्ति ।
सुत नेत अभिण्हसो, तस्मा एव वदेमसे ॥
‘जिन वन्दथ गोतम, जिन वन्दाम गोतम ।
विज्जाचरणसम्पन्न, बुद्ध वन्दाम गोतम’ ति ॥

5

१८ “अय खो सा, मारिस, आटानाटिया रक्खा भिक्खून भिक्खुनीन 10

उपासकान उपासिकान गुत्तिया रक्खाय अविहिसाय फासुविहाराय ।
यस्स कस्सच्चि, मारिस, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा उपासकस्स वा
उपासिकाय वा अय आटानाटिया रक्खा सुग्गहिता भविस्सति समत्ता
परियापुता त चे अमनुस्सो यक्खो वा यक्खिनी वा पे० गन्धब्बो वा
गन्धब्बी वा पे० कुम्भण्डो वा कुम्भण्डी वा पे० नागो वा 15
नागी वा नागपोतको वा नागपोतिका वा नागमहामत्तो वा नागपारिसज्जो
वा नागपचारो वा पट्टुट्टचित्तो भिक्खु वा भिक्खुनि वा उपासक वा
उपासिक वा गच्छन्त वा अनुगच्छेय्य, ठित वा उपतिट्ठेय्य, निसिन्न वा
उपनिसीदेय्य, निपन्न वा उपनिपज्जेय्य, न मे सो, मारिस, अमनुस्सो लभेय्य
गामेसु वा निगमेसु वा सक्कार वा गरुकार वा, न मे सो, मारिस, अमनुस्सो 20
लभेय्य आळकमन्दाय नाम राजधानिया वत्थु वा वास वा, न मे सो,
मारिस, अमनुस्सो लभेय्य यक्खान समिति गन्तु । अपिस्सु न, मारिस
अमनुस्सा अनावय्ह पि न करेय्यु अविक्खु । अपिस्सु न, मारिस, अमनुस्सा
अत्ताहि परिपुण्णाहि परिभासाहि परिभासेय्यु । अपिस्सु न, मारिस,
अमनुस्सा रिक्त पिस्स पत्त सीसे निककुज्जेय्यु । अपिस्सु न, मारिस, 25
अमनुस्सा सत्तधा पिस्स मुद्ध फालेय्यु । सन्ति हि, मारिस, अमनुस्सा
चण्डा रुद्धा रभसा । ते नेव महाराजान आदियन्ति,
न महाराजान पुरिसकान आदियन्ति, न महाराजान पुरिसकान
पुरिसकान आदियन्ति । ते खोते, मारिस, अमनुस्सा महाराजान
अवरुद्धा नाम वुच्चन्ति । सेय्यथापि, मारिस, रञ्जो मागधस्स 30
विजिते महाचोरा । ते नेव रञ्जो मागधस्स आदियन्ति, न रञ्जो

B 172

मागधस्स पुरिसकान आदियन्ति, न रञ्जो मागधस्स पुरिसकान पुरिसकान
 आदियन्ति । ते खोते, मारिस, महाचोरा रञ्जो मागधस्स अवरुद्धा नाम
 वुच्चन्ति । एवमेव खो, मारिस, सन्ति अमनुस्सा चण्डा रुद्धा रभसा, ते नेव
 5 महाराजान आदियन्ति, न महाराजान पुरिसकान आदियन्ति, न महाराजान
 पुरिसकान पुरिसकान आदियन्ति । ते खोते, मारिस, अमनुस्सा महाराजान
 अवरुद्धा नाम वुच्चन्ति । यो हि कोचि, मारिस, अमनुस्सो यक्खो वा
 यक्खिनी वा पे० गन्धब्बो वा गन्धब्बी वा पे० कुम्भण्डो वा
 वा कुम्भण्डी वा पे० नागो वा नागी वा पे० पदुट्टचित्तो
 भिक्खु वा भिक्खुनि वा उपासक वा उपासिक वा गच्छन्त वा उपगच्छेय्य,
 10 ठित वा उपतिट्ठेय्य, निसिन्न वा उपनिसीदेय्य, निपन्न वा उपनिपज्जेय्य,
 इमेस यक्खान महायक्खान सेनापतीन महासेनापतीन उज्झापेतब्ब
 विक्कन्दितब्ब विरवितब्ब - 'अय यक्खो गण्हाति, अय यक्खो आविसति, अय
 यक्खो हेठेति, अय यक्खो विहेठेति, अय यक्खो हिंसति, अय यक्खो विहिंसति,
 अय यक्खो न मुञ्चती' ति ।

15 १६ 'कतमेस यक्खान महायक्खान सेनापतीन महासेनापतीन ?

“इन्दो सोमो वरुणो च, भारद्वाजो पजापति ।

चन्दनो कामसेट्ठो च, किन्नुघण्डु निघण्डु च ॥

“पनादो ओपमञ्जो च, देवसूतो च मातलि ।

चित्तसेनो च गन्धब्बो, नळो राजा जनेसभो ॥

20 “सातागिरो हेमवतो, पुण्णको करतियो गुळो ।

सिवको मुचलिन्दो च, वेस्सामित्तो युगन्धरो ॥

“शोपालो सुप्परोधो च, हिरि नेत्ति च मन्दियो ।

पञ्चालचण्डो आळवको, पज्जुन्नो सुमनो सुमुखो ।

अधिमुखो मणि माणिवरो' दीघो, अथो सेरीसको सह ॥

25 “इमेस यक्खान महायक्खान सेनापतीन महासेनापतीन उज्झापेतब्ब
 विक्कन्दितब्ब विरवितब्ब - 'अय यक्खो गण्हाति, अय यक्खो आविसति,
 अय यक्खो हेठेति, अय यक्खो विहेठेति, अय यक्खो हिंसति, अय यक्खो
 विहिंसति, अय यक्खो न मुञ्चती' ति । अय खो, मारिस, आटानाटिया रक्खा
 भिक्खून भिक्खुनीन उपासकान उपासिकान गुत्तिया रक्खाय अविहिंसाय

फासुविहाराय । हन्द च दानि मय, मारिस, गच्छाम, बहुकिच्चा मय बहुकरणीया' ति ।

“थस्स दानि तुम्हे, महाराजा', काल मञ्जथा” ति ॥

२० “अथ खो, भिक्खवे, चत्तारो महाराजा उट्टायासना र्म अभि-
वादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायिसु ॥ ते पि खो, भिक्खवे, यक्खा 5
उट्टायासना अप्पेकच्चे म अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेवन्तरधायिसु ।
अप्पेकच्चे मया सद्धि सम्मोदिंसु, सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा
तत्थेवन्तरधायिसु । अप्पेकच्चे येनाह तेनञ्जलि पणामेत्वा तत्थेवन्तरधायिसु ।
अप्पेकच्चे नामगोत्त सावेत्वा तत्थेवन्तरधायिसु । अप्पेकच्चे तुण्हीभूता 10
तत्थेवन्तरधायिसु ।

B 174

10

२१ “उग्गण्हाथ, भिक्खवे, आटानाटिय रक्ख । परियापुणाथ,
भिक्खवे, आटानाटिय रक्ख । धारेथ, भिक्खवे, आटानाटिय रक्ख ।
अत्थसहिता', भिक्खवे, आटानाटिया रक्खा भिक्खून भिक्खुनीन उपासकान
उपासिकान गुत्तिया रक्खाय अविहिसाय फासुविहाराया” ति ।

इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित अभि- 15
नन्दु ति ।

आटानाटियसुत्त निद्धित नवम ।

— ० —

१० सङ्गीतिसुतं

§ १ सारिपुत्तो अनुञ्जातो धम्मिया कथाय

१ एव मे सुत । एक समय भगवा मल्लेसु चारिक चरमानो महता भिक्खुसङ्घेन सद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि येन पावा नाम मल्लान नगर तदवसरि । तत्र सुद भगवा पावाय विहरति चुन्दस्स कम्मरपुत्तस्स अम्बवने ।

२ तेन खो पन समयेन पावेय्यकान मल्लान उब्भतक^१ नाम^२ नव सन्थागार^३ अचिरकारित होति अनज्जावुत्थ^४ समणेन वा ब्राह्मणेन वा केनचि वा मनुस्सभूतेन । अस्सोसु खो पावेय्यका मल्ला —“भगवा किर मल्लेसु चारिक चरमानो महता भिक्खुसङ्घेन सद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्खु-सतेहि पाव अनुप्पत्तो पावाय विहरति चुन्दस्स कम्मरपुत्तस्स अम्बवने”
 १० ति । अथ खो पावेय्यका मल्ला येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु, उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ना खो पावेय्यका मल्ला भगवन्त एतदवोचु —“इध, भन्ते, पावेय्यकान मल्लान उब्भतक नाम नव सन्थागार अचिरकारित होति अनज्जावुत्थ समणेन वा ब्राह्मणेन वा केनचि वा मनुस्सभूतेन । त च खो, भन्ते, भगवा पठम परि-
 १५ भुञ्जतु । भगवता पठम परिभुत्त पच्छा पावेय्यका^५ मल्ला परि-भुञ्जिस्सन्ति । तदस्स^६ पावेय्यकान मल्लान दीघरत्त हिताय सुखाया” ति । अधिवासेसि खो भगवा तुण्हीभावेन ।

३ अथ खो पावेय्यका मल्ला भगवतो अधिवासन विदित्वा उट्टायासना भगवन्त अभिबोदत्वा पदक्खिण कत्वा येन सन्थागार तेनुप-
 २० सङ्कमिसु, उपसङ्कमित्वा सब्बसन्थरि^७ सन्थागार सन्थरित्वा भगवतो आसनानि पञ्जापेत्वा^८ उदकमणिक पतिट्ठपेत्वा^९ तेलप्पदीप^{१०} आरोपेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु, उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त अट्टसु । एकमन्त ठिता खो ते पावेय्यका मल्ला भगवन्त एतदवोचु —

१ उब्भटक - रो० । २ सी० पोत्थके नत्थि । ३ सन्थागार - म० सण्ठगार - स्या० । ४ अनज्जावुत्थ - म० । ५-५ रो० पोत्थके नत्थि । ६ सब्बसन्थरिसन्थत - सी० । ७ पञ्ज-पेत्वा - सी० । ८ पतिट्ठपेत्वा - स्या० । ९ तेलपदीप - म० ।

“सब्सन्थरिसन्थत, भन्ते, सन्थागार । भगवतो^१ आसनानि पञ्चत्तानि,
उदकमणिको पतिट्ठापितो, तेलपदीपो आरूपितो । यस्स दानि, भन्ते, भगवा
काल मञ्जती” ति ।

B 1 :

४ अथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सद्धि भिक्खु-
सद्धेन येन सन्थागार तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा पादे पक्खालेत्वा सन्था- 5
गार पविसित्वा मज्झिम थम्म निस्साय पुरत्थाभिमुखो निसीदि । भिक्खु-
सद्धो पि खो पादे पक्खालेत्वा सन्थागार पविसित्वा पच्छिम भित्ति निस्साय
पुरत्थाभिमुखो निसीदि, भगवन्त येव पुरक्खत्वा^२ । पावेय्यका पि खो मल्ला R :
पादे पक्खालेत्वा सन्थागार पविसित्वा पुरत्थिम भित्ति निस्साय पच्छिमा-
भिमुखा निसीदिसु, भगवन्त येव पुरक्खत्वा । अथ खो भगवा पावेय्यके मल्ले 10
बहुदेव रत्ति धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा
उय्योजेसि — “अभिककन्ता खो, वासेट्ठा, रत्ति । यस्स दानि तुम्हे^३ काल
मञ्जथा” ति । “एव, भन्ते” ति खो पावेय्यका मल्ला भगवतो पटिस्सुत्वा
उट्ठायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कमिसु ।

५ अथ खो भगवा अचिरपक्कन्तेसु पावेय्यकेसु^४ मल्लेसु तुण्हीभूत 15
तुण्हीभूत^५ भिक्खुसद्ध अनुविलोकेत्वा आयस्मन्त सारिपुत्त आमन्तेसि —
“विगतथिनमिद्धो^६ खो, सारिपुत्त, भिक्खुसद्धो । पटिभातु त, सारिपुत्त,
भिक्खून धम्मी कथा” । पिट्ठि मे आगिलायति । तमह आयमिस्सामी” ति ।
“एव, भन्ते” ति खो आयस्मा सारिपुत्तो भगवतो पच्चस्सोसि । अथ खो
भगवा चतुग्गुण सद्धाटि पञ्चापेत्वा दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्य कप्पेसि, 20
पादे^७ पाद अच्चाधाय, सतो सम्पजानो, उट्ठानसञ्च मनसि करित्वा ।

§ २ निगण्ठा भिन्ना भण्डनजाता

६ तेन खो पन समयेन निगण्ठो नाटपुत्तो^८ पावाय अधुनाकाल- R :
द्धतो^९ होति । तस्स कालङ्किरियाय^{१०} भिन्ना निगण्ठा द्वेधिकजाता भण्डन-
जाता कलहजाता विवादापन्ना अञ्जमञ्ज मुखसत्तीहि वितुदन्ता विह- B 1
रन्ति — “न त्व इम धम्मविनय आजानासि^{११}, अह इम धम्मविनय 25

१ सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । २ पुरेक्खत्वा — सी० । ३ स्या० पोत्यके नत्थि ।
४ रो० पोत्यके नत्थि । ५ स्या० पोत्यके नत्थि । ६ विगतथीनमिद्धो — सी०, स्या०, रो० ।
७-७ धम्मि कथा — रो०, धम्मिया कथाय — स्या० । ८ पादेन — स्या० । ९ नाटपुत्तो — सी०,
नाथपुत्तो — रो० । १० अधुना कालकतो — सी०, रो०, स्या० । ११ कालकिरियाय — सी०, स्या०,
रो० । १२ आजानिस्सति — स्या० ।

आजानामि । किं त्व इमं धम्मविनयं आजानिस्ससि । मिच्छापटिपन्नो त्वमसि, अहमस्मि सम्मापटिपन्नो । सहितं मे, असहितं ते । पुरेवचनीयं पच्छा अवच, पच्छावचनीयं पुरे अवच । अधिचिण्णं ते विपरावत्तं । आरोपितो ते वादो । निग्गहितो^१ त्वमसि^२ । चरं^३ वादप्पमोक्खाय^४ । निब्बेठेहि वा सचे^५ पहोसी” ति । वधो येव खो मञ्जे निग्गण्ठेसु नाटपुत्तियेसु वत्तति । ये पि^६ निग्गण्ठस्स नाटपुत्तस्स सावका गिही ओदातवसना ते पि^७ निग्गण्ठेसु नाटपुत्तियेसु निब्बिन्नरूपा विरत्तरूपा^८ पटिवानरूपा – यथा तं दुरक्खाते धम्मविनये दुप्पवेदिते अनिय्यानिके अनुपसमसवत्तनिके असम्मासम्बुद्धप्पवेदिते भिन्नथूपे अप्पटिसरणे ।

10 ७ अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्खू आमन्तेसि – “निग्गण्ठो, आवुसो, नाटपुत्तो पावाय अधुनाकालङ्कतो । तस्स कालङ्कुरियाय भिन्ना निग्गण्ठा द्वेधिकजाता पे० भिन्नथूपे अप्पटिसरणे” ।

§ ३ तत्थ सब्बेहेव सङ्गायितब्ब

211 “एवञ्हेत, आवुसो, होति दुरक्खाते धम्मविनये दुप्पवेदिते अनिय्यानिके अनुपसमसवत्तनिके असम्मासम्बुद्धप्पवेदिते । अयं खो पनावुसो, 15 अम्हाकं भगवता धम्मो स्वाक्खातो सुप्पवेदितो निय्यानिको उपसमसवत्तनिको सम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, तत्थ सब्बेहेव सङ्गायितब्ब, न विवदितब्ब, यथयिदं ब्रह्मचरियं अद्धनियं अस्स चिरट्ठितिक, तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । कतमो चावुसो, अम्हाकं भगवता धम्मो स्वाक्खातो सुप्पवेदितो निय्यानिको 20 उपसमसवत्तनिको सम्मासम्बुद्धप्पवेदितो, यत्थं सब्बेहेव सङ्गायितब्ब, न विवदितब्ब, यथयिदं ब्रह्मचरियं अद्धनियं अस्स चिरट्ठितिक, तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान ?

एको धम्मो सम्मदक्खातो

B 178 ८ “अत्थि खो, आवुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता 25 सम्मासम्बुद्धेन एको धम्मो सम्मदक्खातो, तत्थ सब्बेहेव सङ्गायितब्ब, न विवदितब्ब, यथयिदं ब्रह्मचरियं अद्धनियं अस्स चिरिट्ठितिक, तदस्स

१-१ निग्गहितोसि - रो० । २-२ परवादपमोक्खाय - स्या० । ३ पि ते - सी० रो० । ४ पि तेषु - सी० । ५ रो० पेत्यके तत्थि । ६ तत्थ - सी०, स्या० ।

बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देव-
मनुस्सान । कतमो एको धम्मो ? सब्बे सत्ता आहारट्टितिका, सब्बे सत्ता
सङ्खारट्टितिका । अय खो, आवुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता
सम्मासम्बुद्धेन एको धम्मो सम्मदक्खातो, तत्थ सब्बेहेव सङ्गायितब्ब, न
विवदितब्ब, यथयिद ब्रह्मचरिय अद्धनिय अस्स चिरट्टितिक, तदस्स बहुजन- 5 R 212
हिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान ।

द्वे धम्मा सम्मदक्खाता

६ “अत्थि खो, आवुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता
सम्मासम्बुद्धेन द्वे धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सङ्गायितब्ब, न
विवदितब्ब, यथयिद ब्रह्मचरिय अद्धनिय अस्स चिरट्टितिक, तदस्स
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देव- 10
मनुस्सान । कतमे द्वे ? नाम च रूप च । अविज्जा च भवतण्हा च । भवदिट्ठि
च विभवदिट्ठि च । अहिरिक च अनोत्तप्प च । हिरी^३ च ओत्तप्प च ।
दोवचस्सता च पापमित्तता च । सोवचस्सता च कल्याणमित्तता च ।
आपत्तिकुसलता च आपत्तिवुट्ठानकुसलता च । समापत्तिकुसलता च समापत्ति-
वुट्ठानकुसलता च । धातुकुसलता च मनसिकारकुसलता च । आयतनकुसलता 15 B 179
च पटिच्चसमुप्पादकुसलता च । ठानकुसलता च अट्ठानकुसलता च । अज्जव
च लज्जव^४ च । खन्ति च सोरच्च च । साखल्य च पटिसन्धारो^५ च ।
अविहिंसा च सोचेय्य च । मुट्ठस्सच्च च असम्पजञ्च च । सति च सम्प-
जञ्च च । इन्द्रियेसु अगुत्तद्वारता च भोजने अमत्तञ्जुता च । इन्द्रियेसु गुत्त-
द्वारता च भोजने मत्तञ्जुता च । पटिसङ्खानबल च भावनाबल च । सतिबल 20
च समाधिबल च । समथो च विपस्सना च । समथनिमित्त च पग्गहनिमित्त
च । पग्गहो च अविक्खेपो च । सीलविपत्ति च दिट्ठिविपत्ति च । सीलसम्पदा
च दिट्ठिसम्पदा च । सीलविसुद्धि च दिट्ठिविसुद्धि च । दिट्ठिविसुद्धि खो पन R 214
यथा दिट्ठिस्स च पघान । सवेगो च सवेजनीयेसु ठानेसु सविग्गस्स च योनिसो
पघान । असन्तुट्ठिता च कुसलेसु धम्मेसु अप्पटिवानिता च पघानस्मि । 25
विज्जा च विमुत्ति च । खये^६ आण^६ अनुप्पादे^६ आण^६ । B 180

“इमे खो, आवुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा-
सम्बुद्धेन द्वे धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सङ्गायितब्ब, न विवदितब्ब,

१ द्वे धम्मा - स्या० । २ हिरि - रो० । ३ आज्जव - स्या० । ४ महव - स्या० । ५
पटिसन्धारो - सी०, स्या०, रो० । ६-६ खयेणाण - म० । ६-६ अनुप्पादेणाण - म० ।

यथयिद ब्रह्मचरिय अद्धनिय अस्स चिरट्टितिक, तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान ।

तयो धम्मा सम्मदक्खाता

१० “अत्थि खो, आवुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन तयो धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सङ्गायितब्ब
5 पे० अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । कतमे तयो’ ?

“तीणि^१ अकुसलमूलानि - लोभो अकुसलमूल, दोसो अकुसल-
मूल, मोहो अकुसलमूल । तीणि कुसलमूलानि - अलोभो कुसलमूल,
अदोसो कुसलमूल, अमोहो कुसलमूल । तीणि दुच्चरितानि -
R 215 कायदुच्चरित, वचीदुच्चरित, मनोदुच्चरित । तीणि सुचरितानि-
10 कायसुचरित, वचीसुचरित, मनोसुचरित । तयो अकुसलवितक्का - काम-
वितक्को, ब्यापादवितक्को^२, विहिसावितक्को । तयो कुसलवितक्का -
नेक्खम्मवितक्को, अब्यापादवितक्को, अविहिसावितक्को । तयो अकुसल-
सङ्कप्पा - कामसङ्कप्पो, ब्यापादसङ्कप्पो, विहिसासङ्कप्पो । तयो कुसल-
B 181 सङ्कप्पा - नेक्खम्मसङ्कप्पो, अब्यापादसङ्कप्पो, अविहिसासङ्कप्पो । तिस्सो
15 अकुसलसञ्जा - कामसञ्जा, ब्यापादसञ्जा, विहिसासञ्जा । तिस्सो
कुसलसञ्जा - नेक्खम्मसञ्जा, अब्यापादसञ्जा, अविहिसासञ्जा ।
तिस्सो अकुसलधातुयो - कामधातु, ब्यापादधातु, विहिसाधातु । तिस्सो
कुसलधातुयो - नेक्खम्मधातु, अब्यापादधातु, अविहिसाधातु । अपरा पि
तिस्सो धातुयो - कामधातु, रूपधातु, अरूपधातु । अपरा पि तिस्सो
20 धातुयो - रूपधातु, अरूपधातु, निरोधधातु । अपरा पि तिस्सो धातुयो -
हीनधातु, मञ्जिमधातु^३, पणीतधातु । तिस्सो तण्हा - कामतण्हा, भवतण्हा,
विभवतण्हा । अपरा पि तिस्सो तण्हा - कामतण्हा, रूपतण्हा, अरूपतण्हा ।
अपरा पि तिस्सो तण्हा - रूपतण्हा, अरूपतण्हा, निरोधतण्हा । तीणि
सयोजनानि - सक्कायदिट्ठि, विचिकिच्छा, सीलब्बतपरामासो । तयो
25 आसवा - कामासवो, भवासवो, अविज्जासवो । तयो भवा - कामभवो,
रूपभवो, अरूपभवो । तिस्सो एसना - कामेसना, भवेसना, ब्रह्मचरियेसना ।
तिस्सो विधा - सेय्योहमस्मी ति विधा, सदिसोहमस्मी ति विधा, हीनो-
हमस्मी ति विधा । तयो अद्धा - अतीतो अद्धा, अनागतो अद्धा, पञ्चुप्पन्नो

१ तयो धम्मा - स्या० । २ तीनि - सी० । ३ ब्यापादवितक्को - रो० । ४ मञ्जिमा
धातु - रो० ।

अद्धा । तयो अन्ता - सक्कायो अन्तो, सक्कायसमुदयो अन्तो, सक्काय-
 निरोधो अन्तो । तिस्सो वेदना - सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा
 वेदना । तिस्सो दुक्खता - दुक्खदुक्खता, सङ्खारदुक्खता, विपरिणाम-
 दुक्खता । तयो रासी - मिच्छत्तनियतो रासि, सम्मत्तनियतो रासि, अनियतो
 रासि । तयो^१ तमा^२ - अतीत वा अद्धान आरब्भ कङ्खति विचिकिच्छति 5
 नाधिमुच्चति न सम्पसीदति, अनागत वा अद्धान आरब्भ कङ्खति विचि-
 किच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसीदति, एतरहि वा पच्चुप्पन्न अद्धान आरब्भ
 कङ्खति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसीदति । तीणि तथागतस्स
 अरक्खेय्यानि - परिसुद्धकायसमाचारो, आवुसो, तथागतो, नत्थि तथागतस्स
 कायदुच्चरित य तथागतो रक्खेय्य - 'मा मे इद परो अञ्जासी' ति, 10
 परिसुद्धवचीसमाचारो, आवुसो, तथागतो, नत्थि तथागतस्स वचीदुच्चरित
 य तथागतो रक्खेय्य - 'मा मे इद परो अञ्जासी' ति, परिसुद्धमनोसमा-
 चारो, आवुसो, तथागतो, नत्थि तथागतस्स मनोदुच्चरित य तथागतो
 रक्खेय्य - 'मा मे इद परो अञ्जासी' ति । तयो किञ्चना - रागो
 किञ्चन, दोसो किञ्चन, मोहो किञ्चन । तयो अग्गी - रागग्गि, दोसग्गि, 15
 मोहग्गि । अपरे पि तयो अग्गी - आहुनेय्यग्गि, गहपतग्गि, दक्खिणेय्यग्गि ।
 तिविधेन^३ रूपसङ्गहो - सनिदस्सनसप्पटिघ रूप, अनिदस्सनसप्पटिघ रूप,
 अनिदस्सनअप्पटिघ रूप । तयो सङ्खारा - पुञ्जाभिसङ्खारो, अपुञ्जा-
 भिसङ्खारो, अनेञ्जाभिसङ्खारो । तयो पुग्गला - सेक्खो^४ पुग्गलो, असेक्खो
 पुग्गलो, नेवसेक्खोनासेक्खो पुग्गलो । तयो थेरा - जातिथेरो, धम्मथेरो, 20
 सम्मुतिथेरो । तीणि पुञ्जाकिरियवत्थूनि - दानमय पुञ्जाकिरियवत्थु,
 सीलमय पुञ्जाकिरियवत्थु, भावनामय पुञ्जाकिरियवत्थु । तीणि चोदना-
 वत्थूनि - दिट्ठेन, सुतेन, परिसङ्काय । तिस्सो कामूपपत्तियो - सन्तावुसो,
 सत्ता पच्चुपट्ठितकामा, ते पच्चुपट्ठितेसु कामेसु वस वत्तेन्ति, सेय्यथापि
 मनुस्सा एकच्चे च देवा एकच्चे च त्रिनिपातिका, अय पठमा कामूपपत्ति, 25
 सन्तावुसो, सत्ता निम्मितकामा, ते निम्मिनित्वा निम्मिनित्वा कामेसु वस
 वत्तेन्ति, सेय्यथापि देवा निम्मानरती, अय दुतिया कामूपपत्ति, सन्तावुसो
 सत्ता परनिम्मितकामा, ते परनिम्मितेसु कामेसु वस वत्तेन्ति, सेय्यथापि
 देवा परनिम्मितवसवत्ती, अय ततिया कामूपपत्ति । तिस्सो सुखूपपत्तियो -

B 182
R 217

5

10

15

R 218

20

B 183

25

१-१ तिस्सो कङ्खा - सी० स्या०, रा० । २ तविधेन - स्या० ३ सेक्खो - रो० ।

४ पुञ्जाकिरियावत्थूनि - स्या० ।

सन्तावुसो, सत्ता उप्पादेत्वा उप्पादेत्वा सुख विहरन्ति, सेय्यथापि देवा
 ब्रह्मकायिका, अय पठमा सुखूपपत्ति, सन्तावुसो, सत्ता सुखेन अभिसन्ना
 परिसन्ना परिपूरा परिप्फुटा, ते कदाचि करहचि उदान उदानेन्ति - 'अहो
 सुख, अहो सुख' ति, सेय्यथापि देवा आभस्सरा, अय दुतिया सुखूपपत्ति,
 5 सन्तावुसो, सत्ता सुखेन अभिसन्ना परिसन्ना परिपूरा परिप्फुटा, ते सन्त येव
 219 तुसिता' सुख' पटिसवेदेन्ति^१, सेय्यथापि देवा सुभकिण्हा, अय ततिया सुखूप-
 पत्ति । तिस्सो पञ्जा - सेक्खा पञ्जा, असेक्खा पञ्जा, नेवसेक्खानासेक्खा
 पञ्जा । अपरा पि तिस्सो पञ्जा - चिन्तामया पञ्जा, सुतमया पञ्जा,
 भावनामया पञ्जा । तीणावुधानि - सुतावुध, पविवेकावुध, पञ्जावुध ।
 10 तीणिन्द्रियानि - अनञ्जातञ्जास्सामीतिन्द्रिय^२, अञ्जिन्द्रिय, अञ्जाता-
 विन्द्रिय । तीणि चक्खूनि - मसचक्खु, दिब्बचक्खु, पञ्जाचक्खु । तिस्सो
 सिक्खा - अधिसीलसिक्खा, अधिचित्तसिक्खा, अधिपञ्जासिक्खा ।
 184 तिस्सो भावना - कायभावना, चित्तभावना, पञ्जाभावना । तीणि अनुत्तरि-
 यानि - दस्सनानुत्तरिय, पटिपदानुत्तरिय, विमुत्तानुत्तरिय । तयो समाधी -
 15 सवितक्कसविचारो समाधि, अवितक्कविचारमत्तो समाधि, अवितक्क-
 अविचारो^३ समाधि । अपरे पि तयो समाधी - सुञ्जतो समाधि, अनिमित्तो
 समाधि, अप्पणिहितो समाधि । तीणि सोचेय्यानि - कायसोचेय्य, वची-
 270 सोचेय्य, मनोसोचेय्य । तीणि मोनेय्यानि - कायमोनेय्य, वचीमोनेय्य,
 मनोमोनेय्य । तीणि कोसल्लानि - आयकोसल्ल, अपायकोसल्ल, उपाय-
 20 कोसल्ल । तयो मदा - आरोग्यमदो, योब्बनमदो, जीवित्तमदो^४ । तीणि
 आधिपतेय्यानि^५ - अत्ताधिपतेय्य, लोकाधिपतेय्य, धम्माधिपतेय्य । तीणि
 कथावत्थूनि - अतीत वा अद्धान आरब्भ कथ कथेय्य - 'एव अहोसि
 अतीतमद्धान' ति, अनागत वा, अद्धान आरब्भ कथ कथेय्य - 'एव
 भविस्सति अनागतमद्धान' ति, एतरहि वा पच्चुप्पन्न अद्धान आरब्भ कथ
 25 कथेय्य - 'एव होति^६ एतरहि पच्चुप्पन्न अद्धान^७' ति । तिस्सो विज्जा -
 पुब्बेनिवासानुस्सतिञ्जाण विज्जा, सत्तान चुतूपपाते^८ जाण^९ विज्जा, आसवान
 खये^{१०} जाण^{११} विज्जा । तयो विहारा - दिब्बो^{१२} विहारो, ब्रह्मा^{१३} विहारो^{१४},

१ सत्तुमिता - स्या० । २ चित्तसुख - सी०, स्या० । ३ पटिवेदेति - स्या० । ४ अनञ्ज
 तञ्जास्सामीतिन्द्रिय - सी०, स्या० । ५ सवितक्कविचारो - स्या०, सवितक्को सविचारो -
 रो० । ६ अवितक्कविचारो - स्या० । ७ जातिमदो - सी०, स्या० । ८ अधिपतेय्यानि - सी० ।
 ९ स्या० पोत्थके नत्थि । १० स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ११-१२ चुतूपपातेजाण - म० ।
 १२-१३ खयेजाण - म० । १३ दिब्बो - स्या० । १४-१५ ब्रह्मविहारो - स्या०, रो० ।

अरियो विहारो । तीणि पाटिहारियानि - इद्धिपाटिहारिय, आदेसना-
पाटिहारिय, अनुसासनीपाटिहारिय ।

“इमे खो, आवुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा-
सम्बुद्धेन तयो धम्मा सम्मदक्खाता । तत्थ सब्बेहेव सङ्गायितब्ब पे०
अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान ।

5

चत्तारो धम्मा सम्मदक्खाता

११ “अत्थि खो, आवुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता
सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सङ्गायितब्ब, न
विवदितब्ब पे० अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । कतमे चत्तारो ?

B 185
R 221

“चत्तारो सत्तिपट्टाना । इधावुसो, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति
आतापी सम्पजानो सत्तिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्स । वेदनासु 10
वेदनानुपस्सी पे० चित्ते चित्तानुपस्सी पे० धम्मेसु धम्मानुपस्सी
विहरति आतापी सम्पजानो सत्तिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्स ।

“चत्तारो सम्मप्पधाना । इधावुसो, भिक्खु अनुप्पन्नान पापकान
अकुसलान धम्मान अनुप्पादाय छन्द जनेति वायमति विरिय^१ आरभति
चित्त पग्गण्हाति पदहति । उप्पन्नान पापकान अकुसलान धम्मान पहानाय 15
छन्द जनेति वायमति विरिय आरभति चित्त पग्गण्हाति पदहति । अनुप्पन्नान
कुसलान धम्मान उप्पादाय छन्द जनेति वायमति विरिय आरभति
चित्त पग्गण्हाति पदहति । उप्पन्नान कुसलान धम्मान ठितिया असम्मोसाय
भिय्योभावाय^२ वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्द जनेति वायमति विरिय
आरभति चित्त पग्गण्हाति पदहति । 20

“चत्तारो इद्धिपादा । इधावुसो, भिक्खु छन्दसमाधिपधानसङ्खार-
समन्नागत इद्धिपाद भावेति । चित्तसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागत इद्धिपाद
भावेति । विरियसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागत इद्धिपाद भावेति । वीमसा-
समाधिपधानसङ्खारसमन्नागत इद्धिपाद भावेति ।

R 222

“चत्तारि ज्ञानानि । इधावुसो, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च 25
अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख पठम भानं^३
उपसम्पज्ज विहरति । वितक्कविचारान वूपसमा अज्झत्त सम्पसादन चेतसो
एकोदिभाव अवितक्क अविचार समाधिज पीतिसुख दुतिय भान उप-
सम्पज्ज विहरति । पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति सतो च

१ वीरिय - म० । २ भिय्योभावाय - रो० । ३-३ पठमज्ज्ञान - स्या०, रो० ।

186

सम्पजानो, सुख च कायेन पटिसवेदेति य त अरिया आचिक्खन्ति -
 'उपेक्खको सतिमा सुखविहारी' ति ततिय भान उपसम्पज्ज विहरति ।
 सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना, पुब्बे सोमनस्सदोमनस्सान
 अत्थङ्गमा, अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थ भान उपसम्पज्ज
 5 विहरति ।

१२ "चतस्सो समाधिभावना । अत्थावुसो, समाधिभावना भाविता
 बहुलीकता दिट्ठधम्मसुखविहाराय सवत्तति । अत्थावुसो, समाधिभावना
 भाविता बहुलीकता ज्ञाणदस्सनपटिलाभाय सवत्तति । अत्थावुसो, समाधि-
 भावना भाविता बहुलीकता सतिसम्पज्जञ्जाय सवत्तति । अत्थावुसो, समाधि-
 10 भावना भाविता बहुलीकता आसवान खयाय सवत्तति ।

"कतमा चावुसो, समाधिभावना भाविता बहुलीकता दिट्ठधम्मसुख-
 विहाराय सवत्तति ? इधावुसो, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च
 अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क पे० चतुत्थ भान उपसम्पज्ज विहरति ।
 अय, आवुसो, समाधिभावना भाविता बहुलीकता दिट्ठधम्मसुखविहाराय
 15 सवत्तति ।

R 223

"कतमा चावुसो, समाधिभावना भाविता बहुलीकता ज्ञाणदस्सन-
 पटिलाभाय सवत्तति ? इधावुसो, भिक्खु आलोकसञ्ज मनसि करोति,
 दिवासञ्ज अघिट्ठाति, यथा दिवा तथा रत्ति, यथा रत्ति तथा दिवा ।
 इति विवटेन चेतसा अपरियोनद्धेन सप्पभास चित्त भावेति । अय, आवुसो
 20 समाधिभावना भाविता बहुलीकता ज्ञाणदस्सनपटिलाभाय सवत्तति ।

"कतमा चावुसो, समाधिभावना भाविता बहुलीकता सति-
 सम्पज्जञ्जाय सवत्तति ? इधावुसो, भिक्खुनो विदिता वेदना उप्पज्जन्ति,
 विदिता उपट्टहन्ति, विदिता अब्भत्थ गच्छन्ति, विदिता सञ्जा उप्पज्जन्ति,
 विदिता उपट्टहन्ति, विदिता अब्भत्थ गच्छन्ति, विदिता वितक्का
 25 उप्पज्जन्ति, विदिता उपट्टहन्ति, विदिता अब्भत्थ गच्छन्ति । अय, आवुसो,
 समाधिभावना भाविता बहुलीकता सतिसम्पज्जञ्जाय सवत्तति ।

B 187

"कतमा चावुसो, समाधिभावना भाविता बहुलीकता आसवान
 खयाय सवत्तति ? इधावुसो, भिक्खु पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु उदयब्बया-
 नुपस्सी विहरति । इति रूप, इति रूपस्स समुदयो, इति रूपस्स अत्थङ्गमो,
 30 इति वेदना इति सञ्जा इति सङ्गारा इति विञ्जाण, इति विञ्जाणस्स
 समुदयो, इति विञ्जाणस्स अत्थङ्गमो । अय, आवुसो, समाधिभावना

भाविता बहुलीकता आसवान खयाय सवत्तति ।

१३ “चतस्सो अप्पमञ्जा” । इधावुसो, भिक्खु मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुत्तिय, तथा तत्तिय, तथा चतुत्थ^१ । इति उद्धमधो तिरिय सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्त लोक मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन^२ फरित्वा विहरति । करुणासहगतेन चेतसा पे० मुदितासहगतेन चेतसा पे० उपेक्खासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुत्तिय, तथा तत्तिय, तथा चतुत्थ । इति उद्धमधो तिरिय सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्त लोक उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विहरति ।

R 224

5

10

“चत्तारो आरुप्पा” । इधावुसो, भिक्खु सब्बसो रूपसञ्ज्ञान समतिक्कमा पटिघसञ्ज्ञान अत्थङ्गमा नानत्तसञ्ज्ञान अमनसिकारा ‘अनन्तो आकासो’ ति आकासानञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति । सब्बसो आकासानञ्चायतन समतिक्कम्म ‘अनन्त विञ्जाण’ ति विञ्जाणञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति । सब्बसो विञ्जाणञ्चायतन समतिक्कम्म ‘नत्थि किञ्ची’ ति आकिञ्चञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति । सब्बसो आकिञ्चञ्चायतन समतिक्कम्म नेवसञ्ज्ञानासञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति ।

15

“चत्तारि अपस्सेनानि । इधावुसो, भिक्खु सङ्घायेक पटिसेवति, सङ्घायेक अधिवासेति, सङ्घायेक परिवज्जेति, सङ्घायेक विनोदेति ।

१४ “चत्तारो अरियवसा । इधावुसो, भिक्खु सन्तुट्ठो होति इतरीतरेन चीवरेन, इतरीतरचीवरसन्तुट्ठिया च वण्णवादी, न च चीवरहेतु अनेसन अप्पतिरूप^३ आपज्जति, अलद्धा च चीवर न परितस्सति, लद्धा च चीवर अगधितो अमुच्छितो अनज्झापन्नो आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्जो परिभुञ्जति, ताय च पन इतरीतरचीवरसन्तुट्ठिया नेवत्तानुक्कसेति न पर वम्भेति । यो हि तत्थ दक्खो होति अनलसो सम्पज्जानो पटिस्सतो^४, अय वुच्चतावुसो – ‘भिक्खु पोरणे अग्गञ्जे अरियवसे ठितो’ ।

20 B 188

25

R. 225

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु सन्तुट्ठो होति इतरीतरेन पिण्डपातेन, इतरीतरपिण्डपातसन्तुट्ठिया च वण्णवादी, न च पिण्डपातहेतु अनेसन

१ अप्पमञ्जायो – रो० । २ चतुत्थि – रो० । ३ अब्यापज्जेन – सी०, स्या०, अब्यापज्जान – रो० । ४ अरुप्पा – स्या०, रो० । ५ अप्पटिरूप – सी०, स्या०, रो० । ६ पति स्सतो – सी०, रो० ।

नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्ति^१ करोति^१ अनभाव गमेति । उप्पन्न
व्यापादवितक्क पे० उप्पन्न विहिसावितक्क पे० उप्पन्नुप्पन्ने
पापके अकुसले धम्मे नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्ति करोति अनभाव
गमेति । इद वुच्चतावुसो, पहानपधान ।

“कतमञ्चावुसो, भावनापधान^२ ? इधावुसो, भिक्खु सतिसम्बोज्झङ्ग^३ 5
भावेति विवेकनिस्सित विरागनिस्सित निरोधनिस्सित वोस्सग्गपरिणामि^४ ।
धम्मविचयसम्बोज्झङ्ग भावेति विरियसम्बोज्झङ्ग भावेति पीतिसम्बोज्झङ्ग
भावेति पस्सद्धिसम्बोज्झङ्ग भावेति समाधिसम्बोज्झङ्ग भावेति
उपेक्खासम्बोज्झङ्ग भावेति विवेकनिस्सित विरागनिस्सित निरोधनिस्सित
वोस्सग्गपरिणामि । इद वुच्चतावुसो, भावनापधान । 10

“कतमञ्चावुसो, अनुरक्खणापधान^५ ? इधावुसो, भिक्खु उप्पन्न
भद्रक^६ समाधिनिमित्त अनुरक्खति अट्टिकसञ्ज पुल्लवकसञ्ज^७ विनीलकसञ्ज
विच्छिद्दकसञ्ज उद्धुमातकसञ्ज । इद वुच्चतावुसो, अनुरक्खणापधान ।

१६ “चत्तारि जाणानि – धम्मे जाण, अन्वये जाण, परिये^८ जाण^९,
सम्मृतिया जाण । 15

“अपरानि पि चत्तारि जाणानि – दुक्खे जाण, दुक्खसमुदये^{१०}
जाण, दुक्खनिरोधे^{११} जाण, दुक्खनिरोधगामिनिया^{१२} पटिपदाय^{१३} जाण ।

“चत्तारि सोतापत्तियङ्गानि – सप्पुरिसससेवो, सद्धम्मस्सवन,
योनिमनसिकारो, धम्मानुधम्मप्पटिपत्ति ।

“चत्तारि सोतापन्नस्स अङ्गानि – इधावुसो, अरियसावको बुद्धे अवेच्च- 20
प्पसादेन समन्नागतो होति- ‘इति पि सो भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो विज्जा-
चरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान
बुद्धो भगवा’ ति, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति – ‘स्वाक्खातो भगवता
धम्मो सन्दिट्टिको अकालिको एहिपत्तिको ओपनेट्ठिको पच्चत्त वेदितब्बो
विञ्जूही’ ति, सद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति- ‘सुप्पटिपन्नो भगवतो 25
सावकसङ्घो, उजुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो, आयप्पटिपन्नो भगवतो

B
R.

१-१ व्यन्तिकरोति – स्या० व्यतिकरोति – रो० । २ वोस्सग्गपरिणामि – सी० ।
३ अनुरक्खणापधान – सी०, स्या० । ४ भद्रक – सी० स्या०, रो० । ५ पुल्लवकसञ्ज –
सी०, पुल्लवकसञ्ज – रो० । ६-६ परिच्छेदजाण – स्या०, परिच्छेदे जाण – रो० । ७-७
सम्मृतिजाण – रो०, सम्मृतिजाण – स्या० । ८ समुदये – रो० । ९ निरोधे – रो० ।
१०-१० मग्गे – रो० ।

सावकसङ्घो, सामीचिष्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो, यदिद चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ट पुरिसपुग्गला एस भगवतो सावकसङ्घो आहुनेय्यो^१ पाहुनेय्यो^१ दक्खिण्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तर पुञ्जक्खेत्त लोकस्सा^२ ति, अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागतो होति अखण्डेहि अच्छिद्देहि^३ असबलेहि अकम्मासेहि भुजिस्सेहि विञ्जुप्पसत्थेहि^३ अपरामट्टेहि^३ समाधिसवत्तनिकेहि ।

“चत्तारि सामञ्जफलानि – सोतापत्तिफल, सकदागामिफल, अनागामिफल, अरहत्तफल ।

228

“चतस्सो धातुयो – पथवीधातु, आपोधातु, तेजोधातु, वायोधातु ।

10

“चत्तारो आहारा – कबळीकारो^४ आहारो ओळारिको वा सुखुमो वा, फस्सो दुतियो, मनोसञ्चेतना ततिया, विञ्जाण चतुत्थ ।

191

15

“चतस्सो विञ्जाणट्टितियो – रूपपाय वा, आवुसो, विञ्जाण तिट्ठमान तिट्ठति रूपारम्मण रूपप्पतिट्ठ नन्दूपसेचन बुद्धि^५ विरूब्धि वेपुल्ल आपज्जति, वेदनूपाय वा, आवुसो सञ्जूपाय वा, आवुसो सङ्खारूपाय वा, आवुसो, विञ्जाण तिट्ठमान तिट्ठति सङ्खारारम्मण सङ्खारप्पतिट्ठ नन्दूपसेचन बुद्धि विरूब्धि वेपुल्ल आपज्जति ।

“चत्तारि अगतिगमनानि – छन्दागति गच्छति, दोसागति गच्छति, मोहागति गच्छति, भयागति गच्छति ।

20

“चत्तारो तण्हुप्पादा – चीवरहेतु वा, आवुसो, भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, पिण्डपातहेतु वा, आवुसो, भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, सेनासनहेतु वा, आवुसो, भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, इतिभवाभवहेतु वा, आवुसो, भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति ।

25

“चतस्सो पटिपदा – दुक्खा पटिपदा दन्धाभिञ्जा, दुक्खा पटिपदा खिप्पाभिञ्जा, सुखा पटिपदा दन्धाभिञ्जा, सुखा पटिपदा खिप्पाभिञ्जा ।

129

“अपरा पि चतस्सो पटिपदा – अक्खमा पटिपदा, खमा पटिपदा, देमा पटिपदा, समा पटिपदा ।

“चत्तारि धम्मपदानि – अनभिज्झा धम्मपद, अब्यापादो धम्मपद,

१ एसो – रो० । २-२ आहुणेय्यो पाहुणेय्यो – सी० । ३ विञ्जुप्पसत्थेहि – स्या० । ४ अपरमट्टेहि – स्या० । ५ पथवीधातु – स्या०, रो० । ६ कबळीकारो – सी०, कबळिङ्कारो – रो० । ७ नन्दुपसेवन – स्या०, नन्दुपवेसन – रो० । ८ बुद्धि – स्या० ।

सम्मासति धम्मपद, सम्मासमाधि धम्मपद ।

“चत्तारि धम्मसमादानानि – अत्थावुसो, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख
चेव आर्यति च दुक्खविपाक, अत्थावुसो, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नदुक्ख
आर्यति सुखविपाक, अत्थावुसो, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुख आर्यति
दुक्खविपाक, अत्थावुसो, धम्मसमादान पच्चुप्पन्नसुख चेव आर्यति च 5
सुखविपाक ।

“चत्तारो धम्मक्खन्धो – सीलक्खन्धो, समाधिक्खन्धो, पञ्जाक्खन्धो,
विमुत्तिक्खन्धो ।

“चत्तारि बलानि – विरियबल, सतिबल, समाधिबल, पञ्जाबल ।

“चत्तारि अधिद्वानानि – पञ्जाधिद्वान, सच्चाधिद्वान, चागाधिद्वान, 10
उपसमाधिद्वान ।

१७ “चत्तारि^१ पञ्हव्याकरणानि^२ – एकसव्याकरणीयो पञ्हो, B 1
पटिपुच्छाव्याकरणीयो पञ्हो, विभज्जव्याकरणीयो पञ्हो, ठपणीयो^३ पञ्हो ।

“चत्तारि कम्मनि – अत्थावुसो, कम्म कण्ह कण्हविपाक, अत्थावुसो, R 1
कम्म सुक्क सुक्कविपाक, अत्थावुसो, कम्म^४ कण्हसुक्क कण्हसुक्कविपाक, 15
अत्थावुसो, कम्म अकण्हअसुक्क अकण्हअसुक्कविपाक कम्मक्खयाय सवत्तति ।

“चत्तारो सच्छिक्खणीया धम्मा – पुब्बेनिवासो सतिया सच्छि-
करणीयो, सत्तान चुतूपपातो^३ चक्खुना सच्छिक्खणीयो, अट्ट विमोक्खा
कायेन सच्छिक्खणीया, आसवान खयो पञ्जाय सच्छिक्खणीयो ।

“चत्तारो ओघा – कामोघो, भवोघो, दिट्ठोघो, अविज्जोघो । 20

“चत्तारो योगा – कामयोगो, भवयोगो, दिट्ठियोगो, अविज्जायोगो ।

“चत्तारो विसञ्जोगा^४ – कामयोगविसञ्जोगो, भवयोगविसञ्जोगो,
दिट्ठियोगविसञ्जोगो, अविज्जायोगविसञ्जोगो ।

“चत्तारो गन्था – अभिज्जा कायगन्थो,• ब्यापादो कायगन्थो,
सीलब्बतपरामासो कायगन्थो, इदसच्चाभिनिवेसो कायगन्थो । 25

“चत्तारि उपादानानि – कामुपादान^५, दिट्ठुपादान, सीलब्बतुपादान,
अत्तवादुपादान ।

“चत्तस्सो योनियो – अण्डजयोनि, जलाबुजयोनि, ससेदजयोनि,
ओपपातिकयोनि ।

१-१ चत्तारो पञ्हव्याकरणा – रो०, चत्तारो पञ्हा व्याकरणा – स्या० । २ ठपणीयो –

231

“चत्तस्सो गब्भावक्कन्तियो । इधावुसो, एकच्चो असम्पजानो मातुकुच्छि ओक्कमति, असम्पजानो मातुकुच्छिस्मि ठाति, असम्पजानो मातुकुच्छिम्हा^१ निक्खमति, अय पठ्था^२ गब्भावक्कन्ति । पुन च पर,

193

आवुसो, इधेकच्चो सम्पजानो मातुकुच्छि ओक्कमति, असम्पजानो मातुकुच्छिस्मि ठाति, असम्पजानो मातुकुच्छिम्हा निक्खमति, अय दुतिया गब्भावक्कन्ति । पुन च पर, आवुसो, इधेकच्चो सम्पजानो मातुकुच्छि ओक्कमति, सम्पजानो मातुकुच्छिस्मि ठाति, असम्पजानो मातुकुच्छिम्हा निक्खमति, अय ततिया गब्भावक्कन्ति । पुन च पर, आवुसो, इधेकच्चो सम्पजानो मातुकुच्छि ओक्कमति, सम्पजानो मातुकुच्छिस्मि ठाति, सम्पजानो मातुकुच्छिम्हा निक्खमति, अय चतुत्था गब्भावक्कन्ति ।

10

“चत्तारो अत्तभावपटिलाभा – अत्थावुसो, अत्तभावपटिलाभो यस्मि अत्तभावपटिलाभे अत्तसञ्चेतना येव कमति नो परसञ्चेतना, अत्थावुसो, अत्तभावपटिलाभो यस्मि अत्तभावपटिलाभे परसञ्चेतना येव कमति नो अत्तसञ्चेतना, अत्थावुसो, अत्तभावपटिलाभो यस्मि अत्तभावपटिलाभे अत्तसञ्चेतना च^३ेव कमति परसञ्चेतना च, अत्थावुसो, अत्तभावपटिलाभो यस्मि अत्तभावपटिलाभे नेव अत्तसञ्चेतना कमति नो परसञ्चेतना ।

15

232

१८ “चत्तस्सो दक्खिणाच्चिसुद्धियो – अत्थावुसो, दक्खिणा दायकतो विसुञ्जति नो पटिग्गाहकतो, अत्थावुसो, दक्खिणा पटिग्गाहकतो विसुञ्जति नो दायकतो, अत्थावुसो, दक्खिणा नेव दायकतो विसुञ्जति नो पटिग्गाहकतो, अत्थावुसो, दक्खिणा दायकतो च^४ेव विसुञ्जति पटिग्गाहकतो च ।

20

“चत्तारि सङ्गहवत्थूनि – दान, पेय्यवज्ज^३, अत्थचरिया, समानत्तता ।

“चत्तारो अनरियबोहारा – मुसावादो, पिसुणावाचा^४, फरुसावाचा, सम्फप्पलापो ।

25

“चत्तारो अरियबोहारा – मुसावादा वेरमणी, पिसुणाय वाचाय वेरमणी, फरुसाय वाचाय वेरमणी, सम्फप्पलापा वेरमणी ।

“अपरे पि चत्तारो अनरियबोहारा – अदिट्ठे दिट्ठवादिता, अस्सुते सुतवादिता, अमुते मुतवादिता, अविञ्जाते विञ्जातवादिता ।

१ मातुकुच्छिस्मा – सी०, स्या०, रो० । २ चेतसो – स्या० । ३ पियवज्ज – स्या० । ४ पिसुणावाचा – सी० ।

“अपरे पि चत्तारो अरियवोहारा - अदिट्ठे अदिट्ठवादिता, अस्सुते
अस्सुतवादिता, अमुते अमुतवादिता, अविञ्जाते अविञ्जातवादिता ।

B 194

“अपरे पि चत्तारो अनरियवोहारा - दिट्ठे अदिट्ठवादिता, सुते
अस्सुतवादिता, मुते अमुतवादिता, विञ्जाते अविञ्जातवादिता ।

‘अपरे पि चत्तारो अरियवोहारा - दिट्ठे दिट्ठवादिता, सुते सुत- 5
वादिता, मुते मुतवादिता, विञ्जाते विञ्जातवादिता ।

१६ “चत्तारो पुग्गला - इधावुसो, एकच्चो पुग्गलो अत्तन्तपो
होति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, इधावुसो, एकच्चो पुग्गलो परन्तपो
होति परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो, इधावुसो, एकच्चो पुग्गलो
अत्तन्तपो च होति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो परन्तपो च परपरि- 10
तापनानुयोगमनुयुत्तो, इधावुसो, एकच्चो पुग्गलो नेव अत्तन्तपो
होति न अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो न परन्तपो न परपरितापनानुयोग-
मनुयुत्तो, सो अनत्तन्तपो अपरन्तपो दिट्ठेव धम्मे निच्छातो निब्बुतो
सीतीभूतो^१ सुखप्पटिसवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरति ।

R 233

“अपरे पि चत्तारो पुग्गला - इधावुसो, एकच्चो पुग्गलो अत्तहिताय 15
पटिपन्नो होति नो परहिताय, इधावुसो, एकच्चो पुग्गलो परहिताय
पटिपन्नो होति नो अत्तहिताय, इधावुसो, एकच्चो पुग्गलो नेव अत्तहिताय
पटिपन्नो होति नो परहिताय, इधावुसो, एकच्चो पुग्गलो अत्तहिताय चैव
पटिपन्नो होति परहिताय च ।

“अपरे पि चत्तारो पुग्गला - तमो तमपरायनो, तमो जोतिपरायनो, 20
जोति तमपरायनो, जोति जोतिपरायनो ।

“अपरे पि चत्तारो पुग्गला - समणमचलो, समणपट्टमो, समण
पुण्डरीको, समणेषु समणसुखुमालो ।

“इमे खो, आवुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा- 25
सम्बुद्धेन चत्तारो धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सङ्गायितब्ब
पे० अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान ।

B 195

पठमभाणवार निट्ठित^४ ।

१ इध पनावुसो - सी० । २-२ एकच्चपुग्गलो - रो० । ३ सीतिभूतो - सी०,
रो० । ४ पठमभाणवारो निट्ठितो - म०, पठमकभाणवार निट्ठित - रो०, सङ्गीतियचतुक्क
निट्ठित - स्या० ।

पञ्च धम्मा सम्मदक्खाता

२० “अत्थि खो, आवुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन पञ्च धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सङ्गायितब्ब पे० अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । कतमे पञ्च ?

“पञ्चक्खन्धा – रूपक्खन्धो, वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्खन्धे, सङ्खार-
5 क्खन्धो, विञ्जाणक्खन्धो ।

. 234

“पञ्चुपादानक्खन्धा – रूपुपादानक्खन्धो^१, वेदनुपादानक्खन्धो, सञ्जु-
पादानक्खन्धो, सङ्खारुपादानक्खन्धो^२, विञ्जाणुपादानक्खन्धो ।

“पञ्च कामगुणा – चक्खुविञ्जेय्या रूपा इट्ठा कन्ता मनापा
पियरूपा कामूपसहिता रजनीया, सोतविञ्जेय्या सद्दा घानविञ्जेय्या
10 गन्धा जिब्हाविञ्जेय्या रसा कायविञ्जेय्या फोट्टुब्बा इट्ठा कन्ता
मनापा पियरूपा कामूपसहिता रजनीया ।

“पञ्च गतियो – निरयो, तिरच्छानयोनि, पेत्तिविसयो, मनुस्सा,
देवा ।

“पञ्च मच्छरियानि –^३ आवासमच्छरिय, कुलमच्छरिय, लाभ-
15 मच्छरिय, वण्णमच्छरिय, धम्ममच्छरिय ।

“पञ्च नीवरणानि – कामच्छन्दनीवरण, ब्यापादनीवरण^४, थिन-
मिद्धनीवरण^५, उद्धच्चकुक्कुच्चनीवरण, विचिकिच्छानीवरण ।

“पञ्च ओरम्भागियानि सञ्जोजनानि^६ – सक्कायदिट्ठि, विचि-
किच्छा, सीलब्बतपरामासो, कामच्छन्दो, ब्यापादो ।

१ 196 20

“पञ्च उद्धम्भागियानि सञ्जोजनानि – रूपरागो, अरूपरागो,
मानो, उद्धच्च, अविज्जा ।

235

“पञ्च सिक्खापदानि – पाणातिपाता वेरमणी, अदिन्नादाना
वेरमणी, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी, मुसावादा वेरमणी, सुरामेरयमज्ज-
प्पमादट्ठाना वेरमणी ।

25

२१ “पञ्च अभब्बट्ठानानि – अभब्बो, आवुसो, खीणासवो भिक्खु
सञ्चिच्च पाण जीविता वोरोपेतु, अभब्बो खीणासवो भिक्खु अदिन्न
थेय्यसङ्घात आदियित्तु, अभब्बो खीणासवो भिक्खु मेथुन धम्म पटिसेवित्तु,

१ रूपुपादानक्खन्धो – सी०, स्या०, रो० । २ सङ्खारुपादानक्खन्धो – सी० स्या०,
रो० । ३ कामूपसहिता – स्या० । ४ यपादनीवरण – रो० । ५ थिनमिद्धनीवरण – सी०,
स्या०, रो० । ६ सयोजनानि – सी०, रो० । ७ आदात्तु – स्या०, रो० ।

अभब्बो खीणासवो भिक्खु सम्पजानमुसा भासित्तु, अभब्बो खीणासवो भिक्खु सन्निधिकारक कामे परिभुञ्जित्तु, सेय्यथापि पुब्बे आगारिकभूतो^१ ।

“पञ्च व्यसनानि^२— जातिव्यसन, भोगव्यसन, रोगव्यसन, सील-व्यसन, दिट्ठिव्यसन । नावुसो, सत्ता जातिव्यसनहेतु वा भोगव्यसनहेतु वा रोगव्यसनहेतु वा कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुग्गति विनिपात निरय 5 उपपज्जन्ति । सीलव्यसनहेतु वा, आवुसो, सत्ता दिट्ठिव्यसनहेतु वा कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपज्जन्ति ।

“पञ्च सम्पदा — जातिसम्पदा, भोगसम्पदा, आरोग्यसम्पदा, सीलसम्पदा, दिट्ठिसम्पदा । नावुसो, सत्ता जातिसम्पदाहेतु वा भोगसम्पदा-हेतु वा आरोग्यसम्पदाहेतु वा कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक 10 उपपज्जन्ति । सीलसम्पदाहेतु वा, आवुसो, सत्ता दिट्ठिसम्पदाहेतु वा कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जन्ति ।

“पञ्च आदीनवा दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । इधावुसो, दुस्सीलो सीलविपन्नो पमादाधिकरण महति भोगजानि निगच्छति, अय पठमो आदीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । पुन च पर, आवुसो, दुस्सीलस्स 15 सीलविपन्नस्स पापको कित्तिसद्दो अब्भुग्गच्छति, अय दुतियो आदीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । पुन च पर, आवुसो, दुस्सीलो सीलविपन्नो यञ्जादेव परिस उपसङ्कमति, यदि खत्तियपरिसा यदि ब्राह्मणपरिसा यदि गहपतिपरिसा यदि समणपरिसा, अविसारदो उपसङ्कमति मङ्कुभूतो, अय 20 ततियो आदीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । पुन च पर, आवुसो, दुस्सीलो सीलविपन्नो सम्मूब्धो काल करोति, अय चतुत्थो आदीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । पुन च पर, आवुसो, दुस्सीलो सीलविपन्नो कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपज्जति, अय पञ्चमो आदीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया ।

“पञ्च आनिससा सीलवतो सीलसम्पदाय । इधावुसो, सीलवा 25 सीलसम्पन्नो अप्पमादाधिकरण महन्त भोगक्खन्ध अधिगच्छति, अय पठमो आनिससो सीलवतो सीलसम्पदाय । पुन च पर, आवुसो, सीलवतो सीलसम्पन्नस्स कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भुग्गच्छति, अय दुतियो आनिससो सीलवतो सीलसम्पदाय । पुन च पर, आवुसो, सीलवा

१ अगारिकभूतो — सी०, अगारियभूतो — रो० । २ व्यसनानि — रो० । ३ उप्प-ज्जन्ति — रो० ।

सीलसम्पन्नो यञ्जदेव परिस उपसङ्कमति, यदि खत्तियपरिस यदि ब्राह्मण-परिस यदि गहपतिपरिस यदि समणपरिस, विसारदो उपसङ्कमति अमङ्कु-भूतो, अय ततियो आनिससो सीलवत्तो सीलसम्पदाय । पुन च पर, आवुसो, सीलवा सीलसम्पन्नो असम्मूब्हो काल करोति, अय चतुत्थो आनिससो
5 सीलवतो सीलसम्पदाय । पुन च पर, आवुसो, सीलवा सीलसम्पन्नो कायस्स भेदा पर मरणा सुगतिं सगग लोक उपपज्जति, अय पञ्चमो आनिससो सीलवतो सीलसम्पदाय ।

“चोदकेन, आवुसो, भिक्खुना पर चोदेतुकामेन पञ्च धम्मे अज्झत्त उपट्ठपेत्वा परो चोदेतब्बो । कालेन वक्खामि नो अकालेन,
1 237 10 भूतेन वक्खामि नो प्रभूतेन, सण्हेन वक्खामि नो फरुसेन, अत्थसहितेन^१ वक्खामि नो अनत्थसहितेन, मेत्तचित्तेन वक्खामि नो दोसन्तरेणा ति—चोदकेन, आवुसो, भिक्खुना पर चोदेतुकामेन इमे पञ्च धम्मे अज्झत्त उपट्ठ-पेत्वा परो चोदेतब्बो ।

2 198 22 “पञ्च पधानियङ्गानि — इधावुसो, भिक्खु सद्धो होति, सद्दहति
15 तथागतस्स बोधि — ‘इति पि शो भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरण-सम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान बुद्धो भगवा’ ति, अप्पाबाधो होति अप्पातङ्को, समवेपाकिनिया गहणिया समन्नागतो नात्तिसीताय नाच्चुण्हाय मज्झिमाय पधानक्खमाय, असठो होति अमायावी, यथाभूत अत्तान आविकत्ता^२ सत्थरि वा विञ्जूसु वा
20 सब्रह्मचारीसु, आरद्धविरियो विहरति, अकुसलान धम्मान पहानाय, कुसलान धम्मान उपसम्पदाय, थामवा दब्धपरक्कमो अनिक्खित्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु, पञ्चवा होनि, उदयत्थगामिनिया पञ्जाय समन्नागतो अरियाय निब्बेधिकाय सम्मादुक्खक्खयगामिनिया ।

23 “पञ्च सुद्धावासा — अविहा, अतप्पा, सुदस्सा, सुदस्सी,
25 अकनिट्टा ।

“पञ्च अनागामिनो — अन्तरापरिनिब्बायी, उपहच्चपरिनिब्बायी, असङ्खारपरिनिब्बायी, ससङ्खारपरिनिब्बायी, उद्धसोतो अकनिट्टगामी ।

2 238 24 “पञ्च चेतोखिला^३ । इधावुसो, भिक्खु सत्थरि कङ्कति
विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसीदति । थो सो, आवुसो, भिक्खु सत्थरि
30 कङ्कति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसीदति तस्स चित्त न नमति

१ अत्थसहितेन — स्या० । २ आविकत्ता — स्या० । ३ चेतोखीला — सी०, स्या० ।

आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय । यस्स चित्त न नमति
 आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, अय पठमो चेतोखिलो । पुन
 च पर, आवुसो, भिक्खु धम्मे कङ्कति विचिकिच्छति पे० सङ्गे
 कङ्कति विचिकिच्छति सिक्खाय कङ्कति विचिकिच्छति सब्रह्मचारीसु
 कुपितो होति अनत्तमनो आहतचित्तो खिलजातो^१ । यो सो, आवुसो, 5
 भिक्खु सब्रह्मचारीसु कुपितो होति अनत्तमनो आहतचित्तो खिलजातो
 तस्स चित्त न नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय । यस्स
 चित्त न नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, अय पञ्चमो
 चेतोखिलो ।

२५ “पञ्च चेतसो विनिबन्धा । इधावुसो, भिक्खु कामेसु^२ 10
 अवीतरागो होति अविगतच्छन्दो^३ अविगतपेमो अविगतपिपासो अविगत-
 परिळाहो अविगततण्हो । यो सो, आवुसो, भिक्खु कामेसु अवीतरागो
 होति अविगतच्छन्दो अविगतपेमो अविगतपिपासो अविगतपरिळाहो
 अविगततण्हो तस्स चित्त न नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय
 पधानाय । यस्स चित्त न नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, 15
 अय पठमो चेतसो विनिबन्धो । पुन च पर, आवुसो, भिक्खु काये अवीतरागो
 होति पे० रूपे अवीतरागो होति पे० पुन च पर, आवुसो, भिक्खु
 यावदत्थ उदरावदेहक भुञ्जित्वा सेय्यसुख पस्ससुख मिद्धसुख अनुयुत्तो
 विहरति पे० पुन च पर, आवुसो, भिक्खु अञ्जतर देवनिकाय
 पणिधाय ब्रह्मचरिय चरति—‘इमिनाह सीलेन वा वतेन वा तपेन वा 20
 ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवञ्जतरो वा’ ति । यो
 सो, आवुसो, भिक्खु अञ्जतर देवनिकाय पणिधाय ब्रह्मचरिय चरति—
 ‘इमिनाह सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा
 भविस्सामि देवञ्जतरो वा’ ति, तस्स चित्त न नमति आतप्पाय
 अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय । यस्स चित्त न नमति आतप्पाय 25
 अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, अय पञ्चमो चेतसो विनिबन्धो ।

B 199

R. 239

“पञ्चिन्द्रियानि — चक्खुन्द्रिय, सोत्तिन्द्रिय, धानिन्द्रिय, जिब्हिन्द्रिय,
 कायिन्द्रिय ।

“अपरानि पि पञ्चिन्द्रियानि — सुखिन्द्रिय, दुक्खिन्द्रिय, सोमनस्सि-
 न्द्रिय, दोमनस्सिन्द्रिय, उपेक्खिन्द्रिय ।

30

“अपरानि पि पञ्चिन्द्रियानि - सद्धिन्द्रिय, विरियिन्द्रिय, सतिन्द्रिय, समाधिन्द्रिय, पञ्चिन्द्रिय ।

२६ ‘पञ्च निस्सरणिया’^१ धातुयो । इधावुसो, भिक्खुनो कामे मनसिकरोतो कामेसु चित्त न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिट्ठति न विमुच्चति, नेक्खम्म खो पनस्स मनसिकरोतो नेक्खम्मे चित्त पक्खन्दति पसीदति सन्तिट्ठति विमुच्चति । तस्स त चित्त सुगत सुभावित सुवुट्ठित सुविमुत्त विसयुत्त कामेहि । ये च कामपच्चया उप्पज्जन्ति आसवा विघाता परिळाहा, मुत्तो सो तेहि । न सो त वेदन वेदेति । इदमक्खात कामान निस्सरण ।

१० “पुन च पर, आवुसो, भिक्खुनो ब्यापाद^२ मनसिकरोतो ब्यापादे चित्त न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिट्ठति न विमुच्चति, अब्यापाद खो पनस्स मनसिकरोतो अब्यापादे चित्त पक्खन्दति पसीदति सन्तिट्ठति विमुच्चति । तस्स त चित्त सुगत सुभावित सुवुट्ठित सुविमुत्त विसयुत्त ब्यापादेन । ये च ब्यापादपच्चया उप्पज्जन्ति आसवा विघाता परिळाहा, मुत्तो सो तेहि । न सो त वेदन वेदेति । इदमक्खात ब्यापादस्स निस्सरण ।

२० “पुन च पर, आवुसो, भिक्खुनो विहेसा मनसिकरोतो विहेसाय चित्त न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिट्ठति न विमुच्चति, अविहेस खो पनस्स मनसिकरोतो अविहेसाय चित्त पक्खन्दति पसीदति सन्तिट्ठति विमुच्चति । तस्स त चित्त सुगत सुभावित सुवुट्ठित सुविमुत्त विसयुत्त विहेसाय । ये च विहेसापच्चया उप्पज्जन्ति आसवा विघाता परिळाहा, मुत्तो सो तेहि । न सो त वेदन वेदेति । इदमक्खात विहेसाय निस्सरण ।

२५ “पुन च पर, आवुसो, भिक्खुनो रूपे^३ मनसिकरोतो रूपेसु चित्त न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिट्ठति न विमुच्चति, अरूप खो पनस्स मनसिकरोतो अरूपे^४ चित्त पक्खन्दति पसीदति सन्तिट्ठति विमुच्चति । तस्स त चित्त सुगत सुभावित सुवुट्ठित सुविमुत्त विसयुत्त रूपेहि । ये च रूपपच्चया उप्पज्जन्ति आसवा विघाता परिळाहा, मुत्तो सो तेहि । न सो त वेदन वेदेति । इदमक्खात रूपान निस्सरण ।

१ निस्सारणीया - स्या० रो० । २ ब्यापाद - रो० । ३ रूप - रो० । ४ नप्पसीदति - सी० । ५ अरूपेसु - रो० ।

पुन च पर, आवुसो, भिक्खुनो सक्काय मनसिकरोतो सक्काये
चित्त न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिट्ठति न विमुच्चति^१, सक्कायनिरोध
खो पनस्स मनसिकरोतो सक्कायनिरोधे चित्त पक्खन्दति पसीदति
सन्तिट्ठति विमुच्चति । तस्स त चित्त सुगत सुभावित सुवुट्ठित सुविमुत्त
विसयुत्त सक्कायेन । ये च सक्कायपच्चया उप्पज्जन्ति आसवा विघाता 5
परिळाहा, मुत्तो सो तेहि । न सो त वेदंन वेदेति । इदमक्खात R
सक्कायस्स निस्सरण ।

२७ “पञ्च विमुत्तायतनानि । इधावुसो, भिक्खुनो सत्था
धम्म देसेति अञ्जतरो वा गरुट्ठानिको^१ सब्रह्मचारी । यथा यथा, आवुसो,
भिक्खुनो सत्था धम्म देसेति अञ्जतरो वा गरुट्ठानिको सब्रह्मचारी तथा 10 B
तथा सो तस्मिं धम्मे अत्थपटिसवेदी^२ च होति धम्मपटिसवेदी^३ च । तस्स
अत्थपटिसवेदिनो धम्मपटिसवेदिनो पामोज्ज^४ जायति, पमुदितस्स पीति
जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुख वेदेति, सुखिनो
चित्त समाधियति, इद पठम विमुत्तायतन ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुनो न हेव खो सत्था धम्म देसेति 15
अञ्जतरो वा गरुट्ठानिको सब्रह्मचारी, अपि च खो यथासुत यथापरियत्त
धम्म वित्थारेण परेस देसेति पे० अपि च खो यथासुत यथापरियत्त
धम्म वित्थारेण सज्जाय करोति पे० अपि च खो यथासुत यथापरि- F
यत्त धम्म चेतसा अनुवितक्केति अनुविचारेति मनसानुपेक्खति पे०
अपि च रवस्स^५ अञ्जतर समाधिनिमित्त सुग्गहित होति सुमनसिकत 20
सूपधारित^६ सुप्पटिविद्ध पञ्जाय । यथा यथा, आवुसो, भिक्खुनो अञ्ज-
तर समाधिनिमित्त सुग्गहित होति सुमनसिकत सूपधारित सुप्पटिविद्ध
पञ्जाय तथा तथा सो तस्मिं धम्मे अत्थपटिसवेदी च होति धम्मपटिसवेदी
च । तस्स अत्थपटिसवेदिनो धम्मपटिसवेदिनो पामोज्ज जायति, पमुदितस्स
पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुख वेदेति, 25 J
सुखिनो चित्त समाधियति, इद पञ्चम विमुत्तायतन ।

“पञ्च विमुत्तिपरिपाचनीया सञ्जा – अनिच्चसञ्जा, अनिच्चे
दुक्खसञ्जा, दुक्खे अनत्तसञ्जा, पहानसञ्जा, विरागसञ्जा ।

१ मुच्चति – मी० । २ गरुट्ठानियो – स्या०, म० । ३ अत्थपटिसवेदी – सी० । ४ धम्म-
पटिसवेदी – सी० । ५ पामुज्ज – सी० । ६ ख्वास्स – स्या० । ७ सुग्गहित – रो०, सुग्गहित –

“इमे खो, आदुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा-
सम्बुद्धेन पञ्च धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सङ्गायितब्ब पे०
अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान ।।

छ धम्मा सम्मदक्खाता

२८ “अत्थि खो, आदुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता
5 सम्मासम्बुद्धेन छ धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सङ्गायितब्ब
पे० अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । कतमे छ ?

B 202

“छ अञ्जत्तिकानि आयत्तनानि – चक्खायतन, सोतायतन, घाना-
यतन, जिह्वायतन, कायायतन, मनायतन ।

“छ बाहिरानि आयत्तनानि – रूपायतन, सहायतन, गन्धायतन,
10 रसायतन, फोटुब्बायतन, धम्मायतन ।

“छ विञ्जाणकाया – चक्खुविञ्जाण, सोतविञ्जाण, घान-
विञ्जाण, जिह्वाविञ्जाण, कायविञ्जाण, मनोविञ्जाण ।

“छ फस्सकाया – चक्खुसम्फस्सो, सोतसम्फस्सो, घानसम्फस्सो,
जिह्वासम्फस्सो, कायसम्फस्सो, मनोसम्फस्सो ।

R 244 15

“छ वेदनाकाया – चक्खुसम्फस्सजा वेदना, सोतसम्फस्सजा वेदना,
घानसम्फस्सजा वेदना, जिह्वासम्फस्सजा वेदना, कायसम्फस्सजा वेदना,
मनोसम्फस्सजा वेदना ।

“छ सञ्जाकाया – रूपसञ्जा, सहसञ्जा, गन्धसञ्जा,
रससञ्जा, फोटुब्बसञ्जा, धम्मसञ्जा ।

20 “छ सञ्चेतनाकाया – रूपसञ्चेतना, सहसञ्चेतना, गन्धसञ्चेतना,
रससञ्चेतना, फोटुब्बसञ्चेतना, धम्मसञ्चेतना ।

“छ तण्हाकाया – रूपतण्हा, सहतण्हा, गन्धतण्हा, रसतण्हा, फोटुब्ब-
तण्हा, धम्मतण्हा ।

25 “छ अगारवा – इधादुसो, भिक्खु सत्थरि अगारवो विहरति
‘अप्पतिस्सो’, धम्मे अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सञ्जे अगारवो
विहरति अप्पतिस्सो, सिक्खाय अगारवो विहरति अप्पतिस्सो,
अप्पमादे अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, षटिसन्थारे अगारवो विहरति
अप्पतिस्सो ।

“छ गारवा^१— इधावुसो, भिक्खु सत्थरि सगारवो विहरति सप्पतिस्सो^२, धम्मे सगारवो विहरति सप्पतिस्सो, सङ्घे सगारवो विहरति सप्पतिस्सो, सिक्खाय सगारवो विहरति सप्पतिस्सो, अप्पमादे सगारवो विहरति सप्पतिस्सो, पटिसन्थारे सगारवो विहरति सप्पतिस्सो ।

“छ सोमनस्सूपविचारा^३— चक्खुना रूप दिस्वा सोमनस्सट्टानिय रूप 5 B 203
उपविचरति, सोतेन सद् सुत्वा घानेन गन्ध घायित्वा जिञ्हाय रस सायित्वा कायेन फोट्टुब्ब फुसित्वा मनसा धम्म विञ्जाय सोमनस्स-ट्टानिय धम्म उपविचरति ।

“छ दोमनस्सूपविचारा^४— चक्खुना रूप दिस्वा दोमनस्सट्टानिय रूप उपविचरति पे० मनसा धम्म विञ्जाय दोमनस्सट्टानिय धम्म 10 R 245
उपविचरति ।

“छ उपेक्खूपविचारा^५— चक्खुना रूप दिस्वा उपेक्खाट्टानिय^६ रूप उपविचरति पे० मनसा धम्म विञ्जाय उपेक्खाट्टानिय धम्म उपविचरति ।

“छ सारणीया धम्मा । इधावुसो, भिक्खुनो मत्त कायकम्म 15
पच्चुपट्टित होति सब्रह्मचारीसु आवि^७ चैव रहो च । अय पि धम्मो सारणीयो पियकरणो गरुकरणो सङ्गहाय अविवादाय^८ सामग्गिया एकी-भावाय सवत्तति ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुनो मेत्त वचीकम्म पच्चुपट्टित होति सब्रह्मचारीसु आवि चैव रहो च । अय पि धम्मो सारणीयो पे० 20
एकीभावाय सवत्तति ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुनो मेत्त मनोकम्म पच्चुपट्टित होति सब्रह्मचारीसु आवि चैव रहो च । अय पि धम्मो सारणीयो पे०
एकीभावाय सवत्तति ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु ये ते लाभा धम्मिका धम्मलद्धा 25
अन्तमसो पत्तपरियापन्नमत्त पि, तथारूपेहि लाभेहि अप्पटिविभत्तभोगी होति, सीलवन्तेहि सब्रह्मचारीहि साधारणभोगी । अय पि धम्मो सारणीयो

१ सगारवा - स्या० । २ सप्पतिस्सवो - सी० । ३ सोमनस्सूपविचारा - सी०, स्या० ।
४ दोमनस्सूपविचारा - सी०, स्या० । ५ उपेक्खूपविचारा - रो०, उपेक्खुपविचारा - सी० ।
६ उपेक्खट्टानिय - रो०, उपेक्खट्टानिय - स्या० । ७ सारणीया - स्या०, रो० । ८ आवी - रो० ।
९ अविवादाय अविहेसाय - सी० ।

पे० एकीभावाय सवत्तति ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु यानि तानि सीलानि अखण्डानि
अच्छिद्धानि असबलानि अकम्मासानि भुजिस्सानि विञ्जुप्पसत्थानि^१ अपरा-
मट्टानि समाधिसवत्तनिकानि तथारूपेसु सीलेसु सीलसामञ्जगतो
5 विहरति सब्रह्मचारीहि आवि चेव रहो च । अय पि धम्मो सारणीयो

पे० एकीभावाय सवत्तति ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु याय दिट्ठि अरिया निय्यानिका
निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाय तथारूपाय दिट्ठिया दिट्ठिसामञ्जगतो
विहरति सब्रह्मचारीहि आवि चेव रहो च । अय पि धम्मो सारणीयो
10 पियकरणो गरुकरणो सङ्गहाय अविवादाय सामग्गिया एकीभावाय सवत्तति ।

३० छ विवादमूलानि । इधावुसो, भिक्खु कोधनो होति उपनाही ।
यो सो, आवुसो, भिक्खु कोधनो होति उपनाही सो सत्थरि पि अगारवो
विहरति अप्पतिस्सो^२, धम्मे पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सङ्घे पि
अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सिक्खाय पि न परिपूरकारी^३ होति । यो
15 सो, आवुसो, भिक्खु सत्थरि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, धम्मे अगारवो
विहरति अप्पतिस्सो, सङ्घे अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सिक्खाय न परि-
पूरकारी, सो सङ्घे विवाद जनेति, यो^४ होति विवादो बहुजनअहिताय
बहुजनअसुखाय अनत्थाय^५ अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सान । एवरूप चे तुम्हे,
आवुसो, विवादमूल अज्झत्त वा बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथ, तत्र तुम्हे,
20 आवुसो, तस्सेव पापकस्स विवादमलस्स पहानाय वायमेय्याथ । एवरूप चे
तुम्हे, आवुसो, विवादमूल अज्झत्त वा बहिद्धा वा न समनुपस्सेय्याथ, तत्र तुम्हे,
आवुसो, तस्सेव पापकस्स विवादमूलस्स आर्याति अनवस्सवाय पटिपज्जेय्याथ ।
एवमेतस्स पापकस्स विवादमूलस्स पहान होति । एवमेतस्स पापकस्स
विवादमूलस्स आर्याति अनवस्सवो होति ।

25 “पुन च पर, आवुसो, भिक्खु मक्खी होति पळासी^६ पे०
इस्सुकी होति मच्छरी सठो होति मायावी पापिच्छो होति मिच्छा-
दिट्ठी सन्दिट्ठिपरामासी होति आधानग्गाही^७ दुप्पटिनिस्सग्गी । यो सो,

१ विञ्जुप्पसत्थानि - स्या० । २ अप्पटिस्सवो - सी० । ३ परिपूरीकारी - स्या० ।
४ यो सो - स्या०, रो० । ५ बहुनो जनस्स अनत्थाय - सी०, बहुजनस्स अनत्थाय - स्या०, रो० ।
६ पलासी - सी०, स्या० । ७ उस्सुकी - सी० । ८ आधानगाही - रो०, आदानगाही -
स्या० ।

आवुसो, भिक्खु सन्दिट्ठिपरामासी होति आधानग्गाही दुप्पटिनिस्सग्गी, सो सत्थरि पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, धम्मो पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सङ्घे पि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सिक्खाय पि न परिपूरकारी होति । यो, सो, आवुसो, भिक्खु सत्थरि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, धम्मो अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, सङ्घे अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, 5 B 2 सिक्खाय न परिपूरकारी, सो सङ्घे विवादं जनेति, यो होति विवादो बहुजनअहिताय बहुजनअसुखाय अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सान । एवरूप चे तुम्हे, आवुसो, विवादमूल अज्झत्त वा बहिद्धा वा समनुपस्सेय्याथ, तत्र तुम्हे, आवुसो, तस्सेव पापकस्स विवादमूलस्स पहानाय वायमेय्याथ । एवरूप चे तुम्हे, आवुसो, विवादमूल अज्झत्त वा बहिद्धा वा न समनुपस्से- 10 य्याथ, तत्र तुम्हे, आवुसो, तस्सेव पापकस्स विवादमूलस्स आर्यति अनवस्स- वाय पटिपज्जेय्याथ । एवमेतस्स पापकस्स विवादमूलस्स पहान होति । एवमेतस्स पापकस्स विवादमूलस्स आर्यति अनवस्सवो होति ।

“छ धातुयो – पथवीधातु^१, आपोधातु, तेजोधातु, वायोधातु, आकास-
धातु, विञ्जाणधातु ।

३१ ‘छ निस्सरणिया^२ धातुयो । इधावुसो, भिक्खु एव वदेय्य – ‘मेत्ता हि खो मे चेतोविमुत्ति भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुट्ठिता परिचिता सुसमारद्धा, अथ च पन मे ब्यापादो चित्त परियादाय तिट्ठती’ ति, सो ‘मा हेव,’ तिस्स वचनीयो, ‘मायस्सा एव अवच, मा भगवन्त अग्गाचिक्खि, न हि साधु भगवतो अग्गाक्खान, न हि भगवा एव वदेय्य । 20 अट्ठानमेत, आवुसो, अनवकासो य मेत्ताय चेतोविमुत्तिया भाविताय बहुलीकताय यानीकताय वत्थुकताय अनुट्ठिताय परिचिताय सुसमारद्धाय, अथ च पनस्स ब्यापादो चित्त परियादाय ठस्सती ति^३ नेत ठान विज्जति । निस्सरण हेत, आवुसो, ब्यापादस्स – यदिद मेत्ता चेतोविमुत्ती’ ति ।

“इध पनावुसो, भिक्खु एव वदेय्य – ‘करुणा हि खो मे चेतोविमुत्ति 25 भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुट्ठिता परिचिता सुसमारद्धा, अथ च पन मे विहेसा चित्त परियादाय तिट्ठती’ ति, सो ‘मा हेव,’ तिस्स वचनीयो, ‘मायस्सा एव अवच, मा भगवन्त अग्गाचिक्खि, न हि साधु भगवतो अग्गाक्खान, न हि भगवा एव वदेय्य । अट्ठानमेत, आवुसो, अनवकासो य करुणाय चेतोविमुत्तिया भाविताय बहुलीकताय यानीकताय 30

१ पथवीधातु – स्या०, रो० । २ निस्सारणीया – स्या०, रो० । ३ ठस्सति – म० ।

206

वत्थुकताय अनुद्विताय परिचिताय सुसमारद्धाय, अथ च पनस्स विहेसा चित्त परियादाय ठस्सती ति नेत ठान विज्जति । निस्सरण हेत, आवुसो, विहेसाय – यदिद करुणा चेतोविमुत्ती' ति ।

“इध पनावुसो, भिक्खु एव वदेय्य—‘मुदिता हि खो मे चेतोविमुत्ति
5 भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्विता परिचिता सुसमारद्धा,
अथ च पन मे अरति चित्त परियादाय तिद्वती’ ति, सो ‘मा हेव,’ तिस्स
वचनीयो, ‘मायस्सा एव अवच, मा भगवन्त अब्भाचिक्खि, न हि साधु
भगवतो अब्भक्खान, न हि भगवा एव वदेय्य । अट्टानमेत, आवुसो,
अनवकासो य मुदिताय चेतोविमुत्तिया भाविताय बहुलीकताय यानीकताय
249 10 वत्थुकताय अनुद्विताय परिचिताय सुसमारद्धाय, अथ च पनस्स अरति
चित्त परियादाय ठस्सती ति नेत ठान विज्जति । निस्सरण हेत, आवुसो,
अरतिया – यदिद मुदिता चेतोविमुत्ती’ ति ।

“इध पनावुसो, भिक्खु एव वदेय्य – ‘उपेक्खा हि खो मे चेतो-
विमुत्ति भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्विता परिचिता
15 सुसमारद्धा, अथ च पन मे रागो चित्त परियादाय तिद्वती’ ति, सो ‘मा
हेव,’ तिस्स, वचनीयो, ‘मायस्सा एव अवच, मा भगवन्त अब्भाचिक्खि, न
हि साधु भगवतो अब्भक्खान, न हि भगवा एव वदेय्य । अट्टानमेत,
आवुसो, अनवकासो य उपेक्खाय चेतोविमुत्तिया भाविताय बहुलीकताय
यानीकताय वत्थुकताय अनुद्विताय परिचिताय सुसमारद्धाय, अथ च पनस्स
20 रागो चित्त परियादाय ठस्सती ति नेत ठान विज्जति । निस्सरण हेत,
आवुसो, रागस्स – यदिद उपेक्खा चेतोविमुत्ती’ ति ।

“इध पनावुसो, भिक्खु एव वदेय्य – ‘अनिमित्ता हि खो मे
चेतोविमुत्ति भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्विता परिचिता
सुसमारद्धा, अथ च पन मे’ निमित्तानुसारि^२ विज्जाण होती’ ति, सो
25 ‘मा हेव,’ तिस्स वचनीयो, ‘मायस्सा एव अवच, मा भगवन्त अब्भाचिक्खि,
न हि साधु भगवतो अब्भक्खान, न हि भगवा एव वदेय्य । अट्टानमेत,
आवुसो, अनवकासो य अनिमित्ताय चेतोविमुत्तिया भाविताय बहुलीकताय
यानीकताय वत्थुकताय अनुद्विताय परिचिताय सुसमारद्धाय, अथ च पनस्स
207 निमित्तानुसारि विज्जाण भविस्सती ति^३ नेत ठान विज्जति । निस्सरण
30 हेत, आवुसो, सब्बनिमित्तान – यदिद अनिमित्ता चेतोविमुत्ती’ ति ।

१ मेत – स्या०, मे त – सी० । २ निमित्तानुसारी – सी० । ३ भविस्सति – म० ।

“इध पनावुसो, भिक्खु एव वदेय्य – ‘अस्मी ति खो मे विगत’^१, अयमहमस्मी ति न ममनुपस्सामि, अथ च पन मे विचिकिच्छाकथङ्कथासल्ल चित्त परियादाय तिट्ठती’ ति, सो ‘मा हेव’, तिस्स वचनीयो, ‘मायस्मा एव अवच, मा भगवन्त अग्गिचिक्खि, न हि साधु भगवतो अग्गिक्खान्, न हि भगवा एव वदेय्य । अट्टानमेत, आवुसो, अनवकासो य अस्मी ति विगते’^२ 5
अयमहमस्मी ति असमनुपस्सतो, अथ च पनस्स विचिकिच्छाकथङ्कथासल्ल चित्त परियादाय ठस्सती ति नेत ठान विज्जति । तिस्सरण हेत, आवुसो, विचिकिच्छाकथङ्कथासल्लस्स – यदिद अस्मिमानसमुग्घातो’ ति ।

R 250

३२ “छ अनुत्तरियानि – दस्सनानुत्तरिय, सवनानुत्तरिय, लाभानुत्तरिय, सिक्खानुत्तरिय, पारिचरियानुत्तरिय, अनुस्सतानुत्तरिय । 10

“ छ अनुस्सतिट्ठानानि – बुद्धानुस्सति, धम्मानुस्सति, सङ्खानुस्सति, सीलानुस्सति, चागानुस्सति, देवतानुस्सति ।

३३ “छ सततविहारा । इधावुसो, भिक्खु चक्खुना रूप दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको^३ विहरति सतो सम्पजानो । सोतेन सह सुत्वा पे० मनसा धम्म विञ्जाय० नेव सुमनो होति न दुम्मनो, 15 उपेक्खकोविहरति सतो सम्पजानो ।

३४ “ छळाभिजातियो – इधावुसो, एकच्चो कण्हाभिजातिको समानो कण्ह धम्म अभिजायति, इध पनावुसो, एकच्चो कण्हाभिजातिको समानो सुक्क धम्म अभिजायति, इध पनावुसो, एकच्चो कण्हाभिजातिको समानो अकण्ह असुक्क निब्बान अभिजायति, इध पनावुसो, एकच्चो 20 सुक्काभिजातिको समानो सुक्क धम्म अभिजायति, इध पनावुसो, एकच्चो सुक्काभिजातिको समानो कण्ह धम्म अभिजायति, इध पनावुसो, एकच्चो सुक्काभिजातिको समानो अकण्ह असुक्क निब्बान अभिजायति ।

R 251

“छ निब्बेधभागिया सञ्जा – अनिच्चसञ्जा, अनिच्चे दुक्खसञ्जा, दुक्खे अनत्तसञ्जा, पहानसञ्जा, विरागसञ्जा, निरोधसञ्जा । 25

“इमे खो, आवुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन छ धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सङ्गायितव्व ... पे० अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान ।

B.208

सत्त धम्मा सम्मदक्खाता

३५ “अत्थि खो, आवुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता

१ विगते – स्या०, विघाते – रो० । २ विघाते – रो० । ३ उपेक्खको च – सी०, स्या० ।

सम्मासम्बुद्धेन सत्त धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सङ्गायितब्ब पे० अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । कतमे सत्त ?

“सत्त अरियधनानि^१ - सद्धाधन, सीलधन, हिरिधन, ओत्तप्पधन, सुतधन, चागधन, पञ्जाधन ।

52

“सत्त बोज्झङ्गा - सतिसम्बोज्झङ्गो, धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो, विरियसम्बोज्झङ्गो, पीतिसम्बोज्झङ्गो, पस्सद्विसम्बोज्झङ्गो, समाधिसम्बोज्झङ्गो, उपेक्खासम्बोज्झङ्गो ।

“सत्त सन्नाधिपरिक्खारा^२ - सम्मादिट्ठि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति ।

10

“सत्त असद्धम्मा - इधावुसो, भिक्खु अस्सद्धो होति, अहिरिको होति, अनोत्तप्पी होति, कुसीतो होति, मुट्ठस्सति होति, दुप्पञ्जो होति ।

“सत्त सद्धम्मा - इधावुसो, भिक्खु सद्धो होति, हिरिमा होति, ओत्तप्पी हाति, बहुस्सुतो होति, आरद्धविरियो होति, उपट्ठितस्सति होति, पञ्जवा होति ।

15

“सत्त सप्पुरिसधम्मा - इधावुसो, भिक्खु धम्मञ्जू च होति, अत्थञ्जू च, अत्तञ्जू च, मत्तञ्जू च, कालञ्जू च, परिसञ्जू च, पुग्गलञ्जू च ।

R 259

३६ “सत्त निद्दसवत्थूनि^३ - इधावुसो, भिक्खु सिक्खासमादाने तिब्बच्छन्दो होति, आर्याति च सिक्खासमादाने अविगतपेमो, धम्मनिसन्तिया तिब्बच्छन्दो होति, आर्याति च धम्मनिसन्तिया अविगतपेमो, इच्छाविनये तिब्बच्छन्दो होति, आर्याति च इच्छाविनये अविगतपेमो, पटिसल्लाने तिब्बच्छन्दो होति, आर्याति च पटिसल्लाने अविगतपेमो, विरियारम्भे तिब्बच्छन्दो होति, आर्याति च विरियारम्भे अविगतपेमो, सतिनेपक्के तिब्बच्छन्दो होति, आर्याति च सतिनेपक्के अविगतपेमो, दिट्ठिपटिवेधे तिब्बच्छन्दो होति, आर्याति च दिट्ठिपटिवेधे अविगतपेमो ।

25

“सत्त सञ्जा - अनिच्चसञ्जा, अनत्तसञ्जा, असुभसञ्जा, आदीनवसञ्जा, पहानसञ्जा^४, विरागसञ्जा, निरोधसञ्जा ।

“सत्त बलानि - सद्धाबल, विरियबल, हिरिबल, ओत्तप्पबल, सतिबल, समाधिबल, पञ्जाबल ।

30

३७ “सत्त विञ्जाणट्ठितियो । सन्तावुसो, सत्ता नानत्तकाय

१ धनानि - रो० । २ निद्दसवत्थूनि - स्या०, रो० । ३. पहाणसञ्जा - सी० ।

नानत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि — मनुस्सा, एकच्चे च देवा, एकच्चे च विनिपातिका । अय पठमा विञ्जाणट्ठिति ।

“सन्तावुसो, सत्ता नानत्तकाया एकत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि — देवा ब्रह्मकायिका पठमाभिनिव्वत्ता । अय दुतिया विञ्जाणट्ठिति ।

“सन्तावुसो, सत्ता एकत्तकाया नानत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि — देवा 5
आभस्सरा । अय ततिया विञ्जाणट्ठिति ।

“सन्तावुसो, सत्ता एकत्तकाया एकत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि — देवा सुभकिण्हा । अय चतुत्थी^१ विञ्जाणट्ठिति ।

“सन्तावुसो, सत्ता सब्बसो रूपसञ्जान समतिक्कमा, पटिघ-
सञ्जान अत्थङ्गमा^२, नानत्तसञ्जान अमनसिकारा ‘अनन्तो आकासो’ ति 10
आकासानञ्चायतनूपगा^३ । अय पञ्चमी विञ्जाणट्ठिति ।

“सन्तावुसो, सत्ता सब्बसो आकासानञ्चायतन समतिक्कम्म
‘अनन्त विञ्जाण’ ति विञ्जाणञ्चायतनूपगा । अय छट्ठी विञ्जाणट्ठिति ।

“सन्तावुसो, सत्ता सब्बसो विञ्जाणञ्चायतन समतिक्कम्म ‘नत्थि 15
क्विञ्ची’ ति आकिञ्चञ्चायतनूपगा । अय सप्तमी विञ्जाणट्ठिति ।

“सत्त पुगला दक्खिण्येया — उभतोभागविमुत्तो, पञ्जाविमुत्तो, 20
कायसक्खि, दिट्ठिप्पत्तो, सद्धाविमुत्तो, धम्मानुसारी, सद्धानुसारी ।

“सत्त अनुसया — कामरागानुसयो, पटिघानुसयो, दिट्ठानुसयो,
विचिकिच्छानुसयो, मानानुसयो, भवरागानुसयो, अविज्जानुसयो ।

“सत्त सञ्जोजनानि — अनुनयसञ्जोजन, पटिघसञ्जोजन, दिट्ठि- 20
सञ्जोजन, विचिकिच्छासञ्जोजन, मानसञ्जोजन, भवरागसञ्जोजन,
अविज्जासञ्जोजन ।

“सत्त अधिकरणसमथा — उप्पन्नूप्पन्नान अधिकरणान समथाय
वूपसमाय सम्मुखाविनयो दातव्वो, सतिविनयो दातव्वो, अमूह्विनयो
दातव्वो, पटिञ्जाय कारेतव्व, येभुय्यसिका, तस्सपापियसिका^४, 25
तिणवत्थारको ।

“इमे खो, आवुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता
सम्मासम्बुद्धेन सत्त धम्मा सम्मदक्खाता, तत्त्व सब्बहेव सङ्गायितव्व
पे० अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान ।

दुतियभाणवार निट्ठित ।

१ चतुत्था — स्या०, रो० । २ अत्थगमा — रो० । ३ आकासानञ्चायतनूपगा — स्या० ।

४ सयोजनानि — सी०, रो० । ५ तस्सपापियसिका — सी०, रो० ।

अट्ट धम्मा सम्मदक्खाता

३८ “अत्थि खो, आवुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बद्धेन अट्ट धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सङ्गायितब्ब पे० अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । कतमे अट्ट ?

“अट्ट मिच्छत्ता - मिच्छादिट्ठि, मिच्छसङ्कप्पो, मिच्छावाज्जा, मिच्छा-
5 कम्मन्तो, मिच्छाआजीवो, मिच्छावायामो, मिच्छासति, मिच्छासमाधि ।

211
255

‘अट्ट सम्मत्ता - सम्मादिट्ठि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, सम्मा-
कम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि ।

“अट्ट पुग्गला दक्खिण्येय्या - सोतापन्नो, सातापत्तिफलसच्छिकिरियाय
पटिपन्नो, सकदागामी, सकदागामिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो, अनागामी,
10 अनागामिफलसच्छिकिरियाय पटिपन्नो, अरहा, अरहत्तफलसच्छिकिरियाय
पटिपन्नो ।

३९ “अट्ट कुसीतवत्थुनि । इधावुसो, भिक्खुना कम्म कातब्ब होति ।
तस्स एव होति - ‘कम्म खो मे कातब्ब भविस्सति । कम्म खो पन मे
करोन्तस्स कायो किलमिस्सति । हन्दाह निपज्जामी’ ति । सो निपज्जति,
15 न विरिय आरभति अप्पत्तस्स पत्तिया, अनधिगतस्स अधिगमाय, असच्छि-
कतस्स सच्छिकिरियाय । इद पठम कुसीतवत्थु ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुना कम्म कत होति । तस्स एव हाति-
‘अह खो कम्म अकासि । कम्म खो पन मे करोन्तस्स कायो किलन्तो ।
हन्दाह निपज्जामी’ ति । सो निपज्जति, न विरिय आरभति पे०
20 इद दुतिय कुसीतवत्थु ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुना मग्गो गन्तब्बो होति । तस्स एव
होति - ‘मग्गो खो मे गन्तब्बो भविस्सति । मग्ग खो पन मे गच्छन्तस्स
कायो किलमिस्सति । हन्दाह निपज्जामी’ ति । सो निपज्जति, न विरिय
आरभति इद ततिय कुसीतवत्थु ।

25 “पुन च पर, आवुसो, भिक्खुना मग्गो गतो होति । तस्स एव
होति - ‘अह खो मग्ग अगमासि । मग्ग खो पन मे गच्छन्तस्स कायो
किलन्तो । हन्दाह निपज्जामी’ ति । सो निपज्जति, न विरिय आरभति,
इद चतुत्थ कुसीतवत्थु ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो

न लभति लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स एव होति - 'अहं खो गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो नालत्थ लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स मे कायो किलन्तो अकम्मञ्चो । हन्दाह निपज्जामी' ति । सो निपज्जति, न विरिय आरभति इदं पञ्चमं कुसीतवत्थु ।

5

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो लभति लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स एव होति - 'अहं खो गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो अलत्थ लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स मे कायो गरुको अकम्मञ्चो मासाचित मञ्चे । हन्दाह निपज्जामी' ति । सो निपज्जति, न विरिय आरभति इदं छट्ठं कुसीतवत्थु ।

B 2:

10

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुनो उप्पन्नो होति अप्पमत्तको आबाधो । तस्स एव होति - 'उप्पन्नो खो मे अयं अप्पमत्तको आबाधो, अत्थि कप्पो निपज्जितु । हन्दाह निपज्जामी' ति । सो निपज्जति, न विरिय आरभति इदं सत्तमं कुसीतवत्थु ।

15

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु गिलाना वुट्ठितो होति, अचिरवुट्ठितो गेलञ्जा । तस्स एव होति - 'अहं खो गिलाना वुट्ठितो अचिरवुट्ठितो गेलञ्जा । तस्स मे कायो दुब्बलो अकम्मञ्चो' हन्दाह निपज्जामी' ति । सो निपज्जति, न विरिय आरभति अप्पत्तस्स पत्तिया, अनधिगतस्स अधिगमाय, असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । इदं अट्ठमं कुसीतवत्थु ।

20

४० “अट्ठं आरम्भवत्थुनि^१ । इधावुसो, भिक्खुना कम्म कातब्बं होति । तस्स एव होति - 'कम्मं खो मे कातब्बं भविस्सति । कम्मं खो पन मे करोन्तेन न सुकरं बुद्धानं सासनं मनसि कातु । हन्दाहं विरिय आरभामि अप्पत्तस्स पत्तिया, अनधिगतस्स अधिगमाय, असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाया' ति । सो विरिय आरभति अप्पत्तस्स पत्तिया, अनधिगतस्स अधिगमाय, असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । इदं पठमं आरम्भवत्थु ।

25

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुना कम्मं कतं होति । तस्स एव होति - 'अहं खो कम्मं अकासि । कम्मं खो पनाहं करोन्तो नासक्खिं बुद्धानं

R. 2

१ एत्थं अत्थि कप्पो निपज्जितु' इति अधिको पाठो सी० पोत्थके अत्थि । २ आरम्भवत्थुनि - सी०, स्या०, रो० ।

सासन मनसि कातु । हन्दाह विरिय आरभामि पे० सो विरिय आरभति
पे० इद दुतिय आरम्भवत्थ ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुना मग्गो गन्तब्बो होति । तस्स एव
होति - मग्गो खो मे गन्तब्बो भविस्सति । मग्ग खो पन मे गच्छन्तेन
5 न सुकर बुद्धान सासन मनसि कातु । हन्दाह विरिय आरभामि सो
विरिय आरभति इद ततिथ आरम्भवत्थु ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुना मग्गो गतो होति । तस्स एव
होति - अह खो मग्ग अगमासि । मग्ग खो पनाह गच्छन्तो नासक्खि बुद्धान
सासन मनसि कातु । हन्दाह विरिय आरभामि सो विरिय आरभति
10 इद चतुत्थ आरम्भवत्थु ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो
न लभति लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स एव
होति - अह खो गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो नालत्थ लूखस्स वा
पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स मे कायो लहुको
15 कम्मञ्चो । हन्दाह विरिय आरभामि सो विरिय आरभति इद
पञ्चम आरम्भवत्थु ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु गाम वा निगम वा पिण्डाय
चरन्तो लभति लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि ।
तस्स एव होति-अह खो गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो अलत्थ
20 लूखस्स वा पणीतस्स भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स मे कायो बलवा
कम्मञ्चो । हन्दाह विरिय आरभामि सो विरिय आरभति इद
छट्ठ आरम्भवत्थु ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुनो उप्पन्नो होति अप्पमत्तको आबाधो ।
तस्स एव होति - उप्पन्नो खो मे अय अप्पमत्तको आबाधो । ठान खो
25 पनेत विज्जति य मे आबाधो पवड्ढेय्यः । हन्दाह विरिय आरभामि
सो विरिय आरभति इद सत्तम आरम्भवत्थु ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु गिलाना वुट्ठितो होति अचिरवुट्ठितो
गेलञ्जा । तस्स एव होति-अह खो गिलाना वुट्ठितो अचिरवुट्ठितो
गेलञ्जा । ठान खो पनेत विज्जति य मे आबाधो पञ्चुदावत्तेय्य ।
30 हन्दाह विरिय आरभामि अप्पत्तस्स पत्तिया, अनधिगतस्स अधिगमाय

असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाया' ति । सो विरिय आरभति अप्पत्तस्स पत्तिया, अनधिगतस्स अधिगमाय, असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । इद अट्टम आरम्भवत्थु ।

B 2

४१ "अट्ट दानवत्थुनि - आसज्ज दान देति, भया दान देति, 'अदासि मे' ति दान देति, 'दस्सति मे' ति दान देति, 'साहु' दान' ति दान देति, 'अह पचामि, इमे न पचन्ति, नारहामि पचन्तो अपचन्तान दान न^१ दातु^२' ति दान देति, 'इद मे दान ददतो कल्याणो कित्तिसद्दो अभुग्गच्छती' ति दान देति, चित्तालङ्कारचित्तपरिक्खारत्थ दान देति ।

5

४२ "अट्ट दानूपपत्तियो^३ - इधावुसो, एकच्चो दान देति समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा अन्न पान वत्थ यान मालागन्धविलेपन सेय्यावसथ-पदीपेय्य । सो य देति त पच्चासीसति^४ । सो पस्सति खत्तियमहासाल वा ब्राह्मणमहासाल वा गहपतिमहासाल वा पञ्चहि कामगुणेहि समप्पित समङ्गीभूत^५ परिचारयमान । तस्स एव होति- 'अहो वताह कायस्स भेदा पर मरणा खत्तियमहासालान वा ब्राह्मणमहासालान वा गहपतिमहासालान वा सहव्यत^६ उपपज्जेय्य' ति । सो त चित्त दहति, त चित्त अधिट्ठाति, त चित्त भावेति । तस्स त चित्त हीने विमुत्त उत्तरि^७ अभावित तत्रूपपत्तिया सवत्तति । त च खो सीलवतो वदामि नो दुस्सीलस्स । इज्झतावुसो, सीलवतो चेतोपणिधि विसुद्धत्ता ।

10

15

R. 2

"पुन च पर, आवुसो, इधेकच्चो दान देति समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा अन्न पान पे० सेय्यावसथपदीपेय्य । सो य देति त पच्चासीसति । तस्स सुत होति- 'चातुमहाराजिका^८ देवा दीघायुका वण्णवन्तो सुखबहुला' ति । तस्स एव होति- 'अहो वताह कायस्स भेदा पर मरणा चातुमहाराजिकान देवान सहव्यत उपपज्जेय्य' ति । सो त चित्त दहति, त चित्त अधिट्ठाति, त चित्त भावेति । तस्स त चित्त हीने विमुत्त उत्तरि अभावित तत्रूपपत्तिया सवत्तति । त च खो सीलवतो वदामि नो दुस्सीलस्स । इज्झतावुसो, सीलवतो चेतोपणिधि विसुद्धत्ता ।

20

25

"पुन च पर, आवुसो, इधेकच्चो दान देति समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा अन्न पान पे० सेय्यावसथपदीपेय्य । सो य देति त पच्चासीसति ।

B 21

१ साधु-सी० । २-२ अदातु-रो० । ३ दानूपपत्तियो-स्या०, दानुप्पत्तियो-सी०, रो० । ४ पच्चासिसति-सी०, स्या०, रो० । ५ समङ्गीभूत-सी०, रो० । ६ सहव्यत-रो० । ७ उपपज्जेय्य-रो० । ८ उत्तरि-सी०, रो० । ९ चातुम्महाराजिका-स्या०, रो० ।

तस्स सुत होति - 'तावतिसा देवा पे० यामा देवा पे० तुसिता देवा पे० निम्मानरती' देवा पे० परनिम्मितवसवती देवा दीघायुका वण्णवन्तो सुखबहुला' ति । तस्म एव होति - 'अहो वताह कायस्स भेदा पर मरणा परनिम्मितवसवतीन देवान सहब्यत उपपज्जेय्य' ति ।
 5 सो त चित्त दहति, त चित्त अधिट्ठाति, त चित्त भावेति । तस्स त चित्त हीने विमुत्त उत्तरि अभवित तत्रूपपत्तिया सवत्तति । त च खो सीलवतो वदामि नो दुस्सीलस्स । इज्झतावुसो, सीलवतो चेतोपणिधि विसुद्धत्ता ।

'पुन च पर, आवुसो, इधेकच्चो दान देति समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा अन्न पान वत्थ यान मालागन्धविलेपन सेय्यावसथपदीपेय्य ।
 10 सो य देति त पच्चासीसति । तस्स सुत होति - 'ब्रह्मकायिका देवा दीघायुका वण्णवन्तो सुखबहुला' ति । तस्स एव होति - 'अहो वताह कायस्स भेदा पर मरणा ब्रह्मकायिकान देवान सहब्यत उपपज्जेय्य' ति । सो त चित्त दहति, त चित्त अधिट्ठाति, त चित्त भावेति । तस्स त चित्त हीने
 160 विमुत्त उत्तरि अभवित तत्रूपपत्तिया सवत्तति । त च खो सीलवतो
 15 वदामि नो दुस्सीलस्स, वीतरागस्स नो सरागस्स । इज्झतावुसो, सीलवतो चेतोपणिधि वीतरागत्ता ।

'अट्ट परिसा - खत्तियपरिसा, ब्राह्मणपरिसा, गहपतिपरिसा, समणपरिसा, चातुमहाराजिकपरिसा, तावतिसपरिसा, मारपरिसा, ब्रह्मपरिसा ।

'अट्ट लोकधम्मा - लाभो च अलाभो च यसो च अयसो च
 20 निन्दा च पसासा च सुख च दुक्ख च ।

"४३ "अट्ट अभिभायतनानि । अज्झत्त रूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि सुवण्णदुब्बण्णानि । 'तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति - एवसञ्जी होति । इद पठम अभिभायतन ।

"अज्झत्त रूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि
 25 सुवण्णदुब्बण्णानि । 'तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति - एवसञ्जी होति । इद दुतिय अभिभायतन ।

"अज्झत्त अरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि सुवण्णदुब्बण्णानि । 'तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति - एवसञ्जी होति । इद ततिय अभिभायतन ।

30 "अज्झत्त अरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि

सुवर्णदुब्बणानि । 'तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति - एवसञ्ची
होति । इद चतुत्थ अभिभायतन ।

“अञ्जत्त अरूपञ्ची एको बहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि नील-
वणानि नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि । सेय्यथापि नाम उमापुप्फ^१ नील
नीलवण नीलनिदस्सन नीलनिभास, सेय्यथा वा पन त वत्थ बाराणसेय्यक
उभतोभागविमट्ट नील नीलवण नीलनिदस्सन नीलनिभास, एवमेव^२ अञ्जत्त
अरूपसञ्ची एको बहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि नीलवणानि नील-
निदस्सनानि नीलनिभासानि । 'तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति -
एवसञ्ची होति । इद पञ्चम अभिभायतन ।

“अञ्जत्त अरूपसञ्ची एको बहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि पीत-
वणानि पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि । सेय्यथापि नाम कणिकारपुप्फ
पीत पीतवण पीतनिदस्सन पीतनिभास, सेय्यथा वा पन त वत्थ बाराण-
सेय्यक उभतोभागविमट्ट पीत पीतवण पीतनिदस्सन पीतनिभास, एवमेव
अञ्जत्त अरूपसञ्ची एको बहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि पीतवणानि
पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि । 'तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति
- एवसञ्ची होति । इद छट्ठ अभिभायतन ।

“अञ्जत्त अरूपसञ्ची एको बहिद्धा रूपानि पस्सति लोहितकानि
लोहितकवणानि लोहितकनिदस्सनानि लोहितकनिभासानि । सेय्यथापि
नाम बन्धुजीवकपुप्फ लोहितक लोहितकवण लोहितकनिदस्सन लोहितक-
निभास, सेय्यथा वा पन त वत्थ बाराणसेय्यक उभतोभागविमट्ट लोहितक
लोहितकवण लोहितकनिदस्सन लोहितकनिभास, एवमेव अञ्जत्त अरूप-
सञ्ची एको बहिद्धा रूपानि पस्सति लोहितकानि लोहितकवणानि लोहितक-
निदस्सनानि लोहितकनिभासानि । 'तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी'
ति - एवसञ्ची होति । इद सत्तम अभिभायतन ।

“अञ्जत्त अरूपसञ्ची एको बहिद्धा रूपानि पस्सति ओदातानि
ओदातवणानि ओदातनिदस्सनानि ओदातनिभासानि । सेय्यथापि नाम
ओसधितारका ओदाता ओदातवणा ओदातनिदस्सना ओदात-
निभासा, सेय्यथा वा पन त वत्थ बाराणसेय्यक उभतोभागविमट्ट ओदात
ओदातवण ओदातनिदस्सन ओदातनिभास, एवमेव अञ्जत्त अरूपसञ्ची
एको बहिद्धा रूपानि पस्सति ओदातानि ओदातवणानि ओदातनिदस्सनानि

१ उम्मारपुप्फ - सी० रो० उम्मारपुप्फ - स्या० । २ एवमेव - सी० ।

ओदातनिभासानि । 'तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति - एवसञ्जी
होति । इदं अट्टमं अभिभायतनं ।

४४ "अट्टं विमोक्खा । रूपी रूपानि पस्सति । अयं पठमो
विमोक्खो ।

262 5 "अज्भत्तं अरूपसञ्जी^१ बहिद्धा रूपानि पस्सति । अयं दुतियो
विमोक्खो ।

"सुभन्तेव अधिमुत्तो होति । अयं ततियो विमोक्खो ।

"सब्बसो रूपसञ्जानं समतिक्कमा, पटिघसञ्जानं अत्थङ्गमा^२,
नानत्तसञ्जानं अमनसिकारा, 'अनन्तो आकासो' ति आकासानञ्चायतनं
10 उपसम्पज्जं विहरति । अयं चतुत्थो विमोक्खो ।

"सब्बसो आकासानञ्चायतनं समतिक्कम्मं 'अनन्तं विञ्जाणं'
ति विञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पज्जं विहरति । अयं पञ्चमो विमोक्खो ।

"सब्बसो विञ्जाणञ्चायतनं समतिक्कम्मं 'नत्थि किञ्ची'
ति आकिञ्चञ्चायतनं उपसम्पज्जं विहरति । अयं छट्ठो विमोक्खो ।

15 "सब्बसो आकिञ्चञ्चायतनं समतिक्कम्मं नेवसञ्जानासञ्जा
यतनं उपसम्पज्जं विहरति । अयं सत्तमो विमोक्खो ।

"सब्बसो नेवसञ्जानासञ्चायतनं समतिक्कम्मं सञ्जावेदयितं
निरोधं उपसम्पज्जं विहरति । अयं अट्टमो विमोक्खो ।

B 218 "इमे खो, आवुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अहरता सम्मा-
20 सम्बुद्धेन अट्टं धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थं सब्बेहेव सङ्गायितव्वं पे०
अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ।

नव धम्मा सम्मदक्खाता

४५ "अत्थि खो, आवुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता
सम्मासम्बुद्धेन नव धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थं सब्बेहेव सङ्गायितव्वं
पे० अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । कतमे नव ?

25 "नव आघातवत्थुनि - 'अनत्थं मे अचरी' ति आघातं बन्धति, 'अनत्थं
मे चरती' ति आघातं बन्धति, 'अनत्थं मे चरिस्सती' ति आघातं बन्धति,
'पियस्सं मे मनापस्सं अनत्थं अचरी' ति आघातं बन्धति पे० अनत्थं
चरती ति आघातं बन्धति पे० अनत्थं चरिस्सती ति आघातं बन्धति,
'अप्पियस्सं मे अमनापस्सं अत्थं अचरी' ति आघातं बन्धति पे० अत्थं

१ अरूपसञ्जी एको - रो०, म०, स्या० । २ अत्थंगमा - रो० ।

चरती ति आघात बन्धति पे अत्थ चरिस्सती ति आघात बन्धति ।

“नव आघातपटिविनेया—‘अनत्थ मे अचरि, त कुतेत्थ लब्भा’ ति आघात पटिविनेति, ‘अनत्थ मे चरति, त कुतेत्थ लब्भा’ ति आघात पटिविनेति, ‘अनत्थ मे चरिस्सति, त कुतेत्थ लब्भा’ ति आघात पटिविनेति, ‘पियस्स मे मनापस्स अनत्थ अचरि पे० अनत्थ चरति पे० अनत्थ चरिस्सति, त कुतेत्थ लब्भा’ ति आघात पटिविनेति, ‘अप्पियस्स मे अमना पस्स अत्थ अचरि पे० अत्थ चरति पे० अत्थ चरिस्सति, त कुतेत्थ लब्भा’ ति आघात पटिविनेति ।

४६ “नव सत्तावासा—सन्तावुसो, सत्ता नानत्तकाया नानत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि—मनुस्सा, एकच्चे च देवा, एकच्चे च विनिपातिका । अय पठमो सत्तावासो ।

“सन्तावुसो, सत्ता नानत्तकाया एकत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि—देवा ब्रह्मकायिका पठमाभिनिब्बत्ता । अय दुतियो सत्तावासो ।

“सन्तावुसो, सत्ता एकत्तकाया नानत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि—देवा आभस्सरा । अय ततियो सत्तावासो ।

“सन्तावुसो, सत्ता एकत्तकाया एकत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि—देवा सुभकिण्हा । अय चतुत्थो सत्तावासो ।

“सन्तावुसो, सत्ता असञ्जिनो अप्पटिसवेदिनो, सेय्यथापि—देवा असञ्जसत्ता । अय पञ्चमो सत्तावासो ।

“सन्तावुसो, सत्ता सब्बसो रूपसञ्जान समतिक्कमा, पटिघसञ्जान अत्थङ्गमा, नानत्तसञ्जान अमनसिकारा ‘अनन्तो आकासो’ ति आकासानञ्चायतनूपगा । अय छट्ठो सत्तावासो ।

“सन्तावुसो, सत्ता सब्बसो आकासानञ्चायतन समतिक्कम्म ‘अनन्त विञ्जाण’ ति विञ्जाणञ्चायतनूपगा । अय सत्तमो सत्तावासो ।

“सन्तावुसो, सत्ता सब्बसो विञ्जाणञ्चायतन समतिक्कम्म ‘नत्थि किञ्ची’ ति आकिञ्चञ्चायतनूपगा । अय अट्ठमो सत्तावासो ।

“सन्तावुसो, सत्ता सब्बसो आकिञ्चञ्चायतन समतिक्कम्म नैव-सञ्जानासञ्चायतनूपगा । अय नवमो सत्तावासो ।

४७ “नव अक्खणा असमया ब्रह्मचरियवासाय । इधावसो, तथागतो च लोके उप्पन्नो होति अरह सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च देसियति ओप-समिको परिनिब्बानिको सम्बोधगामी सुगतप्पवेदितो, अय च पुग्गलो निरय

उपपन्नो होति । अयं पठमो अक्खणो असमयो ब्रह्मचरियवासाय ।

“पुन च पर, आवुसो, तथागतो च लोके उप्पन्नो होति अरह सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च देसियति ओपसमिको परिनिब्बानिको सम्बोधगामी सुगतप्पवेदितो, अयं च पुग्गलो तिरच्छानयोनि उपपन्नो होति । अयं दुतियो
5 अक्खणो असमयो ब्रह्मचरियवासाय ।

“पुन च पर पे० पेत्तिविसय उपपन्नो होति । अयं ततियो अक्खणो असमयो ब्रह्मचरियवासाय ।

220

“पुन च पर पे० असुरकाय उपपन्नो होति । अयं चतुत्थो अक्खणो असमयो ब्रह्मचरियवासाय ।

10 “पुन च पर पे० अञ्जतर दीघायुक देवनिकाय उपपन्नो होति । अयं पञ्चमो अक्खणो असमयो ब्रह्मचरियवासाय ।

“पुन च पर पे० पच्चन्तिमेषु जनपदेषु पच्चाजातो होति मिलक्खेषु अविञ्जातारेसु, यत्थ नत्थि गति भिक्खून भिक्खुनीन उपासकान उपासिकान । अयं छट्ठो अक्खणो असमयो ब्रह्मचरियवासाय ।

15

“पुन च पर पे० मज्झिमेसु जनपदेषु पच्चाजातो होति, सो च होति मिच्छादिट्ठिको विपरीतदस्सनो – ‘नत्थि दिन्न, नत्थि यिट्ठ, नत्थि हुत, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मान फल विपाको, नत्थि अयं लोको, नत्थि परो लोको, नत्थि माता, नत्थि पिता, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि लोके
ल 265 समणब्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इमं च लोकं परं च लोकं सयं
20 अभिञ्जा सच्छिक्कत्वा पवेदेन्ती’ ति । अयं सत्तमो अक्खणो असमयो ब्रह्मचरियवासाय ।

“पुन च पर पे० मज्झिमेसु जनपदेषु पच्चाजातो होति, सो च होति दुप्पञ्चो जळो एळमूगो नप्पटिबलो सुभासितदुब्भासितानमत्थमञ्जातु । अयं अट्ठमो अक्खणो असमयो ब्रह्मचरियवासाय ।

25

“पुन च पर, आवुसो, तथागतो च लोके न उप्पन्नो होति अरह सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च न देसियति ओपसमिको परिनिब्बानिको सम्बोधगामी सुगतप्पवेदितो, अयं च पुग्गलो मज्झिमेसु जनपदेषु पच्चाजातो होति, सो च होति पञ्चवा अजळो अनेळमूगो पटिबलो सुभासितदुब्भासितानमत्थमञ्जातु । अयं नवमो अक्खणो असमयो ब्रह्मचरियवासाय ।

30

४८ नव अनुपुब्बविहारा – इधावुसो, भिक्खु विविच्चेव कामेहि

विविच्च अकुसलेहि धम्मोहि सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख पठम
 भान उपसम्पज्ज विहरति, वितक्कविचारान वूपसमा पे० दुतिय
 भान उपसम्पज्ज विहरति, पीतिया च विरागा पे० ततिय भान
 उपसम्पज्ज विहरति, सुखस्स च पहाना पे० चतुत्थ ज्ञान उपसम्पज्ज
 विहरति, सब्बसो रूपसञ्चान समतिककमा पे० आकासानञ्चायतन 5
 उपसम्पज्ज विहरति, सब्बसो आकासानञ्चायतन समतिककम्म
 'अनन्त विञ्जाण' ति विञ्जाणञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति, सब्बसो
 विञ्जाणञ्चायतन समतिककम्म 'नत्थि किञ्ची' ति आकिञ्चञ्जायतन R 1
 उपसम्पज्ज विहरति, सब्बसो आकिञ्चञ्जायतन समतिककम्म नेव-
 सञ्जानासञ्जायतन उपसम्पज्ज विहरति, सब्बसो नेवसञ्जानासञ्जा- 10
 यतन समतिककम्म सञ्जावेदयितनिरोध उपसम्पज्ज विहरति ।

४६ "नव अनुपुब्बनिरोधा - पठम भान समापन्नस्स कामसञ्जा
 निरुद्धा होति, दुतिय भान समापन्नस्स वितक्कविचारा निरुद्धा होन्ति,
 ततिय भान समापन्नस्स पीति निरुद्धा होति, चतुत्थ भान समापन्नस्स
 अस्सासपस्सासा निरुद्धा होन्ति, आकासानञ्चायतन समापन्नस्स रूपसञ्जा 15
 निरुद्धा होति, विञ्जाणञ्चायतन समापन्नस्स आकासानञ्चायतनसञ्जा
 निरुद्धा होति, आकिञ्चञ्जायतन समापन्नस्स विञ्जाणञ्चायतनसञ्जा
 निरुद्धा होति, नेवसञ्जानासञ्जायतन समापन्नस्स आकिञ्चञ्जा-
 यतनसञ्जा निरुद्धा होति, सञ्जावेदयितनिरोध समापन्नस्स सञ्जा
 च वेदना च निरुद्धा होन्ति । 20

"इमे खो, आवुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा-
 सम्बुद्धेन नव धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सङ्गायितब्ब पे०
 अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान ।

दस धम्मा सम्मदक्खाताः

५० "अत्थि खो, आवुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता
 सम्मासम्बुद्धेन दस धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सङ्गायितब्ब 25
 पे० अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । कतमे दस ?

"दस नाथकरणा धम्मा । इधावुसो, भिक्खु सीलवा होति, पातिमोक्ख-
 सवरसवुतो विहरति आचारगौचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु^१ वज्जेसु भयदस्सावी,
 समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु । यम्पावुसो, भिक्खु सीलवा होति,

B 22
R 26

१ अनुमत्तेसु - सी० स्या०, रो० ।

पातिमोक्खसवरसवुतो विहरति, आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु, अय पि धम्मो नाथकरणो ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु बहुस्सुतो होति सुतधरो सुतसन्निचयो । ये ते धम्मा आदिकल्याणा मज्झेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्था’
5 सव्यञ्जना केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय अभिवदन्ति, तथारूपास्स धम्मा बहुस्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेक्खिता दिट्ठिया सुप्पटिविद्धा । यम्पावुसो, भिक्खु बहुस्सुतो होति पे० दिट्ठिया सुप्पटिविद्धा, अय पि धम्मो नाथकरणो ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु कल्याणमित्तो होति कल्याणसहायो
10 कल्याणसम्पवद्धो । यम्पावुसो, भिक्खु कल्याणमित्तो होति कल्याणसहायो कल्याणसम्पवद्धो, अय पि धम्मो नाथकरणो ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु सुवचो होति सोवचस्सकरणेहि धम्मोहि समन्नागतो, खमो पदक्खिणग्गाही अनुसासनि । यम्पावुसो, भिक्खु सुवचो होति पे० पदक्खिणग्गाही अनुसासनि, अय पि धम्मो
15 नाथकरणो ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु यानि तानि सब्रह्मचारीन उच्चावचानि किंकरणीयानि, तत्थ दक्खो होति अनलसो, तत्रुपायाय वीमसाय समन्नागतो, अल कातु अल सविधातु । यम्पावुसो, भिक्खु यानि तानि सब्रह्मचारीन पे० अल सविधातु, अय पि धम्मो नाथकरणो ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु धम्मकामो होति पियसमुदाहारो
20 अभिधम्मो अभिविनये उल्लारपामोज्जो’ । यम्पावुसो, भिक्खु धम्मकामो होति पे० उल्लारपामोज्जो, अय पि धम्मो नाथकरणो ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु सन्तुट्ठो होति इतरीतरेहि चीवर-
पिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारेहि । यम्पावुसो, भिक्खु
25 सन्तुट्ठो होति पे० परिक्खारेहि, अय पि धम्मो नाथकरणो ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु आरद्धविरियो विहरति अकुसलान धम्मान पहानाय, कुसलान धम्मान उपसम्पदाय, थामवा दब्धपरक्कमो अनिक्खित्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु । यम्पावुसो, भिक्खु आरद्धविरियो विहरति पे० अनिक्खित्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु, अय पि धम्मो नाथकरणो ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु सतिमा होति, परमेन सतिनेपक्केन

समन्नागतो, चिरकत पि चिरभासित पि सरिता अनुस्सरिता । यम्पावुसो, भिक्खु सतिमा होति पे० सरिता अनुस्सरिता, अय पि धम्मो नाथकरणो ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु पञ्चवा होति, उदयत्थगामिनिया पञ्चाय समन्नागतो अरियाय निब्बेधिकाय सम्मादुक्खक्खयगामिनिया । 5 यम्पावुसो, भिक्खु पञ्चवा होति पे० सम्मादुक्खक्खयगामिनिया, अय पि धम्मो नाथकरणो ।

५१ दस कसिणायतनानि — पथवीकसिणमेको सञ्जानाति, उद्ध अघो तिरिय अद्वय अप्पमाण, आपोकसिणमेको सञ्जानाति पे० तेजोकसिणमेको सञ्जानाति वायोकसिणमेको सञ्जानाति 10 नीलकसिणमेको सञ्जानाति पीतकसिमेणको सञ्जानाति लोहितकसिणमेको सञ्जानाति ओदातकसिणमेको सञ्जानाति आकासकसिणमेको सञ्जानाति विञ्जाणकसिणमेको सञ्जानाति, उद्ध अघो तिरिय अद्वय अप्पमाण ।

५२ “दस अकुसलकम्मपथा — माणातिपातो, अदिन्नादान, 15 R कामेसुमिच्छाचारो, मुसावादो, पिसुणा वाचा, फरसा वाचा, सम्फप्पलापो, अभिज्झा, ब्यापादो, मिच्छादिट्ठि ।

“दस कुसलकम्मपथा — पाणातिपाता वेरमणी, अदिन्नादाना वेरमणी, 20 कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी, मुसावादा वेरमणी, पिसुणाय वाचाय वेरमणी, फरसाय वाचाय वेरमणी, सम्फप्पलापा वेरमणी, अनभिज्झा, 25 अब्यापादो, सम्मादिट्ठि ।

५३ “दस अरियवासा — इधावुसो, भिक्खु पञ्चङ्गविप्पहीनो होति, छळङ्गसमन्नागतो, एकारक्खो, चतुरापस्सेनो, पणुन्नपच्चेकसच्चो, 25 समवयसट्ठेसनो, अनाविलसङ्कप्पो, पस्सद्वकायसङ्खारो, सुविमुत्तचित्तो, सुविमुत्तपञ्चो ।

“कथ चावुसो, भिक्खु पञ्चङ्गविप्पहीनो होति ? इधावुसो, भिक्खुनो कामच्छन्दो पहीनो होति, ब्यापादो पहीनो होति, थिनमिद्ध^१ पहीन होति, उद्धच्चकुक्कुच्च पहीन होति, विचिकिच्छा पहीना होति । एव खो, आवुसो, भिक्खु पञ्चङ्गविप्पहीनो होति ।

“कथ चावुसो, भिक्खु छळङ्गसमन्नागतो होति ? इधावुसो, 30

१ ब्यापादो — रो० । २ थिनमिद्ध — सी०, रो० ।

भिक्षु चक्खुना रूप दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानो । सोतेन सह सुत्वा पे० मनसा धम्म विञ्जाय नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानो । एव खो, आवुसो, भिक्षु छळङ्गसमन्नागतो होति ।

5 “कथ चावुसो, भिक्षु एकारक्खो होति ? इधावुसो, भिक्षु सतारक्खेन चेतसा समन्नागतो होति । एव खो, आवुसो, भिक्षु एकारक्खो होति ।

“कथ चावुसो, भिक्षु चतुरापस्सेनो होति ? इधावुसो, भिक्षु सङ्घायेक पटिसेवति^१, सङ्घायेक अधिवासेति, सङ्घायेक विनोदेति,
10 सङ्घायेक परिवज्जेति । एव खो, आवुसो, भिक्षु चतुरापस्सेनो होति ।

“कथ चावुसो, भिक्षु पणुन्नपच्चेकसच्चो^२ होति ? इधावुसो, भिक्षुनो यानि तानि पुथुसमणब्राह्मणान पुथुपच्चेकसच्चानि, सब्बानि तानि नुन्नानि होन्ति पणुन्नानि चत्तानि वन्तानि मुत्तानि पहीनानि पटिनिस्सट्ठानि^३ ।
एव खो, आवुसो, भिक्षु पणुन्नपच्चेकसच्चो होति ।

15 “कथ चावुसो, भिक्षु समवयसट्ठेसनो होति ? इधावुसो, भिक्षुनो कामेसना पहीना होति, भवेसना पहीना होति, ब्रह्मचरियेसना पटिप्पस्सट्ठा ।
एव खो, आवुसो, भिक्षु समवयसट्ठेसनो होति ।

“कथ चावुसो, भिक्षु अनाविलसङ्कप्पो होति ? इधावुसो, भिक्षुनो कामसङ्कप्पो पहीनो होति, ब्यापादसङ्कप्पो पहीनो होति, विहिंसासङ्कप्पो
20 पहीनो होति । एव खो, आवुसो, भिक्षु अनाविलसङ्कप्पो होति ।

“कथ चावुसो, भिक्षु पस्सद्धकायसङ्गारो होति ? इधावुसो, भिक्षु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सान अत्थङ्गमा अदुक्खमसुख उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थ भान उपसम्पज्ज विहरति । एव
खो, आवुसो, भिक्षु पस्सद्धकायसङ्गारो होति ।

25 “कथ चावुसो, भिक्षु सुविमुत्तचित्तो होति ? इधावुसो, भिक्षुनो रागा चित्त विमुत्त होति, दोसा चित्त विमुत्त होति, मोहा चित्त विमुत्त होति । एव खो, आवुसो, भिक्षु सुविमुत्तचित्तो होति ।

“कथ चावुसो, भिक्षु सुविमुत्तपञ्चो होति ? इधावुसो, भिक्षु ‘रागो मे पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतोअनभावकतो आयति अनुप्पाद-

१ परिसेवति - सी० । २ पणुन्नपच्चेकसच्चो - रो०, सी० पणुण्ण० - स्या० । ३ पटि-
प्पस्सट्ठानि - सी० ।

वम्मो' ति पजानाति, 'दोसो मे पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभाव-
कतो' आर्यति अनुप्पादधम्मो' ति पजानाति, 'मोहो मे पहीनो उच्छिन्न-
मूलो तालावत्थुकतो अनभावकतो आर्यति अनुप्पादधम्मो' ति पजानाति ।
एव खो, आवुसो, भिक्खु सुविमुत्तपञ्चो होति ।

५४ दस असेक्खा धम्मा — असेक्खा^२ सम्मादिट्ठि, असेक्खो सम्मा- 5
सङ्कप्पो, असेक्खा सम्मावाचा, असेक्खो सम्माकम्मतो, असेक्खो सम्मा-
आजीवो, असेक्खो सम्मावायामो, असेक्खा सम्मासति, असेक्खो सम्मा-
समाधि, असक्ख सम्माञ्जाण, असेक्खा सम्माविमुत्ति ।

“इमे खो, आवुसो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मा-
सम्बुद्धेन दस धम्मा सम्मदक्खाता, तत्थ सब्बेहेव सङ्गायितब्ब न विवदितब्ब, 10
यथयिद ब्रह्मचरिय अद्धनिय अस्स चिरट्ठितिक, तदस्स बहुजनहिताय
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान” ति ।

५५ अथ खो भगवा उट्ठित्वा आयस्मन्त सारिपुत्त आमन्तेसि
— “साधु साधु, सारिपुत्त, साधु खो त्व, सारिपुत्त, भिक्खून सङ्गीतिपरि-
याय अभासी' ति । इदमवोचायस्मा सारिपुत्तो, समनुञ्चो सत्था अहोसि । 15
अत्तमना च ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स भासित अमिन्दु ति ।

सङ्गीतिसत्त निट्ठित दसम^१ ।

११ दसुत्तरसुत्तं

३ १ आयस्मा सारिपुत्तो भिक्खू आमन्तेसि

१ एव मे सुत । एक समय भगवा चम्पाय विहरति गगाराय पोक्खरण्या तीरे महता भिक्खुसङ्घेन सद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि । तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्खू आमन्तेसि – “आवुसो भिक्खवे” ति । “आवुसो” ति ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स पञ्चस्सोसु । आयस्मा
5 सारिपुत्तो एतदवोच—

“दसुत्तर पक्खामि, धम्म निब्बानपत्तिया ।
दुक्खस्सन्तकिरियाय, सब्बगन्थप्पमोचन” ॥

एको धम्मो

२ “एको, आवुसो, धम्मो बहुकारो, एको धम्मो भावेतब्बो, एको धम्मो परिञ्जेय्यो, एको धम्मो पहातब्बो, एको धम्मो हानभागियो,
10 एको धम्मो विसेसभागियो, एको धम्मो दुप्पटिविज्झो, एको धम्मो उप्पादेतब्बो, एको धम्मो अभिञ्जेय्यो, एको धम्मो सच्छिकातब्बो ।

“कतमो एको धम्मो बहुकारो ? अप्पमादो कुसलेसु धम्मोसु—
अय एको धम्मो बहुकारो ।

“कतमो एको धम्मो भावेतब्बो ? कायगतासति सातसहगता—
15 अय एको धम्मो भावेतब्बो ।

173 “कतमो एको धम्मो परिञ्जेय्यो ? फस्सो सासवो उपादानियो—
अय एको धम्मो परिञ्जेय्यो ।

“कतमो एको धम्मो पहातब्बो ? अस्मिमानो—अय एको
धम्मो पहातब्बो ।

20 “कतमो एको धम्मो हानभागियो ? अयोनिसो मनसिकारो—अय
एको धम्मो हानभागियो ।

228 “कतमो एको धम्मो विसेसभागियो ? योनिसो मनसिकारो—
अय एको धम्मो विसेसभागियो ।

“कतमो एको धम्मो दुप्पटिविज्झो ? आनन्तरिको चेतोसमाधि—
25 अय एको धम्मो दुप्पटिविज्झो ।

“कतमो एको धम्मो उप्पादेतब्बो ? अकुप्प जाण – अय एको धम्मो उप्पादेतब्बो ।

“कतमो एको धम्मो अभिञ्जेय्यो ? सब्बे सत्ता आहारट्टित्ता – अय एको धम्मो अभिञ्जेय्यो ।

“कतमो एको धम्मो सच्छिकातब्बो ? अकुप्पा चेतोर्विमुत्ति – 5
अय एको धम्मो सच्छिकातब्बो ।

“इति इमे दस धम्मा भूता तच्छा तथा अवितथा अनञ्जाथा सम्मा तथागतेन अभिसम्बुद्धा ।

द्वे धम्मा

३ “द्वे धम्मा बहुकारा, द्वे धम्मा भावेतब्बा, द्वे धम्मा परिञ्जेय्या, द्वे धम्मा पहातब्बा, द्वे धम्मा हानभागिया, द्वे धम्मा विसेसभागिया, 10
द्वे धम्मा दुप्पटिविज्झा, द्वे धम्मा उप्पादेतब्बा, द्वे धम्मा अभिञ्जेय्या, द्वे धम्मा सच्छिकातब्बा ।

“कतमे द्वे धम्मा बहुकारा ? सति च सम्पजञ्ज च – इमे द्वे धम्मा बहुकारा ।

“कतमे द्वे धम्मा भावेतब्बा ? समथो च विपस्सना च – इमे 15
द्वे धम्मा भावेतब्बा ।

“कतमे द्वे धम्मा परिञ्जेय्या ? नाम च रूप च – इमे द्वे धम्मा परिञ्जेय्या ।

“कतमे द्वे धम्मा पहातब्बा ? अविज्जा च भवतण्हा च – इमे R
द्वे धम्मा पहातब्बा । 20

“कतमे द्वे धम्मा हानभागिया ? दोवचस्सता च पापमित्तता च – इमे द्वे धम्मा हानभागिया ।

“कतमे द्वे धम्मा विसेसभागिया ? सोवचस्सता च कल्याणमित्तता च – इमे द्वे धम्मा विसेसभागिया ।

“कतमे द्वे धम्मा दुप्पटिविज्झा ? यो च हेतु यो च पच्चयो 25 B
सत्तान सङ्खिलेसाय, यो च हेतु यो च पच्चयो सत्तान विमुद्धिया – इमे द्वे धम्मा दुप्पटिविज्झा ।

“कतमे द्वे धम्मा उप्पादेतब्बा ? द्वे जाणानि खये जाण, अनुप्पादे जाण – इमे द्वे धम्मा उप्पादेतब्बा ।

“कतमे द्वे धम्मा अभिञ्जेय्या ? द्वे धातुयो सङ्घता च धातु असङ्घता च धातु - इमे द्वे धम्मा अभिञ्जेय्या ।

“कतमे द्वे धम्मा सच्छिकातब्बा ? विज्जा च विमुत्ति च - इमे द्वे धम्मा सच्छिकातब्बा ।

5 “इति इमे वीसति धम्मा भूता तच्छा तथा अविताथा अनञ्जाथा सम्मा तथागतेन अभिसम्बुद्धा ।

तयो धम्मा

४ “तयो धम्मा बहुकारा, तयो धम्मा भावेतब्बा पे० तयो धम्मा सच्छिकातब्बा ।

10 “कतमे तयो धम्मा बहुकारा ? सप्पुरिसससेवो, सद्धम्मस्सवण^१, धम्मामनुधम्मपटिपत्ति^२ - इमे तयो धम्मा बहुकारा ।

“कतमे तयो धम्मा भावेतब्बा ? तयो समाधि सवितक्को सविचारो समाधि, अविताक्को विचारमत्तो समाधि, अविताक्को अविचारो समाधि - इमे तयो धम्मा भावेतब्बा ।

R 275

15 “कतमे तयो धम्मा परिञ्जेय्या ? तिस्सो वेदना सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा वेदना - इमे तयो धम्मा परिञ्जेय्या ।

“कतमे तयो धम्मा पहातब्बा ? तिस्सो तण्हा कामतण्हा, भव-तण्हा, विभवतण्हा - इमे तयो धम्मा पहातब्बा ।

20 “कतमे तयो धम्मा हानभागिया ? तीणि^३ अकुसलमूलानि लोभो अकुसलमूल, दोसो अकुसलमूल, मोहो अकुसलमूल - इमे तयो धम्मा हानभागिया ।

B.280

“कतमे तयो धम्मा विसेसभागिया ? तीणि कुसलमूलानि अलोभो कुसलमूल, अदोसो कुसलमूल, अमोहो कुसलमूल - इमे तयो धम्मा विसेसभागिया ।

25 “कतमे तयो धम्मा दुप्पटिविज्जा ? तिस्सो निस्सरणिया धातुयो कामानमेत निस्सरण यदिद नेक्खम्म, रूपानमेत निस्सरण यदिद अरूप, यत्थो पन किञ्चि भूत सङ्घत पटिच्चसमुप्पन्न निरोधो तस्स निस्सरण - इमे तयो धम्मा दुप्पटिविज्जा ।

“कतमे तयो धम्मा उप्पादेतब्बा ? तीणि ज्ञाणानि अतीतसे ज्ञाण,

१ सद्धम्मसवण - सी० सद्धम्मसवण - रो० । २ धम्मपटिपत्ति - सी० स्या०, रो० ।
३ तीनि - सी० । ४ आरूप्य - सी०, रो० ।

अनागतसे ज्ञाण, पच्चुप्पन्नसे ज्ञाण - इमे तयो धम्मा उप्पादेतब्बा ।

“कतमे तयो धम्मा अभिञ्जेय्या ? तिस्सो धातुयो कामधातु, रूपधातु, अरूपधातु - इमे तयो धम्मा अभिञ्जेय्या ।

“कतमे तयो धम्मा सच्छिकातब्बा ? तिस्सो विज्जा पुब्बेनिवासानुस्सतिज्ञाण विज्जा, सत्तान चुतूपपाते ज्ञाण विज्जा, आसवान खये ज्ञाण 5 विज्जा - इमे तयो धम्मा सच्छिकातब्बा । *

“इति इमे तिस धम्मा भूता तच्छा तथा अवितथा अनञ्जथा सम्मा तथागतेन अभिसम्बुद्धा ।

R 27

चत्तारो धम्मा

५ “चत्तारो धम्मा बहुकारा, चत्तारो धम्मा भावेतब्बा पे० चत्तारो धम्मा सच्छिकातब्बा । 10

“कतमे चत्तारो धम्मा बहुकारा ? चत्तारि चक्कानि पतिरूप-देसवासो^१, सप्पुरिसूपनिस्सयो^२ अत्तसम्मापणिधि, पुब्बे च कतपुञ्जता - इमे चत्तारो धम्मा बहुकारा ।

“कतमे चत्तारो धम्मा भावेतब्बा ? चत्तारो सतिपट्टाना इधावुसो, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके 15 अभिज्झादोमनस्स, वेदनासु पे० चित्ते पे० धम्मेसु धम्मानुपस्सी B 231 विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्स - इमे चत्तारो धम्मा भावेतब्बा ।

“कतमे चत्तारो धम्मा परिञ्जेय्या ? चत्तारो आहारा कबळीकारो^३ आहारो ओळारिको वा सुखुमो वा, फस्सो दुतियो, मनोसञ्चेतना ततिया, 20 विज्जाण चतुत्थ - इमे चत्तारो धम्मा परिञ्जेय्या ।

“कतमे चत्तारो धम्मा पहातब्बा ? चत्तारो ओघा कामोघो, भवोघो, दिट्ठोघो, अविज्जोघो - इमे चत्तारो धम्मा पहातब्बा ।

“कतमे चत्तारो धम्मा हानभागिया ? चत्तारो योगा कामयोगो, भवयोगो, दिट्ठियोगो, अविज्जायोगो - इमे चत्तारो धम्मा हानभागिया । 25

“कतमे चत्तारो धम्मा विसेसभागिया ? चत्तारो विसयोगा कामयोग-विसयोगो, भवयोगविसयोगो, दिट्ठियोगविसयोगो, अविज्जायोगविसयोगो - इमे चत्तारो धम्मा विसेसभागिया ।

१ पटिरूप० - सी०, स्या० । २ सप्पुरिसूपस्सयो - सी०, स्या०, सप्पुरिसूपस्सयो - रो० ।

३ कबलिङ्कारो - रो० ।

“कतमे पञ्च धम्मा परिञ्जेय्या ? पञ्चपादानकखन्धा^१ *रूपपादान-
कखन्धो, वेदनुपादानकखन्धो, सञ्जुपादानकखन्धो, सङ्खारुपादानकखन्धो,
विञ्जाणुपादानकखन्धो - इमे पञ्च धम्मा परिञ्जेय्या ।

“कतमे पञ्च धम्मा पहातब्बा ? पञ्च नीवरणानि कामच्छन्द-
नीवरण, ब्यापादनीवरण, थिनमिद्धनीवरण, उद्धच्चकुक्कुच्चनीवरण, 5
विचिकिच्छानीवरण - इमे पञ्च धम्मा पहातब्बा ।

“कतमे पञ्च धम्मा हानभागिया ? पञ्च चेतोखिला^१ इधावुसो,
भिक्खु सत्थरि कङ्कति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न सम्पसीदति ।
यो सो, आवुसो, भिक्खु सत्थरि कङ्कति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न
सम्पसीदति, तस्स चित्त न नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय 10
पधानाय । यस्स चित्त न नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय,
अय पठमो चेतोखिलो ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु धम्मे कङ्कति विचिकिच्छति
पे० सङ्गे कङ्कति विचिकिच्छति पे० सिक्खाय कङ्कति विचिकिच्छति
पे० सब्रह्मचारीसु कुपितो होति अनत्तमनो आहतचित्तो खिलजातो । 15
यो सो, आवुसो, भिक्खु सब्रह्मचारीसु कुपितो होति अनत्तमनो आहतचित्तो
खिलजातो, तस्स चित्त न नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय
पधानाय । यस्स चित्त न नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय
पधानाय, अय पञ्चमो चेतोखिलो । इमे पञ्च धम्मा हानभागिया ।

“कतमे पञ्च धम्मा विसेसभागिया ? पञ्चिन्द्रियानि सद्धिन्द्रिय, 20
विरियिन्द्रिय, सतिन्द्रिय, समाधिन्द्रिय, पञ्चिन्द्रिय - इमे पञ्च धम्मा
विसेसभागिया ।

“कतमे पञ्च धम्मा दुप्पटिविज्जा ? पञ्च निस्सरणिया धातुयो
इधावुसो, भिक्खुनो कामे^२ मनसिकरोतो कामेसु चित्त न पक्खन्दति न
पसीदति न सन्तिट्ठति न विमुच्चति, नेक्खम्म खो पनस्स मनसिकरोतो 25
नेक्खम्मे चित्त पक्खन्दति पसीदति सन्तिट्ठति विमुच्चति, तस्स त चित्त
सुगत सुभावित सुवुट्ठित^३ सुविमुत्त विसयुत्त कामेहि । ये च कामपच्चया^४
उप्पज्जन्ति आसवा विघाता परिळाहा, मुत्तो सो तेहि । न सो त वेदन

१ * 'सेय्यथीद' इति अधिको पाठो एत्थ सी० स्या०, रो० पोत्थकेसु विज्जति । २
चेतोखीला - सी० स्या० । ३ काम - रो० । ४ स्या० पोत्थके नत्थि । ५ सुवुठित - सी० । ६
कामप्पच्चया - सी० ।

वेदेति । इदमक्खात कामान निस्सरण ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुनो ब्यापाद मनसिकरोतो ब्यापादे चित्त न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिट्ठति न विमुच्चति, अब्यापाद खो पनस्स मनसिकरोतो अब्यापादे चित्त पक्खन्दति पसीदति सन्तिट्ठति 5 विमुच्चति, तस्स त चित्त सुगत सुभावित सुवुट्ठित सुविमुत्त विसयुत्त ब्यापादेन । ये च ब्यापादपच्चया उप्पज्जन्ति आसवा विघाता परिळाहा, मुत्तो सो तेहि । न सो त वेदन वेदेति । इदमक्खात ब्यापादस्स निस्सरण ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुनो विहेस मनसिकरोतो विहेसाय चित्त न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिट्ठति न विमुच्चति, अविहेस 10 खो पनस्स मनसिकरोतो अविहेसाय चित्त पक्खन्दति पसीदति सन्तिट्ठति 234 विमुच्चति, तस्स त चित्त सुगत सुभावित सुवुट्ठित सुविमुत्त विसयुत्त विहेसाय । ये च विहेसापच्चया उप्पज्जन्ति आसवा विघाता परिळाहा, मुत्तो सो तेहि । न सो त वेदन वेदेति । इदमक्खात विहेसाय निस्सरण ।

15 “पुन च पर, आवुसो, भिक्खुनो रूपे मनसिकरोतो रूपेसु चित्त न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिट्ठति न विमुच्चति, अरूप खो पनस्स मनसिकरोतो अरूपे चित्त पक्खन्दति पसीदति सन्तिट्ठति विमुच्चति, तस्स त चित्त सुगत सुभावित सुवुट्ठित सुविमुत्त विसयुत्त रूपेहि । ये च रूपपच्चया उप्पज्जन्ति आसवा विघाता परिळाहा, मुत्तो सो तेहि । न सो 20 त वेदन वेदेति । इदमक्खात रूपान निस्सरण ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुनो सक्काय मनसिकरोतो सक्काये चित्त न पक्खन्दति न पसीदति न सन्तिट्ठति न विमुच्चति, सक्कायनिरोध खो पनस्स मनसिकरोतो सक्कायनिरोधे चित्त पक्खन्दति पसीदति सन्तिट्ठति 25 विमुच्चति, तस्स त चित्त सुगत सुभावित सुवुट्ठित सुविमुत्त विसयुत्त सक्कायेन । ये च सक्कायपच्चया उप्पज्जन्ति आसवा विघाता परिळाहा, मुत्तो सो तेहि । न सो त वेदन वेदेति । इदमक्खात सक्कायस्स निस्सरण । इमे पञ्च धम्मा दुप्पटिविज्झा ।

“कतमे पञ्च धम्मा उप्पादेतब्बा ? पञ्च जाणिको सम्मासमाधि 30 ‘अय समाधि पच्चुप्पन्नसुखो चेव आर्याति च सुखविपाको’ ति पच्चत्त येव जाण उप्पज्जति, अय समाधि अरियो निरामिसो’ ति पच्चत्त येव जाण

उप्पज्जति, 'अय समाधि अकापुरिससेवितो' ति पच्चत्त येव जाण उप्पज्जति, 'अय समाधि सन्तो पणीतो पटिप्पस्सद्धलद्धो एकोदिभावाधिगतो, न ससङ्खारनिग्गय्हवारितगतो' ति पच्चत्त येव जाण उप्पज्जति, 'सो खो पनाह इम समाधि सतो व समापज्जामि सतो बुद्धहामी' ति पच्चत्त येव जाण उप्पज्जति - इमे पच्च धम्मा उप्पादेतब्बा ।

5

“कतमे पच्च धम्मा अभिञ्जेय्या ? पच्च विमुत्तायतानि इधावुसो, भिक्खुनो सत्था धम्म देसेति अञ्जतरो वा गरुट्टानियो सन्नह्वाचारी । यथा यथा, आवुसो, भिक्खुनो सत्था धम्म देसेति अञ्जतरो वा गरुट्टानियो ब्रह्मचारी तथा तथा सो^१ तस्मि धम्मे अत्थप्पटिसवेदी च होति धम्मप्पटिसवेदी च । तस्स अत्थप्पटिसवेदिनो धम्मप्पटिसवेदिनो पामोज्ज जायति, पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुख वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति । इद पठम विमुत्तायतन ।

E

10

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुनो न हेव खो सत्था धम्म देसेति अञ्जतरो वा गरुट्टानियो^२ सन्नह्वाचारी, अपि च खो यथासुत यथापरियत्त धम्म वित्थारेन परेस देसेति । यथा यथा, आवुसो, भिक्खु यथासुत यथापरियत्त धम्म वित्थारेन परेस देसेति तथा तथा सो तस्मि धम्मे अत्थप्पटिसवेदी च^३ होति धम्मप्पटिसवेदी च । तस्स अत्थप्पटिसवेदिनो धम्मप्पटिसवेदिनो पामोज्ज जायति, पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुख वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति । इद दुतिय विमुत्तायतन ।

20

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुनो न हेव खो सत्था धम्म देसेति अञ्जतरो वा गरुट्टानियो सन्नह्वाचारी, ना पि^४ यथासुत यथापरियत्त धम्म वित्थारेन परेस देसेति, अपि च खो, यथासुत यथापरियत्त धम्म वित्थारेन सज्झाय करोति । यथा यथा, आवुसो, भिक्खु यथाभूत यथापरियत्त धम्म वित्थारेन सज्झाय करोति तथा तथा सो तस्मि धम्मे अत्थप्पटिसवेदी च होति धम्मप्पटिसवेदी च । तस्स अत्थप्पटिसवेदिनो धम्मप्पटिसवेदिनो पामोज्ज जायति, पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकामो सुख वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति । इद ततिय विमुत्तायतन ।

25

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुनो न हेव खो सत्था धम्म देसेति

१ ० वारितवतो - स्या० रो०, वारितरतो - सी० । २ भिक्ख - स्या० । ३ पामोज्ज - सी० । ४ गरुट्टानिको - सी० । ५ न हेव खो - स्या० ।

अञ्जतरो वा गरुडानियो सब्रह्मचारी, ना पि यथासुत यथापरियत्त धम्म वित्थारेण परेस देसेति, ना पि यथासुत यथापरियत्त धम्म वित्थारेण सज्झाय करोति, अपि च खो, यथासुत यथापरियत्त धम्म चेतसा अनुवितक्केति अनु विचारेति मनसानुपेक्खति । यथा यथा, आवुसो, भिक्खु यथासुत यथापरियत्त
5 धम्म चेतसा अनुवितक्केति अनुविचारेति मनसानुपेक्खति तथा तथा सो तस्मिं धम्मं अत्थप्पटिसवेदी च होति धम्मप्पटिसवेदी च । तस्स अत्थप्पटिसवेदिनो धम्मप्पटिसवेदिनो पामोज्ज जायति, पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुख वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति । इदं चतुत्थ विमुत्तायतन ।

10 “पुन च पर, आवुसो, भिक्खुनो न हेव खो सत्था धम्म देसेति अञ्जतरो वा गरुडानियो सब्रह्मचारी, ना पि यथासुत यथापरियत्त धम्म वित्थारेण परेस देसेति, ना पि यथासुत यथापरियत्त धम्म वित्थारेण सज्झाय करोति, ना पि यथासुत यथापरियत्त धम्म चेतसा अनुवितक्केति अनुविचारेति मनसानुपेक्खति, अपि च एवस्स अञ्जतर समाधिनिमित्त सुग्गहित होति
15 सुमनसिकत सूपधारित सुप्पटिविद्ध पञ्जाय । यथा यथा, आवुसो, भिक्खुनो अञ्जतर समाधिनिमित्त सुग्गहित होति सुमनसिकत सूपधारित सुप्पटिविद्ध पञ्जाय तथा तथा सो तस्मिं धम्मं अत्थप्पटिसवेदी च होति धम्मप्पटिसवेदी च । तस्स अत्थप्पटिसवेदिनो धम्मप्पटिसवेदिनो पामोज्ज जायति, पमुदितस्स पीति जायति, पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुख वेदेति, सुखिनो
20 चित्त समाधियति । इदं पञ्चम विमुत्तायतन । इमे पञ्च धम्मा अभिञ्जेय्या ।

“कतमे पञ्च धम्मा सच्छिकातब्बा ? पञ्च धम्मक्खन्धा सीलक्खन्धो, समाधिक्खन्धो, पञ्जाक्खन्धो, विमुत्तिक्खन्धो, विमुत्तिजाणदस्सनक्खन्धो — इमे पञ्च धम्मा सच्छिकातब्बा ।

“इति इमे पञ्चास धम्मा भूता तच्छा तथा अविताया अञ्जथा
25 सम्मा तथागतेन अभिसम्बुद्धा ।

छ धम्मा

७ “छ धम्मा बहुकारा पे० छ धम्मा सच्छिकातब्बा ।

“कतमे छ धम्मा बहुकारा ? छ सारणीया^१ धम्मा । इधावुसो, भिक्खुनो मेत्त कायकम्म पच्चुपट्टित होति सब्रह्मचारीसु आवि चैव रहो च । अयं पि धम्मो सारणीयो पियकरणो गरुकरणो सङ्गहाय अविवादाय^२

१ सारणीया — स्या० रो० । २ अविवादाय अविहेसाय — सी० ।

सामग्गिया एकीभावाय सवत्तति ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुनो मेत्त वचीकम्म पे० एकी-
भावाय सवत्तति ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुनो मेत्त मनोकम्म पे० एकीभावाय
सवत्तति ।

5

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु ये ते लाभा धम्मिका धम्मलद्धा
अन्तमसो पत्तपरियापन्नमत्त पि, तथारूपेहि लाभेहि अप्पटिविभत्तभोगी
होति सीलवन्तेहि सब्रह्मचारीहि साधारणभोगी । अय पि धम्मो
सारणीयो पे० एकीभावाय सवत्तति ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु, यानि तानि सीलानि अखण्डानि 10
अच्छिद्धानि असबलानि अकम्मासानि भुजिस्सानि विञ्जुप्पसत्थानि
अपरामट्टानि समाधिसवत्तनिकानि, तथारूपेसु सीलेसु सीलसामञ्जगतो
विहरति सब्रह्मचारीहि आवि चेव रहो च । अय पि धम्मो सारणीयो
पे० एकीभावाय सवत्तति ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु ययि दिट्ठि अरिया निय्यानिका 15
निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाय, तथारूपाय दिट्ठिया दिट्ठि
मामञ्जगतो विहरति सब्रह्मचारीहि आवि चेव रहो च । अय पि धम्मो
सारणीयो पियकरणो गरुकरणो, सङ्गहाय अविवादाय सामग्गिया
एकीभावाय सवत्तति । इमे छ धम्मा बहुकारा ।

“कतमे छ धम्मा भावेतब्बा ? छ अनुस्सतिट्टानानि बुद्धानुस्सति, 20
धम्मानुस्सति, सङ्खानुस्सति, सीलानुस्सति, चागानुस्सति, देवतानुस्सति
इमे छ धम्मा भावेतब्बा ।

“कतमे छ धम्मा परिञ्जेय्या ? छ अज्झात्तिकानि आयतनानि
चक्खायतन सोतायतन, धानायतन, जिब्हायतन, कायातन, मनायतन -- इमे
छ धम्मा परिञ्जेय्या ।

25

“कतमे छ धम्मा पहातब्बा ? छ तण्हाकाया रूपतण्हा, सद्दतण्हा,
गन्धतण्हा, रसतण्हा, फोटुब्बतण्हा, धम्मतण्हा -- इमे छ धम्मा पहातब्बा ।

“कतमे छ धम्मा हानभागिया ? छ अगारवा इधावुसो, भिक्खु B.J
सत्थरि अगारवो विहरति अप्पतिस्सो, धम्मो पे० सङ्घे सिक्खाय
अप्पमादे पटिसन्थारे अगारवो विहरति अप्पतिस्सो -- इमे छ धम्मा 30
हानभागिया ।

“कतमे छ धम्मा विसेसभागिया ? छ गारवा इधावुसो, भिक्खु सत्थरि सगारवो विहरति सप्पतिस्सो, धम्मे पे० सद्धे सिक्खाय अण्णमादे पटिसन्थारे सगारवो विहरति सप्पतिस्सो - इमे छ धम्मा विसेसभागिया ।

“कतमे छ धम्ममा दुप्पटिविज्जा ? छ निस्सरणिया धातुयो इधावुसो, भिक्खु एव वदेय्य - ‘मेत्ता हि खो मे, आवुसो’, चेतोविमुत्ति भाविता बहुलीकता^१ यानीकता^२ वत्थुकता अनुट्ठिता परिचिता सुसमारद्धा, अथ च पन मे ब्यापादो चित्त परियादाय तिट्ठती’ ति, सो - ‘मा हेव,’ तिस्स वचनीयो, ‘मायस्मा एव अण्वच । मा भगवन्त अब्भाचिक्खि । न हि साधु भगवतो अब्भक्खान । न हि भगवा एव वदेय्य । अट्टानमेत, आवुसो अनवकासो य मेत्ताय चेतोविमुत्तिया भाविताय बहुलीकताय यानीकताय वत्थुकताय अनुट्ठिताय परिचिताय सुसमारद्धाय, अथ च पनस्स ब्यापादो चित्त परियादाय ठस्सती ति नेत ठान विज्जति । निस्सरणञ्हेत, आवुसो, ब्यापादस्स यदिद मेत्ताचेतोविमुत्ती’ ति ।

“इध पनावुसो, भिक्खु एव वदेय्य - ‘करुणा हि खो मे चेतोविमुत्ति भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुट्ठिता परिचिता सुसमारद्धा, अथ च पन मे विहेसा चित्त परियादाय तिट्ठती’ ति, सो - ‘मा हेव,’ तिस्स वचनीयो, ‘मायस्मा एव अण्वच । मा भगवन्त अब्भाचिक्खि पे० निस्सरणञ्हेत, आवुसो, विहेसाय यदिद करुणाचेतो विमुत्ती’ ति ।

“इध पनावुसो, भिक्खु एव वदेय्य - ‘मुदिता हि खो मे चेतोविमुत्ति भाविता पे० अथ च पन मे अरति चित्त परियादाय तिट्ठती’ ति, सो - ‘मा हेव,’ तिस्स वचनीयो, ‘मायस्मा एव अण्वच पे० निस्सरणञ्हेत, आवुसो, यदिद मुदिताचेतोविमुत्ती’ ति ।

‘इध पनावुसो, भिक्खु एव वदेय्य - ‘उपेक्खा हि खो मे चेतोविमुत्ति भाविता पे० अथ च पन मे रागो चित्त परियादाय तिट्ठती’ ति, सो - ‘मा हेव,’ तिस्स वचनीयो, ‘मायस्मा एव अण्वच पे० निस्सरणञ्हेत, आवुसो, रागस्स यदिद उपेक्खाचेतोविमुत्ती’ ति ।

“इध पनावुसो, भिक्खु एव वदेय्य - ‘अनिमित्ता हि खो मे चेतो-

१ स्या० पोत्थके नत्थि । २ बहुलीकता - सी० । ३ यानिकता - सी० ।

विमुक्ति भाविता पे० अथ च पन निमित्तानुसारि विञ्जाण होती' ति, सो - 'मा हेव,' तिस्स वचनीयो, 'मायस्मा एव अवच पे० निस्सरणञ्हेत, आवुसो, सब्बनिमित्तान् यदिद अनिमित्ता चेतोविमुत्ती' ति ।

“इध पनावुसो, भिक्षु एव वदेय्य - 'अस्मी ति खो मे विगत', अयमहमस्मी ति न समनुपस्सामि, अथ च पन मे विचिकिच्छाकथ- 5 कथासल्ल चित्त परियादाय तिट्ठीती' ति, सो - 'मा हेव,' तिस्स वचनीयो, 'मायस्मा एव अवच । मा भगवन्त अब्भाचिक्खि । न हि साधु भगवतो अब्भक्खान । न हि भगवा एव वदेय्य । अट्टानमेत, आवुसो, अनवकासो य अस्मी ति विगते अयमहमस्मी ति असमनुपस्सतो', अथ च पनस्स विचिकिच्छाकथकथासल्ल चित्त परियादाय ठस्सती ति नेत ठान 10 विज्जति । निस्सरणञ्हेत, आवुसो, विचिकिच्छाकथकथासल्लस्स यदिद अस्मिमानसमुग्घातो' ति । इमे छ धम्मा दुप्पटिविज्झा

“कतमे छ धम्मा उप्पादेतब्बा ? छ सततविहारा ः इधावुसो, भिक्षु चक्खुना रूप दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानो, सोतेन सद् सुत्वा पे० घानेन गन्ध घायित्वा 15 पे० जिव्हाय रस सायित्वा पे० कायेन फोट्टुब्ब फुसित्वा पे० मनसा धम्म विञ्जाय नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानो - इमे छ धम्मा उप्पादेतब्बा ।

“कतमे छ धम्मा अभिञ्जेय्या ? छ अनुत्तरियानि दस्सनानुत्तरिय, सवनानुत्तरिय, लाभानुत्तरिय, सिक्खानुत्तरिय, पारिचरियानुत्तरिय, 20 अनुस्सतानुत्तरिय - इमे छ धम्मा अभिञ्जेय्या ।

“कतमे छ धम्मा सच्छिकातब्बा ? छ अभिञ्जा इधावुसो, भिक्षु अनेकविहित इद्धिविध पच्चनुभोति - एको पि हुत्वा बहुधा होति, बहुधा पि हुत्वा एको होति, आविभाव, तिरोभाव, तिरोकुट्टु तिरोपाकार तिरोपब्बत असज्जमानो गच्छति, सेय्यथापि आकासे, पठविया पि 25 उम्मुज्जनिमुज्ज करोति, सेय्यथापि उदके, उदके पि अभिज्जमाने गच्छति सेय्यथापि पठविय, आकासे पि पल्लङ्केन चङ्कमति, सेय्यथापि पक्खी सकुणो, इमे पि चन्दिमसुरिये एवमहिद्धिके एवमहानुभावे पाणिना परामसति परिमज्जति, याव ब्रह्मलोका पि कायेन वस वत्तेति ।

१ विगते - स्या० । २ न समनुपस्सतो - स्या० । ३ अस्मीति मानस्स समुग्घातो - सी० अस्मिमानसमुग्घातो - स्या० । ४ उपेक्खको च - सी०, स्या० । ५ तिरोकुट्टु - म० ।

“दिब्बाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिक्कन्तमानुसिकाय उभो सद्दे सुणाति – दिब्बे च मानुसे च, ये दूरे सन्तिके च ।

“परसत्तान परपुग्गलान चेतसा चेतो परिच्च पजानाति’ – सराग वा चित्त सराग चित्त ति पजानाति / पे० अविमुत्त वा चित्त अविमुत्त
5 चित्त ति पजानाति ।

“सो अनेकविहित पुब्बेनिवास अनुस्सरति, सेय्यथिद – एक पि जाति पे० इति साकार सउद्देस अनेकविहित पुब्बेनिवास अनुस्सरति ।

“दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सति चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथा-
10 कम्मूपगे सत्ते पजानाति पे० ।

“आसवान खया अनासव चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति दिट्ठेव धम्मे सय अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । इमे छ धम्मा सच्छि-
कातब्बा ।

“इति इमे सट्ठि धम्मा भूता तच्छा तथा अवि तथा अनञ्जाथा
15 सम्मा तथागतेन अभिसम्बुद्धा ।०

सत्त धम्मा

८ “सत्त धम्मा बहुकारा पे० सत्त धम्मा सच्छिकातब्बा ।

“कतमे सत्त धम्मा बहुकारा ? सत्त अरियधनानि सद्धाधन, सीलधन, हिरिधन, ओत्तप्पधन, सुतधन, चागधन, पञ्जाधन – इमे सत्त धम्मा बहुकारा ।

20 “कतमे सत्त धम्मा भावेतब्बा ? सत्त सम्बोज्झङ्गा^१ सति-सम्बोज्झङ्गो, धम्मविचयसम्बोज्झङ्गो, विरियसम्बोज्झङ्गो, पीति-सम्बोज्झङ्गो, पस्सद्विसम्बोज्झङ्गो, समाधिसम्बोज्झङ्गो, उपेक्खा-सम्बोज्झङ्गो – इमे सत्त धम्मा भावेतब्बा ।

“कतमे सत्त धम्मा परिञ्जेय्या ? सत्त विञ्जाणट्ठित्तियो
25 सन्तावुसो, सत्ता नानत्तकाया नानत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि – मनुस्सा, एकच्चे च देवा, एकच्चे च विनिपातिका । अय पठमा विञ्जाणट्ठिति ।

“सन्तावुसो, सत्ता नानत्तकाया एकत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि – देवा ब्रह्माकायिका पठमाभिनिब्बत्ता । अय दुतिया^२ विञ्जाणट्ठिति ।

“सन्तावुसो, सत्ता एकत्तकाया नानत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि – देवा

१ जानाति – स्या० । २ बोञ्जङ्गा – रो० ।

आभस्सरा । अय ततिया विञ्जाणट्ठिति ।

“सन्तावुसो, सत्ता एकत्तकाया एकत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि – देवा सुभकिण्हा । अय चतुत्थी^१ विञ्जाणट्ठिति ।

“सन्तावुसो, सत्ता सब्बसो रूपसञ्जान समतिक्कमा पे०
‘अनन्तो आकासो’ ति आकासानञ्चायतनूपगा^२ । अय पञ्चमी विञ्जाण- 5
ट्ठिति ।

“सन्तावुसो, सत्ता सब्बसो आकासानञ्चायतन समतिक्कम्म
‘अनन्त विञ्जाण’ ति विञ्जाणञ्चायतनूपगा । अय छट्ठी^३ विञ्जाणट्ठिति ।

“सन्तावुसो, सत्ता सब्बसो विञ्जाणञ्चायतन समतिक्कम्म
‘नत्थि किञ्ची’ ति आकिञ्चञ्जायतनूपगा । अय सत्तमी विञ्जाणट्ठिति । 10
इमे सत्त धम्मा परिञ्जेय्या ।

“कतमे सत्त धम्मा पहातब्बा ? सत्तानुसया कामरागानुसयो,
पटिधानुसयो, दिट्ठानुसयो, विचिकच्छानुसयो, मानानुसयो, भवरागानुसयो,
अविज्जानुसयो – इमे सत्त धम्मा पहातब्बा ।

“कतमे सत्त धम्मा हानभागिया ? सत्त असद्धम्मा इधावुसो, भिक्खु 15
अस्सद्धो होति, अहिरिको होति, अनोत्तप्पी होति, अप्पस्सुतो होति, कुसीतो
होति, मुट्ठस्सति होति, दुप्पञ्जो होति – इमे सत्त धम्मा हानभागिया ।

“कतमे सत्त धम्मा विसेसभागिया ? सत्त सद्धम्मा इधावुसो,
भिक्खु सद्धो होति, हिरिमा^४ होति, ओत्तप्पी होति, बहुस्सुतो होति,
आरद्धविरियो होति, उपट्ठितस्सति होति, पञ्जावा होति – इमे सत्त 20
धम्मा विसेसभागिया ।

“कतमे सत्त धम्मा दुप्पटिविज्झा ? सत्त सप्पुरिसधम्मा
इधावुसो, भिक्खु धम्मञ्जू च^५ होति अत्थञ्जू च अत्तञ्जू च मत्तञ्जू च
कालञ्जू च परिसञ्जू च पुगलञ्जू च – इमे सत्त धम्मा दुप्पटिविज्झा ।

“कतमे सत्त धम्मा उप्पादेतब्बा ? सत्त सञ्जा अनिच्चसञ्जा, 25
अनत्तसञ्जा, असुभसञ्जा, आदीनवसञ्जा, प्हानसञ्जा, विरागसञ्जा,
निरोधसञ्जा – इमे सत्त धम्मा उप्पादेतब्बा ।

“कतमे सत्त धम्मा अभिञ्जेय्या ? सत्त निद्देसवत्थूनि^६ इधावुसो, भिक्खु
सिक्खासमादाने तिब्बच्छन्दो हेति, आयतिं च सिक्खासमादाने अविगतपेमो,

१ चतुत्थ्या – सी०, स्या० । २ आकासानञ्चायतनूपगा – स्या० । ३ छट्ठा – सी० ।
४ हिरिको – स्या० । ५ स्या० पाल्थके नत्थि । ६ निद्देसवत्थूनि – स्या०, रो० ।

धम्मनिसन्तिया तिब्बच्छन्दो होति, आर्यति च धम्मनिसन्तिया अविगतपेमो,
इच्छाविनये तिब्बच्छन्दो होति, आर्यति च इच्छाविनये अविगतपेमो,
पटिसल्लाने तिब्बच्छन्दो होति, आर्यति च पटिसल्लाने अविगतपेमो, विरिया
रब्भे^१ तिब्बच्छन्दो होति, आर्यति च विरियारब्भे अविगतपेमो, सतिनेपक्के
5 तिब्बच्छन्दो होति, आर्यति च सतिनेपक्के अविगतपेमो,, दिट्ठिपटिवेधे
तिब्बच्छन्दो होति, आर्यति च दिट्ठिपटिवेधे अविगतपेमो - इमे सत्त
धम्मा अभिञ्जेय्या ।

“कतमे सत्त धम्मा सच्छिकातब्बा ? सत्त खीणासवबलानि
इधावुसो, खीणासवस्स भिक्खुनो अनिच्चतो सब्बे सङ्घारा यथाभूत सम्म-
10 प्पञ्जाय सुदिट्ठा होन्ति । यम्पावुसो, खीणासवस्स भिक्खुनो अनिच्चतो
सब्बे सङ्घारा यथाभूत सम्मप्पञ्जाय सुदिट्ठा होन्ति, इद पि खीणासवस्स
भिक्खुनो बल होति, य बल आगम्म खीणासवो भिक्खु आसवान खय
पटिजानाति - ‘खीणा मे आसवा’ ति ।

“पुन च पर, आवुसो, खीणासवस्स भिक्खुनो अङ्गारकासूपमा कामा
15 यथाभूत सम्मप्पञ्जाय सुदिट्ठा होन्ति । यम्पावुसो पे० , ‘खीणा मे
आसवा’ ति ।

“पुन च पर, आवुसो, खीणासवस्स भिक्खुनो विवेकनिन्न चित्त
होति विवेकपोण^२ विवेकपब्भार विवेकट्ट नेक्खम्माभिरत व्यन्तीभूत^३ सब्बसो
आसवट्टानियेहि धम्मेहि । यम्पावुसो पे० ‘खीणा मे आसवा’ ति ।

20 “पुन च पर, आवुसो, खीणासवस्स भिक्खुनो चत्तारो सतिपट्टाना
भाविता होन्ति सुभाविता । यम्पावुसो पे० ‘खीणा मे आसवा’ ति ।

“पुन च पर, आवुसो, खीणासवस्स भिक्खुनो पञ्चन्द्रियानि
भावितानि होन्ति सुभावितानि । यम्पावुसो पे० ‘खीणा मे आसवा’ ति ।

“पुन च पर, आवुसो, खीणासवस्स भिक्खुनो सत्त बोज्जङ्गा
25 भाविता होन्ति सुभाविता । यम्पावुसो पे० ‘खीणा मे आसवा’ ति ।

“पुन च पर, आवुसो, खीणासवस्स भिक्खुनो अरियो अट्ठङ्गिको
मग्गो भावितो होति सुभावितो । यम्पावुसो, खीणासवस्स भिक्खुनो
अरियो अट्ठङ्गिको मग्गो भावितो होति सुभावितो, इद पि खीणासवस्स
भिक्खुनो बल होति, य बल आगम्म खीणासवो भिक्खु आसवान खय
30 पटिजानाति - ‘खीणा मे आसवा’ ति । इमे सत्त धम्मा सच्छिकातब्बा ।

१ विरियारब्भे - सी०, स्या० । २ विवेकपोणं - सी० । ३ व्यन्तिभूतं - सी०, रो० ।

“इतिमे सत्तति धम्मा भूता तच्छा तथा अविताथा अनञ्जथा सम्मा तथागतेन अभिसम्बुद्धा ।

पठमकभाणवार निद्धित^१ ।

अट्ट^१धम्मा

६. “अट्ट धम्मा बहुकारा पे० अट्ट धम्मा सच्छिकातब्बा ।

“कतमे अट्ट धम्मा बहुकारा ? अट्ट हेतू अट्ट पच्चया आदि-
ब्रह्मचरियिकाय पञ्जाय अप्पटिलद्धाय पटिलाभाय पटिलद्धाय भिय्यो- 5 B
भावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया सवत्तन्ति । कतमे^२ अट्ट^३ ?
इधावुसो, भिक्खु^३ सत्थार उपनिस्साय विहरति अञ्जतर वा गरुट्टानिय
सब्रह्मचारिं यत्थस्स तिब्ब हिरोत्तप्प पच्चुपट्टित होति पेम च गारवो च ।
अय पठमो हेतु पठमो पच्चयो आदिब्रह्मचरियिकाय पञ्जाय अप्पटिलद्धाय
पटिलाभाय पटिलद्धाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया 10 R
सवत्तति ।

“त खो पन सत्थार उपनिस्साय विहरति अञ्जतर वा गरुट्टानिय
सब्रह्मचारिं, यत्थस्स तिब्ब हिरोत्तप्प पच्चुपट्टित होति पेम च गारवो
च । ते कालेन काल उपसङ्कमित्वा परिपुच्छति परिपुञ्जति -- ‘इद,
भन्ते, कथं ? इमस्स को अत्थो’ ति ? तस्स ते आयस्मन्तो अविवटञ्चेव 15
विवरन्ति, अनुत्तानीकत च उत्तानी करोन्ति, अनेकविहितेसु च कङ्खा-
ट्टानियेसु धम्मेसु कङ्ख पटिविनोदेन्ति । अय दुतियो हेतु दुतियो पच्चयो
आदिब्रह्मचरियिकाय पञ्जाय अप्पटिलद्धाय पटिलाभाय पटिलद्धाय
भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया सवत्तति ।

“त खो पन धम्म सुत्वा द्वयेन वूपकासेन सम्पादेति -- कायवूपकासेन 20
चित्तवूपकासेन च । अय ततियो हेतु ततियो पच्चयो आदिब्रह्मचरियिकाय
पञ्जाय अप्पटिलद्धाय पटिलाभाय पटिलद्धाय . भिय्योभावाय वेपुल्लाय
भावनाय पारिपूरिया सवत्तति ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु सीलवा होति पातिमोक्खसवरसवुतो
विहरति आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु^४ वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय 25
सिक्खति सिक्खापदेसु । अय चतुत्थो हेतु चतुत्थो पच्चयो आदिब्रह्मचरियिकाय
पञ्जाय अप्पटिलद्धाय पटिलाभाय पटिलद्धाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय

१ पठमभाणवारो निद्धितो - म०, पठमभाणवार - सी०, स्या० । २-२ रो० पोत्थके
नत्थि । ३. रो० पोत्थके नत्थि । ४ अनुमत्तेसु - सी०, स्या०, रो० ।

भावनाय पारिपूरिया सवत्तति ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु बहुस्सुतो होति सुतधरो सुतसन्निचयो ।
ये ते धम्मा आदिकल्याणा मज्जेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्था'
सव्यञ्जना' केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय अभिवदन्ति तथारूपास्स
5 धम्मा बहुस्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसाणुपेक्खिता
दिट्ठिया सुप्पटिविद्धा । अयं पञ्चमो हेतु पञ्चमो पञ्चयो आदि
ब्रह्मचरियिकाय पञ्जाय अप्पटिलद्धाय पटिलाभाय पटिलद्धाय भिय्योभावाय
वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया सवत्तति ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु आरद्धविरियो विहरति अकुसलान
10 धम्मान पहाणाय, कुसलान धम्मान उपसम्पदाय, थामवा दब्धपरक्कमो
अनिक्खत्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु । अयं छट्ठो हेतु छट्ठो पञ्चमो आदिब्रह्म-
चरियिकाय पञ्जाय अप्पटिलद्धाय पटिलाभाय पटिलद्धाय भिय्योभावाय
वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया सवत्तति ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु सतिमा हाति, परमेणु सतिनेपक्केन
15 सम्मन्नागतो, चिरकत पि चिरभासित पि सरिता अनुस्सरिता । अयं
सत्तमो हेतु सत्तमो पञ्चयो आदिब्रह्मचरियिकाय पञ्जाय अप्पटिलद्धाय
पटिलाभाय पटिलद्धाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया सवत्तति ।

पुन च परं, आवुसो, भिक्खु पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु, उदय-
ब्बधानुपस्सी विहरति — ‘इति रूप, इति रूपस्स समुदयो, इति रूपस्स
20 अत्थङ्गमो’, इति वेदना, इति वेदनाय समुदयो इति वेदनाय अत्थङ्गमो,
इति सञ्जा, इति सञ्जाय समुदयो, इति सञ्जाय अत्थङ्गमो ; इति
सङ्कारा, इति सङ्कारान समुदयो, इति सङ्कारान अत्थङ्गमो , इति
विञ्जाण, इति विञ्जाणस्स समुदयो, इति विञ्जाणस्स अत्थङ्गमो’
ति । अयं अट्ठमो हेतु अट्ठमो पञ्चयो आदिब्रह्मचरियिकाय पञ्जाय
25 अप्पटिलद्धाय पटिलाभाय पटिलद्धाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय
पारिपूरिया सवत्तति । इमे अट्ठ धम्मा बहुकारा ।

“कतमे अट्ठ धम्मा भावेतब्बा ? अरियो अट्ठङ्गिको मग्गो, सेय्यथिद-
सम्मादिट्ठि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मा
वायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । इमे अट्ठ धम्मा भावेतब्बा ।

१-१ सात्थ सव्यञ्जन - स्या०, सव्यञ्जना - रो० । २ धता सी०, स्था०, रो०
३ अत्थगमो - रो० ।

“कतमे अट्ट धम्मा परिञ्जेया ? अट्ट लोकधम्मा लाभो च आलाभो च यसो च अयसो च निन्दा च पससा च सुख च दुक्ख च — इमे अट्ट धम्मा परिञ्जेय्या ।

“कतमे अट्ट धम्मा पहातब्बा ? अट्ट भिच्छत्ता, भिच्छादिट्ठि, भिच्छासङ्कप्पो, भिच्छावाचा, भिच्छाकम्मन्तो, भिच्छाआजीवो, भिच्छा- 5 वायामो, भिच्छासति, भिच्छासमाधि — इमे अट्ट धम्मा पहातब्बा ।

“कतमे अट्ट धम्मा हानभागिया ? अट्ट कुसीतवत्थूनि । इधावुसो, भिक्खुना कम्म कातब्ब होति । तस्स एव होति — ‘कम्म खो मे कातब्ब भाविस्सति, कम्म खो पन मे करोन्तस्स कायो किलमिस्सति, हन्दाह निपज्जामी’ ति । सो निपज्जति, न विरिय आरभति अप्पत्तस्स पत्तिया, 10 अनधिगतस्स अधिगमाय, असच्छिक्कतस्स सच्छिक्किरियाय । इद पठम कुसीतवत्थु ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुना कम्म कत होति । तस्स एव होति — ‘अह खो कम्म आकासि, कम्म खो पन मे करोन्तस्स कायो किलन्तो, हन्दाह निपज्जामी’ ति । सो निपज्जति, न विरिय आरभति पे० । 15 इद दुतिय कुसीतवत्थु ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुना मग्गो गन्तब्बो होति । तस्स एव होति — ‘मग्गो खो मे गन्तब्बो भविस्सति, मग्ग खो पन मे गच्छन्तस्स कायो किलमिस्सति, हन्दाह निपज्जामी’ ति । सो निपज्जति, न विरिय आरभति पे० इद ततिय कुसीतवत्थु । 20

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुना मग्गो गतो होति । तस्स एव होति — अह खो मग्ग अगमासि, मग्ग खो पन मे गच्छन्तस्स कायो किलन्तो, हन्दाह निपज्जामी’ ति । सो निपज्जति, न विरिय आरभति पे० इद चतुत्थ कुसीतवत्थु ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो न 25 लभति लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स एव होति — ‘अह खो गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो नालत्थ लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स मे कायो किलन्तो अकम्मञ्जो । हन्दाह निपज्जामी’ ति पे० इद पञ्चम कुसीतवत्थु ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो 30 लभति लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स

एव होति - 'अहं खो गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो अलत्थ
 17 लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूर्तिं । तस्स मे कायो
 गरुको अकम्मञ्जो मासाचित मञ्जे । हन्दाह निपज्जामी' ति । सो
 निपज्जति पे० इदं छट्ठ कुसीतवत्थु ।

5 "पुन च पर, आवुसो, भिक्खुनो उप्पन्नो होति अप्पमत्तको
 आबाधो । तस्स एव होति - 'उप्पन्नो खो मे अयं अप्पमत्तको आबाधो,
 अत्थि कप्पो निपज्जितु । हन्दाह निपज्जामी' ति । सो निपज्जति
 पे० इदं सत्तम कुसीतवत्थु ।

"पुन च पर, आवुसो, भिक्खु गिलानवुट्ठितो' होति अचिरवुट्ठितो
 10 गेलञ्जा । तस्स एव होति - 'अहं खो गिलानवुट्ठितो अचिरवुट्ठितो
 गेलञ्जा । तस्स मे कायो दुब्बलो अकम्मञ्जो । अत्थि कप्पो
 निपज्जितु । हन्दाह निपज्जामी' ति । सो निपज्जति पे० इदं
 षट्ठम कुसीतवत्थु । इमे अट्ठ धम्मा हानभागिया ।

"कतमे अट्ठ धम्मा विसेसभागिया ? अट्ठ आरम्भवत्थुनि' ।
 15 इधावुसो, भिक्खुना कम्म कातब्बं होति । तस्स एव होति - 'कम्म खो मे
 कातब्बं भविस्सति । कम्म खो पन मे करोन्तेन न सुकर बुद्धान सासन
 पनसिकातु । हन्दाह विरियं आरभामि अप्पत्तस्स पत्तिया, अनधिगतस्स
 प्रधिगमाय, असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाया' ति । सो विरियं आरभति
 अप्पत्तस्स पत्तिया, अनधिगतस्स अधिगमाय, असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय ।
 20 इदं पठम आरम्भवत्थु ।

"पुन च पर, आवुसो, भिक्खुना कम्म कतं होति । तस्स एव होति -
 अहं खो कम्म अकांसि । कम्म खो पनाहं करोन्तो नासक्खि बुद्धान
 सासन मनसिकातु । हन्दाह विरियं आरभामि पे० इदं दुतिय
 आरम्भवत्थु ।

25 "पुन च पर, आवुसो, भिक्खुना मग्गो गन्तब्बो होति । तस्स एव
 होति - मग्गो खो मे गन्तब्बो भविस्सति । मग्ग खो पन मे गच्छन्तेन न
 सुकर बुद्धान सासन मनसिकातु । हन्दाह विरियं आरभामि पे० इदं
 ततिय आरम्भवत्थु ।

"पुन च पर, आवुसो, भिक्खुना मग्गो गतो होति । तस्स एव
 30 होति - अहं खो मग्गं अगमांसि । मग्ग खो पनाहं गच्छन्तो नासक्खि

१ गिलानवुट्ठितो - सी०, स्या० । २ आरम्भवत्थुनि - सी०, रो०, स्या० ।

बुद्धान सासन मनसिकात् । हन्दाह विरिय आरभामि पे० इद चतुत्थ आरम्भवत्थु ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो न लभति लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स एव होति — अह खो गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो नालत्थ लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स मे कायो लहुको कम्मञ्जो । हन्दाह विरिय आरभामि पे० इद पञ्चम आरम्भवत्थु ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो लभति लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स एव होति — अह खो गाम वा निगम वा पिण्डाय चरन्तो अलत्थ लूखस्स वा पणीतस्स वा भोजनस्स यावदत्थ पारिपूरि । तस्स मे कायो बलवा कम्मञ्जो । हन्दाह विरिय आरभामि पे० इद छट्ठ आरम्भवत्थु ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खुनो उप्पन्नो होति अप्पमत्तको आबाधो । तस्स एव होति — उप्पन्नो खो मे अय अप्पमत्तको आबाधो । ठान खो पनेत विज्जति य मे आबाधो पवड्डेय्य । हन्दाह विरिय आरभामि पे० इद सत्तम आरम्भवत्थु ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु गिलाना वुट्ठितो होति अचिरवुट्ठितो गेलञ्जा । तस्स एव होति — अह खो गिलाना वुट्ठितो अचिरवुट्ठितो गेलञ्जा । ठान खो पनेत विज्जति य मे आबाधो पच्चुदावत्तेय्य । हन्दाह विरिय आरभामि अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाया’ ति । सो विरिय आरभति अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । इद अट्ठम आरम्भवत्थु । इमे अट्ठ धम्मा विसेसभागिया ।

“कतमे अट्ठ धम्मा दुप्पटिविज्जा ? अट्ठ अक्खणा असमया ब्रह्मचरियवासाय । इधावुसो, तथागतो च लोके उप्पन्नो होति अरह सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च देसियति ओपसमिको परिनिब्बानिको सम्बोधगामी सुगतप्पवेदितो, अय च पुगलो निरय उपपन्नो होति । अय पठमो अक्खणो असमयो ब्रह्मचरियवासाय ।

“पुन च पर, आवुसो, तथागतो च लोके उप्पन्नो होति अरह सम्मासम्बुद्धो, धम्मो च देसियति ओपसमिको परिनिब्बानिको सम्बोधगामी

सुगतप्पवेदितो, अय च पुग्गलो तिरच्छानयोनिं उप्पन्नो होति । अय दुतियो अक्खणो असमयो ब्रह्मचरियवासाय ।

“पुन च पर पे० पेत्तिविसय उपपन्नो होति । अय ततियो अक्खणो असमयो ब्रह्मचरियवासाय ।”

5 “पुन च पर पे० अञ्जातर द्वीघायुक देवनिकाय उपपन्नो होति । अय चतुत्थो अक्खणो असमयो ब्रह्मचरियवासाय ।

“पुन च पर पे० पच्चन्तिमेसु जनपदेसु पच्चाजातो होति मिलक्खेसु अविञ्जातारेसु, यत्थ नत्थि गति भिक्खून भिक्खुनीन उपासकान उपासिकान । अय पञ्चमो अक्खणो असमयो ब्रह्मचरियवासाय ।

10 “पुन च पर पे० अय च पुग्गलो मज्झिमेसु जनपदेसु पच्चाजातो होति, सो च होति मिच्छादिट्ठिको विपरीतदस्सनो — ‘नत्थि दिन्न, नत्थि यिट्ठ, नत्थि हुत, नत्थि सुकतदुक्कटान’ कम्मान फल विपाको, नत्थि अय लोको, नत्थि परो लोको, नत्थि माता, नत्थि पिता, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि लोके समणब्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इम च लोक पर च
15 लोक सय अभिञ्जा सच्चिक्कत्वा पवेदेन्ती’ ति । अय छट्ठो अक्खणो असमयो ब्रह्मचरियवासाय ।

“पुन च पर पे० अय च पुग्गलो मज्झिमेसु जनपदेसु पच्चाजातो होति, सो च होति दुप्पञ्जो जळो एलमूगो^१ नप्पटिबलो सुभासितदुब्भासितानमत्थमञ्जातु । अय सत्तमो अक्खणो असमयो
20 ब्रह्मचरियवासाय ।

“पुन च पर पे० अय च पुग्गलो मज्झिमेसु जनपदेसु पच्चाजातो होति, सो च होति पञ्जवा अजळो अनेलमूगो^२ पटिबलो सुभासितदुब्भासितानमत्थमञ्जातु । अय अट्ठमो अक्खणो असमयो ब्रह्मचरियवासाय । इमे अट्ठ धम्मा दुप्पटिविज्झा ।

25 “कतमे अट्ठ धम्मा उप्पादेतब्बा ? अट्ठ महापुरिसवितक्का अप्पिच्छस्साय धम्मो, नाय धम्मो महिच्छस्स, सन्तुट्ठस्साय धम्मो, नाय धम्मो असन्तुट्ठस्स, पविवित्तस्साय धम्मो, नाय धम्मो सङ्गणिकारामस्स, आरद्धविरियस्साय धम्मो, नाय धम्मो, कुसीतस्स, उपट्ठितसतिस्साय धम्मो,
250 नाय धम्मो मुट्ठस्सतिस्स, समाहितस्साय धम्मो, नाय धम्मो असमाहितस्स,

१ सुकटदुक्कटान — सी० । २ एलमूगो — स्या० । ३ अनेलमूगो — सी० ।

पञ्जवतो अय धम्मो, नाय धम्मो दुप्पञ्जस्स, निप्पपञ्चस्साय^१ धम्मो^२,
नाय धम्मो पपञ्चारामस्सा ति - इमे अट्ट धम्मा उप्पादेतब्बा ।

“कतमे अट्ट धम्मा अभिञ्जेय्या ? अट्ट अभिभायतणानि अज्झत्त
रूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि सुवण्णदुवण्णानि ।
'तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति - एवसञ्जी होति । इद पठम 5
अभिभायतन ।

“अज्झत्त रूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि
सुवण्णदुवण्णानि । 'तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति - एवसञ्जी
होति । इद दुतिय अभिभायतन ।

“अज्झत्त अरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि 10
सुवण्णदुवण्णानि । 'तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति - एवसञ्जी
होति । इद ततिय अभिभायतन ।

“अज्झत्त अरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि
सुवण्णदुवण्णानि । 'तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति - एवसञ्जी
होति । इद चतुत्थ अभिभायतन । 15

“अज्झत्त अरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति बीलानि नील-
वण्णानि नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि । सेय्यथापि नाम उमापुप्फ^३
नील नीलवण्ण नीलनिदस्सन नीलनिभास, सेय्यथा वा पन त वत्थ
बाराणसेय्यक उभतोभागविमट्ट नील नीलवण्ण नीलनिदस्सन नीलनिभास,
एवमेव अज्झत्त अरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि नील- 20
वण्णानि नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि । 'तानि अभिभुय्य जानामि
पस्सामी' ति - एवसञ्जी होति । इद पञ्चम अभिभायातन ।

“अज्झत्त अरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति पीत्तानि
पीतवण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि । सेय्यथापि नाम कणिकार-
पुप्फ^४ पीत पीतवण्ण पीतनिदस्सन पीतनिभास, सेय्यथा वा पन त वत्थ 25
बाराणसेय्यक उभतोभागविमट्ट पीत पीतवण्ण पीतनिदस्सन पीतनिभास,
एवमेव अज्झत्त अरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि पीत-
वण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि । 'तानि अभिभुय्य जानामि
पस्सामी' ति - एवसञ्जी होति । इद छट्ठ अभिभायतन ।

१ निप्पपञ्चारामस्स अय - स्या० रो० । २ धम्मो निप्पपञ्चरत्तिनो - रो० । ३ उम्मा
पुप्फ - सी०, उम्मारपुप्फ - स्था० । ४ कणिकारपुप्फ - स्या० ।

“अञ्भक्त अरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति लोहितकानि लोहितकवण्णानि लोहितकनिदस्सनानि लोहितकनिभासानि । सेय्यथापि नाम बन्धुजीवकपुप्फ लोहितक लोहितक्रवण्ण लोहितकनिदस्सन लोहितकनिभास, सेय्यथा वा पन त वत्थ बाराणसेय्यक उभतोभागविमट्ट लोहितक
5 लोहितकवण्ण लोहितकनिदस्सन लोहितकनिभास, एवमेव अञ्भक्त अरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति लोहितकानि लोहितकवण्णानि लोहितकनिदस्सनानि लोहितकनिभासानि । ‘तानि अभिभुय्य जनामि पस्सामी’ ति - एवसञ्जी होति । इद सत्तम अभिभायतन ।

“अञ्भक्त अरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति ओदातानि
10 ओदातवण्णानि ओदातनिदस्सनानि ओदातनिभासानि । सेय्यथापि नाम ओसधितारका ओदाता ओदातवण्णा ओदातनिदस्सना ओदातनिभासा, सेय्यथा वा पन त वत्थ बाराणसेय्यक उभतोभागविमट्ट ओदात ओदातवण्ण ओदातनिदस्सन ओदातनिभास, एवमेव अञ्भक्त अरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति ओदातानि ओदातवण्णानि ओदातनिदस्सनानि ओदात-
15 निभासानि । ‘तानि अभिभुय्य जनामि पस्सामी’ ति - एवसञ्जी होति । इद अट्टम अभिभायतन । इमे अट्ट घम्मा अभिञ्जेय्या ।

R 288

“कतमे अट्ट घम्मा सच्छिकातब्बा ? अट्ट विमोक्खा रूपी रूपानि पस्सति । अय पठमो विमोक्खो ।

“अञ्भक्त अरूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति । अय
20 द्वुतियो विमोक्खो ।

“सुभन्तेव अधिमुत्तो होति । अय ततियो विमोक्खो ।

“सब्बसो रूपसञ्जान समतिक्कमा पटिघसञ्जान अत्थङ्गमा नानत्तसञ्जान अमनसिकारा ‘अनन्तो आकासो’ ति आकासानञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति । अस चतुत्थो विमोक्खो ।

12 25

“सब्बसो आकासानञ्चायतन समतिक्कम्म ‘अनन्त विञ्जाण’ ति विञ्जाणञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति । अय पञ्चमो विमोक्खो ।

“सब्बसो विञ्जाणञ्चायतन समतिक्कम्म ‘नत्थि किञ्ची’ ति आकिञ्चञ्जायतन उपसम्पज्ज विहरति । अय छट्ठो विमोक्खो ।

“सब्बसो आकिञ्चञ्जायतन समतिक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतन
30 उपसम्पज्ज विहरति । अय सत्तमो विमोक्खो ।

“सब्बसो नेवसञ्जानासञ्जायतन समतिक्कम्म सञ्जावेदयित-

निरोध उपसम्पज्ज विहरति । अय अट्टमो विमोक्खो । इमे अट्ट धम्मा सच्छिकातब्बा ।

“इति इमे असीति धम्मा भूता तच्छा तथा अविस्तथा अनञ्जाथा सम्मा तथागतेन अभिसम्बुद्धा । •

नव धम्मा

१० “नव धम्मा बहुकारा पे० नव धम्मा सच्छिकातब्बा । 5

“कतमे नव धम्मा बहुकारा ? नव योनिमोमनसिकारमूलका धम्मा योनिमोमनसिकरोतो पामोज्ज^१ जायति, पमुदितस्स पीति जायति, पीति-मनस्स कायो पस्सम्भति, पस्सद्धकायो सुख वेदेति, सुखिनो चित्त समाधियति, समाहिते चित्ते यथाभूत जानाति पस्सति, यथाभूत जान पस्स निब्बिन्दति, निब्बिन्द विरज्जति, विरागा विमुच्चति – इमे नव धम्मा बहुकारा । 10

“कतमे नव धम्मा भावेतब्बा ? नव पारिसुद्धिपधानियङ्गानि सीलविसुद्धि पारिसुद्धिपधानियङ्ग, चित्तविसुद्धि पारिसुद्धिपधानियङ्ग, विट्ठिविसुद्धि पारिसुद्धिपधानियङ्ग, कङ्खावितरणविसुद्धि पारिसुद्धिपधानियङ्ग, मग्गामग्गजाणदस्सनविसुद्धि पारिसुद्धिपधानियङ्ग, पटिपदाजाणदस्सनविसुद्धि पारिसुद्धिपधानियङ्ग, जाणदस्सनविसुद्धि पारिसुद्धिपधानियङ्ग, पञ्जाविसुद्धि पारिसुद्धिपधानियङ्ग, विमुत्तिविसुद्धि पारिसुद्धिपधानियङ्ग – इमे नव धम्मा भावेतब्बा । 15

“कतमे नव धम्मा परिञ्जेय्या ? नव सत्तावासा सन्तावुसो, सत्ता नानत्तकाया नानत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि – मनुस्सा, एकच्चे च देवा, एकच्चे च विनिपातिका^२ । अय पठमो सत्तावासो । 20

“सन्तावुसो, सत्ता नानत्तकाया एकत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि – देवा ब्रह्मकायिका पठमाभिनिब्बत्ता । अय दुतियो सत्तावासो । B 253

“सन्तावुसो, सत्ता एकत्तकाया नानत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि – देवा आभस्सरा । अय ततियो सत्तावासो ।

“सन्तावुसो, सत्ता एकत्तकाया एकत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि – देवा सुभकिण्हा । अय चतुत्थो सत्तावासो । 25

“सन्तावुसो, सत्ता असञ्जिनो अप्पटिसवेदिनो, सेय्यथापि – देवा असञ्जसत्ता । अय पञ्चमो सत्तावासो ।

“सन्तावुसो, सत्ता सब्बसो रूपसञ्जान समतिक्कमा पटिघसञ्जान

अत्थङ्गमा नानत्तसञ्ज्ञान अमनसिकारा 'अनन्तो आकासो' ति आकासान
ञ्चायतनूपगा' । अय छट्ठो सत्तावासो ।

“सन्तावुसो, सत्ता सब्बसो आकासानञ्चायतन समतिक्कम्म 'अनन्त
विञ्जाण' ति विञ्जाणञ्चायतनूपगा' । अय सत्तमो सत्तावासो ।

5 “सन्तावुसो, सत्ता सब्बसो विञ्जाणञ्चायतन समतिक्कम्म 'नत्थि
किञ्ची' ति आकिञ्चञ्जायतनूपगा । अय अट्ठमो सत्तावासो ।

“सन्तावुसो, सत्ता सब्बसो आकिञ्चञ्जायतन समतिक्कम्म' नेव-
सञ्ज्ञानासञ्जायतनूपगा । अय नवमो सत्तावासो । इमे नव धम्मा
परिञ्जेय्या ।

9 10 “कतमे नव धम्मा पहातब्बा ? नव तण्हामूलका धम्मा तण्ह
पटिच्च परियेसना, परियेसर्न पटिच्च लाभो, लाभ पटिच्च विनिच्छयो,
विनिच्छय पटिच्च छन्दरागो, छन्दराग पटिच्च अज्झोसान, अज्झोसान
पटिच्च परिग्गहो^१, परिग्गह पटिच्च मच्छरिय, मच्छरिय पटिच्च आरक्खो,
आरक्खाधिकरण दण्डादान-सत्थादान-कलह-विग्गह-विवाद-तुवतुव-पेसुञ्ज-
15 मुसावादा अनेके पापका अकुसुला धम्मा सवत्तन्ति^२ । इमे नव धम्मा
पहातब्बा ।

4 “कतमे नव धम्मा हानभागिया ? नव आघातवत्थूनि 'अनत्थ
मे अचरी' ति आघात बन्धति, 'अनत्थ मे चरती' ति आघात बन्धति,
'अनत्थ मे चरिस्सती' ति आघात बन्धति, 'पियस्स मे मनापस्स अनत्थ
20 अचरी' ति आघात बन्धति पे० अनत्थ चरती ति आघात बन्धति
पे० अनत्थ चरिस्सती ति आघात बन्धति, 'अप्पियस्स मे अमनापस्स
अत्थ अचरी' ति आघात बन्धति, अत्थ चरती ति आघात बन्धति पे०
अत्थ चरिस्सती ति आघात बन्धति । इमे नव धम्मा हानभागिया ।

“कतमे नव धम्मा विसेसभागिया ? नव आघातपटिविनया
25 'अनत्थ मे अचरि, त कुतेत्थ लब्भा' ति आघात पटिविनेति, 'अनत्थ
मे चरति, त कुतेत्थ लब्भा' ति आघात पटिविनेति, 'अनत्थ मे चरिस्सति,
त कुतेत्थ लब्भा' ति आघात पटिविनेति, पियस्स मे मनापस्स अनत्थ
अचरि पे० अनत्थ चरति पे० अनत्थ चरिस्सति, त कुतेत्थ
लब्भा' ति आघात पटिविनेति, 'अप्पियस्स मे अमनापस्स अत्थ अचरि

१ आकासानञ्चायतनूपगा - स्या० । २ समतिक्कम्म सन्तमेत पणीतमेतति - स्या० ।
३ पखिगाहो - सी० । ४ सम्भवन्ति - रो० ।

पे० अत्थ चरति अत्थ चरिस्सति, त कुतेत्थ लंभा' ति आघात पटिविनेति - इमे नव धम्मा विसेसभागिया ।

“कतमे नव धम्मा दुप्पटिविज्झा ? नव नानत्ता धातुनानत्त पटिच्च उप्पज्जति फस्सनानत्त, फस्सनानत्तं पटिच्च उप्पज्जति वेदनानानत्त, वेदनानानत्त पटिच्च उप्पज्जति सञ्जानानत्त, सञ्जानानत्त पटिच्च उप्पज्जति सङ्कप्पनानत्त, सङ्कप्पनानत्त पटिच्च उप्पज्जति छन्दनानत्त, छन्दनानत्त पटिच्च उप्पज्जति परिळाहानानत्त, परिळाहानानत्त पटिच्च उप्पज्जति परियेसनानानत्त, परियेसनानानत्त पटिच्च उप्पज्जति लाभनानत्त- इमे नव धम्मा दुप्पटिविज्झा ।

“कतमे नव धम्मा उप्पादेतब्बा ? नव सञ्जा असुभसञ्जा, मरणसञ्जा, आहारेपटिकूलसञ्जा, सब्बलोकेअनभिरतिसञ्जा, अनिच्च- सञ्जा, अनिच्चे दुक्खसञ्जा, दुक्खे अनत्तसञ्जा, पहानसञ्जा, विराग- सञ्जा - इमे नव धम्मा उप्पादेतब्बा ।

R 290

“कतमे नव धम्मा अभिञ्जेय्या ? नव अनुपुब्बविहारा इधावुसो, भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचार विवेकज पीतिसुख पठम ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति, वितक्क- विचारान वूपसमा पे० दुतिय भान उपसम्पज्ज विहरति, पीतिया च विरागा पे० ततिय ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति, सुखस्स च पहाना पे० चतुत्थ भान उपसम्पज्ज विहरति, सब्बसो रूपसञ्जान समतिककमा पे० आकासानञ्चायतन उपसम्पज्ज विहरति, सब्बसो आकासानञ्चायतन समतिककम्म 'अनन्त विञ्जाण' ति विञ्जाणञ्चा- यतन उपसम्पज्ज विहरति, सब्बसो विञ्जाणञ्चायतन समतिककम्म 'नत्थि किञ्ची' ति आकिञ्चञ्जायतन उपसम्पज्ज विहरति, सब्बसो आकिञ्चञ्जायतन समतिककम्म नेवसञ्जानासञ्जायतन उपसम्पज्ज विहरति, सब्बसो नेवसञ्जानासञ्जायतन समतिककम्म सञ्जावेदयित- निरोध उपसम्पज्ज विहरति - इमे नव धम्मा अभिञ्जेय्या ।

B. 255

“कतमे नव धम्मा सच्छिकातब्बा ? नव अनुपुब्बनिरोधा पठम भान समापन्नस्स कामसञ्जा निरुद्धा होति, दुतिय भान समापन्नस्स वितक्कविचारा निरुद्धा होन्ति, ततिय भान समापन्नस्स पीति निरुद्धा होति, चतुत्थ भान समापन्नस्स अस्सासपस्सासा निरुद्धा होन्ति, आकासा-

30

नञ्चायतन समापन्नस्स रूपसञ्जा निरुद्धा होति, विञ्जाणञ्चायतन समापन्नस्स आकासानञ्चायतनसञ्जा निरुद्धा होति, आकिञ्चञ्जा यतन समापन्नस्स विञ्जाणञ्चायतनसञ्जा निरुद्धा होति, नेवसञ्जानासञ्जायतन समापन्नस्स आकिञ्चञ्जायतनसञ्जा निरुद्धा होति, सञ्जावेदयितनिरोध समापन्नस्स सञ्जा च वेदना च निरुद्धा होन्ति - इमे नव धम्मा सच्छिकातब्बा ।

“इति इमे नवुति धम्मा भूता तच्छा तथा अवितथा अनञ्जथा सम्मा तथागतेन अभिसम्बुद्धा ।

दस धम्मा

११ “दस धम्मा बहुकारा पे० दस धम्मा सच्छिकातब्बा ।

10 “कतमे दस धम्मा बहुकारा ? दस नाथकरणधम्मा इधावुसो, भिक्खु सीलवा होति, पातिमोक्खसवरसवुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो, अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु । यम्पावुसो, भिक्खु सीलवा होति पे० सिक्खति सिक्खापदेसु, अय पि धम्मो नाथकरणो ।

15 “पुन च पर, आवुसो, भिक्खु बहुस्सुतो पे० दिट्ठिया सुप्पटि-विद्धा । यम्पावुसो, भिक्खु बहुस्सुतो पे० अय पि धम्मो नाथकरणो ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु कल्याणमित्तो होति कल्याणसहायो कल्याणसम्पवद्धो । यम्पावुसो, भिक्खु पे० कल्याणसम्पवद्धो, अय पि धम्मो नाथकरणो ।

20 “पुन च पर, आवुसो, भिक्खु सुवचो होति सोवचस्सकरणेहि धम्महेहि समन्नागतो खमो^१ पदक्खिणग्गाही अनुसासनि । यम्पावुसो, भिक्खु पे० अनुसासनि, अय पि धम्मो नाथकरणो ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु यानि तानि सब्रह्मचारीन उच्चावचानि किंकरणीयानि तत्थ दक्खी होति अनलसो, तत्रुपायाय वीमसाय समन्ना-
गतो, अल कातु, अल सविधातु । यम्पावुसो, भिक्खु -- पे० अल
25 सविधातु, अय पि धम्मो नाथकरणो ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु धम्मकामो होति पियसमुदाहारो, अभिधम्मे अभिविनये उळारपामोज्जो । यम्पावुसो, भिक्खु पे० उळारपामोज्जो, अय पि धम्मो नाथकरणो ।

१ खमो होति - स्या० ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु सन्तुट्ठो होति इतरीतरचीवरपिण्डपात-
सेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारेहि । यम्पावुसो, भिक्खु पे०
अय पि धम्मो नाथकरणो ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु आरद्धविस्थिो विहरति पे०
कुसलेसु धम्मेसु । यम्पावुसो, भिक्खु पे० अय पि धम्मो नाथकरणो । 5

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु सतिमां होति, परमेन सतिनेपक्केन
समन्नागतो, चिरकत पि चिरभासित पि सरिता अनुस्सरिता । यम्पावुसो,
भिक्खु पे० अय पि धम्मो नाथकरणो ।

“पुन च पर, आवुसो, भिक्खु पञ्जावा होति उदयत्थगामिनिया
पञ्जाय समन्नागतो अरियाय निब्बेधिकाय सम्मा दुक्खक्खयगामिनिया । 10
यम्पावुसो, भिक्खु पे० अय पि धम्मो नाथकरणो । इमे दस
धम्मा बहुकारा ।

“कतमे दस धम्मा भावेतब्बा ? दस कसिणायतनानि पठवी-
कसिणमेको सञ्जानाति उद्ध अधो तिरिय अद्वय^१ अप्पमाण, आपो-
कसिणमेको सञ्जानाति पे० तेजो^२कसिणमेको सञ्जानाति 15
वायो^३कसिणमेको सञ्जानाति नीलकसिणमेको सञ्जानाति
पीतकसिणमेको सञ्जानाति लोहितकसिणमेको सञ्जानाति ओदात-
कसिणमेको सञ्जानाति आकासकसिणमेको सञ्जानाति विञ्जाण-
कसिणमेको सञ्जानाति उद्ध अधो तिरिय अद्वय अप्पमाण – इमे दस
धम्मा भावेतब्बा । 20

“कतमे दस धम्मा परिञ्जेय्या ? दसायतनानि चक्खायतन,
रूपायतन, सोतायतन, सद्दायतन, घानायतन, गन्धायतन, जिह्वायतन,
रसायतन, कायायतन, फोटुब्बायतन – इमे दस धम्मा परिञ्जेय्या ।

“कतमे दस धम्मा पहातब्बा ? दस मिच्छत्ता मिच्छादिट्ठि,
मिच्छासङ्कप्पो, मिच्छावाचा, मिच्छाकम्मन्तो, मिच्छाआजीवो, मिच्छा- 25
वायामो, मिच्छासति, मिच्छासमाधि, मिच्छाञ्जाण, मिच्छाविमुत्ति –
इमे दस धम्मा पहातब्बा ।

“कतमे दस धम्मा हानभागिया ? दस अकुसलकम्मपथा
पाणातिपातो, अदिन्नादान, कामेसुमिच्छाचारो, मुसावादो, पिसुणा वाचा,

फरुसा वाचा, सम्फप्पलापो, अभिज्झा, ब्यापादो, मिच्छादिट्ठि - इमे दस धम्मा हानभागिया ।

“कसमे दस धम्मा विसेसभागिया ? दस कुसलकम्मपथा पाणाति पाता वेरमणी, अदिन्नादाना वेरमणी, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी, 5 मुसावादा वेरमणी, पिसुणाय वाचाय वेरमणी, फरुसाय वाचाय वेरमणी, सम्फप्पलापा वेरमणी, अनभिज्झा, अब्यापादो, सम्मादिट्ठि - इमे दस धम्मा विसेसभागिया ।

“कतमे दस धम्मा दुप्पटिविज्झा ? दस अरियवासा इधावुसो, भिक्खु पञ्चङ्गविप्पहीनो होति छळङ्गसमन्नागतो एकारक्खो चतुरापस्सेनो 10 पणुणपच्चेकसच्चो^१ समवयसट्ठेसनो अनाविलसङ्कप्पो पस्सद्धकायसङ्कारो सुविमुत्तचित्तो सुविमुत्तपञ्चो ।

8 “कथ चावुसो, भिक्खु पञ्चङ्गविप्पहीनो होति ? इधावुसो, भिक्खुनो कामच्छन्दो पहीनो होति, ब्यापादो पहीनो होति, थिनमिद्ध^२ पहीन होति, उद्धच्चकुक्कुच्च पहीन होति, विचिकिच्छा पहीना होति । एव खो, आवुसो, 15 भिक्खु पञ्चङ्गविप्पहीनो होति^३ ।

“कथ चावुसो, भिक्खु छळङ्गसमन्नागतो होति ? इधावुसो, भिक्खु चक्खुना रूप दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानो । सोतेन सद् सुत्वा घानेन गन्ध घायित्वा जिह्वाय रस 20 सायित्वा कायेन फोट्टब्ब फुसित्वा मनसा धम्म विञ्जाय नेव सुमनो होति न दुम्मनो, उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानो । एव खो, आवुसो, भिक्खु छळङ्गसमन्नागतो होति ।

“कथ चावुसो, भिक्खु एकारक्खो होति ? इधावुसो, भिक्खु सता- रक्खेन चेतसा समन्नागतो होति । एव खो, आवुसो, भिक्खु एकारक्खो होति ।

25 “कथ चावुसो, भिक्खु चतुरापस्सेनो होति ? इधावुसो, भिक्खु सङ्घायेक पटिसेवति, सङ्घायेक अधिवासेति, सङ्घायेक परिवज्जेति, सङ्घायेक विनोदेति । एव खो, आवुसो, भिक्खु चतुरापस्सेनो होति ।

“कथ चावुसो, भिक्खु पणुणपच्चेकसच्चो होति ? इधावुसो,

१ पणुणपच्चेकसच्चो - सी०, पणुणपच्चेकसच्चो - स्या० । २ थिनमिद्ध - सी स्या० ।

भिक्खुनो यानि तानि पुथुसमणब्राह्मणान पुथुपच्चेकसच्चानि सब्बानि तानि नुन्नानि होन्ति पणुन्नानि चत्तानि वन्तानि मुत्तानि पहीनानि पटिनिस्सट्टानि^१ । एव खो, आवुसो, भिक्खु पणुत्तपच्चेकसच्चो होति ।

“कथ चावुसो, भिक्खु समवयसट्टेसनो होति ? इधावुसो, भिक्खुनो कामेसना पहीना होति, भवेसना पहीना होति, ब्रह्मचरियेसना पटिप्पस्सद्धा^२ । 5 एव खो, आवुसो, भिक्खु समवयसट्टेसनो होति ।

“कथ चावुसो, भिक्खु अनाविलसङ्कप्पो होति ? इधावुसो, भिक्खुनो कामसङ्कप्पो पहीनो होति, व्यापादसङ्कप्पो पहीनो होति, विहिंसासङ्कप्पो पहीनो होति । एव खो, आवुसो, भिक्खु अनाविलसङ्कप्पो होति । 10

“कथ चावुसो, भिक्खु पस्सद्धकायसङ्कारो होति ? इधावुसो, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सान अत्थङ्गमा अदुक्खमसुख उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थ ज्ञान उपसम्पज्ज विहरति । एव खो, आवुसो, भिक्खु पस्सद्धकायसङ्कारो होति ।

“कथ चावुसो, भिक्खु सुविमुत्तचित्तो होति ? इधावुसो, भिक्खुनो रागा चित्त विमुत्त होति, दोसा चित्त विमुत्त होति, मोहाच्चित्त विमुत्त होति । एव खो, आवुसो, भिक्खु सुविमुत्तचित्तो होति । 15

“कथ चावुसो, भिक्खु सुविमुत्तपञ्चो होति ? इधावुसो, भिक्खु ‘रागो मे पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावकतो आर्यति अनुप्पादधम्मो’ ति पजानाति । ‘दोसो मे पहीनो पे० आर्यति अनुप्पादधम्मो’ ति पजानाति ‘मोहो मे पहीनो पे० आर्यति अनुप्पादधम्मो’ ति पजानाति । एव खो, आवुसो, भिक्खु सुविमुत्तपञ्चो होति । इमे दस धम्मा दुप्पटिविज्झा । 20

“कतमे दस धम्मा उप्पादेतब्बा ? दस सञ्जा असुभसञ्जा, मरणसञ्जा, आहारेपटिकूलसञ्जा, सब्बलोकेअनभिरतिसञ्जा, अनिच्चसञ्जा, अनिच्चे दुक्खसञ्जा, दुक्खे अनत्तसञ्जा, पहानसञ्जा, विरागसञ्जा, निरोधसञ्जा — इमे दस धम्मा उप्पादेतब्बा । 25

“कतमे दस धम्मा अभिञ्जेय्या ? दस निज्जरवत्थूनि सम्मादिट्ठिस्स मिच्छादिट्ठि निज्जिण्णा होति, ये च मिच्छादिट्ठिपच्चया^३ अनेके पापका

अकुसला धम्मा सम्भवन्ति ते चस्स^१ निज्जिण्णा होन्ति । सम्मासङ्कप्पस्स
 मिच्छासङ्कप्पो पे० सम्मावाचस्स मिच्छावाचा पे० सम्मा
 कम्मन्तस्स मिच्छाकम्मन्तो पे० ^२ सम्माआजीवस्स मिच्छाआजीवो
 पे० सम्मावायाम्स्स मिच्छावायामो पे० सम्मासतिस्स मिच्छा
 5 सति पे० सम्मासमाधिस्स मिच्छासमाधि पे० सम्माआणस्स
 260 मिच्छाआण निज्जिण्ण होति पे० सम्माविमुत्तिस्स मिच्छाविमुत्ति
 निज्जिण्णा होति, ये च मिच्छाविमुत्तिपच्चया अनेके पापका अकुसला
 धम्मा सम्भवन्ति ते चस्स निज्जिण्णा होन्ति । इमे दस धम्मा
 अभिञ्जेय्या ।

292 10 “कतमे दस धम्मा सच्छिकातब्बा ? दस असेक्खा^३ धम्मा
 असेक्खा सम्मादिट्ठि, असेक्खो सम्मासङ्कप्पो, असेक्खा सम्मावाचा, असेक्खो
 सम्माकम्मन्तो, असेक्खो सम्माआजीवो, असेक्खो सम्मावायामो, असेक्खा
 सम्मासति, असेक्खो सम्मासमाधि, असेक्ख सम्माआण, असेक्खा
 सम्माविमुत्ति — इमे दस धम्मा सच्छिकातब्बा ।

15 “इति इमे सतधम्मा भूता तच्छा तथा अविताया अनञ्जया सम्मा
 तथागतेन अभिसम्बुद्धा” ति ।

इदमवोचायस्मा सारिपुत्तो । अत्तमना ते भिक्खू आयस्मतो सारि-
 पत्तस्स भासित अभिनन्दु ति ।

दसुत्तरसुत्त निट्ठित एकादसम ।

पाथिकवग्गो^४ निट्ठितो ।

तस्सुद्दान

*पाथिको^५ च उदुम्बर^६, चक्कवत्ति अग्गञ्जक ।
 293 20 सम्पसादनपासाद, महापुरिसलक्खण ॥

१ पस्स - स्या० । २ असेक्खा - रो० । ३ पाठिकवग्गो - स्या० रो० । ४-४ पाठिको
 दुम्बरी चैव - रो० ।

सिङ्गालाटानाटियक^१, सङ्गीति^२ च दसत्तर ।
एकादसहि सुत्तेहि, पाथिकवग्गो ति वुच्चति^{३*} ॥

दीघनिकायपालि निट्ठिता ।

— ० —

१ सिगाला० - रो०, सिगालाटानाटिय - सी० । २ सङ्गीति - रो० । ३ एत्थ रो०
पोत्थके अय अधिको पाठो दिस्सति—

‘पहात्तु सकल दुक्ख, विञ्चित्तु सकल सुख ।
पप्पोत्तु अमत खेम, धम्मराजस्स सन्तिके’ ति ॥

- स्या० पोत्थके तु एत्थ अय पाठो दिस्सति—

“पाटिकञ्च उदुम्बर, चक्कवत्ति च अग्गञ्ज ।
सम्पसादनञ्च पासाद, लक्खणेन सिङ्गालक ॥
आटानाटिय सङ्गीत्ति, दसुत्तरेन० एकादसाति ।
चतुत्तिससुत्तपतिमण्डितो, दीघनिकायो निट्ठितो ॥

चतुत्तिसे च सुत्तन्ता तिवग्गो यस्स सङ्गहो ।
एस दीघनिकायोति, पठमो अनुलोमिको ॥

कस्मा धनेस दीघनिकायोति वुच्चति ?
दीघप्पमाणान सुत्तान, समूहतो निवासतो ।
समूहनिवासाहि, दीघनिकायोति वुच्चति” ॥

दीघ०-३

वित्सेसपदान

अनुककमणिकार

[पदान अल्लप्ययोगट्टानानि बघनीसु निहिट्टानि]

अ		अञ्जखन्तिकेन (दुक्कर)	२८
		(दुज्जान)	३१
अकट्टपावो (सालि पातुरहोसि)	६६ ७१	अञ्जतिथिया (परिब्बाजका एव वदेय्यु)	१०१ १०६
अकण्हअसुक्कविपाक (चतुस्र कम्मान)	१७६	अञ्जत्राचरियवेन (दुक्कर)	२८,
अकण्हअसुक्क (चतुस्र कम्मान)	१७६	(दुज्जान)	३१
अकनिट्टा (सुद्धावासा)	१८४	अञ्जत्रायोगेन (दुक्कर)	२८,
अकालिको (धम्मो)	६	(दुज्जान)	३१
अकुसलकम्मपथा (दस)	२०७ २३७	अञ्जथासञ्जिनो (पि एके सत्ता सन्ति)	१०७ १०८
अकुसलघातुयो	१७०	अञ्जदत्थुदसो (ब्रह्मा)	२४,
अकुसलमूलानि	१७० २१२	(तथागतो)	१०५
अकुसलवितक्का	१७०	अञ्जदत्थुहुरो (अमित्तो मित्तपतिरूपको वेदितब्बो)	१४३ १४४
अकुसलसङ्कप्पा	१७०	अञ्जदिट्ठिकेन (दुक्कर)	२८
अकुसलसञ्जा	१७०	(दुज्जान)	३१
अकुसलेहि धम्मेहि (विविच्च पठम ज्ञान)	१०२	अञ्जश्चिकेन (दुक्कर)	२८
अक्खधुत्तो	१४२	(दुज्जान)	३१
अगतिगमनानि (चत्तारि)	१७८	अट्ठङ्गिको मगो	७६ ६६ २२६
अगारवा (छ)	१८८ २१६	अट्ठ धम्मा	२२५
अगञ्जेन (अक्खरेन अभिनिब्बत्ति अहोसि)	७४	अट्ठ पच्चया	२२५
अगप्पुत्ता (तपोजिगुच्छा)	३८ ४०	अट्ठ पुरिसपुग्गला (भगवतो सावकसङ्घो)	६
अगबीज	३६	अट्टानकुसलता (ठानकुसलता च)	१६६
अग्गी (तयो)	१७१	अट्टितधम्मा (सक्यपुत्तिया विहरन्ती ति)	१०३
अङ्गीरसस्स (आटानाट्टिये)	१५८	अत्तप्पा (सुद्धावासा)	१८४
अचेलको (अस्स कळारमट्टकस्स वतपद)	६	अत्तकिलमथानुयोगमनुयुत्तो	८८
(होति तपस्सी)	३२	अत्तदीपा (भिक्खवे विहरथ)	४६, ६१
अचेलस्स (पाथिकपुत्तस्स आरामो)	१४	अत्त तपो (पुग्गलो)	१८१
अचेलो (कोरक्खत्तियो कुक्कुरवतिको)	६ ८	अत्तभावपट्टिलाभा (चत्तारो)	१८०
(कळारमट्टको)	६ १०	अत्तसरणा (भिक्खवे विहरथ)	४६, ६१
(पाथिकपुत्तो)	११ १३ १५, १८ २२	अत्ता (सस्सतो कूटट्टो)	८६,
अच्छरियान रसान सविभागेन (दासकम्मकरा		(सयकतो)	१०६, १०७,
पच्चुपट्टातब्बा)	१४७	(उच्छिज्जति विनस्सति)	१०८
अजितो (लिच्छवीन सेनापति)	१३	अत्थकामो (बहुजनस्स अहोसि तथागतो)	१२
अज्जव (च लज्जव च द्वे धम्मा)	१६६	अत्थक्खायी (मित्तो सुहदो वेदितब्बो)	१४
अज्झायका (त्वेव ततिय अक्ख उपनिब्बत्त)	७४	अत्थचरियाय (मित्तामच्चा पच्चुपट्टातब्बा)	१४
अज्जलिकरणीयो (भगवतो सावकसङ्घो)	६		

अत्यसहिता (आटानाटिया रक्खा)	१६५	अनुपसमसवत्तनिके (दुरक्खाते धम्मविनये)	६१ ६३
अत्यसहित (न अब्याकत)	१०५ १०६		१६८
अदिग्घादान (तदग्गे पञ्जायति)	७२ ७३	अनुपादिसेसाय (निब्बानधातुया)	१०४
(कम्मकिलेसो)	१४०	अनुपिय	३
अधम्मरागो (वेपुल्लमगमासि)	५६	अनुपुब्बनिरोधा	२०५ ३३५
अधम्मराग	५६	अनुपुब्बविहारा	२०४ ३३५
अधिकरणसमथा (सत्त)	१६५	अनुपत्तसदत्थो	७६
अधिच्चसमुपपन्नो (अत्ता)	१०६ १०७	अनुपियभाणी	१४३ १४४
अधिच्चसमुपपन्न (आचरियक श्रग्गञ्जा पञ्जापेथ)	२७	अनयुत्ता	६५
अधिट्टानानि (चत्तारि)	१७६	अनुरक्खणपधान	१७६ १७७
अधिपञ्जात्ति (अहमेव तत्थ भिय्यो यदिद)	१०७ १ ८	अनुसया	१६५
अधिपतेय्यानि (तीणि)	१७२	अनुसासनविघासु	८३
अधिमुखो (यक्खान सेनापति)	१६४	अनुस्सतिट्टानानि	२१६
अनञ्जासरणा (भिक्खवे विहरथ)	४६	अनेळक	६८
अनत्तिचरियाय (भरिया पच्चुपट्टातब्बा)	१४७	अनोत्तप्प	१६६
अननुत्तप्पो (होति सत्था)	६५	अनोनमन्तो (उभोहि पाणितलेहि जण्णुकानि	
अनभिभूतो (ब्रह्मा)	२४	परिमसति परिमज्जति)	१२५ १२६
अनभिरति (उप्पज्जति एककस्स निवुसितत्ता)	२४	अन्तग्गाहिकाय दिट्ठिया (समत्तागतो मिच्छादिट्ठिको)	
अनरियवोहारा (चत्तारो)	१८० १८१		३७
अनवमाननाय (भरिया पच्चुपट्टातब्बा)	१४७	अन्तलिक्खचरा (आभस्सरसवत्तनिका सत्ता)	२३,
अनागामिनो	१८४		२४ ६६ ७१
अनागामिफल	१७८	अन्तलिक्खे (नगरा अहु)	१५४, १६२
अनाथपिण्डकस्स	११०	अन्ता (तयो)	१७१
अनादीनवदस्सावी (तपस्सिनो उपक्किलेसो)	३४	अन्तेवासिना (दक्खिणा दिसा आचरिया	
अनावट्टद्वारताय (समणब्राह्मणा पच्चुपट्टातब्बा)	१४८	पच्चुपट्टातब्बा)	१४६
अनावत्तिधम्मो (तस्मा लोका)	८३ १०२	अघकारो	६७
अनाविलसङ्कुप्पो (भिक्खु होति)	२३६	अपरन्तसहगता (दिट्ठिनिस्सया)	१०६ १०७ १०८
अनासवा	८७	अपरन्तसहगतान	१०८, १०९
अनिय्यानिके	६१ ६३, १६८	अपरकारो	१०६, १०७
अनिस्सरणपञ्चो	३३	अपस्सेनानि (चत्तारि)	१७५
अनीकट्टा (चक्कवत्तिरञ्चो परिवारा)	११४	अपानकौ (तपस्सिताय)	३२
	११८, १३० १३२ १३४ १३६	अपायमुखानि (ओगान न सेवति)	१४०, १४१
अनीकट्टान	१२६	अपायसहायो (अभित्तो, मित्तपतिरूपको वेदितब्बो)	
अनुकम्पको	१४५		१४३ १४४
अनुत्तप्पो (होति, सत्था)	६४	अपेत्तेय्यता	५६
अनुत्तरियानि (तीणि)	१७२ २२१	अप्पमञ्जा	१७५
अनुत्तरो	६, ६०	अप्पमादो	२१०
अनुधम्मचारी	६३	अप्पिच्छता	८६
अनुपधिका (अत्थि, इट्ठि)	८७	अब्याकत	१०५

अब्रह्माञ्जाता	५६	अविज्जायोगो	१७६
अभब्बट्टानानि	१८२	अविज्जोघो	१७६
अभिज्जाब्बापादा (वेपुल्लमगमसु)	५५ ५६	अविनिपातधम्मो (सोतापन्नो)	८३ ८४
अभिञ्जा (छ)	२२१	अविपरिणामधम्मा (न खिड्डापदोसिका देवा)	२५
अभिञ्जाय (न चत्तारो सुखल्लिकानुयोगा)	१०१	अविरळदन्तो (महापुरिसलक्खण)	१११ १३२
	१०५ १०६	अविसवादनताय (मित्तामच्चा पच्चुपट्टातब्बा)	१४७
अभिनीलनेत्तो (महापुरिसलक्खण)	१११ १२६	अविहा (सुद्धावासा)	१८४
अभिभायतनानि	२०० २३१	अविहिंसा	१६६
अभिभायतन	२०१	अवीचि	५६
अभिभू (ब्रह्मा)	२४	अवेच्चप्पसादेन	१७७
अभोकासिको (तपस्सिताय)	३२	असङ्गता (घातु)	२१२
अमच्चा ११४ ११८ १३० १३१ १३२ १३४		असञ्जासत्ता	२७
	१३६	असञ्जी (अत्ता हीति)	१०८
अमच्चान	१२६	असद्धम्मा (सत्त)	२२३
अमत्तेय्यता	५६	असयकारो (दिट्ठिनिस्सयो)	१०६, १०७
अमित्ता (मित्तपतिरूपका)	१४३	असनिविचक्क	३३ ३६
अमित्तो (मित्तपतिरूपको)	१४४	असम्पजञ्जा	१६६
अमूळ्विनयो	१६५	असस्सतो अत्ता	१०६ १३७
अम्बरअम्बरवतियो	१५४, १६२	असामञ्जाता	५६
अयोनिसोमनसिकारो	२१०	असुचिनो	८१
अरञ्जावनपत्थानि	१५० १५८	असुभ त्वेव (पजानाति तस्मिं समये)	२८
अरहत्तफल	१७८	असुरकायो	७, ८
अरह ६ ६० ६४ ६५ ६७ १०३ ११० ११२		असुरा	११८ १३३
	११३ ११४ १३६	असेक्खा धम्मा (दस)	२०६ २४०
अरिट्ठो	१६२	अस्मिमानो	२१०
अरिट्ठो नेमि	१५४	अस्सरतन ४६ ६० ११० ११२ १३६	
अरियधनामि (सत्त)	१६४ २२२	अहिच्छत्तको (सेय्यथापि नाम)	६८
अरियवासा (दस)	२०७ २३८	अहिरिक	१६६
अरियवोहारा (चत्तारो)	१८० १८१		
अरियवसा (चत्तारो)	१७५		
अरियसञ्चानि	२१४		
अरूपी अत्ता	१०८	अरिगिलायति (भगवतो पिट्ठि)	१६७
अलङ्कारानुप्पदानेन (भरिया पच्चुपट्टातब्बा)	१४७	आघातपट्टिविनया (नव)	२०३, २३४
अलसकेन	७ ८	आघातवत्थूनि (नव)	२०२, २३४
अलपत्तेय्या (पञ्चवस्सिका कुमारिका)	५७	आघातो (अञ्जामञ्जाम्हि पच्चुपट्टितो भविस्सति)	५७
अवरुद्धा १५६ १६३, १६४		आचरिया	१४५ १४८
अविक्खेपो	१६६	आचामभक्खो (तपस्सिताय)	३२
अविज्जा	१६६ २११	आचारगोचरसम्पन्नो	६१
अविज्जायोगविसञ्जोगो	१७६	आटानाटा	१५

आटानाटिया रक्खा	१५५ १५७ १६३ १६४
आटानाटिय रक्ख	१५१ १५८, १६५
आदिच्छब धन (आटानाटिये)	१५२ १५३ १५५
	१५६ १६० १६१ १६३
आदिच्चो	१५३, १५६ १६०
आदिब्रह्मचरियक	१०५ १०६
आदीनवा	१४१ १८३
आदेसनविधा	८० ८१
आदेसनविधासु	८०
आनवा (सामगामे)	६१ ६२
आनिससा (पञ्च सीलसम्पदाय)	१८३
आपत्तिउट्टानकुसलता	१६६
आपत्तिकुसलता	१६६
आपाथकनिसादी (तपस्सिनो उपक्किलेसो)	३५ ३७
आपायिको	६
आपोकसिणमेको	२०७
आबाधा	५६
आभस्सरकाया	२३
आभस्सरसवत्तनिका	२३ ६६
आमिसानुपदानेन (समणब्राह्मणा पच्चुपट्टातब्बा)	१४८
आयतनकुसलता	१६६
आयतनानि	१८८, २१६
आयतनपण्णत्तीसु	७६
आयतपण्हि (महापुरिसलक्खण)	१११ ११५
आरम्भवत्थुनि	१६७
आरुप्पा (चत्तारो)	१७५
आरुपितो (ते वादो विग्गाहिककथा)	६१ १६८
आलस्यानुयोगे (भोगान अपायमुख)	१४१, १४२
आलोकसञ्ज (मनसि करोति आणदस्सनपटिलाभाय)	१७४
आविभाव (इद्धिविधासु)	८७
आसभीवाचा (भासिता, मारिपुत्तेन)	७७
आसवा	१७०
आसवान	१०३
आसवान सवराय	१००
आहारट्टितिका (सब्बे सत्ता)	१६६ २११
आहारा (चत्तारो)	१७८, २१३
आहुनेय्यो (भगवतो सावकसङ्घो)	६

आळकमन्दा	१५४ १६२
आळकमन्दाय	१५६ १६३
आळवको	१५७ १५४

इ

इत्थिपुमा	६७
इत्थिरनन (चक्कवत्तिरुत्तरो)	४६ ५० ११०
	११२ १३६
इदसच्चाभिणियेनो (कायगतो)	१७६
इद्धिपाटिहारिय	४ ५ ६ १० ११ १२ १४ १५
	२२ २३
इद्धिपादा	७६ ८६ १७३
इद्धिपादान	६१
इद्धिपाद	६१
इद्धिविधासु	८७
इन्दनामा	१५२ १५३ १५५ १५६ १६० १६१
	१६३
इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो	८३
इन्दो	१५७ १६४
इभे	६४
इस्सरकुत्त	२३ २५
इस्सरियवोस्सगोन (भरिया पच्चुपट्टातब्बा)	१४७
इस्सरो	२४

उ

उक्कुटिको	३२
उजुप्पटिपन्नो (भगवतो सावकसङ्घो)	६
उट्टानेन (आचरिया पच्चुपट्टातब्बा)	१४६
उण्णा भुमकन्तरे जाता होति (महापुरिसलक्खण)	१११ १३१
उण्हिसीसो (महापुरिसलक्खण)	१११ १३०
उतुनियो (ब्राह्मणियो दिस्सन्ति)	६४
उतुपरिस्सयविनोदपटिसल्लाना रामत्थ	१०१
उतुसवच्छरा (न पञ्जायति) .	६७, ७१
उत्तरका (नाम थूलून निगमो)	६
उत्तरकुर हो	१५३ १६१
उत्तरिमनुस्सधम्मा	४ ५ ६ १० ११ १२, १४, १५,
	२२ २३
उदकमणिको (पतिट्टापित्तो, सन्थागारे)	१६७

उदायि	६०
उदुम्बरिकाय (परिब्बाजकारामे)	२६ ४५
उदेन (नाम चेतिय पुरस्थिमेन वेसालि)	६
उदकेन रामपुत्तेन	६८
उदको	६८
उद्धगलोमो (महापुरिसलक्खण)	१११ ११६
उपकारको (मित्तो सुहदो वेदित्तव्वो)	१४४ १४५
उपनिकलेसो (तपोजिगुच्छ्राय)	३३ ३४ ३५
उपट्टानेन (आचरिया पच्चुपट्टातव्वा)	१४६
उपड्डपथ (समणो गोतमो आगच्छेय्य)	११
उपवाणो	१०६
उपसमाय (न अयाकत)	१ १
(एत ब्याकत)	१०५
(न हीना सुखल्लिकानुयोगा)	१०६

उपादानानि	१७६
उपेक्खासम्बोज्झाङ्गा	८२ १६४
उपेक्खासहगतेन चेतसा	३६ ६२
उपेक्खूपविचारा (छ)	१८६
उपोसथुपवासे	११२ १३०
उभट्टको (तपस्सिताय)	३२
उभमुप्पतित्तलोमवा	१२०
उभतोभागविमुत्तो (पुग्गलो)	८२
उभयवोकिण्णेषु (चत्तसु वण्णेषु)	६५
उस्सह्णपादो (महापुरिसलक्खण)	१११ ११६

ए

एकन्तनिब्बिदाय	१०६
एकागारिको (तपस्सिताय)	३२
एकारक्खो (कथ होति ?)	२०८ २३८
एकालोपिको (तपस्सिताय)	३२
एकेकलोमुपचित्तङ्गवा (महापुरिसलक्खण)	१३२
एकेकलोमो (महापुरिसलक्खण)	१११ १३१
एकोदकीभूत (होति अघकारो अघकार तिमिसा)	६७
एकसब्बाकरणीयो (प्रञ्चो)	१७६
एणिजङ्घे (महापुरिसलक्खण)	१११ १२०
एवलाभग्गयसग्गप्पत्त (समनुपस्सामि यथरिवाह)	६८
एसना (तिस्सो)	१७०
एसिकट्टायिद्धितो (सस्सतो अत्ता च लोको च)	८५ ८६
एहिपस्सिको (धम्मो)	६

ओ

ओषा (चत्तारो)	१७६ २१३
ओजसि	१५४
ओत्तप्पधन	१२६
ओत्तप्प	१६६
ओपनयिको (धम्मो)	६
ओपपातिकयोनि	१७६
ओपपातिको	८३ ८४ १०२
ओपमञ्जो	१५७ १६४
ओरम्मभागियानि सञ्जोजनानि	८३ १८२
ओरसा	६३
ओहितमारो (अरहा खीणासवो)	७६

क

ककुसधस्स	१५१ १५६
कणभक्खो (तपस्सिताय)	३२
कण्टकापस्सयिको (तपस्सिताय)	३२
कण्हविपाक (कम्म)	१७६
कण्हसुक्कविपाक (कम्म)	१७६
कण्हसुक्कयप्पटिभाग (धम्म देसेसि)	७६
कण्हसुक्क (कम्म)	१७६
कण्हे (मुण्डके समणके)	६४
कण्ह (कम्म)	१७६
कतकरणीयो	७६
कत्ता (ब्रह्मा)	२४
कथापाभत (अत्थि भगवन्त दस्सनाय)	६१
कथावत्थूनि (तीणि)	१७२
कप्पासिकसुखुमान	१२३
कबळीकारो (आहारो)	१७८
कम्मनि	१७६
कम्बलसुखमान	१२३
कच्चरणमुद्दुत (महापुरिसलक्खण)	११८
करतियो	१५७ १६४
करवीकभाणी	१११, १३३
करुणासहगतेन	६२
कलम्बुका (सेय्यथापि नाम)	६८
कल्याणमित्तता	१६६ २१६
कसिणायतनानि	२०७ ३३७

कसिवन्तो	१६२	केतुमती (नाम राजधानी भविस्मति अयं बाराणसी)	
कस्सपरस	१५१ १५६		६०
कळारमट्टक	६ १०	केतुमतीराजधानीपमुखानि (जम्बुद्वीपे चतुरासीति	
कामगुणा (पञ्च)	• १८२	नगरमहस्सानि)	६०
कामयोगविसञ्जोगो	१७६	केसमस्सुल्लोचको (तपस्सिताय)	३२
कामसुखल्लिकानुयोगमनयुत्तो	८८	कोणागमनस्स	१५१ १५६
कामसेटठो (थक्खान सेनापति)	१५७	कोरक्खत्तिय	६ ८
कामेसुमिच्छाचारा वेरमणिया	१५०	कोसलो	६५ ६६
कामेसुमिच्छाचारो	१४०	कोसल्लानि (तीणि)	१७२
कामोघो	१७६	कोसय्यसुखुमान	१२३
कायगतासति	२१०	कोसोहितवत्थगुट्ठो (महापुरिसलक्खण)	१११ १२४
कायसक्खी (पुगलो)	८२		
कायानपस्सी	४६ ६१ १०६		
कालकञ्चिका	७ ८	खत्तिया (वण्णो)	६४
किञ्चना (तयो)	१७१	खत्तियो (त्वेव दुतिय अक्खर उपनिब्बत्त)	७३
किन्नुघण्डु (यक्खान सेनापति)	१५७ १६४	खन्ति (च सोरच्च च)	१६६
कुक्कुटका (यक्खा)	१५५	ख घबीज	३३ ३६
कुक्कुटसम्पातिका (जम्बुद्वीपे गामनिगमराजधानियो)	५६	खिड्डापदोसिक (देव)	२५ २६
		खिप्पाभिञ्जाना (पटिपदा)	८२ १७८
कुक्कुरवतिको (अचेलो कोरक्खत्तियो)	६	खीणासवबलानि (सत्त)	२२४
कुम्भण्डसेनाय	१५८	खीणासवो	७६ १०३
कुम्भण्डान अधिपति	१५२ १६०	खुरमुण्ड	५३
कुम्भण्डेहि	१५२ १६०	खामसुखुमान	१२३
कुम्भण्डो	१५६ १६३ १६४		
कुवेरनळिनी	१५५ १६२		
कुवेरस्स	१५४ १६२		
कुवेरो	१५५ १६२		
कुवेरो महाराजा	१५४		
कुसलकम्मपथा (दस)	२०७ २३८		
कुसलघातुयो (तिस्सो)	१७०		
कुसलमूलानि (तीणि)	१७०, २१२		
कुसलसङ्कप्पा (तयो)	१७०		
कुसलसञ्जाना (तिस्सो)	१७०		
कुसलैसु धम्मेषु (भगवा धम्म देसेति)	७६		
कुसिनाटा	१५४ १६२		
कुसीतवत्थूनि (अट्ठ)	१६६ २२७		
कुहको	८३		
कुळीरका	१५५		
कट्टो (सस्सतो अत्ता च लोको च)	८५ ८६		
		ग	
		गग्गराय	
		गणकमहामत्ता ११४ ११८ १३० १३१ १३२ १३४	
			१३६
		गणकमहामत्तान	१२६
		गतियो	१८२
		गन्था (चत्तारो)	१७६
		ग घब्बसेनाय	१५० १५८
		ग घब्बा ११४ ११८ १३० १३१ १३३ १३४ १३७	
		ग घब्बान	१२६
		ग घब्बान अधिपति	१५२ १५६
		ग घब्बेहि	१५२ १५६
		ग घब्बो १५६ १५७ १६३ १६४	
		ग भावक्कन्ति (चतस्सो)	८० १८०
		गग्भिणियो (दिस्सन्ति ब्राह्मणियो)	६४

गरहा (तदग्रे पञ्जायति)	७०
गहपति (भगवानो)	३० ४१ ४५
गहपतिनेचयिक।	१८ १५ १७
गहपतिरतन	४५ ६ ११० ११२ १३६
गामघान	५४
गिज्झकूटा (ओरोहित्वा भूगजा)	३०
गिज्झकटे (भगवा विहरति)	२६ १५
(पच्चुपट्टासि)	४५
गिज्झकूट (ओभासेत्वा चत्तारो महाराजा)	१५८
गिलानुपट्टानो (दासकम्मकरा पच्चुपट्टातब्बा)	१४७
गुळो (यक्खान सेनापति)	१५७
गोतमस्स	१२ १६
गोतमे	४५
गोतमेन	१०५ १०८
गोतमो	११ १२ १५ १६ १७ २८ ३ ६५ ६६
	१०३
गोनम	१५१ १५२ १५३ १५५ १६० १६१, १६३
गोत्तपटिसारिनो	७६
गोपखुमो (महापुरिसलक्खण)	१११ १२६
गोपालो	१५७ १६४
गोमयभक्खो (तपस्सिताय)	३२
च	
चकररतन	४६ ४७ ४८ ४९ ५ ६० ११० ११२
	१३६
चकवत्तिवत्त	४७ ५१
चकवत्तिवत्त	४८
चकवत्ती	४९ ५० ६० ११० ११२ ११४ ११६
	११७ ११९ १२० १२३ १२४
	१२५ १२७, १३२ १३४
चककानि (चत्तारि)	२१३
चक्खुना (दिब्बन पस्सति सत्ते चवमान उप्पज्जमान)	४०
चक्खूनि (तीणि)	१७२
चतुकोण्डिको (कुक्कुरवत्तिको कोरक्खत्तियो)	६
चतुत्थ ज्ञान	६२ १०२ १७४
चतुरापस्सेनो	२०८ २३८
चत्तसुवण्णोसु (उभयवोकिण्णोसु)	६५
चत्तारो कम्मकिलेसा	१४०

चत्तारो महाराजा	१५० १५८ १६५
चत्तालीसदन्तो (महापुरिसलक्खण)	१११ १३२
चददो (यक्खान सेनापति)	१५७ १६४
चदिमसुरिया (पानुरहेस्)	६७ ७१
चम्पाद्य	२१०
चागघन	१२६
चागानुस्सति	२१६
चागेन	१२७
चालुयामसवरसवुतो (निगण्ठो)	३८
चित्त तरसो (महापुरिसलक्खण)	१११ १२७
चित्तसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागत (इद्धिपाद भावेति)	६१
चित्तसेनो (यक्खान सेनापति)	१५७ १६४
चित्ते चित्तानुपस्सी (एव अत्तदीपो विहरति)	४६
(दिट्ठिनिस्सयान पहाणाय)	१०६
चिरट्टितिक (अस्स ब्रह्मचरिय)	१६८
चुत्तपपातज्जाणे (एतदानुत्तरिय)	८६
चुन्दस्स कम्मरपुत्तस्स	१६६
चुदो	६१, ६२
चेतोखिला (पञ्च)	१८४, २१५
चेतोपरियञ्जाण	७८
चेतोविमुत्ति (अय एको धम्मो सच्छिकातब्बो)	२११
चेतोविमुत्ति (उपसम्पज्ज विहरति)	६२ ८३, ८४
	१०३
चेतोसमाधि (अय एको धम्मो दुप्पटिविज्झो)	२१०
चोदनावत्थूनि (तीणि)	१७१
छ	
छ अनुत्तरियानि	१६३
छ अनुत्सतिट्टानानि	१६३
छ विस्ता नमस्सितब्बा	१४०
छट्ठिसापटिच्छादी	१४६
छ निब्बेध भागिया सञ्जा	१६३
छन्दसमाधिपधानसङ्खारसमन्नागत (इद्धिपाद भावेति)	६१
छ दागति (गन्तु अभब्बो खीणासवो भिक्खु)	१०३,
	१४० १७८
छवे (के च सिङ्गाले)	२०
छ सततविहारा	१६३

छळङ्गसमन्नागतो	२३८	तण्हाकाया (छ)	१८८ २१९
छळाभिजातियो	१९३	तण्हामूलका धम्मा (नव)	२३४
ज		तण्हुप्पादा (चत्तारो)	१७८
जनेसभो	१५७ १६४	ततिय ज्ञान	६२ १०२ १७४
जम्बुदीपे (चतुरासीति नगरसहस्सानि भविस्सति)	६०	ततोजसी	१५४
जम्बुदीपो (इद्धो चेव भविस्सति फीतो च)	५९	ततोतला	१५४ १६२
जरसिङ्गालो (सीहस्स विघाससक्कडो)	२०	त्ततोला	१५४ १६२
जवनपञ्चो (महापुरिसलक्खण)	१२२	तत्तला	१५४ १६२
जालहत्थपादो (महापुरिसलक्खण)	१११ ११८	तथाकारी (यथावादी)	१०४
जालियो (दारुपत्तिक तेवासी)	१८ १९ २० २१	तथागते (निपच्चकार करोति राजा पसेनदि)	६६
जिन	१६० १६१ १६३	तथागतो ६० १०४ १०५ ११२ ११४ ११५ ११६	
जि हास्स होति विपुला पुथुला (महापुरिसलक्खण)	१३४	११७ ११९ १२० १२१ १२३ १२४	
जूतप्पमादिट्टानानुयोगे (छ आदीनवा)	१४१	१२५ १२६ १२८ १२९ १३० १३१	
जेतवने	११०	१३२ १३३ १३५ १३७ १३९ १४१	
जोतिपरायनो (पुग्गलो)	१८१	तथावादी (यथाकारी)	१०४
झ		तपोजिगुच्छा	१ ३२ ३३ ३५ ३७ ३९ ४१
ज्ञानानि	१७३	तपोजिगुच्छावादा	३१
ज्ञायका (त्वेव दुतिय अक्खर उपनिब्बत्त)	७४	तपोजिगुच्छासारा	३१
ञ		तमपरायनो (पुग्गलो)	१८१
जाण (अकुप्प धम्मो उप्पादेतब्बो)	२११	तमो (पुग्गलो)	१८१
जाणदस्सन (अतीरक)	१०४	तस्सपापियसिका	
जाणदस्सनपतिलाभाय (सबत्तति समाधिभावना)	१७४	तारकरूपानि (पातुरहेसु)	६७
जाणवादो	११, १६, १७	तावतिसकायमिह (उपपन्नो अजितो लिच्छवीन	
जाणानि (द्वे)	२११, २१२ २१४	सेनापति)	१३
जायप्पटिपन्नो (भगवतो सावकसङ्घो)	६ ९३ ९४	तिक्खपञ्चो (महापुरिसलक्खण)	१२२
ट		तिणभक्खो (तपस्सिताय)	३२
ठपनीयो (पञ्चो)	१७९	तिणवत्थारको	१९५
ठानकुसलता (च अट्टानकुसलता च)	१६९	तिणिन्द्रियानि	१७२
ठित्तको व अनोनमन्तो उभोहि पाप्पितलेहि जण्णुकारि		तिन्दुकखाणुपरिब्बाजकारामो	१५ १६ १८
परिमसति परिमज्जति (महापुरिसलक्खण)	१११	तिरच्छानकथ	२९
ट		तिरोभाव (इद्धि)	८७
तण्डुलफलो (अकट्टुपाको सालि)	७२	तीणानुधानि	१७२
तण्हा (तिस्सो)	१७०, २१२	तुच्छकुम्भीव (समण गोतम आरोधेय्याम)	३० ४२
त		तुलाकूट कूट-मानकूट-उक्कोटन-वञ्चन निकति	
तण्डुलफलो (अकट्टुपाको सालि)	७२	साचियोग-छेदनवध-व घन विपरामोस आलोफ	
तण्हा (तिस्सो)	१७०, २१२	सहसाकारा	१३६
त		तेजसि	१५४
तण्डुलफलो (अकट्टुपाको सालि)	७२	तेजोघात् (समापज्जित्वा, इद्धिपाटिहारिये)	६२
तण्हा (तिस्सो)	१७०, २१२	तेलपदीपो (आरोपितो सन्थागारे)	१६७

थ			
वेद्यसङ्घाता (आदियित्, अम बो खीणासवो भिक्खु)	१०३	दीघो (यक्खो)	१५७ १६४
थेरा (नयो)	१७१	दुक्खता (तिस्सो)	१७१
थूनुसु	६	दुक्खनिराघ्यामिनी पटिपदा	१०६
द		दुक्खनिरौघ	१०६
दक्खिणाविसुद्धियो (चतस्से)	१८०	दुक्खसमुदयो	१०६
दक्खि वेद्यो (भगवतो सावकसङ्घो)	६	दुक्खा पटिपदा	८२
दण्डादान (पञ्जायति)	७२ ७३	दुक्ख	१०६
दह्लभक्खो (पस्सि ताय)	३२	दुग्धाति विनिपात (उपपज्जति गिच्छादिट्ठिको)	७५
दधिमक्खो (यक्खान सेनापति)	१५७	दुच्चरितानि (गीणि)	१७०
दघाभिञ्ज्या (पटिपदा)	८२ १७८	दुत्तिय ज्ञान	१०२ १७३
दसायतनानि	२३७	दुप्पटिविज्जा (छ धम्मा)	२२०
दस्सनसमापत्तीसु (एतदानुत्तरिय)	८	दुप्पवेदिते (धम्मविनये एवञ्हेत होति)	६३, १६८
दब्धनेमि (च ववत्ती राजा)	४६ ४७	दुरक्खाते (धम्मविनये)	६२ ६३ १६८
दानवत्थनि	१६६	देवतानुस्सति	२१६
दानूपपत्तियो (अट्ट)	१६६	देवमनुस्सान	१६६
दानेन (दासकम्मकरा पञ्चुपट्टातब्बा)	१४७	देवसूतो (मातलि यक्खान सेनापति)	१५७, १६४
दासपत्तिकन्तेवासी (जालियो)	१८, २१	देवा	११८ १३३
दासकम्मकरा पञ्चुपट्टातब्बा (हेट्ठिमा दिसा)	१४७	दोमनस्सूपविचारा (छ)	१८६
द्वागारिको (तपस्सिताय)	३२	दोवचस्सता	१६६, २११
द्वालोपिको (तपस्सिताय)	३२	दोवारिका (चक्कवत्तिपरिवारा)	११४, ११८ १३० १३१, १३२ १३४, १३६
दिट्ठधम्मसुखविहाराय (सवत्तति, समाधिभावना)	१७४	दोसागति (गन्तु, अभब्बो खीणासवो)	१०३
दिट्ठधम्मिकान (आसवान सवराय)	१००	(चतूहि ठानेहि पापकम्म न करोति)	१४०, १७८
दिट्ठानुगति (आपज्जमानो सालि आहासि)	७०, १११	ध	
दिट्ठिगत (उप्पन्न, सुनखत्तस्स)	७	धतरटो	१५२, १५६
दिट्ठिनिससया (पुब्बन्तसहगता)	१०६ १०७	धम्मकायो (तथागतस्स हेत अधिवचन)	६६
(अपरन्तसहगता)	१०८	धम्मकेतु (चक्कवत्तिवत्ते)	४८
दिट्ठिप्पत्तो (पुग्गलो)	८२	धम्मूक्खन्धा (पञ्च)	२१८
दिट्ठियोगविसञ्जोगो	१७६	(चत्तारो)	१७६
दिट्ठियोगो	१७	धम्मदीपा (भिक्खवे विहरथ)	४६, ६१
दिट्ठिविपत्ति	१६६	धम्मद्वजो (चक्कवत्तिवत्ते)	४८
दिट्ठिविसुद्धि	१६६	धम्मन्वयो (अपि च मे विदितो)	७८
दिट्ठिसम्पदा	१६६	धम्मपदानि (चत्तारि)	१७६
दिट्ठोघो	१७६	धम्मपरियायो (सुपासादिको)	१०६
दिवासञ्ज (अधिट्ठाति, यथा दिवा तथा रत्ति)	१७४	धम्मपरियाय (सम्पसाद)	६७
दीघङ्गुलि (महापुरिसलक्खण)	११, ११५	धम्मभूतो (तथागतस्स हेत अधिवचन)	६७
		धम्मविचयसम्बोज्जाङ्गो	८२, १६६

धम्मविनया (अपक्कमेव इमस्मा सुनक्खत्तो)	६ ६
	११ २३
धम्मसमादानानि (चत्तारि)	१७६
धम्मसरणा (भिक्खवे विहरथ)	४६ ६१
धम्मसहित (ब्याकतअब्याकतपञ्हे)	१०५ १०६
धम्माधिपतेय्यो (चक्कवत्तिवत्ते)	४८
धम्मानुधम्मप्पटिपत्ति (धम्मो बहुकारो)	२१२
धम्मानुपस्सी (धम्मे विहरति)	४६ ६१ १०६
धम्मानुसारी (पुग्गलो)	८२
धम्मानुस्सति	२१६
धरणी	१५४, १६२
धातुकुसलता	१६६
धातुयो (तिस्सो)	१७०
(चतस्सो)	१७८
(छ)	१६१
(द्वे)	२१२
(तिस्सो)	२१३
(छ)	२२०
धुवा	२५
न	
नएहिभइन्तिको (तपस्सिताय)	३२
नक्खत्तानि (पातुरहेसु)	६७
नगरघात	५४
नतिट्ठभइन्तिको (तपस्सिताय)	३२
नळो (यक्खान सेनापति)	१५७ १६४
नागसेनाय (रक्ख ठपेत्वा)	१५०, १५८
नागा (बुद्धस्स परिवारा)	११४ ११८ १३०, १३१ १३३ १३४ १३७
नागान (च अधिपति)	१५३ १६१
नागो	१५६ १६३ १६४
नाटपुत्तो (पावाय अघुनाकालङ्कतो)	६२ १६८
नाटसुरिया	१५४ १६२
नाथकरणधम्मा (दस)	२३६
नाथकरणा (धम्मा, दस)	२०५
नानत्ता (नव)	२३५
नाना तिथिया	१४ १७
नाम (च रूप च)	१६६ २११

नाळन्दाय	७७
निगण्टस्स नाटपुत्तस्स (सावका विरत्तरूपा)	१६८
निगण्ठा (भिन्ना द्वेधिकजाता)	६१, १६७, १६८
निगण्ठो (पावाय अघुनाकालङ्कतो होति)	६१ ६२, १६८
निगमघात	५४
निग्गहितो (असि विग्गाहिककथा)	६१ १६८
निग्गोध	३३ ३५ ३६ ३७ ३८ ४३
निग्गोधपरिमण्डलो (महापुरिसलक्खण)	१११ १२५
निग्गोधो (परिब्बाजको)	२६, ३०, ३१
निघण्डु	१५७ १६४
निच्चा (ते देवा)	२५
निजिगीसिनको (लाभेन लाभ)	८३
निज्जरवत्थूनि (दस)	२३६
निद्दसवत्थूनि	१६४ २२३
निप्पेसिको	८३
निब्बानाय (सवत्तति)	१०१ १०५ १०६
निब्बिदाय (न, सुखल्लिकानुयोगा)	१०१,
(ब्याकतअब्याकत पञ्हे)	१०५
निब्बिन्नरूपा (निगण्टस्स सावका)	६१ १६८
निब्बुति (पच्चत्तञ्जेव विदिता)	२५
निब्बेठेहि (सचे पहोसि, विग्गाहिक कथा)	६१, १६८
निब्बेधिकपञ्चो (महापुरिसलक्खण)	१२२
निम्माता (ब्रह्मा)	२४
नियतो (सोतापन्नो)	८३, ८४
निरोधाय (न सुखल्लिकानुयोगो)	१०१,
(ब्याकतअब्याकतपञ्हे)	१०५ १०६
निसन्तिया (तेस च व्यञ्जनान)	६६, १००
निस्सरणिया धातुयो (पञ्च)	२१५
नीवग्गानि (पञ्च)	१८२ २१५
नीवरणे	३८, ७८
नीवारभक्खो (तपस्सिताय)	३२
नेगमजानपदा (चक्कवत्तिरञ्जो परिवारा)	११४, ११८ १३०, १३१ १३२, १३४ १३६
नेत्ति (यक्खान सेनापति)	१६४
नेमि	१६२
नेमित्तिको (मिच्छाजीवे)	८३
नेरयिको (सुनक्खत्तो यथा त)	६

पावारिकम्बवने	७७	फेगुप्पत्ता	४०
पावेय्यका	१६७		
पावेय्यकान मल्लान	१६६	ब	
पासादिको	१०६	ब धुपादापच्चे (मुष्के समणके)	६४
पाहुनेय्यो (भगवतो सावकसङ्घो)	६	बलानि	१७६
पिञ्जाकभक्खो (तपस्सिताय)	३२	बहुजनसुखाये (अस्स ब्रह्मचरिय)	१६८
पिण्डपातो (पटिसङ्गा योनिसो परिभुत्तो)	१००	ब्हुजनहिताय	१६८ १६६ १७०
पिताभतभव्यान (ब्रह्मा)	२४	बहुपुत्त (नाम चेतिय उत्तरेण वेसालि)	६
पियवज्जेन (मित्तामच्चा पञ्चुपट्टातब्बा)	१४७	बारणसी (केतुमती नाम राजधानी)	६०
पीतिभक्खा (देवा, आभस्सरसवत्तनिका)	२३ २४	बाहुजञ्जा (ब्रह्मचरिय)	६६
	६६ ७१	बीजबीजमेव	३३ ३६
पीतिसम्बोज्झो	८२ १६४	बीरणत्थम्बके	७ ८
पुगलपञ्जात्तीसु (एतदानुत्तरिय)	८२	बुद्धानुस्सति	२१६
पुगला (तयो)	१७१	बुद्धो ११४ ११६ ११७ ११८ ११९ १२१ १२२,	
(चत्तारो)	१८१	१२३, १२४, १२५ १२६ १२७ १२८	
पुञ्जाकरियवत्थूनि (तीणि)	१७१	१२९ १३० १३३ १३५ १३६ १३७	
पुञ्जाक्खेत (भगवतो सावकसङ्घो)	६	बद्ध	१५२ १५३ १५५ १५६ १६० १६३
पुण्णको (यक्खान सेनापति)	१५७ १६४	बोज्झा	७९ १६४
पुत्तदारा (पच्छिमा दिसा)	१४५ १४८	बोधिज ज्ञाण	१०४
पुथुपञ्जो (महापुरिसलक्खण)	१२२	बोधिपक्खियान (सत्तन्न भावनमन्वाय)	७६
पुब्बन्तसहगता (दिट्ठिनिस्सया)	१०६ १०७		
पुब्बारामे (सावत्थिय)	६३	व्यसनानि	१८३
पुब्बेनिवासानुस्सतिञ्जाणे (भगवा धम्म देसेति)	८६	व्याकत	१०६
पुब्बेनिवास (अनुस्सरति)	२४ २५ २६ ३६ ८४	व्यापावो	५७
	८५	ब्रह्मकायो (तथागतस्स हेत अधिवचन)	६६
पुरिसदम्मसारथि (सो भगवा)	६ ६०	ब्रह्मकुत्त (अगञ्ज पञ्जापेत्ति)	२३ २५
पुरिसपुगला (चत्तारि युगानि अट्ट)	१७८	ब्रह्मचरियपरियोसान (उपसम्पज्ज विहरिस्सति)	६१
पुरिसविसेसकरो	१२५	ब्रह्मचरिय	६४ ६५, ६७ ६८ ६९
पुरिससीलसमाचारे (भगवा धम्म देसेति)	८३	ब्रह्मजा (ब्राह्मणा)	६३
पेता	१५२ १६०	ब्रह्मजुगतो (महापुरिसलक्खण)	१११ ११५
पेतेय्या	५६	ब्रह्मञ्जा (यन्नून मय अस्सामि)	५६
पोक्खरसातका	१५५	ब्रह्मदायादा (ब्राह्मणा)	६३ ६४
		ब्रह्मनिम्मिता (ब्राह्मणा)	६३ ६४
फ		ब्रह्मभूतो (तथागतस्स हेत अधिवचन)	६६
फलुबीज	३३, ३६	ब्रह्मविमान	२३
फस्सकाया (छ)	१८८	ब्रह्मस्सरो	१११, १३३
फस्सो	१७८	ब्रह्मा	२४ ११६
फासुकामो	१२६	ब्रह्मुना	७६, ११३, ११६ १३५
फीत	६६	ब्रह्मनी	६३

ब्राह्मणगृहपतिका	११४ ११८ १३०, १३१ १३२ १३४, १३६
ब्राह्मणमहासाला	१४ १५ १७
ब्राह्मणा	६४ ७३

भ

भक्खस (छमानिकिण्ण मुखेनेव्र खादन्ति)	६, ७
भगवा	६
भग्गव ४ ७, ८, ९ १० ११ १२ १४ १६, १७ २८	३
भग्गवगोत्तस्स	३
भत्तवेतनानुपदानेन (दासकम्मकरा पच्चुपट्टातब्बा)	१४७
भयागार्ति (गन्तु अमब्बो खीणासवो)	१०३
(ब्याकतअब्ब्याकतपञ्चे)	१४० १७८
भरिया पच्चुपट्टातब्बा (पच्छिमा दिसा)	१४७
भवतण्हा	१६९ २११
भवदिट्ठि	१६९
भवयोगविसञ्जागो	१७९
भवयोगो	१७९
भवा	१७०
भवोषो	१७९
भस्ससर्माचारे (एतदानुत्तरिय)	८३
भारद्वाजो	१५७ १६४
भारद्वाज	६३
भावना (तिस्सो)	१७२
भावनापधान	१७६, १७७
भावनाबल	१६९
भिन्नथूपे (दुरक्खाते धम्मविनये)	९१
भूमिपप्पटको (पातुरहोसि रसाय पथविया अन्तरहिताय)	६८, ७१
भोगिया कुमारा (चक्कवत्तिरञ्जो परिवारा)	११४
११८, १३०, १३१, १३२ १३४ १३६	

भ

मगधेसु	४६
मच्छरियान्नि (पञ्च)	१८२
मणि (यक्खान सेनापति)	१५७
मणिरत्तन (चक्कवत्तिरञ्जो)	४६ ६०, ११० ११२, १३६

मत्तञ्जू (भोजने)	८३
मत्तेय्या (यन्नून मय अस्साम)	५९
मदा (तयो)	१७२
मनसिकारिकुसलता (धातुकुसलता च)	१६९
मनोपण्णिधि (इति मम च इमे च सत्ता इत्यत्त आगता)	२४
मनोपदोसिका (देवा)	२६ २७
मनोपदोसो (पच्चुपट्ठितो भविस्सति तेस सत्तान अञ्जामञ्जामिह)	५७
मनोमया (देवा आभस्सरसवत्तनिका)	२३ २४ ६६
मनोसञ्चेतना (आहारो)	७१
मन्दियो (यक्खान सेनापति)	१५७ १६४
मल्ला	१६७
मल्लान नगर	१६६
मल्लेसु	३, १६६
महाजनसम्मतो (पठम अक्खर उपनिब्बत्त)	७३
महानिरय (न उपपन्नो, अजितो नाम लिच्छवीन सेनापति)	१३
महानेरु (पब्बतराजा)	१५३ १६१
महापञ्जो (महापुरिसलक्खण)	१२२
महापुरिसलक्खणानि	११०
महापुरिसवितक्का (अट्ट)	२३०
महाब्रह्मा	२४
महावनं कूटागारसालाय	९ ११, २२
महासम्मतो (त्वेव पठम अक्खर उपनिब्बत्त)	७३
महिरुहपरिमण्डलो (महापुरिसलक्खण)	१२६
मळि (यक्खान सेनापति)	१६४
मागधस्स	१५६, १६३
माणिवरो (यक्खान सेनापति)	१५७, १६४
मातलि (यक्खान सेनापति)	१५७, १६४
मातापितरो (पुरत्थिमा दिसा)	१४६
मातापिता (दिसा पुब्बा)	१४८
मातुलाय (मगधेसु)	४६
मारबल (दुप्पसह)	६२
मारिस	१६२, १६३
मारेन (अक्खम्मियो होति)	११३, ११६
मारो (न लच्छति ओतार)	४६
मासङ्गमासा (पञ्चार्यिसु)	७१

सग्न लोक (उपपज्जति खत्तियो पि ब्राह्मणो पि) ७५	सद्धान	१२६ १६४
सङ्घता (धानु) २१२	सद्धानुसारी (पुग्गला)	८२
सङ्घारट्टितिका (सब्बे सत्ता) १६६	सद्धान्य (न परिहायति)	१२७
सङ्घारा (त्त्यो) १७१	सद्धान्विमुत्तो	८२
सङ्घो (नाम चक्कवत्ती उपपज्जिस्सति) ६०	सनड कुमारेन	७६
सङ्गायितव्व न विवदितव्व ६८ ८६ १६८	सनाभिक (चक्करतन)	४८
सङ्घानुस्सति २१६	सानेमिक (चक्करतन)	४८
सच्छिकरणीया धम्मा (चत्तारो) १७६	सन्तुट्टिता (तथागतस्स)	८६
सजिता (ब्रह्मा) २४	सन्थागार (पावेय्यकान मल्लान)	१६७
सञ्चेतनाकाया (छ) १८८	सन्दिट्टिको (धम्मो)	६
सञ्जा (सत्त) १६४ २३५ २३६	सघानो (गहपति उपामको)	३० ४१ ४५
सञ्जाकाया (छ) १८८	सन्निधिकारक (सालि उपक्कमिसे परिभुञ्जितु)	७१
सञ्जी (अत्ता होति) १०८	सप्पभास चित्त (भावेति)	१७४
सञ्जोजनानि (सत्त) १६५	सप्पाट्टिहारिय	६५ ६६ ६७
सततविहारा (छ) २२१	सप्पाट्टिहीरकत	६४, ६५ ६७
सतानुसारिञ्जाण (होति, तथागतस्स) १०४	सप्पुरिसधम्मा (सत्त)	१६४ २२३
सति (च सम्पज्जञ्च च) १६६ २११	सप्पुरिसससेवो (बहुकारा धम्मो)	२१२
सतिपट्टाना ७६ ६६ १०६ १७३ २१३	सब्बसङ्गाहपदकत (होति परिपूर ब्रह्मचरिय)	६४
सतिपट्टानेसु ७७		६५ ६७
सतिबल १६६ १७६	सब्बाकारपरिपूर (चक्करतन)	४८
सतिविनयो १६५	सब्बाकारसम्पन्न	६८
सतिसम्पज्जञ्जाय १७४	समगगान (तेस वो सिक्खितव्व)	६६
सतिसम्बोज्जाङ्गो ८२, १६४	समज्जाभिचरणे (आदीनवा)	१४१ १४४
सतुस्सदो (महापुरिसलक्खण) ११७	समणपट्टमो (चत्तसु पुग्गलेसु)	१८१
सत्त बोज्जाङ्गा ६६	समणपुण्डरीको (चत्तसु पुग्गलेसु)	१८१
सत्तम्ब (नाम चेतिय पच्छिमेन वेसालि) ६	समणब्राह्मणा १४, १७ १४६ १४८	
सत्तरतनसमन्नागतो (सङ्घो नाम चक्कवत्ती राजा) ६०	समणमचलो (चत्तसु पुग्गलेसु)	१८१
सत्त वतपदानि (अचेलस्स कळारमट्टकस्स) ६	समणमण्डलस्स (अभिनिव्वत्ति अहोसि)	७५
सत्ता (अञ्जाथासञ्जिनो) १०८	समणा सकथपुत्तिया	१०२
सत्तागारिको (तपस्सिताय) ३२	समणुट्टेसो (चुन्दो)	६१ ६२
सत्तानुसया २२३	समञ्चनिमित्त (च पग्गहनिमित्त च)	१६६
सत्तालोपिको (तपस्सिताय) ३२	समथो (च विपस्सना च)	१६६ २११
सत्तावासा (नव) २०३ २३३	समदन्तो (महापुरिसलक्खण)	१११ १३६
सत्तुस्सदो (महापुरिसलक्खण) १११	समये वोस्सगोण (दासकम्मकरा पुच्चुपट्टातब्बा)	१४७
सत्थन्तरकप्पो (भविस्सति दसवस्सायुकेसु मनुस्सेसु) ५८	समवट्टक्खधो (होति महापुरिसलक्खण)	२११ १२७
	समवयसट्टेसनो (कथ होति)	२३६
सत्था ६ ६२ ६३ ६४ ६६, ६७	समसमा सम्बोधिय	८६
सद्धम्मस्सवन (बहुकारो धम्मो) २१२	समाधि	२१२ २१४
सद्धम्मा (सत्त) १६४, २२३		

समाधिबूल	१६६	१७६	सस्सता	२५
समाधिभ्रवना		१७४	सस्सतो	१०७
समाधिसम्बोज्झ	८२	१६४	सस्सतो अत्ता	१०६ १०७
समाधी (तयो)		१७२	सस्सतो अत्ता च लोको च वञ्चो	८५
समानत्तनाय (मितामच्च पच्चुपट्टातब्बा)		१४७	सहव्यर्त	२४
समानसुखदुक्खो (मित्तो सुहृदो वेदितब्बो)	१४४	१४५	सहस्सार (चक्कस्सन)	४८
समापत्तिकुसलता		१६६	सातागिरो	१५७ १६४
समापत्तिवुट्टानकुसलता		१६६	सामगामो	६१
सम्पञ्ज (सति च)	१६६	२११	सामञ्जाफलानि	१७८ २१४
सम्पजानमुसा (भासितु अभब्बो खीणासवो भिक्खु)		१०३	सामञ्जा	५६
सम्पदा (पञ्च)		१८३	सामाकभक्खो (तपस्सिताय)	३२
सम्परायिकान (आसवान पटिघाताय)		१००	सामीच्चिप्पटिपन्नो (भगवतो सावकसङ्घो)	६ ६२ ६३ ६४
सम्पसादनीयन्त्वेव (इमस्स वेय्याकरणस्स अधिवचन)		६०	सारणीया	२१८
सम्पसाद (सारिपुत्तो पवेदेसि)		६०	सारप्पता	३८
सम्बोज्झा		२२२	सारवल्य	१६६
सम्बोज्झाङ्गे		७८	सारिपुत्त	८६
सम्बोघाय (न सुखल्लिकानुयोगा)	१०१ १०५ १०६		सारिपुत्तो	७७ १६८ २१०
सम्बोधिपरायणो	८३ ८४	१०२	सारिपुत्त	१६७ २०६
सम्मत्ता (अट्ट)		१६६	सालवती	१५४, १६२
सम्मप्पघन्ना	७७, ६६	१७३	सालाहार (अगमासि)	७०
सम्माआजीवो		१६४	सालि (पातुरहोसि अकट्टपाको)	६६
सम्माकम्भो		१६४	सावकसङ्घो	६ १७८
सम्मादिट्ठि		१६४	सावका	६५, ६६ ६७
सम्माननाथ (भरिया पच्चपट्टातब्बा)		१४७	सावको	६३, ६४
सम्मावाचा		१६४	सावत्थिय	६३ ११०
सम्मावायामो		१६४	साविका	६६ ६७
सम्मासङ्कप्पो		१६४	सासवा	८७
सम्मासति		१६४	सिक्खा	१७२
सम्मासम्बुद्धो	६, ६० ६३ ६४, ६५, ६७	११०, ११२, ११३ ११४ १३६	सिक्खापदानि	१८२
सम्मासम्बोधि		१०४	सिखिस्स	१५१ १५६
सयकतो अत्ता		१०६	सिङ्गालको गहपतिपुत्तो	१३६ १४० १४६
सयपत्त (आभस्सरसवत्तनिका देवा)	२३ २४, ६६		सिङ्गाले	२०
सरलेखता		८६	सिप्पसिक्खापेत्ति	१४६
सविचार		६२	सिवको	१५७ १६३
सवित्तक		६२	सीलघन	१२६
सस्सतवादेसु		८४	सीलब्बतपरामासो	१७६
			सीलविपत्ति	१६६
			सीलविपत्तिया	१८३

सीलविसुद्धि	१६६	सुम	२८
सीलसम्पदा	१६६	सुमनो	१५७-१६५
सीलसम्पदाय	१८३	सुमागधाय	३० ३१
सीलानुस्सति	२१६	सुमुखो	१५७ १६४
सीलेन	१२७	सुरामेरयमज्जप्पमादट्टाना	१५८
सीहनादो	७७	सुरामेरयमज्जप्पमादट्टानानुयोगो	१५४
सीहपुब्बद्धकायो (महापुरिसलक्खण)	१११ १२७	सुरामेरयमज्जप्पमादट्टानानुयोगो	१४१
सीहपुब्बद्धसुसण्ठितो	१२७	सुरामेरयमज्जप्पमादट्टाना वेरमणिया	१५०, १५८
सीहसेय्य	१६७	सुरियो	१५१ १५३ १५६, १६०
सीहहनु (महापुरिसलक्खण)	१११ १३५	सुवण्णवण्णो	१११ १२३
सुक्कविपाका	६५	सुविमुत्तचित्तो	२०८, २३६
सुक्कविपाक	१७६	सुविमुत्तपञ्जो	२०८ २३६
सुक्क	१७६	सुसुक्कदाढो (महापुरिसलक्खण)	१११, १३६
सुखदुक्खप्पटिसवेदी	७५	सुस्सुसाय (आचरिया पच्चुपट्टातब्बा)	१४६
सुखल्लिकानुयोगमनुयुत्ता	१०१	सेनासनानि	१५० १५८
सुखल्लिकानुयोगो	१०१ १०२	सेनासन	१००
सुखा (पटिपदा)	८२	सेय्यथापि आनुसो इन्दखीलो वा अरोखीलो गम्भीरनेमो	
सुखुमच्छवि (महापुरिसलक्खण)	१११	सुनिखातो अचलो असम्पवेची	१०३
सुखूपपतियो	१७१	सेय्यथापि नळवन वा सरवन	६०
सुगतापदानेसु	२१	सेय्याथापि नाम गण्काणा परिद्यन्तचारिणी अन्तमन्तानेव	
सुगतो (सो भगवा)	६ ६०	सेवति	३० ४२
सुचरितानि (तीणि)	१७०	सेय्यथापि पुब्बे आगारिकभूतो	१०३
सुञ्जागरहता (ममणस्स गोतमस्स पञ्जा	३०, ४१	सेय्यथापि भन्ते निक्कुज्जित वा उक्कुज्जेय्य	१४६
सुतघन	१२६	सेरीसको (यक्खान सेनापति)	१५७ १६४
सुतेन (अपरिहानधम्मो होति, बुद्धो)	१२७	सोचेय्यानि	१७२
सुदस्सनो	१५३, १६१	सोचेय्य	१६६
सुदस्सा	१८४	सोतापत्तिफल	१७८
मुदस्सी	१८४	सोतापत्तियङ्गानि	१७७
सुद्धा (त्वेव अक्ख उपनिब्रत्त)	७४	सोतापन्नस्स अङ्गानि	१७७
सुद्धावासा	१८४	सोतापन्नो	८३ ८४, १०२
सुनक्खत्त	५ ६ १३ १४	सोमनस्सूपविचारा (छ)	१८६
सुनक्खत्ता	३ ४ ६ ८ ९ १० ११ १४ २२ २३	सोमो (यक्खान सेनापति)	१५७, १६४
सुनक्खत्त	१२	सोरच्च	१६६
सुनिसेष	५३	सोवचस्सता	१६६ २११
सुप्पटिपन्नो (भगवतो सावकसङ्घो)	६	सङ्गहवत्थूनि (चत्तारि)	१८०
सुप्पतिट्ठितपादो (महापुरिसलक्खण)	११० ११२	सयोजनानि	१७०
सुप्परोचो	१५७, १६४	सयोजनान	८३, ८४
सुभट्टायिनो	२३ २४, ६६ ७१	सवट्टविवट्टकप्पे	४०
सुभुजो	११६	सवट्टविवट्ट	८५

सवट्टि (लोको)	८५	हत्थिरतन	४६, ६०, ११० ११२ १३६
सवस्सुधान	१७६	हस्सखिद्धारतिधम्मसमापन्ना (मय अहुम्हा)	२५
स्वाक्खाते धम्मविनये	६३, ६४	हासपञ्चो (होति बुद्धो	१२२
स्वाक्खातो (धम्मो)	६	हितकामो (बहुजनस्स तथागतो)	१२६
		हिरि / यक्खान सेनापति	१६४
		हिरिघन	१२६
हट्ठमक्खो (तपस्सिताय)	३२	हिरी (च ओतप्पं च)	१६६
हत्थापलेखनो (तपस्सिताय)	३२	हमवतो	१५७ १६४



मुद्रक—श्री कृष्णचन्द्र बेरी, बिद्यामन्दिर प्रेस (प्राइवेट) लिमिटेड,
डी० १५/२४, मानमन्दिर, वाराणसी-१

प्रकाशक—भिक्षु जगदीश काश्यप, मन्त्री, पालि प्रकाशन मण्डल,
बिहार, नालन्दा (पटना)